


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00012033 7

AMARAKOCHA

OU

VOCABULAIRE D'AMARASINHA

PREMIÈRE PARTIE

AMARAKOCHA

OU

VOCABULAIRE D'AMARASINIA


PUBLIÉ EN SANSKRIT

AVEC

UNE TRADUCTION FRANÇAISE
DES NOTES ET UN INDEX

PAR A. LOISELEUR DESLONGCHAMPS

PREMIÈRE PARTIE




PARIS

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI

A L'IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XXXIX



A

LA MÉMOIRE

DE L'ILLUSTRE

H. T. COLEBROOKE



PRÉFACE.

Le vocabulaire sanskrit intitulé *Amarakocha* est, comme l'on sait, le plus célèbre et le plus estimé des ouvrages de ce genre. On ne possède que peu de renseignements sur ce précieux livre et sur son auteur, qui est appelé tantôt Amarasinha, tantôt Amaradéva. Le premier de ces noms semblerait indiquer, selon la remarque de M. Wilson, que l'auteur appartenait à la classe militaire, tandis que le second conviendrait mieux à un brâhmane; cependant notre grammairien passe pour avoir appartenu à la religion bouddhique, et une tradition ancienne et universellement répandue dans l'Inde le place au nombre des savants appelés par les Indiens les *neuf perles* de la cour du fameux roi Vikrama ou Vikramâditya, qui a fondé une ère datant de cinquante-six ans avant J. C.

Cette opinion des Indiens sur l'existence contemporaine d'un de leurs plus illustres lexicographes et du célèbre Vikramâditya se trouve particulièrement énoncée dans une stance publiée par M. Bentley dans son *Essai sur les systèmes astronomiques des Indiens*; voici cette stance :

धन्वन्तरिक्षिपणाकामरसिंहश्रुवेतालभट्टघटकपर्कालिदासाः ।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

Dhanwantari, Kchapan'aka, Amarasinha, S'ankou, Vétâlabhatt'a, Ghat'akarpara, Kâlidâsa, le célèbre Varâhamihira, et Vararoutchi, étaient les neuf perles de la cour du roi Vikrama¹.

¹ *Asiatic Researches*, tom. VIII, pag. 242. — Wilson, *Sanscrit Dictionary*, préface, pag. vi.

Quelques-uns des noms énumérés dans cette stance se trouvant dans le *Bhodja-prabandha*, recueil d'anecdotes littéraires relatives à un prince de Dhârâ nommé Bhodja, et ce nom de *Vikrama*, qui est plutôt un titre qu'un nom propre, ayant été porté par plusieurs souverains de l'Inde, on en a conclu que le Vikrama mentionné dans la stance en question pouvait être Bhodja lui-même ou son successeur immédiat, et que l'époque des *neuf perles* devait être reportée au règne de ces princes, c'est-à-dire au x^e ou au xi^e siècle de notre ère, le règne de Bhodja étant placé par l'auteur de ce système, M. Bentley, de 982 à 1082 de J. C.

Ce système, qui est en contradiction formelle avec les traditions répandues dans l'Inde, a été réfuté victorieusement et fort en détail par M. Wilson dans la préface de la 1^{re} édition de son dictionnaire sanskrit. Cet habile indianiste a d'abord signalé dans la stance sur laquelle repose le système de M. Bentley une erreur singulière, *Ghatakarpara* étant le titre d'un poème et non le nom d'un auteur; puis il a fait observer que cette stance paraît être simplement traditionnelle, et n'a été retrouvée dans aucun ouvrage connu; que quelques *pandits* la disent, il est vrai, tirée du *Vikrama-tcharita*, fait que M. Wilson n'a pas pu vérifier; mais que, lors même que cette indication serait exacte, elle ne prouverait rien en faveur de la stance citée, le *Vikrama-tcharita* étant un recueil de fables dont le témoignage ne peut être d'aucun poids dans une question d'histoire littéraire.

Le savant indianiste a ensuite objecté à M. Bentley que le principal argument sur lequel il fonde son système pour placer les neuf écrivains appelés les *neuf perles* à la cour du roi Bhodja est tiré du *Bhodja-prabandha*, ouvrage sans autorité. On y présente, en effet, comme contemporains et vivant à la cour de Bhodja, deux auteurs séparés par un intervalle considérable,

Mahes'wara et Mâdhava, le premier ayant écrit vers l'an 1111 de notre ère, et le second vers 1340; en outre, M. Wilson n'a point trouvé le nom d'Amarasinha dans le *Bhodja-prabandha*.

D'ailleurs, lors même que le système de M. Bentley serait à l'abri des objections qui viennent d'être énoncées, il existe d'autres motifs qui permettent de considérer comme plus certaine la conjecture qu'Amarasinha a dû vivre avant le roi Bhodja.

Une inscription du x^e siècle de notre ère, découverte par le savant Wilkins à Bouddha-gayâ, et dont il a publié la traduction dans le tome I^{er} des Recherches asiatiques¹, déclare qu'Amaradéva, fondateur du temple de Bouddha-gayâ, était une des neuf perles de la cour du roi Vikramâditya, que c'était un homme d'un grand génie ainsi que d'un profond savoir, et le principal conseiller et favori du monarque. Cette inscription est datée de l'année 1005 de l'ère de Vikramâditya, ce qui répond à 949 de J. C.; et comme il n'y a aucune raison d'en suspecter l'authenticité, ainsi que le pensent avec raison Colebrooke et M. Wilson, le moins que l'on puisse en conclure, c'est qu'Amarasinha avait vécu longtemps avant l'auteur de cette inscription; ce dernier, en l'établissant, ayant eu pour but, comme il le déclare lui-même, de perpétuer un souvenir qui aurait pu se perdre et qui s'était conservé par la tradition.

Une autre preuve de l'existence d'Amarasinha avant Bhodja nous est fournie par le grammairien Bopadéva, que l'on regarde généralement comme ayant vécu au xii^e siècle, et qui compte Amarasinha parmi les huit anciens grammairiens²; épithète, dit avec raison M. Wilson, qu'il n'aurait pas appliquée à un écrivain antérieur de deux ou trois siècles seulement, pas plus qu'aujourd'hui un grammairien ne le ferait à l'égard de Bhattodjîdikchita, qui écrivait il y a environ deux cents ans.

¹ *Asiatic Researches*, t. I, p. 284. — Trad. française, p. 308.

² *Sanskrit Dictionary*, préface, p. xiv.

L'opinion traditionnelle qui place l'existence d'Amarasinha dans le siècle qui a précédé notre ère n'est donc pas dénuée de probabilité; cependant M. Wilson propose encore une hypothèse dont le résultat serait de faire vivre Amarasinha dans le v^e siècle de l'ère chrétienne, sous un troisième prince du nom de Vikramâditya, roi d'Oudjaïn, et dont le règne a commencé en 441. Le savant indianiste a développé cette hypothèse dans la préface de son dictionnaire sanskrit, et l'examen détaillé des raisonnements et des motifs dont il a étayé son système m'entraînerait trop loin; mais, autant qu'une lecture attentive m'a mis à même d'en juger, M. Wilson, pour écarter l'opinion généralement reçue, se fonde principalement sur le peu de probabilité qu'un bouddhiste ait pu être le ministre et le favori du célèbre Vikramâditya, qui est représenté dans les légendes comme un pieux adorateur des divinités brâhmaniques, et comme un protecteur zélé de la classe sacerdotale; il s'appuie, en outre, sur ce que l'astronome Varâhamihira, qui est cité dans la stance dont j'ai parlé ci-dessus, au nombre des *neuf perles* de même qu'Amarasinha, a vécu, selon toute apparence, dans le v^e siècle après J. C., suivant les calculs de Colebrooke. Le premier de ces arguments n'a pas, à ce que je crois, autant de force qu'il semble en avoir au premier coup d'œil. Il est permis de douter qu'une guerre active eût déjà éclaté entre les brâhmanes et les sectateurs de Bouddha au siècle qui a précédé notre ère; au contraire, la foi bouddhique était encore florissante et professée publiquement dans l'Inde au II^e siècle de l'ère chrétienne¹; les premières persécutions contre les bouddhistes ne datent, à ce qu'on croit, que du III^e siècle, et les persécutions les plus actives n'eurent même lieu que pendant le v^e et le VI^e². Je ne vois pas, en conséquence, de difficulté à ce

¹ Préface de la traduction anglaise du *Mriticchakati*, par M. Wilson, p. 6.

² Wilson, *Sanscrit Dictionary*, préface, p. xx.

qu'un homme d'un rare génie et d'un profond savoir, ainsi qu'Amarasinha est qualifié dans l'inscription de Bouddha-gayâ, eût pu être le favori et le conseiller d'un grand prince, tel que le plus célèbre de ceux qui ont porté le nom de Vikramâditya; remarquons d'ailleurs que ce caractère d'adorateur enthousiaste des divinités orthodoxes ne lui est attribué que par des légendes romanesques composées sous l'influence de la classe sacerdotale, auxquelles M. Wilson lui-même n'assigne aucune valeur historique, et qui ont sans doute exagéré ou altéré le caractère de leur héros. Quant à la citation du nom de l'astronome Varâhamihira, comme contemporain de notre auteur dans la stance sur laquelle repose en partie le système de M. Bentley, je demanderai si l'on peut tirer un argument solide d'une stance qui paraît renfermer des erreurs, et que M. Wilson, dans sa réfutation du système de M. Bentley, a jugée purement traditionnelle et sans aucune autorité. Tels sont les doutes que je soumets au savant indianiste, et qui me feraient incliner à conserver simplement l'opinion répandue parmi les Indiens, jusqu'à ce que de nouvelles recherches aient éclairci le sujet.

Je ne dois pas cependant dissimuler, relativement à cette opinion, une difficulté que soulève la citation des signes du zodiaque dans le vocabulaire d'Amarasinha¹. La question de l'origine et de l'antiquité du zodiaque est encore en litige et a donné lieu dernièrement à une discussion fort intéressante entre deux savants illustres, MM. Letronne et Guillaume de Schlegel. M. Letronne, dans un curieux mémoire publié par la *Revue des deux mondes* de 1837, paraît avoir réussi à prouver que le zodiaque est d'invention grecque, qu'il n'a reçu son achèvement que vers le 1^{er} siècle de notre ère, et qu'il n'a pu être connu des Indiens que postérieurement à cette époque, lorsque les relations commerciales entre l'Inde et l'empire romain eurent

¹ Voyez pages 20 et 339 de cette édition.

pris de l'extension et amené des relations politiques entre les deux régions ¹.

Il résulterait de cette opinion que la connaissance des signes du zodiaque n'ayant pas pu être répandue dans l'Inde au siècle qui a précédé notre ère, ou bien Amarasinha a dû vivre plusieurs siècles plus tard, suivant l'hypothèse de M. Wilson, ou bien, si l'on s'en tient à la tradition indienne, les passages qui font mention des signes du zodiaque doivent être considérés comme interpolés. M. Guillaume de Schlegel, au contraire, pense que le zodiaque a été connu des Indiens de toute antiquité, et il a publié, en réponse à M. Letronne, une dissertation écrite en latin ² avec l'élégance et la clarté qui distinguent les productions du savant philologue, et dans laquelle il a fait valoir de la manière la plus ingénieuse les arguments favorables à son système ³.

Il ne m'appartient pas de prononcer entre ces illustres sa-

¹ M. Letronne, à l'occasion d'un mémoire de M. Ideler sur le zodiaque, a publié tout récemment, dans le Journal des Savants de 1839, deux nouveaux articles sur cette importante question.

² *Commentatio de zodiaci origine et antiquitate*, Bonnæ, 1839, in-4°.

³ Le premier volume des Transactions de la Société littéraire de Madras (Londr. 1827, in-4°) renferme un mémoire dans lequel l'auteur cherche à établir, au moyen de citations empruntées à Varâhamihira, que les Indiens ont reçu des Grecs le zodiaque de douze signes. M. de Schlegel pense que l'authenticité des passages cités dans le mémoire des Transactions de Madras est fort suspecte, et que le savant anglais a pu être dupe de quelque supercherie des pandits, comme cela est déjà arrivé à Wilford. Cependant Colebrooke, dans son Mémoire sur les notions des astronomes indiens relativement à la précession des équinoxes (*Asiat. Res.* t. XII, pag. 245; — *Miscel. Essays*, t. II, pag. 411), cite un passage de Varâhamihira qui donne lieu de croire que les Indiens ont eu connaissance des travaux astronomiques des Grecs, et l'illustre indianiste semble pencher vers cette opinion, qu'il a émise plus formellement encore dans sa dissertation sur l'algèbre des Indiens (*Algebra*, etc. London, 1817, in-4°, préface; — *Misc. Ess.* tom. II, p. 449 et 525). Remarquons cependant avec M. de Schlegel que, lors même que Varâhamihira aurait mêlé aux notions astronomiques des Indiens des notions empruntées aux Grecs, cette circonstance ne suffirait pas pour décider la question, Varâhamihira ayant vécu au v^e siècle de notre ère.

vants; mais quoi qu'il en soit de ces deux systèmes, si des preuves plus concluantes et plus positives que celles que l'on possède venaient à corroborer l'opinion de l'existence d'Amarasinha dans le siècle qui a précédé notre ère, la question de l'antiquité du zodiaque ne serait pas une difficulté, et les passages du vocabulaire sanskrit où il est question des signes pourraient, au besoin, être considérés par la saine critique comme interpolés; mais malheureusement la chronologie indienne est encore, sauf quelques points, tellement vague que de nouvelles recherches sont encore nécessaires pour déterminer l'âge des anciens monuments de la littérature sanskrite; la fixation de l'époque à laquelle vivait Amarasinha, au siècle qui a précédé notre ère, n'est qu'une hypothèse qui réunit, il est vrai, de grandes probabilités en sa faveur; mais tout ce que l'on peut regarder comme prouvé, c'est que l'illustre grammairien est antérieur de plusieurs siècles au x^e de l'ère chrétienne.

Le texte sanskrit de l'*Amarakocha*¹ a été publié pour la première fois en 1808 à Sérampour par l'illustre H. T. Colebrooke, avec une traduction anglaise. Le mérite de cet excellent travail est trop bien apprécié des indianistes pour que je m'arrête à en faire l'éloge; tout ce que l'on pouvait regretter, c'est que le savant éditeur eût été forcé, par la grosseur du caractère sanskrit qu'il avait à sa disposition, d'adopter un format aussi peu commode que l'in-4^o, et que son édition, qui d'ailleurs est de-

¹ L'*Amarakocha* (trésor d'Amara ou trésor immortel) est quelquefois désigné, ainsi que nous l'apprend Colebrooke dans sa préface, sous le nom de *Trikānda* (les trois sections) ou d'*Abhidhāna* (noms). Outre son vocabulaire et un traité cité par les grammairiens et intitulé *Amaramālā* (guirlande d'Amara), notre auteur avait composé des œuvres poétiques qui ont toutes été détruites dans une des persécutions dirigées à la fois contre la personne des bouddhistes et contre leurs écrits, persécution dans laquelle on fait jouer un grand rôle, peut-être sans beaucoup de fondement, au célèbre Sankarātcharya. (Colebrooke, préface de l'*Amarakocha*, pag. 3. — *Asiat. Researches*, t. VII, pag. 214. — *Miscel. Essays*, t. II, pag. 16 et 52.)

venue rare, fût d'un prix assez élevé. La disposition typographique laissait, en outre, à désirer sous le rapport de la netteté, le mélange de l'explication et des variantes dans les notes étant peu commode. Enfin l'index, que des occupations plus importantes n'avaient sans doute pas permis à Colebrooke de faire lui-même, est peu correct et incomplet. Le devoir d'un nouvel éditeur était d'éviter ces inconvénients, mais de prendre pour base de la réimpression de l'*Amarakocha* un travail unanimement jugé excellent par les personnes compétentes. Encouragé par les exhortations de plusieurs savants, entre autres de M. de Schlegel qui a hautement signalé la nécessité d'une réimpression du vocabulaire d'Amarasinha, j'ai cru rendre un service à la littérature indienne en me chargeant de ce travail. Je me suis attaché d'abord à revoir avec soin le texte déjà fort correct donné par Colebrooke, en collationnant ce texte premièrement avec une nouvelle édition de l'*Amarakocha* publiée à Calcutta en 1813, puis avec deux manuscrits de la Bibliothèque du roi, le premier écrit en caractères *dévanâgaris* et portant le n° 33 dans le catalogue d'Hamilton; le second écrit en bengali et coté sous le n° 96 dans le même catalogue. Le manuscrit dévanâgari est bien écrit et offre un texte généralement assez correct; le bengali est en caractères élégants et faciles à lire; il présente un texte presque toujours correct et qui paraît avoir été revu avec soin. Il est chargé de gloses marginales écrites dans un caractère très-bien formé, mais presque microscopique, et malheureusement le frottement les a effacées et rendues illisibles en beaucoup d'endroits. La collation de l'édition de Calcutta et de ces deux manuscrits m'a donné lieu de relever quelques variantes que Colebrooke n'avait point consignées dans ses notes, et de rectifier les fautes d'impression qui n'avaient pas été notées dans l'*errata* de l'édition de Sérampour.

La traduction anglaise est généralement aussi exacte que

précise; c'est pourquoi je n'ai fait presque toujours que la traduire en français, en m'aidant, lorsqu'il y avait lieu, des explications en sanskrit données par Amarasinha lui-même, et qui, dans le texte, sont distinguées par des crochets []. J'ai eu également recours, dans l'occasion, soit aux gloses marginales du manuscrit bengali n° 96, soit aux deux commentaires sanskrits que la Bibliothèque du roi possède. L'un est celui de Bhânoudjî-dîkchita, intitulé *Vyākhyâ-soudhâ* (Ambrosie de l'interprétation), commentaire moderne, mais très-estimé, composé par un grammairien de l'école de Bénarès; l'autre est intitulé *Amarakocha-kaumoudî* et a pour auteur Nayanânanda-sarma, mais a été terminé par son élève Râmatchandra-sarma. La Bibliothèque possède deux manuscrits de la *Vyākhyâ-soudhâ* sous les nos 14 et 15 du fonds sanskrit d'Anquetil, le premier relié en trois volumes, le second en cinq, mais tous les deux tellement incorrects qu'on n'en peut tirer qu'un médiocre secours. Le manuscrit de l'*Amarakocha-kaumoudî* porte le n° 97 bengali; il est plus correct que les manuscrits d'Anquetil, mais il est malheureusement unique, ce qui ne permet pas le contrôle, et il ne paraît avoir été revu que dans quelques parties.

Les passages dans lesquels j'ai cru nécessaire de modifier le sens adopté par Colebrooke, ou qui ont subi des additions, sont marqués d'une astérisque, et ces additions, pour lesquelles j'ai pensé devoir user de beaucoup de réserve afin de ne pas ôter à cet ouvrage son caractère de précision, portent principalement sur la synonymie des noms de plantes et d'animaux.

L'adoption du format in-8° ne me permettait pas de placer la traduction en marge à côté du texte sanskrit, ce qui d'ailleurs aurait eu l'inconvénient d'obliger à rejeter en note une partie de l'explication, lorsqu'elle est trop étendue. Je l'ai mise au-dessous du texte en numérotant chaque ligne, ce qui permet de reconnaître avec autant de promptitude que de facilité la partie de

la traduction qui répond au texte sanskrit. Les explications ou observations ajoutées par Colebrooke à sa traduction et empruntées par lui aux commentaires qu'il avait sous les yeux, avaient été placées par lui dans les notes où elles étaient confondues avec les variantes; j'ai préféré les mettre à la suite de la traduction, mais entre crochets [], pour les distinguer. Dans le chapitre des mots homonymes ou pourvus de plusieurs significations, ces crochets ont été particulièrement employés pour distinguer les significations omises par Amarasinha, et que le savant traducteur anglais avait tirées des commentateurs ou des lexicographes indiens.

J'ajouterai encore un mot au sujet du système adopté dans la traduction. M. de Schlegel, dans ses *Réflexions sur l'étude des langues asiatiques*¹, tout en rendant justice à l'admirable travail de Colebrooke, l'a blâmé de n'avoir point traduit plusieurs passages de l'*Amarakocha*, entre autres les dix vers de l'introduction. L'autorité d'un savant du mérite de M. de Schlegel est fort imposante; aussi n'est-ce qu'après avoir mûrement réfléchi que je me suis déterminé à prendre le même parti que Colebrooke. Les vers de l'introduction que l'illustre indianiste a négligé d'interpréter renferment l'énoncé du système adopté par l'auteur indien pour indiquer le genre des noms. Si Colebrooke a laissé de côté ces vers, c'est qu'il a pensé qu'une traduction littérale serait aussi obscure que le texte; en effet Amarasinha a exposé les règles qu'il a suivies avec une telle précision, que ce texte est à peu près inintelligible sans le secours du commentaire. Il fallait donc, pour ce passage, ou traduire sur la glose, en intercalant dans la traduction des citations sanskrites nécessaires pour éclaircir le sujet, ou publier le commentaire lui-même. Or c'est ce que Colebrooke n'a point jugé à propos de faire, attendu qu'il se serait écarté par là du système de précision qu'il avait adopté.

¹ Page 37.

Le soin qu'il avait pris de placer l'indication du genre au-dessus de chaque mot (indication que l'on trouvera dans l'index de cette édition) suppléait d'ailleurs à cette omission. Le peu de correction de mes manuscrits ne me permettait pas de penser à en publier des extraits étendus. Des fragments de scolies n'auraient eu qu'une utilité bornée, et je crois que ce qu'il y aurait de mieux à faire dans ce genre serait de publier en entier un des commentaires de l'*Amarakocha*.

On trouvera peut-être avec raison que certains passages du dernier chapitre n'offrent pas dans la traduction l'exactitude et la clarté désirables; mais ne possédant pas les commentaires que Colebrooke avait sous les yeux, et n'ayant pas fait une étude approfondie du système des grammairiens indiens, j'ai craint de modifier légèrement l'interprétation de mon illustre devancier. Ces passages, heureusement peu nombreux, n'ont d'ailleurs qu'un intérêt secondaire, et portent sur les règles assez subtiles enseignées par Amarasinha pour la détermination du genre des noms.

A l'exemple de Colebrooke, j'ai séparé les mots sanskrits autant que possible, en plaçant des traits d'union entre ceux qui forment des expressions composées. Chaque mot, dans l'édition de Sérampour, est accompagné de l'indication du genre placée dans l'intervalle des lignes; mais cette indication, qui surcharge la typographie, m'a paru pouvoir sans inconvénient être renvoyée à l'index.

L'*Amarakocha*, sauf quelques passages, est tout entier composé dans le mètre appelé *s'loka*, qui est, comme on sait, le mètre le plus généralement usité dans les poèmes indiens, et dont il serait superflu de parler ici. Pour les autres passages, l'auteur a employé le mètre appelé *âryâ* ou *gâthâ*, appartenant à la classe de ceux qui sont réglés par la quantité des syllabes. « Le mètre appelé *âryâ* ou en prakrit *gâhâ*, du sanskrit *gâthâ*, dit

« Colebrooke dans son excellent Essai sur la poésie sanskrite et prakrite¹, est mesuré par pieds appelés *gan'a* ou *mâtragan'a*, « qui sont équivalents à deux syllabes longues ou à quatre brèves. « Il est décrit comme une stance de deux vers, dans laquelle le « premier vers contient sept pieds et demi, et le sixième pied « doit se composer d'une syllabe longue entre deux brèves, ou « de quatre brèves, tandis que les pieds impairs (les premier, « troisième, cinquième et septième) ne doivent jamais être des « amphibraques. Dans le second vers de la stance, le sixième « pied ne consiste qu'en une syllabe brève; en conséquence, la « proportion des instants syllabiques dans le vers long et dans le « court est de trente à vingt-sept. » Il y a plusieurs espèces d'*áryá*. Le mètre régulier est celui dont on vient de lire la description; lorsque la stance se compose de deux vers de trente syllabes brèves chacun, elle se nomme *gíti*: je citerai, pour exemple du mètre régulier, la mesure des stances 38 et 39 de la p. 275 de cette édition²:

--		v	v	v	v		v	v	v	v		v	v	-		--		v	-	v		--		-	-
--		-	-	-	-		-	-	-	-		v	v	-		v	-		v	-		--		-	-
v	v	-		--		--		v	v	-		--		v	-	v	-		--		--		-	-	
v	v	-		v	v	-		-	v	v	v	v		--		v	-		--		-	-			

J'ai apporté tout le soin qu'il m'a été possible à cette réimpression de l'*Amarakocha*; cependant je suis loin de me flatter d'être à l'abri de tout reproche. J'ai déjà eu l'occasion de relever quelques erreurs; il a dû m'en échapper d'autres, plus graves peut-être que celles que j'ai signalées, et je recevrai avec recon-

¹ *Asiatic Researches*, t. X, pag. 400. — *Miscellaneous Essays*, t. II, pag. 72.

² Voyez encore pag. 198, st. 70; pag. 204, st. 9; pag. 232, st. 19; pag. 262-264, st. 51-62; et pour l'espèce appelée *gíti* pag. 254, st. 14.

naissance les observations critiques que MM. les indianistes voudront bien m'adresser.

C'est un devoir pour moi, en terminant cette préface, d'adresser hautement mes remerciements à M. le Directeur de l'Imprimerie royale, ainsi qu'à MM. les membres du Comité des impressions, qui ont bien voulu accueillir favorablement cet ouvrage, et particulièrement aux deux illustres orientalistes MM. Silvestre de Sacy et Quatremère qui ont toujours accordé à mes travaux encouragement et protection. Deux années seront bientôt écoulées depuis que le vénérable doyen de la littérature orientale a été enlevé à la science; mais son souvenir vivra toujours dans le cœur de ses élèves, et je saisis avec empressement cette occasion d'adresser à sa mémoire un nouvel hommage de respect et de reconnaissance.

EXPLICATION

DES TERMES GRAMMATICaux EMPLOYÉS PAR L'AUTEUR.

आदि, आद्य <i>et cætera</i> .	न ना féminin et neutre.
अन्यलिङ्गक des trois genres.	नपुंसक neutre.
अभिन्न semblable.	नरि, ना masculin.
अर्थक ayant le sens de.	पुमान्, पुंसि masculin.
अव्ययं indéclinable.	पुन्नपुंसक masculin et neutre.
अस्त्रियां, अस्त्री masculin et neutre.	भूमि au pluriel.
क्रीवे au neutre.	भेद्यलिङ्गक des trois genres.
तद्दर्थ adjectif.	लिङ्ग genre.
त्रिलिङ्गक, त्रिषु des trois genres.	वङ्गु au pluriel.
द्वयोः masculin et féminin.	वाच्यलिङ्गक des trois genres.
द्विहीन neutre.	सम, समान semblable.
न द्वयोः neutre.	स्त्री, स्त्रियां féminin.



ABRÉVIATIONS.

<i>Adj.</i> adjectif.	<i>Ms. beng.</i> manuscrit bengali n° 96.
<i>B.</i> ou <i>Buch.</i> Buchanan.	<i>Ms. dév.</i> manuscrit dévanagari n° 33.
<i>Du.</i> duel.	<i>N.</i> ou <i>neut.</i> neutre.
<i>Éd. Sér.</i> édition de Sérampour.	<i>Pl.</i> pluriel.
<i>Éd. Calc.</i> édition de Calcutta.	<i>Part.</i> particule.
<i>F.</i> ou <i>fém.</i> féminin.	<i>R.</i> ou <i>Roxb.</i> Roxburgh.
<i>Ham.</i> Hamilton.	<i>Sing.</i> singulier.
<i>Haught. Dict.</i> Haughton's <i>Bengali and Sanskrit Dictionary</i> ,	<i>Vulg.</i> nom vulgaire.
<i>M.</i> ou <i>masc.</i> masculin.	<i>Wils. Dict.</i> Wilson's <i>Sanscrit and English Dictionary</i> .

॥ अमरकोषः ॥

यस्य ज्ञानदयासिन्धोर् अगाधस्यानघा गुणाः ।
सेव्यताम् अक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च ॥
समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः ।
सम्पूर्णम् उच्यते वर्गैः नामलिङ्गानुशासनं ॥
प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् ।
स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः द्वाचित् ॥
भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः ।
कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानाम् अनुक्तानां क्रमादृते ॥
त्रिलिङ्गां त्रिष्विति पठं मिथुने च द्वयोरू इति ।
निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताद्यादि न पूर्वभाक् ॥



AMARAKOCHA.

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

CIEL, DIEUX, TITANS, LEURS ATTRIBUTS.

- 1 स्वरू [अव्ययं^a] स्वर्ग-नाक-त्रिदिव-त्रिदशालयाः ।
- 2 सुरलोको द्यो-दिवौ [द्वे स्त्रियौ^b] [क्रीवे^c] त्रिविष्टपं^d ॥ १ ॥
- 3 अमर^e निर्जरा देवास् त्रिदश विबुधाः सुराः ।
- 4 सुपर्वाणः^f सुमनसस्^g त्रिदिवेशा दिवौकसः^h ॥ २ ॥
- 5 आदितेया दिविषदोⁱ लेखा अदितिनन्दनाः ।
- 6 आदित्या ऋभवो^j ऽस्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः ॥ ३ ॥
- 7 बर्हिर्मुखाः^k क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवायः^l ।
- 8 वृन्दारका दैवतानि [पुंसि वा^m] देवता [स्त्रियां] ॥ ४ ॥

(1, 2) Ciel, paradis. — (3-8) Dieux et divinités.

^a Indéclinable. — ^b द्यो et दिव् tous deux féminins; aussi au neutre दिव्. —

^c Neutre. — ^d Ou त्रिपिष्टपं et त्रिविष्टपं. — ^e Singulier अमरः un Dieu. — ^f सुपर्वा.

— ^g सुमनाः. — ^h दिवौकाः ou दिवोकाः. — ⁱ दिविषत् ou बुषत् et बुसत्. — ^j ऋभुः

ou ऋभूः. — ^k बर्हिर्मुखः ou बर्हिर्मुखः. — ^l दानवारिः. — ^m Masc. ou neutre.

- 1 आदित्या विश्व^a-वसवस् तुषिताभास्वरानिलाः^b ।
 2 महाराजिक^c-साध्याश् [च] रुद्राश् [च गणदेवताः] ॥ ५ ॥
 3 विद्याधरो ऽप्सरो-यत्त^d-रक्षो-गन्धर्व-किन्नराः ।
 4 पिशाचो^e गुह्यकः सिद्धो भूतो [ऽमी देवयोनयः] ॥ ६ ॥
 5 असुर^f द्वैत्य-द्वैतेया दनुजेन्द्रारि^g-दानवाः ।
 6 शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः ॥ ७ ॥
 7 सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो^h धर्मराजस् तथागतः ।
 8 समन्तभद्रो भगवान् मारजित् लोकजित् जिनः ॥ ८ ॥
 9 षडभित्तो दशबलो ऽद्वयवादी विनायकः ।
 10 मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ताⁱ मुनिः
 11 शाक्यमुनिस् [तु यः] ॥ ९ ॥
 12 [स] शाक्यसिंहः^j सर्वार्थसिद्धः^k शौद्धोदनिश् [च सः] ।
 13 गौतमश् [चा-]-र्कबन्धुश्^l [च] मायादेवीसुतश् [च सः] ॥ १० ॥
 14 ब्रह्मात्मभूः^m सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः ।

(1, 2) Séries de divinités. [Chacune en comprend un nombre déterminé, savoir : 12 *Adityas*, 10 *Vis'vadévas*, 8 *Vasous*, 36 *Touchitas*, 64 *Abhásvaras*, 49 *Anilas*, 220 *Mahárádjikas*, 12 *Sádhyas*, 11 *Roudras*.] — (3, 4) Demi-dieux et nymphes de diverses classes, savoir : les *Vidyádharas*, les *Apsarases*, les *Yakchas*, les *Rákchasas*, les *Gandharvas*, les *Kinnaras*, les *Pis'átchas*, les *Gouhyakas*, les *Siddhas* et les *Bhoútas*. — (5, 6) Géants ou Titans. — (7-10) Un *Djina* ou *Bouddha*. — (11-13) *Bouddha*, le fondateur de la religion bouddhique. — (14) *Brahmá*, la Providence ou le Créateur.

^a Plur. विश्वे, c'est-à-dire विश्वे देवाः. — ^b तुषित-आभास्वर-अनिल. — ^c Aussi महाराजिकः. — ^d Aussi नत्तः. — ^e Aussi पैशाचः. — ^f असुरः et आसुरः. — ^g दनुज-इन्द्रारि. — ^h Aussi बुधः. — ⁱ शास्तृ ou शासितृ [-ता]. — ^j Aussi शाक्यः. — ^k Également सर्वार्थः et सिद्धार्थः. — ^l अर्कबन्धुः. — ^m ब्रह्मा [ou व्रह्मा] आत्मभूः.

- 1 हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भुश्च^a चतुराननः ॥ ११ ॥
- 2 धाताञ्जयोनिर्^b द्रुहिणो^c विरिञ्चिः^d कमलासनः ।
- 3 स्रष्टा^e प्रजापतिर्^f वेधा विधाता विश्वसृग् विधिः ॥ १२ ॥
- 4 विष्णुर्^g नारायणः^f कृत्तो वैकुण्ठो विष्टरश्नवाः ।
- 5 दामोदरो वृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ॥ १३ ॥
- 6 दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः ।
- 7 पीताम्बरो ऽच्युतः शार्ङ्गो विप्रक्सेनो^h जनार्दनः ॥ १४ ॥
- 8 उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः ।
- 9 पद्मनाभो^h मधुरिपुर्ⁱ वासुदेवस्ⁱ त्रिविक्रमः ॥ १५ ॥
- 10 देवकीनन्दनः^j शौरिः^k श्रीपतिः पुरुषोत्तमः ।
- 11 वनमाली बलिध्वंसी^l कंसारातिर्^l अधोक्षजः ॥ १६ ॥
- 12 विश्वम्भरः कैटभजिद् विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः^m ।
- 13 वसुदेवो [ऽस्य जनकः स एवा-]-नकदुन्दुभिःⁿ ॥ १७ ॥
- 14 बलभद्रः^o प्रलम्बघ्नो बलदेवो^p ऽच्युताग्रजः ।
- 15 रेवतीरमणो रामः कामपालो हृलायुधः ॥ १८ ॥

(1-3) *Brahmá*. — (4-12) *Vichn'ou*, le Pénétrant et le Conservateur, identifié par la religion indienne avec le héros *Krichn'a*, fils de *Vasoudéva*. — (15) *Vasoudéva*, père de *Krichn'a* et fils d'*Anakadoundoubha*. — (14, 15) *Balaráma*, frère de *Krichn'a*.

^a Aussi सुयम्भूः (*Wilson's Dict.*—*MSS.*) — ^b धाता, [धातु] अञ्जयोनिः. — ^c Aussi द्रुहिणाः et द्रुहिणाः. — ^d Également विरिञ्चिः, विरिञ्चिः, विरिञ्चिः et विरिञ्चनः. — ^e स्रष्ट. — ^f Aussi नारायणः. — ^g Ou विप्रक्सेनः. — ^h Ou पद्मनाभिः. — ⁱ Aussi वासुः. — ^j Ou दैवकीनन्दनः. — ^k Ou शौरिः. — ^l Aussi बलिध्वंसी. — ^m Également श्रीवत्सः. — ⁿ अनकदुन्दुभिः ou अनकदुन्दुभिः et दुन्दुः. — ^o Aussi भद्रबलः et भद्रबललः. — ^p Aussi बलदेवः (*Wils. Dict.*)

- 1 नीलाम्बरो रैहिण्यस् तालाङ्को मुसली^a हली ।
 2 सुङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः^b ॥ १८ ॥
 3 मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः ।
 4 कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ २० ॥
 5 शम्बरारिर्^c मनसिजः^d कुसुमेषुर् अनन्यजः ।
 6 पुष्पधन्वा^e रतिपतिर् मकरध्वज आत्मभूः ॥ २१ ॥
 7 ब्रह्मसूर्^f विश्वकेतुः^g [स्याद्] अनिरुद्ध उषापतिः^h ।
 8 लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर् हरिप्रिया ॥ २२ ॥
 9 इन्दिरा लोकमाता मा क्षीराब्धितनया रमा ।
 10 [शङ्को लक्ष्मीपतेः] पाञ्चजन्यश्
 11 [चक्रं] सुदर्शनः ॥ २३ ॥
 12 कौमोदकीⁱ [गदा]
 13 [खड्गो] नन्दकः
 14 कौस्तुभो [मणिः] ।
 15 गरुत्मान् गरुडस् तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः ॥ २४ ॥

(1, 2) *Balarâma*. — (3-6) *Kâmadêva*, l'Amour ou Cupidon, fils de *Krichn'a*. — (7) *Anirouddha*, fils de *Pradyoumna*, et mari d'*Ouchâ*. — (8, 9) *Lakshmî*, femme de *Vichn'ou*; elle est aussi la déesse de la Prospérité. — (10) Conque de *Krichn'a*. — (11) Son disque ou son arme de trait. — (12) Sa massue. — (13) Son épée. — (14) Son joyau. — (15) *Garoud'a*, oiseau qui sert de monture à *Vichn'ou* [et qui est diver-

^a Ou मुषली et मुशली. — ^b Aussi बललः. — ^c Aussi शंवरारिः et संवरारिः ou संवरारिः. — ^d Ou मनोज्ञः. — ^e Aussi पुष्पधनुः. — ^f Ce terme et le suivant s'appliquent également à *Kâmadêva* et à *Anirouddha*. — ^g Également ऋष्यकेतुः ou ऋष्यकेतुः, रिष्यकेतुः, रिष्यकेतुः, ऋष्यकेतनः, etc. — ^h Ou उषापतिः. — ⁱ Aussi कौमोदी et कौपोदकी.

- 1 नागान्तको विल्लुथः सुपर्णः पन्नगाशनः ।
 2 शम्भुर^a ईशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ॥ २५ ॥
 3 ईश्वरः सर्व^b ईशानः शङ्करश् चन्द्रशेखरः ।
 4 भूतेशः खण्डपरशुर^c गिरीशो गिरिशो मृडः ॥ २६ ॥
 5 मृत्युञ्जयः कृत्तिवासाः^d पिनाकी प्रमथाधिपः ।
 6 उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभृत् ॥ २७ ॥
 7 वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस् त्रिलोचनः ।
 8 कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिर् नीललोहितः ॥ २८ ॥
 9 ह्यः^e स्मरहो भर्गस्^f त्वम्बकस् त्रिपुरान्तकः ।
 10 गङ्गाधरोऽन्यकरिपुः क्रतुध्वंसी वृषध्वजः ॥ २९ ॥
 11 व्योमकेशो भवो भीमः स्थाणू रुद्र उमापतिः ।
 12 कपर्दी [स्य जटाजूटः]
 13 पिनाको ऽजगवं^g [धनुः] ॥ ३० ॥
 14 प्रमथाः [स्युः पार्ष्णिदाः^h]
 15 ब्रालीⁱ [-त्याद्यास् तु मातरः] ।
 16 विभूतिर् भूतिर् ऐश्वर्यं [अणिमाढिकम् अष्टधा] ॥ ३१ ॥

sement représenté, comme une grue gigantesque, un vautour ou un aigle].
 — (1) *Garoud'a*. — (2-11) *S'iva*, le Destructeur et le Reproducteur. —
 (12) Chevelure de *S'iva*, tressée et roulée sur sa tête. — (13) Son arc.
 — (14) Génies de sa suite. — (15) Divines mères ou énergies des Dieux
 [savoir : *Brahmī*, *Mahés'wari*, *Aindri*, *Vārāhi*, *Vaich'n'avi*, *Kaumāri*, *Kauvēri*
 ou *Tchāmoundā*, et *Tchartchikā*]. — (16) Pouvoirs surhumains [ou fa-

^a Ou शंभूः. — ^b Aussi सर्वः. — ^c Aussi खण्डपर्णः. — ^d Ou कृत्तिवासः. —

^e Aussi हीरः. — ^f Ou भर्ग्यः. — ^g Aussi अजगवं, अजगवं, अजगावं, अजकावं et
 अजोक्वं. — ^h पार्ष्णिदः ou पार्षदः et पार्षधः. — ⁱ ब्राली ou ब्रह्माणी.

- 1 उमा कात्यायनी गौरी ^a काली ^b हैमवतीश्चरी ^c ।
- 2 शिवा ^d भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमङ्गला ॥ ३२ ॥
- 5 अर्पणी पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका ^e ।
- 4 विनायको विघ्नराज-द्वैमातुर-गणाधिपाः ॥ ३३ ॥
- 5 [अप्य्] एकदन्त-ह्रस्व-लम्बोदर-गजाननाः ।
- 6 कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा ^f षडाननः ॥ ३४ ॥
- 7 पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरू अग्निभूरू गुहूः ।
- 8 बाहुलेयस् ^g तारकजित् विशाखः शिखिवाहनः ॥ ३५ ॥
- 9 षण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः ^h ।
- 10 इन्द्रो मरुत्वान् मधवा ⁱ विडोजाः ^j पाकशासनः ॥ ३६ ॥
- 11 वृद्धश्रवाः ^k सुनासीरः ^l पुरुद्वृतः पुन्दरः ।
- 12 जिह्मूरू लेखर्षभः शक्रः शतमन्यूरू द्विस्पतिः ॥ ३७ ॥
- 15 सूत्रामा ^m गोत्रभिदू वज्री वासवो वृत्रहृ वृषा ।
- 14 वास्तोष्पतिः ⁿ सुरपतिरू बलरातिः शचीपतिः ॥ ३८ ॥

cultés surnaturelles de huit sortes, telles que le pouvoir de prendre une forme imperceptible, etc. Les deux premiers termes sont considérés par quelques-uns comme s'appliquant à des cendres dont la personne de *S'iva* a été frottée]. — (1-3) *Bhavāni*, femme de *S'iva* et déesse de la destruction. — (4, 5) *Gan'ésa*, dieu qui éloigne les obstacles. — (6-9) *Kārtikéya*, dieu de la guerre. — (10-14) *Indra*, régent du ciel.

^a Aussi गौरी. — ^b Ou काला. — ^c हैमवती, ईश्वरी [ou ईश्वरी]. — ^d Également शिवी. — ^e चंडिका [ou चंडिः, चंडी et चंडा], अम्बिका [ou अम्बा]. — ^f Également सरजन्मा. — ^g Ou बाहुलेयः. — ^h Aussi क्रौञ्चदारणः. — ⁱ मधवन् [-वा] ou मधवत् [-वान्]. — ^j Aussi विडोजाः. — ^k Ou वृद्धश्रवाः. — ^l Ou शुनाशीरः et शुनागीरः. — ^m Aussi सूत्रामा. — ⁿ Ou वास्तोष्पतिः suivant quelques-uns.

1 जम्भभेदो हृत्स्वित्यः स्वारात्^a नमुचिसूदनः ।

2 संक्रन्दनो दुश्च्यवनस् तुराषान्^b मेघवाहनः ॥ ३८ ॥

3 आवण्डलः सहस्राक्ष ऋभुक्षाः

4 [तस्य तु प्रिया] ।

5 पुलोमजा शचीन्द्राणी^c

6 [नगरी त्व्] अमरावती^d ॥ ४० ॥

7 [ह्य] उच्चैःश्रवाः^e

8 [सूतो] मातलिर्

9 नन्दनं [वनं] ।

10 [स्यात् प्रासादो] वैजयन्तो

11 जयन्तः पाकशासनिः ॥ ४१ ॥

12 ऐरावतोऽभ्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः^f ।

13 झादिनी वज्रम् [अस्त्री स्यात्] कुलिशं^g भिदुरं^h पविः ॥ ४२ ॥

14 शतकोटिः स्वरुःⁱ शम्बो^j दम्भोलिर् अशनिर्^k [द्वयोः] ।

15 व्योमयानं विमानो [स्त्री]

16 [नारदायाः] सुरर्षयः^l ॥ ४३ ॥

(1-3) *Indra*. — (4,5) *Satchi*, femme d'*Indra*. — (6) Ville d'*Indra*. — (7) Son cheval. — (8) Conducteur du char d'*Indra* — (9) Jardin ou bosquet de ce Dieu. — (10) Son palais. — (11) *Djayanta*, fils d'*Indra*. — (12) Éléphant d'*Indra*. — (13,14) Sa foudre. — (15) Son char ou celui d'un dieu quelconque. — (16) Sages divins [comme *Nārada* etc.]

^a स्वारात् [-राट्] — ^b तुरासाह् [-षाट्] — ^c शची [ou शचिः, सचिः et सची] इन्द्राणो. — ^d Ou अमरा. — ^e Aussi उच्चैः श्रवसः. — ^f अभ्रमातङ्ग-ऐरावणा-अभ्रमुवल्लभ. — ^g Ou कुलिशं. — ^h Aussi भिदुरं et भिदुः. — ⁱ Ou स्वरुस्. — ^j Aussi शंबः et शम्बः ou संवः. — ^k Aussi अशनी et वज्राशनिः. — ^l Sing. सुरर्षिः.

- 1 [स्यात्] सुधर्मा देवसभा
 2 पीयूषम्^a अमृतं सुधा ।
 3 मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वर्णदी^b सुरदीर्घिका ॥ ४४ ॥
 4 मेरुः सुमेरूर् हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः ।
 5 [पञ्चैते देवतरवो] मन्दारः पारिजातकः ॥ ४५ ॥
 6 सन्तानः कल्पवृक्षश्च [च पुंसि वा] हरिचन्दनं ।
 7 सनत्कुमारो^c वैधात्रः^d
 8 स्वर्वेद्याव् अश्विनीसुतौ ॥ ४६ ॥
 9 नासत्याव्^e अश्विनौ दस्राव् आश्विनेयौ [च ताव् उभौ] ।
 10 [स्त्रियां वरुण्] अप्सराः^f स्वर्वेश्या^g [उर्वशी^h-मुखाः] ॥ ४७ ॥
 11 [हाहाⁱ-ह्रह्रश्च^j-चैवमाद्या] गन्धर्वास^k [त्रिदिवीकसां] ।

(1) Assemblée des Dieux. — (2) Nourriture des Dieux [ambroisie et nectar, ou nourriture et boisson qui procurent l'immortalité.] — (3) Rivière du ciel, Gange du ciel, [suggéré probablement par la voie lactée.] — (4) Mont *Soumérout*, extrémité de l'axe du monde, où habitent les Dieux. — (5,6) Arbres célestes au nombre de cinq, énumérés l'un après l'autre dans le texte. — (7) *Sanatkoumâra*, fils de *Brahmâ* et l'aîné des ancêtres du genre humain. — (8,9) Les *As'wîs*, médecins du ciel, et fils jumeaux du Soleil et de sa femme *Sanjnyâ* sous la forme d'une jument, ou enfants de la constellation appelée *As'winî*. [Un des jumeaux est nommé *Nâsatya* et l'autre *Dasra*, mais ces termes au duel désignent tous les deux; leurs noms patronymiques sont employés au singulier lorsqu'il s'agit de l'un d'eux.] — (10) Nymphes ou courtisanes célestes [comme *Ourvasî*, *Rambhâ*, *Mênakâ*, *Ghritâtchî*, *Tilottamâ*, etc.] — (11) Musiciens du ciel [comme *Hâhâ*, *Hoûhoû*, *Toumbourou*, *Vis'wâvasou*, *Tchritraratha*, etc.]^o

^a Aussi पैयूषं et पैयूषं. — ^b Ou स्वर्णदी. — ^c Aussi सत्कुमारः. — ^d Aussi वैधा-
 तकिः. — ^e Également नासिययो. — ^f Sing. अप्सराः. — ^g Ou स्वर्वेश्या. —
^h Aussi उर्वसी. et उर्वसी. — ⁱ Également हाहाः, हाहस् [-हाः] et हाहा indéclin. —
^j Aussi हुहुः et हाहाहूहूः et हूहू indécl. — ^k Ou गन्धर्वः et गान्धर्वः.

- 1 अग्निर् वैश्वानरो ^a वह्निर् वीतिहोत्रो धनंजयः ॥ ४८ ॥
 2 कृपीटयोनिर् ज्वलनो ज्ञातवेदास् तनूनपात् ^b ।
 3 बर्हिः ^c शुष्मा ^d कृत्तवर्त्मा शोचिष्केश उषर्बुधः ॥ ४९ ॥
 4 आश्रयाशो ^e बृहद्भानुः कृशानुः ^f पावको ऽनलः ।
 5 रोहिताश्वो वायुसखा शिखावान् आशुशुक्षणिः ॥ ५० ॥
 6 हिरण्यरेता द्रुतभुग् दहनो हृव्यवाहनः ।
 7 सप्तार्चिर् ^g दमुनाः ^h शुक्रश् चित्रभानुर् विभावसुः ॥ ५१ ॥
 8 शुचिर् अप्पित्तं
 9 और्वस् [तु] वाउवो वाउवानलः ।
 10 [वङ्गेर् द्वयोर् ⁱ] ज्वाल-कीलाव् अर्चिर् ^j हेतिः शिखा
 [स्त्रियां] ॥ ५२ ॥
 11 [त्रिषु] ^k स्फुलिङ्गो ऽग्निक्वणः
 12 सन्तापः संज्वरः [समौ] ।
 13 धर्मराजः पितृपतिः समवर्तो परेतराट् ॥ ५३ ॥
 14 कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराट् यमः ।

(1-8) Le Feu. — (9) Feu sous-marin [être de flamme, mais avec une tête de jument, issu des cuisses d'*Ourva*, et reçu par l'Océan]. — (10) Flamme. — (11) Étincelle. — (12) Brûlure. — (13, 14) *Yama*, régent des mondes infernaux, dieu de la mort, juge des âmes.

^a Un commentateur donne विश्वानराः comme le pluriel de ce mot, mais à tort selon d'autres. — ^b Ou, suivant une étymologie différente, तनूनपान्, et तनूनपाः. — ^c बर्हिं ou बर्हिम् (aussi बर्हिम् *Wils. Dict.*) — ^d शुष्मन् ou बर्हिः शुष्मन् ou शुष्म [-ष्मः]. — ^e Également आश्रयाशः. — ^f Ou कृषाणुः. — ^g सप्तार्चिस् ou सप्तार्चि [-र्चिः]. — ^h Ou दमुनाः. — ⁱ De deux genres, masculin et féminin. — ^j अर्चिं fém. ou अर्चिस् masc. — ^k Des trois genres.

- 1 कालो दण्डधरः ^a आद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः ॥ ५४ ॥
 2 रक्षसः कौणपः क्रव्यात् क्रव्यादोऽस्रप ^b आशरः ^c ।
 3 रात्रिंचरो रात्रिचरः कर्बुरो ^d निकषात्मजः ॥ ५५ ॥
 4 यातुधानः ^e पुण्यजनो नैर्ऋतो ^f यातु-रक्षसी ^g ।
 5 प्रचेता वरुणः ^h पाशी यादसांपतिरू अर्प्यतिः ⁱ ॥ ५६ ॥
 6 अचसनः स्पर्शनो वायुरू मातरिश्वा सदागतिः ।
 7 पृषदश्चो ^j गन्धवहो गन्धवाहनिलाश्रुगाः ^k ॥ ५७ ॥
 8 समीर-मारुत-मरुत् ^l-जगत्प्राण ^m-समीरणाः ।
 9 नभस्वद्-वात ⁿ-पवन-पवमान-प्रभञ्जनाः ॥ ५८ ॥
 10 प्राणोऽपानः समानश्च [चौ-]-दान ^o-व्यानौ [च वायवः ।
 11 शरीरस्या इमे]
 12 रंक्षस् ^p-तरसी ^q [तु] रयः स्यदः ॥ ५९ ॥
 13 जवो ^r
 14 [स्य] शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रम् अरं ^s द्रुतं ।
 15 सत्वरं चपलं तूर्णम् अविलम्बितम् आशु [च] ॥ ६० ॥

(1) *Yama*. — (2-4) Géant ou lutin. — (5) *Varoun'a*, régent de l'eau. — (6-9) L'Air ou le Vent. — (10, 11) Les cinq airs vitaux, aspirés ou exhalés par diverses voies, comme la respiration, la déglutition, etc. — (12, 13) Vitesse ou rapidité. — (14, 15) Vite ou promptement.

^a Ou दण्डधरः. — ^b अस्रपः ou अश्रपः. — ^c Ou आशिरः. — ^d Aussi कर्बूरः et कर्बूरः. — ^e Ou ज्ञातुधानः. — ^f Ou नैर्ऋतिः. — ^g रक्षस्. — ^h Ou वरुणः. — ⁱ Aussi अर्पांपतिः. — ^j Ou पृषताश्रवः. — ^k गन्धवाह-अनिल-आश्रुग. — ^l मरुत् ou मरुतः. — ^m Aussi जगत् [du. जगती et जगन्ती] et प्राणः. — ⁿ Ou वातिः. — ^o उदान. — ^p Aussi रंक्षस्. — ^q तरस्. — ^r Ou जवनः. — ^s Aussi indéclinable de même que les mots सततं et अततं. (Voyez la page 13, l. 1 et 2.)

- 1 सतते ऽनार्ताश्रान्त^a -सन्तताविस्तानिशं^b ।
 2 नित्यानवरताजस्रम्^c [अप्य्]
 3 [अथा-]-तिशयो^d भरः ॥ ६१ ॥
 4 अतिवेल-भृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढ^e -निर्भरं ।
 5 तीव्रैकान्त^f -नितान्तानि गाढ-वाढ^g -ट्टानि [च] ॥ ६२ ॥
 6 [क्लिवे^h शीघ्राद्य् असत्वे स्यात् त्रिषु एषां सत्वगामिⁱ यत्] ।
 7 कुवेरस्-त्यम्बकसखो यक्षराड् गुह्यकेश्वरः ॥ ६३ ॥
 8 मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः ।
 9 किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः ॥ ६४ ॥
 10 यक्षैकपिंगैलविल^j -श्रीढ-पुण्यजनेश्वराः ।
 11 [अस्योद्यानं] चैत्रशं
 12 [पुत्रस् तु] नलकूबरः ॥ ६५ ॥

(1,2) Éternellement, sans cesse. — (3-5) Beaucoup, excessivement. — (7-10) *Kouvèra*, dieu des richesses. — (11) Jardin de *Kouvèra*. — (12) *Nalakoùbara*, fils de *Kouvèra* [le même terme, au duel, désigne les deux fils de *Kouvèra*, *Nalakoùbara* et *Man'igr̥va*].

^a अनार्त-अश्रान्त. — ^b सन्तत-अविरत-अनिश. — ^c नित्य-अनवर्त-अजस्र. — ^d अति-शयः et भरः peuvent être employés adverbialement à la forme neutre. — ^e भृश-अत्यर्थ-अतिमात्र-उद्गाढ. — ^f तीव्र-एकान्त. — ^g वाढं est indéclinable suivant quelques uns. — ^h Tous les mots des sept lignes qui précèdent, à compter de शीघ्र, sont neutres lorsqu'ils ne sont pas employés comme noms, par conséquent lorsqu'ils sont employés comme adverbes; ils sont des trois genres comme adjectifs, à l'exception des mots आशु, अनिशं, अजस्रं, qui ne doivent jamais prendre les trois genres. — ⁱ Il y a une autre leçon : भेद्यगामि [employé comme épithète ou distinctif], au lieu de सत्वगामि [employé comme nom, c'est-à-dire comme adjectif]. — ^j यक्ष- [ou यक्षेश्वर] एकपिङ्ग- [aussi एकपिङ्गल] एलविल [ou ऐलविल, ऐडविड, ऐडविल].

- 1 कैलासः [स्थानं]
 2 अलका [पूर]
 3 [विमानं तु] पुष्पकं ।
 4 [स्यात्] किन्नरः किंपुरुषस् तुरङ्गवदनो मयुः ॥ ६६ ॥
 5 निधिर् [ना] शेवधिः^a
 6 [भेदाः पद्मशंखादयो निधेः] ॥ ६७ ॥

SECTION II.

CIEL, ATMOSPHERE, PLANÈTES, ÉTOILES.

- 7 द्यो-दिवौ [द्वे स्त्रियाव्^b] अम्रं^c व्योम पुष्करम् अम्बरं ।
 8 नभो^dऽन्तरिक्षं^e गगणम् अनन्तं सुरवर्त्म खं ॥ १ ॥
 9 वियद् विक्षुपदं [वा तु पुंस्य्] आकाश-विहायसी^f ।
 10 दिशस्^g [तु] ककुभः^h काष्ठा आशाश् [च] हरित्श्ⁱ
 [च ताः] ॥ २ ॥
 11 प्राच्यवाची^j -प्रतीच्यस्^k [ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः] ।

(1) *Kailasa*, séjour de *Kowéra* — (2) *Alakâ*, sa ville. — (3) *Pouchpaka*, son trône et en même temps son char. — (4) Génies formant sa suite. — (5) Son trésor. — (6) Joyaux précieux au nombre de neuf, et qui font partie de ce trésor. — (7-9) Ciel, atmosphère. — (10) Espace, région, quartier du monde. — (11, et p. 15, lig. 1.) Points cardinaux dans

^a Aussi शेवधिः. — ^b Voyez sect. I, sloca 1. — ^c Ou अम्रं. — ^d नभस् ou नभः. — ^e Ou अन्तरीक्षं. — ^f विहायस् m. n. [-याः-यः] aussi विहायस [-सः-सं] et विहायसा indécl. — ^g Sing. दिक् plur. दिशाः, ou avec la terminaison fém. दिशा pl. दिशाः. — ^h Nom. sing. ककुप्; aussi avec la terminaison féminine ककुभा. — ⁱ हरित्. — ^j प्राची-अवाची; quelques-uns lisent अवाची pour le sud, restreignant अवाची aux régions inférieures. — ^k Sing. प्रतीची.

- 1 [उत्तरा दिग्] उदीची [स्यात्]
 2 दिश्यं^a [तु त्रिषु दिग्भवे] ॥ ३ ॥
 3 इन्द्रो वद्विः पितृपतिर् नैर्ऋतो वरुणो मरुत् ।
 4 कुवेर ईशः [पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्] ॥ ४ ॥
 5 ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदो^b ऽञ्जनः ।
 6 पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश् [च दिग्गजाः] ॥ ५ ॥
 7 [करिण्यो] ऽभ्रमुः^c कपिला पिङ्गलानुपमा^d [क्रमात्] ।
 8 ताम्रकर्णो शुभ्रदन्ती^e [चा-]-ङ्गना^f [चा-]-ञ्जनावती^g ॥ ६ ॥
 9 [क्लीवाव्ययं त्व] अपदिशं [दिशोर् मध्ये] विदिक्^h [स्त्रियां] ।
 10 अभ्यन्तरं [त्] अन्तरालं
 11 चक्रवालंⁱ [तु] मण्डलं ॥ ७ ॥
 12 अभ्रं^j मेघो वारिवाहः स्तनयिन्नुर वलाहकः ।
 13 धाराधरो जलधस् तडित्त्वान् वारिदो^k ऽम्बुभृत् ॥ ८ ॥

leur ordre, savoir : l'est, le sud, l'ouest, le nord. — (2) Situé dans une région du monde; *adj.* — (3, 4) Régents des points cardinaux et des points intermédiaires dans leur ordre : *Indra*, régent de l'est; *Vahni*, du sud-est; *Yama*, du sud; *Nairrita*, du sud-ouest; *Varouna*, de l'ouest; *Marout*, du nord-ouest; *Kouvéra*, du nord; *Is'a*, du nord-est. [Ces points ont été nommés, de leurs régents : l'est, *Aindri*; le sud-est, *Agnéyi*; le sud, *Yámyá*, etc.] — (5, 6) Éléphants des points cardinaux et des points intermédiaires, appartenant respectivement aux huit régents, et nommés dans le même ordre. — (7, 8) Leurs femelles dans le même ordre. — (9) Point intermédiaire [comme le sud-est, etc.] — (10) Espace renfermé. — (11) Horizon sensible [ou cercle et circonférence quelconques]. — (12, 13) Nuage.

^a Ex. पूर्वदिश्यं m. f. n. oriental. — ^b कुमुदो (*Ed. Calc.* — *MSS.* — *Wils. Dict.*) कुमुदो (*Ed. Seramp.*) — ^c Ou अभ्रमुः. — ^d पिङ्गला-अनुपमा. — ^e Ou शुभ्रदन्ती. — ^f अङ्गना, aussi अङ्गदा. — ^g अञ्जनावती. — ^h Aussi प्रदिक्. — ⁱ Ou चक्रवाटं. — ^j Ou अभ्रं. — ^k Aussi वारिधिरः.

- 1 घन-जीमूत-मुद्गिर-जलमुग्^a-धूमयोनयः^b ।
 2 कादम्बिनी मेघमाला
 3 [त्रिषु मेघभवे]ऽभ्रियं ॥ ८ ॥
 4 स्तनितं गर्जितं मेघनिर्घोषे रसिता-[-दि^c च] ।
 5 शम्पा^d-शतरूढा-ऋादिन्यैरावत्यः^e क्षणप्रभा ॥ १० ॥
 6 तडित् सौदामिनी^f वियुत् चञ्चला चपला-[-पि च] ।
 7 स्फूर्जथ्रु^g [वन्ननिष्पेषो^h]
 8 मेघज्योतिर् इम्मदः ॥ ११ ॥
 9 इन्द्रायुधं शक्रधनुस्
 10 [तद् एव ऋजु] रोहितं ।
 11 वृष्टिर् वर्षⁱ
 12 [तद्विघाते]ऽवग्राह्यवग्रहौ^j [समौ] ॥ १२ ॥

(1) Nuage. — (2) Succession de nuages. — (3) Appartenant aux nuages. *Adj.* — (4) Bruit du tonnerre ou grondement des nuages. — (5, 6) Éclair. — (7) Coup de tonnerre, bruit accompagnant la chute du tonnerre ou un éclair. — (8) Trait de feu qui accompagne la chute de la foudre. — (9) Arc-en-ciel. — (10) Arc d'Indra non bandé. [Lorsque cet arc est bandé, son ombre apparaît comme un arc-en-ciel; lorsqu'il n'est pas bandé, il est invisible aux mortels. Quelques commentateurs ont approché de la véritable explication de l'arc-en-ciel en disant qu'il procède des rayons du soleil, qui sont de diverses couleurs, et qui étant dispersés par l'air, apparaissent dans le ciel.] — (11) Pluie. — (12) Sécheresse.

^a Également जलभृत्, जलदः etc. — ^b धूमयोनिः signifie proprement un nuage de fumée et जीमूतः est une exhalation visible. — ^c Outre les mots cités il y a d'autres synonymes comme ध्वनितं etc. — ^d Aussi शम्बा. — ^e ह्रादिनी-ऐरावती. — ^f Mieux सौदामिनी; aussi सौदाम्नी. — ^g Aussi स्फूर्जथुः et विस्फूर्जथुः, ou विस्फूर्जथुः. — ^h Ou वन्ननिर्घोषः. — ⁱ Ou वर्षणं. — ^j अवग्राह-अवग्रहः.

- 1 धारासम्पात आसारः
 2 शीकरो ^a [ऽम्बुवृणाः स्मृताः ^b] ।
 3 वर्षीपलस् [तु] करका
 4 [मेघच्छन्नेऽङ्गि] दुर्दिनं ॥ १३ ॥
 5 अन्तर्द्धा व्यवधा [पुंसि त्व] अन्तर्द्धि अपवारणं ।
 6 अपिधान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि ^c [च] ॥ १४ ॥
 7 हिमांशुश् चन्द्रमाश् ^d चन्द्र ^e इन्दुः कुमुद्वान्धवः ^f ।
 8 विधुः सुधांशुः शुभ्रांशुर् ओषधीशो निशापतिः ॥ १५ ॥
 9 अब्जो जैवातृकः सोमो ^g ग्लौर मृगाङ्कः कलानिधिः ।
 10 द्विजराजः शशधरो ^h नक्षत्रेशः क्षपाकरः ॥ १६ ॥
 11 कला [तु षोडशो भागो]
 12 विम्बो ⁱ [ऽस्त्री] मण्डलं [त्रिषु] ।
 13 भित्तं शकल-खण्डे [वा पुंस्य] अर्द्धो
 14 ऽर्द्धं [समे ऽंशके] ॥ १७ ॥
 15 चन्द्रिका ^j कौमुदी ज्योत्स्ना

(1) Grande pluie, averse. — (2) Pluie fine. — (3) Grêle. —
 (4) Jour nébuleux, ou obscurci par des nuages. — (5, 6) Action de cou-
 vrir, de faire disparaître [ou toute chose qui cache et dérobe à la vue].
 — (7-10) La lune. — (11) Doigt de la lune, ou seizième partie de son
 diamètre. — (12) Disque du soleil ou de la lune. — (13) Partie. —
 (14) Moitié. — (15) Clair de lune.

^a Ou शीकरः. — ^b Ou सूताः. — ^c पिधान-आच्छादन; aussi ह्यदनं et ह्यदनं. —
^d Également मस् [माः]. — ^e Aussi चन्द्रः. — ^f Ou कुमुदबन्धुः. — ^g Aussi सोमन्
 [-मा]. — ^h Ou शश्रांकः, शश्रालाञ्जनः et शश्रान् [-श्री]. — ⁱ Un auteur le fait fé-
 minin, विम्बा ou विम्बी. — ^j Ou चन्द्रिमा.

- 1 प्रसादस् [तु] प्रसन्नता ।
 2 कलङ्काङ्कै^a लाञ्छनं [तु] चिह्नं लक्ष्म [च] लक्षणं^b ॥ १८ ॥
 5 सुषमा [परमा शोभा]
 4 शोभा कान्तिर् युतिश् च्छविः^c ।
 5 अश्यायस् [तु] नीहारस् तुषारस् तुहिनं हिमं ॥ १९ ॥
 6 प्रालेयं मिहिका^d [चा-]
 7 [-श्च] हिमानी हिमसंहतिः ।
 8 शीतं [गुणे]
 9 [तद्वर्थाः] सुषीमः^e शिशिरो जडः ॥ २० ॥
 10 तुषारः शीतलः शीतो हिमः [सप्तान्यलिङ्गकाः^f] ।
 11 ध्रुव औत्तानपादिः [स्याद्]
 12 अगस्त्यः^g कुम्भसम्भवः ॥ २१ ॥
 13 मैत्रावरुणिर्^h
 14 [अस्यैव] लोपामुद्रा [सधर्मिणी] ।
 15 नक्षत्रम्ⁱ ऋक्षं भं तारा तारका^j [-प्य्] उडु^k [वा स्त्रियां] ॥ २२ ॥

(1) Pureté ou clarté. — (2) Marque ou tache. — (3) Beauté exquise. — (4) Beauté ou splendeur. — (5, 6) Gelée. — (7) Glace et neige. — (8) Froid, froidure. — (9, 10) Froid. — (11) Étoile polaire, ou le pôle nord lui-même. [Dans la mythologie *Dhrouva* est fils d'*Outtānapāda*, et conséquemment petit-fils du premier Manou. En astronomie *Outtānapāda* est β de la petite Ourse]. — (12, 13) *Agastya*, régent de l'étoile Canopus. — (14) Sa compagne. — (15) Étoile.

^a कलङ्क-अङ्क. — ^b Ou लक्षणां. — ^c Aussi युती et इवी. — ^d Ou महिका. — ^e Aussi सुशीमः et सुसीमः. — ^f Les sept mots cités prennent les trois genres. — ^g Aussi अगस्तिः. — ^h Ou वारुणिः. — ⁱ Ou नक्षत्रं. — ^j Fém. et neut.; aussi masc. तारः et तारकः. — ^k Fém. उडुः ou उड्वी.

- 1 दक्षायिण्यो [ऽश्विनीत्यादितारा]
- 2 अश्वयुग् अश्विनी ।
- 3 राधा विशाखा
- 4 पुष्ये [तु] सिध्य-तिष्यौ
- 5 अविष्टया ॥ २३ ॥
- 6 [समा] धनिष्ठा
- 7 [स्युः] प्रोष्ठपदा भाद्रपदाः^a [स्त्रियः] ।
- 8 मृगशीर्षे मृगशिरस्^b [तस्मिन् एवा-]-ग्रहायणी^c ॥ २४ ॥
- 9 श्लुलास्^d [तच्छिरोदशे तारका निवसन्ति याः] ।
- 10 वृहस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिरू^e धिषणो गुरुः ॥ २५ ॥
- 11 जीव आङ्गिरसो^f वाचस्पतिश् चित्रशिखण्डिजः ।
- 12 शुक्रो द्वैत्यगुरुः काव्य उशना^g भार्गवः^h कविः ॥ २६ ॥

(1) Astérismes [comme *As'winí* et autres, dont la longitude règle les divisions du zodiaque. Dans la mythologie, ce sont des nymphes, filles de *Dakcha*]. — (2) Tête du Bélier. — (3) Étoiles situées dans le plateau méridional de la Balance. [Le second mot *vis'ákhá* est proprement du duel comme désignant deux étoiles qui composent cette constellation suivant d'anciens auteurs, mais les astronomes en comptent maintenant quatre.] — (4) Étoiles placées dans le Cancer. — (5, 6) Étoiles placées dans le Dauphin. — (7) Aile de Pégase. — (8) Orion. — (9) Étoiles placées dans la tête d'Orion. — (10, 11) Planète de Jupiter, ou *Vrihaspati*, précepteur des Dieux, fils d'*Angiras*, et régent de la planète. — (12) Vénus, *S'oukra* ou *Ous'anas*, précepteur des Géants, fils de *Bhrigou*, et régent de la planète.

^a Ou भद्रपदाः. — ^b Neutre; aussi मृगशीर्षः m. et मृगशिराः f.; encore मृगः m. — ^c अग्रहायणी. — ^d Ou श्लुकाः. — ^e Aussi गीर्षतिः, गीःपतिः et गीःपतिः. — ^f Le nom patronymique au pluriel retourne à la forme originale अङ्गिरसः. — ^g Au vocatif singulier, उशनः, उशनन् et उशन. — ^h Aussi भृगुः; ce nom et le patronymique font au pluriel भृगवः.

- 1 अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः ।
- 2 रौहिणेयो बुधः सौम्यः
- 3 [समौ] शौरि^a -शनैश्चरौ^b ॥ २७ ॥
- 4 तमस्^c [तु] रङ्गुः स्वर्भानुः सैहिकेयो विधुन्तुदः ।
- 5 [सप्रर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्च] चित्रशिखण्डिनः ॥ २८ ॥
- 6 [राशीनाम् उदयो] लग्नं
- 7 [ते तु मेषवृषादयः] ।
- 8 सूर^d -सूर्यार्यमादित्य^e -द्वादशात्म-द्विवाकराः ॥ २९ ॥
- 9 भास्कराहस्कर^f -ब्रध्न-प्रभाकर-विभाकराः ।
- 10 भास्वद्-विवस्वत्-सप्राश्च-हरिदश्चोक्ताश्मयः^g ॥ ३० ॥
- 11 विकर्तनार्क^h -मार्तण्डⁱ मिहिरारुण^j -पूषणः^k ।
- 12 द्युमणिस् तरणिर् मित्रश् चित्रभानुर् विरोचनः ॥ ३१ ॥
- 13 विभावसुर् ग्रहपतिस् त्विषांपतिर् अर्हर्पतिः^l ।
- 14 भानुर् हंसः सहस्रांशुस् तपनः^m सविता रविः ॥ ३२ ॥

(1) Mars ou *Angāraka*, fils de la terre. — (2) Mercure ou *Boudha*, fils de *Soma*, dieu de la lune et de *Rohinī* qui préside aux Hyades. — (3) Saturne ou *S'anī* fils du soleil et de *Tchhâyá*. — (4) Nœud ascendant, ou *Rāhou*, fils de *Sinhiká*. — (5) Constellation de la grande Ourse. [Les sept principales étoiles de la grande Ourse sont les sept sages : *Marítchi*, *Atri*, *Angiras*, *Poulastyá*, *Poulaha*, *Kratou* et *Vasichth'a*.] — (6) Ascension ou lever des signes. — (7) Signes du zodiaque [ces signes ou *rás'is* sont le Bélier, le Taureau, etc.] — (8-14) Le soleil.

^a Ou plus exactement सौरिः; aussi सौरः. — ^b शनैश्चरः; ou शनिः. — ^c Aussi au masc. तमाः. — ^d Ou सूरः. — ^e सूर्य-अर्यम-आदित्य. — ^f भास्कर-अहस्कर. — ^g हरिदप्रव-उष्णरश्मि. — ^h विकर्तन-अर्क. — ⁱ Ou मार्ताण्डः. — ^j मिहिर-[ou महिर]-अरुण. — ^k पूषन्. — ^l Aussi अहर्पति. — ^m Ou तापनः.

- 1 माट्रः पिङ्गलो दण्डश्च [चण्डांशोः पारिपार्श्विकाः] ।
 2 सूरसूतो ऽरुणो ऽनूरुः काश्यपिर्^a गरुडाग्रजः ॥ ३३ ॥
 3 परिवेषस्^b [तु] परिधिर् उपसूर्यक-मण्डले ।
 4 किरणोत्स^c -मयूखांशु^d गभस्ति-वृणि-धृत्तयः^e ॥ ३४ ॥
 5 भानुः करो मरीचिः [स्त्रीपुंसयोर्] दीधितिः [स्त्रियां] ।
 6 [स्युः] प्रभा-रुग्-रुचि-त्विङ्-भा-भाश्^f -रुवि-द्युति-दीप्त्रयः^g ॥ ३५ ॥
 7 रोचिः शोचिर् [उभे क्लीवे]
 8 प्रकाशो द्योत आतपः ।
 9 कोल्लं कवोल्लं मन्दोल्लं कटुल्लं [त्रिषु तद्वति^h] ॥ ३६ ॥
 10 तिग्मं तीक्ष्णं खरं [तद्वन्ⁱ]
 11 मृगतृप्ता मरीचिका ॥ ३७ ॥

(1) Trois des suivants du soleil, énoncés l'un après l'autre dans le texte. [Ce sont *Indra, Yama et Agni* sous d'autre noms; l'un placé à la gauche du soleil; les deux autres à sa droite.] — (2) L'aurore, cocher du soleil. — (3) Halo. — (4-5) Rayon de lumière. — (6-7) Lumière. — (8) Clarté du soleil, ou toute autre clarté ou chaleur. [Quelques-uns interprètent cet article, *passage des ténèbres à la lumière*; d'autres font ces trois termes synonymes des onze qui précèdent comme signifiant *lumière et illumination*. Ils sont distingués des mots précédents, lesquels expriment une lumière qui ne vient pas immédiatement du soleil.] — (9) Chaleur ou chaud. — (10) Chaleur ardente; ardent. — (11) Vapeur étouffante qui, de loin, ressemble à de l'eau; phénomène appelé *mirage*.

^a Ou काश्यपः. — ^b Aussi परिवेशः. — ^c किरण-उत्स. — ^d मयूख-अंशु. — ^e Au lieu de धृत्तिः, quelques-uns lisent पृत्तिः. — ^f Fém. aussi भाः et भासः masc. — ^g Sing. दीप्तिः. — ^h Lorsque ces mots sont employés comme adjectifs ils prennent les trois genres. — ⁱ Même observation que pour l'article précédent.

SECTION III.

DIVISIONS DU TEMPS, PHASES DE LA LUNE, ÉCLIPSES.

- 1 कालो द्विष्टो [ऽप्य्] अनेहा^a-[पि] समयो [ऽप्य्]
 2 [अथ] पक्षतिः^b।
 3 प्रतिपद् [द्वे इमे स्त्रीत्वे]
 4 [तदाद्यास्] तिथयो^c [द्वयोः] ॥ १ ॥
 5 घनो दिनाह्नी^d [वा तु क्लीवे] दिवस-वासरो^e ।
 6 प्रत्यूषो^f ऽर्ध्मुखं कल्यम् उषः^g-प्रत्यूषसी^h [अपि] ॥ २ ॥
 7 प्रभातं [च]ⁱ
 8 [दिनान्ते तु] सायं^j
 9 सन्ध्या^k पितृप्रसूः ।
 10 प्राह्णापरह्णा^l-मध्याह्नास् [त्रिसन्ध्यम्]^m
 11 [अथ] शर्वरीⁿ ॥ ३ ॥
 12 निशा निशीथिनी रात्रिस्^o त्रियामा क्षणदा क्षपा^p ।

(1) Temps. — (2, 3) Premier jour lunaire [ou commencement de la croissance ou de la décroissance de la lune]. — (4) Jour lunaire [ou trentième partie d'une lune]. — (5) Jour, journée. — (6, 7) Matin. — (8) Soir, fin du jour. — (9) Crépuscule. — (10) Périodes du jour : matinée, après-midi, midi. — (11, 12) Nuit.

^a अनेहस्. — ^b Ou पक्षतो — ^c तिथिः ou तिथी. — ^d दिन-अहन्. — ^e वासरः, quelques-uns écrivent à tort : वाप्ररः. — ^f Aussi काल्यं. — ^g उषस्. aussi उषः m. et उषा f. — ^h प्रत्यूषस् aussi प्रत्युषस् n. et प्रत्युष [षः] m. — ⁱ Aussi भातं et विभातं. — ^j Masc. सायः, indécl. सायं. — ^k Ou सन्धा. — ^l प्राह्ण-अपरह्ण. — ^m Ou त्रिसन्ध्या. — ⁿ Aussi शार्वरी. — ^o Ou रात्री. — ^p Ou क्षिपा.

- 1 विभावरी- तमस्विन्यौ^a रत्ननी^b यामिनी^c तमी^d ॥ ४ ॥
 2 तमिस्रा तामसी [रत्रिः]
 3 ज्योत्स्नी [चन्द्रिकयान्विता] ।
 4 [आगामिवर्तमानाहृत्यायां निशि] पक्षिणी ॥ ५ ॥
 5 गणरात्रं [निशा वद्यः]
 6 प्रदोषो रत्ननीमुखं ।
 7 अर्द्धरात्र-निशीथौ [द्वौ]
 8 [द्वौ] याम-प्रह्नौ [समौ] ॥ ६ ॥
 9 [स] पर्वसन्धिः^e [प्रतिपत्यञ्चदृश्योर् यद् अन्तरं] ।
 10 पक्षान्तौ [पञ्चदृश्यौ द्वे]
 11 पौर्णमासी [तु] पूर्णिमा^f ॥ ७ ॥
 12 [कलाहीने सा-]नुमतिः^g

(1) Nuit. — (2) Nuit obscure. [Quelques commentateurs considèrent le second mot comme faisant partie de l'explication, et suivant d'autres il est un des termes exposés; il signifie aussi une nuit en général.] — (3) Nuit de clair de lune [suivant l'interprétation d'un auteur, nuit de la pleine lune]. — (4) Une nuit et deux jours [ou un jour et deux nuits]. — (5) Multitude de nuits. — (6) Soir, commencement de la nuit [les deux premières heures ou *ghatis* après le coucher du soleil]. — (7) Minuit. — (8) Veille, huitième partie du jour. — (9) Intervalle entre le plein et le défaut de la lune [jonction du quinzième jour et du premier d'un demi-mois, ou moment précis de la pleine lune ou de la nouvelle]. — (10) Dernier jour du demi-mois. — (11) Jour de la pleine lune. — (12) Lune légèrement gibbeuse [c'est-à-dire, quinzième jour de l'âge de la lune, dans lequel, lorsqu'elle se lève, il s'en faut d'un doigt [$\frac{1}{16}$] qu'elle soit pleine].

^a तमस्विनी, aussi तमस्वती. — ^b Ou रत्ननिः. — ^c Ou यामवती. — ^d Aussi तमिः ou तमा et तामी. — ^e Également पर्व et सन्धिः. — ^f Aussi पूर्णमा, पूर्णिमासी, पूर्णमासी et पौर्णमी. — ^g अनुमतिः.

- 1 [पूर्णे] राक्ता [निशाकरे] ।
 2 अमावास्या [त्] अमावस्या^a दर्शः^b सूर्येन्दुसङ्गमः ॥ ८ ॥
 3 [सा दृष्टेन्दुः] सिनीवाली
 4 [सा नष्टेन्दुकला] कुट्टः^c ।
 5 उपरागो ग्रहो
 6 [राहुग्रस्ते त्व इन्दौ च पूज्ति च] ॥ ९ ॥
 7 सोपप्लवोपरक्तौ^d [द्वाव्]
 8 अग्न्युत्पात उपाहितः ।
 9 [एकयोक्त्या] पुष्पवन्तौ [द्विवाक्-निशाकरो] ॥ १० ॥
 10 [अष्टादश निमेषास् तु] काष्ठाः
 11 [त्रिंशत् तु ताः] कलाः ।
 12 [तास् तु त्रिंशत्] क्षणः
 13 [ते तु] मुहूर्तौ [द्वादशास्त्रियां] ॥ ११ ॥

(1) Lune entièrement pleine [jour semblable au précédent, mais dans lequel elle se lève entièrement pleine]. — (2) Jour de la nouvelle lune. — (3) Lune légèrement cornue [c'est-à-dire trentième, jour de l'époque de la lune dans lequel elle se lève visible, ou se couche visible; le premier jour lunaire étant commencé, ou le quatorzième du demi-mois obscur n'étant pas fini]. — (4) Lune exactement nouvelle [jour semblable au précédent, mais dans lequel elle se lève invisible]. — (5) Éclipse. — (6, 7) Éclipsé. — (8) Météore [comme une étoile tombante etc., ou une comète]. — (9) Le soleil et la lune. — (10) Seize tierces [ou trentième partie d'une *kalā*, mesurée par dix-huit clins d'œil]. — (11) Huit secondes, [ou trentième partie d'un *kchan'a*]. — (12) Quatre minutes [ou trois-cent-soixantième partie d'un jour]. — (13) Heure [ou trentième partie du jour contenant douze *kchan'as*].

^a Aussi अमावासी, अमावसी, अमामासी, अमामसी et अमा. — ^b Quelques-uns ajoutent अदर्शः. — ^c Ou कुट्टः. — ^d सोपप्लव-उपरक्त.

- 1 [ते तु त्रिंशद्] अहोरात्रः^a
 2 पक्षस् [ते दश पञ्च च] ।
 3 [पक्षौ पूर्वापरौ] शुक्ल-कृत्तौ
 4 मासस्^b [तु ताव् उभौ] ॥ १२ ॥
 5 [द्वौ द्वौ माघादिमासौ स्याद्] ऋतुस्
 6 [तैर्] अयनं [त्रिभिः] ।
 7 [अयने द्वे गतिर् उदग्दक्षिणार्कस्य] वत्सरः ॥ १३ ॥
 8 [समरात्रिंद्वे काले] विषुवद् विषुवं^c [च तत्] ।
 9 मार्गशीर्षे सह्य^d मार्ग आग्रहायणिकश्^e [च सः] ॥ १४ ॥
 10 पौषे तैष-सह्यस्यौ [द्वौ]
 11 तपा^f माघे

(1) Jour [nycthémeron contenant trente *mouhoûrtas*]. — (2) Quinzaine [demi-mois comprenant quinze jours]. — (3) Quinzaine éclairée et quinzaine obscure [respectivement, de la nouvelle lune à la pleine, et de l'opposition à la conjonction]. — (4) Mois [douzième partie de l'année, comprenant deux *pakhas* ou trente jours, suivant le temps lunaire ; le même nom est applicable au mois solaire]. — (5) Saison. [Sixième partie d'une année comprenant deux mois comme *mâgha*, *phâlgouna*. — La saison se compose proprement de deux mois solaires, mais le même terme est applicable au temps lunaire.] — (6) Demi-année [ou cours alternatif du soleil d'un côté des tropiques, mesuré par trois saisons]. — (7) Année [comprenant le cours septentrional et le cours méridional du soleil]. — (8) Équinoxe. — (9) *Agrahâyana* [mois dans lequel la lune est pleine environ dans la longitude de la tête d'Orion]. — (10) *Paucha* [— près de γ et δ du Cancer]. — (11) *Mâgha* [— près du cœur du Lion].

^a Quelques-uns le font du neutre, mais à tort. — ^b Aussi मस् [माः]. — ^c Aussi masc. विषुवान् et विषुवः, विषुपाः, ou विषुपः. — ^d सहस् ou सह [-हः]. — ^e Aussi आग्रहायणाः. — ^f तपस्; quelques-uns ajoutent तप [-पः].

- 1 [स्य] फाल्गुने ^a ।
- 2 [स्यात्] तपस्यः फाल्गुनिकः
- 3 [स्याच्] चैत्रे चैत्रिको मधुः ॥ १५ ॥
- 4 वैशाखे माधवो रथो
- 5 ज्यैष्ठे ^b शुक्रः
- 6 शुचिस् [त् अयं] ।
- 7 आषाढे ^c
- 8 श्रावणे [तु स्यान्] नभाः श्रावणिकश् [च सः] ॥ १६ ॥
- 9 [स्युर्] नभस्य-प्रौष्ठपद-भाद्र-भाद्रपदाः [समाः] ।
- 10 [स्याद्] आश्विन इषो ^d [स्य्] आश्वयुजो ^e [सपि]
- 11 [स्यात् तु]
- कार्तिके ॥ १७ ॥
- 12 वाहुलोजी ^f कार्तिकिको
- 13 हेमन्तः ^g
- 14 शिशिरो [सस्त्रियां] ।

(1, 2) *Phálgouna* [mois dans lequel la lune est pleine près de la queue du Lion]. — (3) *Tchaitra* [— près de l'épi de la Vierge]. — (4) *Vaisákha* [— près du plateau méridional de la Balance]. — (5) *Jyaichth'a* [— près du Scorpion]. — (6, 7) *Achád'h'a* [— près de l'arc du Sagittaire]. — (8) *Srávan'a* [— environ dans la longitude de l'Aigle]. — (9) *Bhád'ra* [— environ dans la longitude de l'aile de Pégase]. — (10) *Asvina* [— près de la tête du Bélier]. — (11, 12) *Kártika* [— près des Pléiades]. — (13) Hiver [comprenant *ágraháyan'a* et *paucha*]. — (14) Saison froide [comprenant *mágha* et *phálgouna*].

^a Aussi फाल्गुनः. — ^b Aussi ज्यैष्ठः. — ^c Aussi अषाढः, अषाढकः et आषाढः. — ^d Ou इषः. — ^e Aussi अश्वयुजः. — ^f वाहुल-उर्ज. — ^g Aussi हेमा.

- 1 वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिर्
 2 ग्रीष्म उष्मकः^a ॥ १८ ॥
 3 निदाघ उत्तोपगम उल्ल उत्तागमस्^b तपः^c ।
 4 [स्त्रियां] प्रावृद्^d [स्त्रियां भूमि] वर्षा^e
 5 [अथ] शरत्^f [स्त्रियां] ॥ १९ ॥
 6 [षड् अमी ऋतवः पुंसि मार्गादिनां युगैः क्रमात्] ।
 7 संवत्सरो^g वत्सरो^h ऽब्दो हायनो [ऽस्त्री] शरत्ⁱ समाः^j ॥ २० ॥
 8 [मासेन स्याद्] अहोरात्रः पैत्रो
 9 [वर्षेण] दैवतः ।
 10 [द्वैवे युगसल्ले द्वे] ब्राह्मः
 11 कल्पौ [तु तौ नृणां] ॥ २१ ॥

(1) Printemps [répondant à *tchaitra* et *vais'ákha*]. — (2, 3) Saison chaude [comprenant *jyaichth'a* et *áchádh'a*]. — (4) Saison des pluies [renfermant *srávan'a* et *bhádra*]. — (5) Saison étouffante [répondant à *áswina* et *kártika*]. — (6) [Ces six saisons correspondent chacune à deux mois dans le même ordre]. — (7) Année. — (8) Jour des Patriarches [répondant à un mois des mortels]. — (9) Jour des Dieux [comprenant une année des mortels]. — (10) Jour de *Brahmá* [2000 *yugas* des Dieux, c'est-à-dire que 1000 *yugas* constituent un jour de *Brahmá*, et que sa nuit en comprend autant]. — (11) *Kalpa*, la même grande période [ou 432 millions d'années des mortels mesurant la durée du monde; et autant l'intervalle entre sa destruction et sa reproduction].

^a Ou bien उष्मकः; aussi उष्मन् [-मा] et उष्मन्. — ^b Aussi उष्णोपगमः, उष्णाः et उष्णागमः, ou bien उष्मोपगमः etc. et उष्मोपगमः etc. — ^c Aussi तपस् [-पाः]. — ^d Aussi प्रावृषा. — ^e Employé seulement au pluriel. — ^f Aussi शरदा. — ^g Aussi संवत्सरः. — ^h Aussi परिवत्सरः; et अनुवत्सरः, mais dans le cycle quinquennal, ce sont des noms d'années différentes. — ⁱ Aussi शरद्. — ^j Quelques-uns restreignent ce terme au pluriel.

- 1 मन्वन्तरं [तु द्विव्यानां युगानाम् एकसप्ततिः] ।
 2 संवर्तः^a प्रलयः^b कल्पः क्षयः कल्पान्त [इत्यपि] ॥ २२ ॥

SECTION IV.

CRIME, VERTU, BONHEUR, DESTINÉE, NATURE, INTELLIGENCE, SENS,
 SAVEURS, COULEURS, ODEURS.

- 3 [अस्त्री] पङ्कं [पुमान्] पाप्मा पापं^c किल्विष-कल्मषं ।
 4 कलुषं वृजिनैनो^d ऽग्रं अहो^e दुरित-दुष्कृतं ॥ १ ॥
 5 [स्याद्] धर्मम् [अस्त्रियां] पुण्य^f-श्रेयसी^g सुकृतं वृषः ।
 6 मुत्^h प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोद-सम्मदाःⁱ ॥ २ ॥
 7 [स्याद्] आनन्दथुर् आनन्दः^j शर्म-शात^k-सुखानि^l [च] ।
 8 अश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभं ॥ ३ ॥
 9 भावुकं भविकं भव्यं कुशलं^m क्षेमम् [अस्त्रियां] ।
 10 शस्तं [चा-]
 11 [-थ त्रिषु द्रव्ये पाप-पुण्य-सुखादिⁿ च] ॥ ४ ॥

(1) *Manwantara* [ou grande période comprenant soixante et onze *yugas* des Dieux]. — (2) Destruction du monde. — (3, 4) Faute, crime. — (5) Vertu ou mérite moral. — (6, 7) Joie, plaisir. [Quelques-uns distinguent les sept termes de la sixième ligne, comme signifiant la sensation actuelle ou l'affection mentale du plaisir, et les cinq autres comme désignant le plaisir dans le sens abstrait.] — (8-10) Bonheur, bien, juste.

^a Aussi संवर्तः, et परिवर्तः. — ^b Aussi विकल्पः. — ^c Ce mot est aussi employé adjectivement et des trois genres. — ^d वृजिन-एनस्. — ^e Ou अग्रस्. — ^f Ce mot prend aussi les trois genres, comme adjectif. — ^g श्रेयस्. — ^h Aussi मुदा et मुदिता. — ⁱ प्रमोद-आमोद-सम्मद. — ^j Aussi आनन्दिः. et नन्दिः. — ^k Ou सातं. — ^l सुखं, aussi सौख्यं. — ^m Aussi कुशलं et कुसलं. — ⁿ पापं पुण्यं सुखादि च (MS. beng.) —

- 1 मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डम् उद्ध-तल्लजौ ।
 2 [प्रशस्तवाचकान्यमून्य^a]
 3 अयः [शुभावहो विधिः] ॥ ५ ॥
 4 द्वैवं^b द्विष्टं भागधेयं भाग्यं [स्त्री] नियतिर् विधिः
 5 हेतुर् [ना] कारणं^c वीजं
 6 निदानं [त्] आदिकारणं ॥ ६ ॥
 7 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः^d
 8 प्रधानं प्रकृतिः [स्त्रियां] ।
 9 [विशेषः कालिको] ऽवस्था
 10 [गुणाः] सत्त्वं^e रजस्^f तमः^g ॥ ७ ॥

(1) Excellence ou bonheur. — (3) Bonne fortune ou sort favorable. — (4) Destinée ou sort. — (5) Cause. — (6) Cause première. — (7) Ame. — (8) Nature [principe du monde matériel, ou secondement, état naturel d'une chose]. — (9) État ou condition [état particulier variant avec les progrès du temps comme la jeunesse, etc.] — (10) Qualités de la nature, nommées l'une après l'autre dans le texte; d'abord, le principe de l'existence ou de la vérité; secondement, celui de la passion; troisièmement, celui de l'obscurité. [Le premier éclaire, constitue le savoir, et est la cause de la vérité; le second occasionne la convoitise, et est la cause de la peine; le troisième obscurcit, et est la cause de l'erreur et de l'illusion. Ce sont les attributs et les qualités essentielles de la nature, suivant la philosophie *Sankhya*].

Les trois mots ici spécifiés पाप, पुण्य et सुख [sloca 3, 1^{er} vers], avec ceux qui les suivent, ou avec ceux seulement qui suivent ce dernier, étant employés comme adjectifs, s'accordent en genre avec le sujet; mais ils sont restreints au genre marqué dans le texte, lorsqu'ils sont employés comme substantifs pour exprimer la qualité abstraite. — ^a En apposition, même comme épithètes, les cinq mots précédents ne changent pas de genre. — ^b Aussi द्वैव्यं. — ^c Ou करणं. — ^d Ou पूरुषः. — ^e Aussi सत्त्वं. — ^f Aussi masc. रज्ज [-तः]. — ^g Également masc. तम [-मः].

- 1 जन्तु-जनन-जन्मानि ^a जनिर् ^b उत्पत्तिर् उद्भवः ।
 2 प्राणी [तु] चेतनो जन्मी जन्तु-जन्त्यु-शरीरिणः ^c ॥ ८ ॥
 3 जातिर् जातं [च] सामान्यं
 4 व्यक्तिस् [तु] पृथगालिका ।
 5 चित्तं [तु] चेतो हृदयं स्वान्तं हृन् मानसं मनः ^d ॥ ९ ॥
 6 बुद्धिर् मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा ^e शेमुषी ^f मतिः
 7 प्रेक्षोपलब्धिश् ^g चित् संवित् प्रतिपन्न-ज्ञप्ति-चेतनाः ॥ १० ॥
 8 [धीर् धारणावती] मेधा
 9 संकल्पः ^h [कर्म मानसं] ।
 10 चित्ताभोगो मनस्कारः ⁱ
 11 चर्चा संख्या विचारणा ^j ॥ ११ ॥

(1) Naissance ou production. — (2) Animal ou être sensible. — (3) Espèce ou sorte. — (4) Individualité. — (5) Esprit ou faculté de la raison. — (6, 7) Entendement ou intellect [ou bien, les termes de la sixième ligne signifient *intellect, faculté de concevoir*; et ceux de la septième signifient *compréhension, exercice de la faculté de concevoir*]. — (8) Intelligence qui retient. — (9) Résolution ou acte de détermination. — (10) Conscience du plaisir ou de la peine [attention de l'esprit dirigée vers ses propres sensations; attention fixée et méditation profonde; action de tenir l'esprit dirigé vers un objet, ou d'y revenir continuellement et de rappeler une idée particulière. Les termes sont diversement interprétés par les différents commentateurs]. — (11) Réflexion ou considération [acte de l'esprit sur un sujet présent à ses pensées, exercice du jugement; ou bien action d'explorer les preuves d'une chose].

^a जन्म ou जन्मं n. et जन्मः m. — ^b Ou जनी f. aussi जनिः m. — ^c प्ररीरिन्. — ^d Neutre; aussi masculin selon quelques-uns. — ^e Ou प्राज्ञा. — ^f Aussi शेमुषी. — ^g प्रेक्षा, उपलब्धिः. — ^h Aussi विकल्पः. — ⁱ Également मनस्कारः. — ^j Aussi चर्चनं, संख्यानं et विचारः.

- 1 अध्याहारस् तर्क उहो ^a
 2 विचिकित्सा [तु] संशयः ।
 3 संदेह-द्वापरौ [चा-]
 4 [-थ समौ] निर्णय-निश्चयौ ॥ १२ ॥
 5 मिथ्यादृष्टिर् नास्तिकता
 6 व्यापादो द्रोहचिन्तनं ।
 7 [समौ] सिद्धान्त-राद्धान्तौ
 8 भ्रान्तिर् मिथ्यामतिर् भ्रमः ॥ १३ ॥
 9 संविद् आगूः ^b प्रतिज्ञानं नियमाश्रव ^c -संश्रवाः ।
 10 अङ्गीकाराभ्युपगम ^d -प्रतिश्रव-समाधयः ^e ॥ १४ ॥
 11 [मोक्षे धीर्] ज्ञानं ^f
 12 [अन्यत्र] विज्ञानं [शिल्पशास्त्रयोः] ।
 13 मुक्तिः कैवल्य-निर्वाणं श्रेयो निःश्रेयसामृतं ^g ॥ १५ ॥

(1) Raisonement. — (2, 3) Doute ou incertitude. — (4) Certitude, décision, détermination. — (5) Hétérodoxie ou hérésie [action de ne pas croire au ciel ou à un monde futur, ou de nier l'existence d'un Dieu]. — (6) Mauvais dessein, intention de nuire [ou action de désirer du mal à un autre; ou tentative ayant pour but de nuire]. — (7) Vérité démontrée. — (8) Erreur ou méprise. — (9, 10) Accord, convention. — (11) Science véritable [ou qui tend à exempter l'âme de toute transmigration ultérieure]. — (12) Science des arts [ou toute autre que celle de la théologie]. — (13, et p. 32, lig. 1.) Béatitude [délivrance de l'âme séparée du corps, et

^a Aussi उहो f. — ^b आगू ou आगूर् suivant des étymologies différentes, [la terminaison étant dérivative ou radicale]; आगू nom. आगूः acc. आगूं ou आगवं. आगूर् nom. आगूः, acc. आगूर् etc. — ^c नियम-आश्रव. — ^d अङ्गीकार-अभ्युपगम. — ^e समाधिः. — ^f Quelques-uns font de ज्ञानं l'explication, et de धीः le mot cité. — ^g निःश्रेयस-अमृत.

- 1 मोक्षो ऽपवर्गो
 2 [ऽथा-]ज्ञानम्^a अविद्याहंमतिः^b [स्त्रियां] ।
 3 रूपं शब्दो गन्ध-रस-स्पर्शाश् [च]
 4 विषया^c [अमी] ॥ १६ ॥
 5 गोचरा इन्द्रियार्थाश् [च]
 6 हृषीकं विषयीन्द्रियं^d ।
 7 कर्मेन्द्रियं [तु पाद्मादि]
 8 [मनोनेत्रादि] धीन्द्रियं ॥ १७ ॥
 9 तुवरस्^e [तु] कषायो [ऽस्त्री]
 10 मधुरो लवणः कटुः ।
 11 तिक्तो ऽम्लश्^f [च रसाः पुंसि]
 12 [तद्वत्सु षड् अमी त्रिषु]^g ॥ १८ ॥
 13 [विमर्दालये] पश्मिलो [गन्धे जनमनोहरे] ।

désormais exempte de transmigration]. — (2) Ignorance spirituelle [ou croyance aux apparences extérieures]. — (3) Objets des sens au nombre de cinq, énumérés l'un après l'autre : la couleur, le son, l'odeur, la saveur, la tangibilité. — (4, 5) Objet des sens. — (6) Organe des sens. — (7) Organe de l'action [comme la main, le pied, l'organe de la parole, celui de la génération et celui de l'excrétion]. — (8) Organe intellectuel [comme l'esprit, l'œil, l'oreille, le nez, la langue et la peau]. — (9) Saveur astringente. — (10, 11) Cinq autres saveurs énumérées : la douce, la salée, la piquante, l'âcre et l'aigre. — (13) Odeur agréable [comme celle qu'on obtient en frottant des substances odorantes, par exemple les fleurs du *mimusops elengi*].

^a अज्ञानं. — ^b अविद्या, अहंमतिः. — ^c Sing. विषयः. — ^d विषयि, इन्द्रियं. — ^e Aussi तूवरः ou कुवरः. — ^f Ou अम्लः. — ^g Tous les termes signifiant des saveurs particulières prennent le genre du sujet, lorsqu'on les emploie comme adjectifs.

- 1 आमोदः [सो ऽतिनिर्हारी]
 2 [वाच्यलिङ्गत्वम् आगुणात्^a] ॥ १९ ॥
 3 समाकर्षो [तु] निर्हारी
 4 सुरभिर् घ्राणतर्पणः ।
 5 इष्टगन्धः सुगन्धिः [स्याद्]
 6 आमोदी मुखवासनः^b ॥ २० ॥
 7 पूतिगन्धिस्^c [तु] दुर्गन्धिः^d
 8 विस्त्रं^e [स्याद्] आमगन्धि [यत्] ॥ २१ ॥
 9 शुक्ल-शुभ्र-शुचि-श्वेत-विशद^f-श्वेत-पाण्डुरः ।
 10 अवदातः सितो गौरो वलक्षो^g धवलो ऽर्जुनः ॥ २२ ॥
 11 हरिणः पाण्डुरः पाण्डुर
 12 [ईषत्पाण्डुस् तु] धूसरः ।
 13 कृत्ते नीलासित^h-श्याम-काल-श्यामल-मेचकाः ॥ २३ ॥

(1) Parfum, odeur très-agréable et d'une senteur forte [ex. le musc].—

(3) Odeur se répandant au loin. — (4, 5) Parfum ou substance odoriférante [comme la fleur de l'arbre appelé *Michelia champaca*. Quelques-uns restreignent aux deux premiers termes, d'autres aux deux derniers la signification de substance odoriférante, et aux autres celle d'odeur suave]. — (6) Parfum pour la bouche, ordinairement préparé sous la forme d'un bol ou d'une pilule [ou toute drogue odoriférante ainsi employée, comme le camphre]. — (7) Substance sentant mauvais. — (8) Odeur comme celle de la viande crue [ou, suivant d'autres, comme celle d'un bûcher funèbre]. — (9, 10) Blanc. — (11) Blanc jaunâtre. — (12) Gris. — (13) Noir ou bleu foncé.

^a Employés comme adjectifs, les mots suivants, jusqu'à la fin de la section, s'accordent en genre avec le sujet. — ^b Aussi शुभवासनः. — ^c पूतिगन्धिः (Ed. Calc.) —

^d Aussi दुर्गन्धिन् [-धी]. — ^e Aussi विस्त्रं. — ^f Ou विशदः. — ^g Également अवलक्षः.

— ^h नील-असित.

- 1 पीतो गौरो हरिद्राभः
 2 पालाशो ^a हरितो हरिः ।
 3 रोहितो लोहितो रक्तः
 4 शोणः कोकनदच्छविः ॥ २४ ॥
 5 [अव्यक्तरागस् त्व] अरुणः
 6 [श्चेतरक्तस् तु] पाटलः ।
 7 श्यावः [स्यात्] कपिशो
 8 धूम्र-धूमलौ कृत्तलोहिते ।
 9 कडारः कपिलः पिङ्ग-पिशङ्गौ कटु ^b-पिङ्गलौ ॥ २५ ॥
 10 चित्रं किर्मोरि ^c-कल्माष- शवलैताश् ^d [च] कर्बुरे ^e ।
 11 [गुणे शुक्लाद्यः पुंसि गुणिलिङ्गास् तु तद्वति ^f] ॥ २६ ॥

SECTION V.

PAROLE, LANGAGE, COMPOSITIONS.

- 12 ब्राह्मी [तु] भारती भाषा गीर् ^g वाग् ^h वाणी ⁱ सरस्वती ।

(1) Jaune. — (2) Vert. — (3) Rouge. — (4) Cramoisi [couleur du lotus rouge]. — (5) Rouge sombre [couleur de l'aurore ou de la garance]. — (6) Rouge pâle [couleur du carthame]. — (7) Brun [couleur composée de noir et de jaune, couleur d'un singe]. — (8) Pourpre [composé de noir et de rouge; couleur de fumée]. — (9) Tanné, basané. — (10) Bigarré. — (12) *Sarasvati*, déesse du langage. [Les sept mots de cette ligne sont synonymes de ceux de la ligne suivante, comme signifiant *parole*.]

^a Ou पलाशः. — ^b Quelques-uns lisent बभ्रुः. — ^c Ou कर्मोरिः. — ^d शवल-रत. — ^e कर्बुरिः, ou कर्बुरिः. — ^f Les noms de couleurs qui précèdent prennent le genre du sujet lorsqu'ils sont employés comme adjectifs. — ^g गीर्; aussi गिरा. — ^h Aussi वाचा. — ⁱ Ou वाणिः.

- 1 व्याहार उक्तिर् लपितं भाषितं वचनं वचः ॥ १ ॥
 2 अपभ्रंशो^a ऽपशब्दः [स्यात्]
 3 [शास्त्रे] शब्दस् [तु] वाचकः ॥ २ ॥
 4 [तिङ्मुवन्तचयो] वाक्यं [क्रिया वा कारकान्विता] ।
 5 श्रुतिः [स्त्री] वेद आम्नायस्
 6 त्रयीधर्मस्^b [तु तद्विधिः] ॥ ३ ॥
 7 [स्त्रियां] ऋक् साम-यजुषी
 8 [इति वेदास् त्रयः] त्रयी ।
 9 [शिष्येत्यादि श्रुतेर्] अङ्गम्
 10 ओङ्कार-प्रणवौ [समौ] ॥ ४ ॥
 11 इतिहासः पुरावृत्तं
 12 [उदात्तायास् त्रयः] स्वराः^c ।
 13 आन्वीक्षिकी दण्डनीतिः [तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः] ॥ ५ ॥

(1) Voix ou parole. — (2) Langage contraire à la grammaire. — (3) Mot. — (4) Sentence. — (5) Sainte écriture, *Védas* [pris collectivement ou séparément]. — (6) Devoir prescrit par ces livres [principalement l'accomplissement du sacrifice, de la manière enseignée par les *Védas*]. — (7) Les trois *Védas*, *Ritch*, *Sáman* et *Yajous*. — (8) Réunion de ces livres. — (9) *Védânga*, science accessoire des *Védas* [comme la prononciation, la grammaire, la prosodie, l'explication des termes obscurs, les rites religieux ou l'astronomie]. — (10) Nom sacré de Dieu, la syllabe *Om* ou *Aum*. — (11) Histoire, livre rappelant d'anciens faits et contenant des traditions, histoire héroïque. — (12) Accent [aigu, grave ou circonflexe]. — (13) Logique et morale, nommées dans le texte et expliquées dans le même ordre. [La logique renferme le *Nyáya*, le *Vais'échika*,

^a Quelques-uns ajoutent अपभ्रंसः. — ^b Ou धर्मः, car le mot précédent [त्रयी] peut appartenir aux synonymes du Véda. — ^c Sing. स्वरः.

- 1 आख्यायिको^a [-पलब्धार्था]
- 2 पुराणं पञ्चलक्षणं ।
- 3 [प्रबन्धकल्पना] कथा
- 4 प्रवहिका^b प्रहेलिका^c ॥ ६ ॥
- 5 स्मृतिस् [तु] धर्मसंहिता
- 6 समाहृतिस् [तु] संग्रहः ।
- 7 समस्या [तु] समासार्था^d
- 8 किंवदन्ती^e जनश्रुतिः ॥ ७ ॥
- 9 वार्ता प्रवृत्तिर् वृत्तान्त उदन्तः [स्याद्]
- 10 [अथा-]-ह्वयः^f ।
- 11 आख्याहे^g [चा-]-भिधानं^h [च] नामधेयं [च] नाम [च] ॥ ८ ॥
- 12 हूतिर्ⁱ आकरणाह्वानं^j

et d'autres écoles de raisonnement]. — (1) Conte, histoire vraie ou probable. — (2) *Pourân'a*, ou théogonie [comprenant les événements passés et futurs, sous cinq titres principaux : la création, la destruction et le renouvellement des mondes; la généalogie des Dieux et des Héros; les règnes des *Manous* et les actes de leurs descendants]. — (3) Histoire inventée [fondée ou non, par exemple, le poème intitulé *Kâdambarî*]. — (4) Énigme ou question embrouillée. — (5) Code de lois. — (6) Compilation ou abrégé. — (7) Partie de stance proposée, comme épreuve d'habileté, à compléter [ou plutôt: le vers ou les vers par lesquels une stance est complétée]. — (8) Rumeur fausse ou vraie. — (9) Nouvelle ou avis. — (10, 11) Nom, désignation. — (12) Appel, sommation.

^a आख्यायिका, [उपलब्धार्था]. — ^b Aussi प्रवहिका: ou प्रवहिका. — ^c Aussi प्रहेलिका: . — ^d Aussi समस्यार्था et असमाप्त्यर्था. — ^e Ou किंवदन्तिः. — ^f आह्वयः. — ^g आख्या-
आह्वयः. — ^h अभिधानं; aussi au fém. अभिधा, अभिव्या, संज्ञा etc. — ⁱ Aussi आहूतिः.
— ^j आकरण-[aussi आकरणा et आकरणा fém.] आह्वानं.

- 1 संद्वृत्तिर् [वदुभिः कृता] ।
 2 विवादो व्यवहारः^a [स्याद्]
 3 उपन्यासस् [तु] वाङ्मुखं ॥ ९ ॥
 4 उपोद्घात उदाहारः^b
 5 शपनं^c शपथः [पुमान्] ।
 6 प्रश्नो^dऽनुयोगः पृच्छ [च]
 7 प्रतिवाक्योत्तरे^e [समे] ॥ १० ॥
 8 मिथ्याभियोगो ऽभ्याख्यानं
 9 [अथ] मिथ्याभिशंसनं ।
 10 अभिशापः^f
 11 प्रणादस्^g [तु] शब्दः स्याद् अनुरागजः] ॥ ११ ॥
 12 यशः कीर्तिः^h समाज्ञाⁱ [च]
 13 स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर् नुतिः ।
 14 आग्नेडितं [द्विस्त्रिहत्तं]
 15 उच्चैर्घुष्टं [तु] घोषणा ॥ १२ ॥
 16 काकुः [स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर् ध्वने] ।

(1) Clameur [ou appel fait par plusieurs personnes à la fois]. — (2) Contestation ou procès. — (3) Exorde. — (4) Exemple ou argument placé à propos. — (5) Serment. — (6) Question. — (7) Réponse. — (8) Demande mal fondée. — (9, 10) Fausse accusation. — (11) Bruit qui marque l'affection ou la satisfaction. — (12) Renommée, réputation. — (13) Louange. — (14) Répétition [son proféré deux fois, trois fois ou plus]. — (15) Action de crier fort. — (16) Altération dans la voix causée par

^a Ou व्यवहरणं. — ^b Aussi उदाहरणं. — ^c Aussi शपथः. — ^d Également प्रच्छनं.

— ^e प्रतिवाक्य-[aussi प्रतिवचनं]-उत्तरं. — ^f Ou अभिशपनं. — ^g Aussi प्रणादनं. —

^h Aussi कीर्तना. — ⁱ Aussi समज्ञा, समज्ञया et समाख्या.

1 अवरुणक्षेप^a-निर्वाद-परीवादापवाद^b-[-वत्] ॥ १३ ॥

2 उपक्रोशो जुगुप्सा [च] कुत्सा निन्दा [च] गर्हणे ।

3 पारुष्यम् अभिवादः^c [स्यात्]

4 भर्त्सनं [त्] अपकारगीः ॥ १४ ॥

5 [यः सनिन्द उपालम्भस् तत्र स्यात्] परिभाषणं ।

6 [तत्र त्] आक्षारणा^d [यः स्याद् आक्रोशो मैथुनं प्रति] ॥ १५ ॥

7 [स्याद्] आभाषणम् आलापः

8 प्रलापो [ऽनर्थकं वचः] ।

9 अनुलापो मुहुर्भाषा

10 विलापः परद्विवनं ॥ १६ ॥

11 विप्रलापो विरोधोक्तिः

12 संलापो [भाषणं मिथः] ।

13 सुप्रलापः सुवचनं

14 अपलापस् [तु] निद्रवः ॥ १७ ॥

15 सन्देशवाग् वाचिकं [स्याद्]

16 [वाग्भेदास् तु त्रिषूत्तरे]^e ।

le chagrin ou la peur, etc. — (1, 2) Réprimande, blâme ou mépris. — (3) Parole injurieuse ou désobligeante. — (4) Reproche ou menace. — (5) Réprimande accompagnée d'insulte ou d'humiliation. — (6) Accusation d'adultère. — (7) Action de parler à quelqu'un. — (8) Discours incohérent. — (9) Tautologie. — (10) Plainte, lamentation. — (11) Querelle ou contradiction mutuelle. — (12) Conversation. — (13) Beau langage ou discours élégant. — (14) Refus de communiquer la science. — (15) Déclaration.

^a अवरुण-आक्षेप. — ^b परीवाद-अपवाद. — ^c अतिवादः (Ed. Calc. — MSS.) —

^d Ou क्षारणा. — ^e Les mots suivants changent de genre selon le sujet.

- 1 उषती ^a [वाग् अकल्याणी]
 2 [स्यात्] कल्या ^b [तु शुभालिका] ॥१८॥
 3 [अत्यर्थमधुरं] सांत्व
 4 संगतं हृदयंगमं ।
 5 निष्ठुरं परुषं
 6 ग्राम्यम् अश्लीलं
 7 सूनृतं [प्रिये ॥ १९ ॥
 8 सत्ये]
 9 [ऽथ] संकुल-क्लिष्टे परस्परपराहते ।
 10 [लुप्तवर्णपटं] ग्रस्तं
 11 निस्तं त्वस्तितोदितं ॥ २० ॥
 12 [अम्बूकृतं] सनिष्ठेवम् ^c
 13 अबद्धं ^d [स्याद्] अनर्थकं ।
 14 अनक्षरम् अवाच्यं [स्याद्]
 15 आहृतं [तु] मृषार्थकं ॥ २१ ॥
 16 [अथ] स्निष्टम् अविस्पष्टं

(1) Discours défavorable; — (2) — bon et favorable; — (3) — très-doux et conciliant; — (4) — pertinent et convenable; — (5) — rude et outrageux; — (6) — rustique et grossier; — (7, 8) — agréable, mais vrai; — (9) — incompatible et contradictoire; — (10) — prononcé imparfaitement [en omettant une lettre ou une syllabe]; — (11) — dit rapidement, précipité; — (12) — crachoté [prononcé avec émission de salive]; — (13) — absurde ou qui n'a pas de sens; — (14) — impropre à prononcer, blâmable. — (15) Impossibilité. — (16) Discours confus.

^a Aussi हृषती. — ^b Ou काल्या. — ^c Ou सनिष्ठेव. — ^d Ou अबद्धं.

- 1 वितथं [त्] अनृतं [वचः] ।
 2 सत्यं तथ्यम् ऋतं सम्यग्^a
 3 [अमूनि त्रिषु तद्वति] ॥ २२ ॥

SECTION VI.

SON.

- 4 शब्दे^b निनाद-निनद-ध्वनि-ध्वान-रव^c-स्वनाः ।
 5 स्वान-निर्वीष-निह्राद^d-नाद-निस्वान-निस्वनाः ॥ १ ॥
 6 आरवाणव^e-संराव-विरावा
 7 [अथ] मर्मरः ।
 8 [स्वनिते वस्त्रपर्णानां]
 9 [भूषणानां तु] शिञ्जितं^f ॥ २ ॥
 10 निङ्घ्राणो निङ्घ्राणः द्वाणः द्वाणः द्वाणनम् [इत्यपि]
 11 [वीणायाः द्वाणिते प्रादेः] प्रद्वाण-प्रद्वाणा-[-द्वयः^g] ॥ ३ ॥
 12 कोलाहलः कलकलस्

(1) Discours faux. — (2) Vérité, discours vrai. — (3) [Les mots précédents s'accordent en genre avec le sujet lorsqu'ils sont employés métaphoriquement comme épithètes de l'orateur, et non du discours.] — (4-6) Son. — (7, 8) Bruit sourd, comme celui des vêtements et des feuilles sèches. — (9) Tintement des bijoux. — (10) Ton ou son musical. — (11) Son d'un luth. — (12) Sons confus [ou bruit fait par plusieurs personnes.]

^a सम्यच्. — ^b Ou शब्दनं. — ^c Ou रावः. — ^d निह्राद (Ed. Ser. — Wils.Dict.) — निर्हाद (Ed. Calc. — MSS.) — ^e आरव-आराव. — ^f Aussi शिञ्जा. — ^g Comprenant उपकृपाः, सुकृपाः etc.

1 [तिरश्चां] वाशितं^a रूतं ।

2 [स्त्री] प्रतिश्रुत् प्रतिध्वाने^b

3 गीतं गानम् [इमे समे] ॥ ४ ॥

SECTION VII.

MUSIQUE, DANSE, REPRÉSENTATIONS DRAMATIQUES, FÊTES.

4 निषाद^c-र्षभ^d-गान्धार-षड्-मध्यम-धैवताः ।

5 पञ्चमश् [चेत्य् अमी सप्त तन्त्रीकण्ठोल्यिताः स्वराः] ॥ १ ॥

6 काकली^e [तु कले सूक्ष्मे]

7 [ध्वनौ तु मधुरास्फुटे] ।

8 कलो

9 मन्द्रस्^f [तु गम्भीरे]

10 तारो [ऽत्युच्चैस्]

11 [त्रयस् त्रिषु]^g ॥ २ ॥

12 [समन्वितलयस् त्व्] एकतालो^h

(1) Cri des oiseaux, etc. — (2) Écho. — (3) Chanson, chant. — (4, 5) Les sept notes musicales, nommées l'une après l'autre dans le texte. [Elles sont ainsi appelées, soit que la voix ou un instrument de musique les produise]. — (6) Ton faible, inarticulé et doux [comme le ramage des oiseaux]. — (7, 8) Ton inarticulé, mais agréable. — (9) Ton bas [comme le grondement des nuages]. — (10) Ton élevé. — (12) Harmonie [ou union en mesure du chant, de la danse et de la musique instrumentale. Voyez sl. 10].

^a Ou वासितं. — ^b Aussi प्रतिस्वनः. — ^c Aussi निषदः. — ^d ऋषभः. — ^e Également काकलिः. — ^f Ou मद्रः. — ^g Les trois derniers mots changent de genre lorsqu'ils sont employés comme adjectifs. — ^h Ou एकतानः.

- 1 वीणा [तु] वल्लकी ।
 2 विपञ्ची
 3 [सा तु तन्त्रीभिः सप्रभिः] परिवादिनी ॥ ३ ॥
 4 ततं [वीणादिकं वाद्यं]
 5 आनदं^a [मुर्जादिकं] ।
 6 [वंश्यादिकं तु] शुषिरं^b
 7 [कांस्यतालादिकं] घनं ॥ ४ ॥
 8 [चतुर्विधम् इह] वाद्यं वादित्रातोद्य^c-[नामकं] ।
 9 मृदङ्गा मुर्जा
 10 [भेदास् त्व्] अंक्वालिंयोर्द्वकास्^d [त्रयः] ॥ ५ ॥
 11 [स्याद्] यशःपटहो ढक्का
 12 भेरी^e [स्त्री] तुन्दुभिः^f [पमान्] ।
 13 आनकः पटहो [स्त्री स्यात्]
 14 कोणो [वीणादिवादनं] ॥ ६ ॥
 15 वीणादण्डः प्रवालः [स्यात्]

(1, 2) Luth. — (3) Luth à sept cordes. — (4) Instrument à cordes. — (5) Tambour. — (6) Instrument à vent. — (7) Cymbale, cloche. — (8) Instrument de musique. — (9) Tambours et tambourins. — (10) Trois sortes de tambours [ils varient de grandeur et de forme, et sont portés différemment]. — (11) Double tambour [en hindi, un *dh'ól*]. — (12) Timbale, large *dh'ól*. — (13) Grande timbale. — (14) Archet, ou toute autre chose avec laquelle on joue d'un instrument de musique. — (15) Manche d'un luth.

^a Aussi अवनदं. — ^b Ou शुषिरं. — ^c वादित्र-आतोद्य. — ^d अंक्व-आलिंय-उर्दकः; aussi अंको, आलिङ्गं, et उर्दकः. — ^e Ou भेरीः. — ^f Aussi, d'après une leçon différente du texte, आनकः, आनकदुन्दुभिः et आनकदुन्दुभी.

- 1 ककुभस् [तु] प्रसेवकः^a ।
 2 कोलम्बकस् [तु कायोऽस्या]
 3 उपनाहो निबन्धनं ॥ 9 ॥
 4 [वाद्यप्रभेदा] उमरु^b-मडु-डिण्डिम-झर्राः ।
 5 मर्दलः पणवो^c [ऽन्ये च]
 6 नर्तकी-लासिके^d [समे] ॥ ८ ॥
 7 [विलम्बितं द्रुतं मध्यं] तत्वम्^e ओघो घनं [क्रमात्] ।
 8 तालः [कालक्रियामानं]
 9 लयः [साम्यं]
 10 [अथास्त्रियां] ॥ ८ ॥
 11 ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं^f [च] नर्तने ।
 12 तौर्यत्रिकं [नृत्यगीतवाद्यं] नाट्यम् [शृङ्गं त्रयं] ॥ १० ॥
 13 भ्रुकुंसश्^a [च] भ्रुकुंसश् [च] भ्रुकुंसश् [चेति नर्तकः] ।

(1) Table du luth, au-dessous du manche [vase de bois couvert de peau placé sous le manche pour rendre le son plus fort; ou pièce de bois courbée à l'extrémité du luth]. — (2) Corps du luth [complet à l'exception des cordes de métal, comprenant par conséquent la gourde, le manche et la table]. — (3) Queue [partie inférieure à laquelle les cordes sont attachées]. — (4, 5) Autres instruments de diverses sortes. [Outre les instruments cités, il y en a d'autres qui sont nommés *gomoukha*, *houd'oukka*, etc.] — (6) Danseuse. — (7) Mouvements lent, rapide et moyen, énoncés l'un après l'autre dans leur ordre. — (8) Action de battre la mesure. — (9) Mesure, temps égal [dans la musique et dans la danse]. — (10, 11) Danse. — (12) Symphonie [ou union du chant, de la danse et de la musique instrumentale]. — (13) Danseur en costume de femme.

^a Aussi प्रसेवः. — ^b Aussi उमरुकं. — ^c Ou पणवः. — ^d Au masc. नर्तकः, लासिकः danseur. — ^e Aussi तद्वं et ततद्वं. — ^f Aussi नृत्तं. — ^g Aussi भ्रुकुंसः et भ्रुकुंशः.

- 1 स्त्रीविषधारी पुरुषो]
 2 [नाट्योक्तौ गणिका-]-ञ्जुका^a ॥ ११ ॥
 3 [भगिनीपतिर्] आबुक्तो
 4 भावो [विद्वान्]
 5 [अथा-]-वुकः^b ।
 6 [जनको]
 7 [युवराजस् तु] कुमारो भर्तृदारकः ॥ १२ ॥
 8 [राजा] भद्राको देवस्
 9 [तत्सुता] भर्तृदारिका^c ।
 10 देवी [कृताभिषेकायाम्]
 11 [इतरासु च] भद्रिनी^d ॥ १३ ॥
 12 अब्रह्मण्यम्^e [अवध्योक्तौ]
 13 [राजश्यालस् तु] राक्षियः ।
 14 अम्बा [माता]

(1) Danseur en costume de femme. — (2) Courtisane. [Ce terme et ceux qui sont exposés dans les trois stances qui suivent, sont en usage dans le langage du théâtre, et quelques-uns sont employés seulement par certaines personnes. Voyez les autres dictionnaires.] — (3) Mari d'une sœur. — (4) Homme savant. — (5, 6) Père. — (7) Prince désigné comme successeur et associé à l'empire. — (8) Roi. — (9) Princesse. — (10) Reine sacrée en même temps que le roi. — (11) Femme d'un roi. — (12) Sacré [exclamation impliquant, suivant quelques-uns, une prière d'épargner l'être ou l'objet menacé]. — (13) Beau-frère d'un roi. — (14) Mère.

^a अञ्जुका. — ^b आबुक्तः; — आबूकः (Wils. Dict.) — ^c Quelques-uns ajoutent भर्तृदारिका. — ^d Un commentateur lit भोगिनी. — ^e Ou अब्राह्मण्यं.

1 [-थ वाला स्याद्] वासूर

2 [आर्यस् तु] मारिषः^a ॥ १४ ॥

3 अन्तिका^b [भगिनी ज्येष्ठा]

4 निष्ठा-निर्वहणे^c [समे] ।

5 हृण्डे हृञ्जे ह्ला-[-ह्वानं नीचं चेटों सखीं प्रति] ॥ १५ ॥

6 अङ्गहारो^d ऽङ्गविद्धोपो

7 व्यञ्जकाभिनयो^e [समौ] ।

8 [निर्वृत्ते त् अङ्गसत्वाभ्यां द्वे त्रिषु] आङ्गिक-सात्विके ॥ १६ ॥

9 [शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः ।

10 बीभत्सरौद्रौ च] साः

11 शृङ्गारः शुचिर् उज्ज्वलः ॥ १७ ॥

12 उत्साहवर्द्धनो वीरः

(1) Jeune fille. — (2) Personne vénérable. — (3) Sœur aînée. — (4) Catastrophe, conclusion de la fable. — (5) Vocatifs appropriés adressés respectivement à une personne de la basse classe, à une esclave femelle, et à une amie. [L'emploi de ces particules vocatives et des termes précédents, depuis la fin du sloca 11, est en général borné au langage théâtral.] — (6) Geste. — (7) Indication d'une passion. — (8) Deux sortes de signes [le premier corporel, comme une posture que l'on prend; le second sincère, comme une rougeur, un changement de couleur; outre d'autres sortes de signes, comme la parole, etc.] — (9, 10) Goûts ou sentiments. [Dans la poésie dramatique les goûts ou sentiments avec lesquels l'auditoire sympathise sont comptés au nombre de huit, ici énumérés; quelques-uns y ajoutent *s'anta*, la dévotion et la résignation, et d'autres, *vātsalya*, l'affection paternelle.] — (11) Amour. — (12) Héroïsme.

^a Aussi मार्षः et मार्षकः. — ^b Aussi अन्तिका ou अन्तिका. — ^c Quelques-uns ajoutent निर्वहणं. — ^d Aussi अङ्गहारिः. — ^e व्यञ्जक-अभिनय.

- 1 कारुण्यं करुणा घृणा ।
 2 कृपा दयानुकम्पा ^a [स्याद्] अनुक्रोशो [ऽप्य्]
 3 [अथो] हसः ॥ १८ ॥
 4 हासो ^b हास्यं [च]
 5 बीभत्सं विकृतं ^c [त्रिषु इदं द्वयं] ^d ।
 6 विस्मयोऽद्भुतम् आश्चर्यं चित्रम् [अप्य्]
 7 [अथ] भैरवं ॥ १९ ॥
 8 दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकं ।
 9 भयङ्करं प्रतिभयं
 10 रौद्रं [तू-]-ग्रं ^e
 11 [अमी त्रिषु ॥ २० ॥
 12 चतुर्दश ^f]
 13 द्र-त्रासौ ^g भीतिर् ^h भीः साध्वसं भयं ।
 14 [विकारो मानसो] भावो
 15 ऽनुभावो [भावबोधकः] ॥ २१ ॥
 16 गर्वो ऽभिमानो ऽहङ्कारो

(1, 2) Tendresse, compassion. — (3, 4) Rire. — (5) Dégout, aversion — (6) Surprise ou étonnant. — (7-9) Horreur ou horrible. — (10) Courroux ou courroucé. — (15) Crainte ou terreur. — (14) Sentiment ou passion. — (15) Indication d'une passion. — (16) Orgueil.

^a दया, अनुकम्पा — ^b Aussi fém. हासिका. — ^c Ou विकृतं. — ^d Les deux mots de cette ligne prennent les trois genres. — ^e अग्रं. — ^f Les quatorze mots qui précèdent, à partir de अद्भुत, prennent les trois genres, comme adjectifs. — ^g Aussi संत्रासः, उन्नासः, वित्रासः. — ^h Également भोतं, भिया, भयः.

- 1 मानश् चित्तसमुन्नतिः ।
 2 अनादरः परिभवः परिभावस्^a तिरस्क्रिया ॥ २२ ॥
 3 रीढावमाननावज्ञा^b अवहेलम्^c असूक्ष्णं^d ।
 4 मन्दाक्षं^e श्लेष् त्रपा व्रीडा^f लज्जा^g
 5 [सा-]-पत्रपा^h-[-न्यतः] ॥ २३ ॥
 6 क्षान्तिस् तितिक्षा-
 7 -भिध्याⁱ [तु परस्वविषये स्पृहा] ।
 8 अक्षान्तिर् ईर्ष्या-
 9 -सूया^j [तु दोषारोपो गुणेषु अपि] ॥ २४ ॥
 10 वैरं विरोधो विद्वेषो^k
 11 मन्यु-शोकौ [तु] शुक् [स्त्रियां] ।
 12 पश्चात्तापो ऽनुतापश् [च] विप्रतीसार^l [इत्यपि] ॥ २५ ॥
 13 कोप-क्रोधामर्ष^m-रोष-प्रतिघा ह्य-क्रुधौⁿ [स्त्रियां] ।
 14 [शुचौ तु चस्ति] शीलम्

(1) Arrogance. [Quelques-uns considèrent avec raison cet article comme synonyme du précédent.] — (2, 5) Dédain, mépris. — (4) Modestie ou honte. — (5) Timidité. — (6) Patience, indulgence. — (7) Action de convoiter le bien d'autrui. — (8) Envie [ou impatience du mérite ou des succès d'un autre]. — (9) Médisance. — (10) Inimitié. — (11) Douleur ou chagrin. — (12) Repentir. — (13) Colère ou rage. — (14) Bonne conduite.

^a Aussi परिभावः. — ^b रीढा, अवमानना [aussi विमानना] अवज्ञा. — ^c Aussi अवहेला et हेला. — ^d Aussi असूक्ष्णं, असूक्ष्णं, असूक्ष्णं et संसूक्ष्णं. — ^e Ou मन्दाक्षं. — ^f Aussi व्रीडनं et व्रीडितं. — ^g Ou लज्जा. — ^h अपत्रपा. — ⁱ अभिध्या. — ^j असूया. — ^k Aussi द्वेषः. — ^l Ou विप्रतीसारः. — ^m क्रोध-अमर्ष [ou आमर्ष]. — ⁿ ह्य-क्रुध, aussi ह्य-क्रुध et क्रुधा.

- 1 उन्मादश् चित्तविभ्रमः ॥ २६ ॥
- 2 प्रेमा [ना] प्रियता हार्दं प्रेम^a स्नेहो
- 3 [ऽथ] दोहदं ।
- 4 इच्छाकांक्षा^b स्पृहेहा^c तृड्^d वाञ्छा लिप्सा मनोरथः ॥ २७ ॥
- 5 कामो ऽभिलाषस्^e तर्षश् [च]
- 6 [स महान्] लालसा^f [द्वयोः] ।
- 7 उपाधिर् [ना] धर्मचिन्ता
- 8 [पुंस्य्] आधिर्^g [मानसी व्यथा] ॥ २८ ॥
- 9 [स्याच्] चिन्ता^h स्मृतिर् आध्यानंⁱ
- 10 उत्कण्ठोत्कलिके^j [समे] ।
- 11 उत्साहोऽध्यवसायः [स्यात्]
- 12 [स] वीर्यम्^k [अतिशक्तिभाक्] ॥ २९ ॥
- 13 कपटो [ऽस्त्री] व्याज-दम्भोपधयश्^l कृत्स्न-कैतवे ।
- 14 कुसृतिर् निकृतिः शाठ्यं

(1) Démence. — (2) Affection, amitié. — (3) Désir ou envie [comme celle d'une femme grosse; cet article est aussi synonyme du suivant.] — (4, 5) Souhait, désir. — (6) Désir ardent. — (7) Réflexion vertueuse. — (8) Anxiété ou peine mentale. — (9) Ressouvenir, recueillement. [Le dernier mot de cet article est réuni par quelques-uns à l'article suivant, et signifie *ressouvenir accompagné de regret.*] — (10) Souvenir accompagné de regret, d'affection ou de désir. — (11) Persévérance. — (12) Courage. — (13) Fraude, tromperie. — (14) Méchanceté. [Cet article est synonyme du précédent, suivant quelques-uns. Selon d'autres, ces mots

^a Aussi प्रेमं. — ^b इच्छा, आकांक्षा [ou कांक्षा]. — ^c स्पृहा, इहा. — ^d Aussi तृषा. — ^e Ou अभिलासः. — ^f Quelques-uns ajoutent लालसा, mais à tort. — ^g Ou अधिः. — ^h Aussi चिन्तिया et चिन्तः. — ⁱ Aussi आध्या. — ^j उत्कण्ठा-उत्कलिका. — ^k Ou वीर्या. — ^l दम्भ-उपधि.

1 प्रमादो ऽनवधानता ^a ॥ ३० ॥

2 कौतूहलं कौतुकं [च] कुतुकं [च] कुतूहलं ।

3 [स्त्रीणां विलासविब्रोकविभ्रमा ललितं तथा ॥ ३१ ॥

4 हेलालीलेत् अमी] ह्यावाः [क्रियाः शृङ्गारभावजाः] ।

5 द्रव-केलि ^b -परीहासाः ^c क्रीडा लीला [च] नर्म [च] ॥ ३२ ॥

6 व्याजो ऽपदेशो लक्ष्यं ^d [च]

7 क्रीडा खेला [च] कूर्दनं ^e ।

8 घर्मो निदाघः स्वेदः ^f [स्यात्]

9 प्रलयो नष्टचेष्टता ॥ ३३ ॥

10 अवहित्याकागुप्तिः ^g

11 [समौ] संवेग ^h -सम्भ्रमौ ।

signifient *malignité* ou *penchant à la tromperie*, et ceux de l'article précédent, *imposture* ou *fourberie*. — (1) Inadvertance, méprise. — (2) Empressement [véhémence dans la recherche d'une chose, ou impétuosité dans l'action, sans attention aux conséquences]. — (3, 4) Badinage ou folâtrerie. [Les exemples d'actes féminins procédant de l'amour, qui sont énoncés dans le texte, sont ainsi expliqués : *vilāsa*, changement de place, de posture, de démarche ou de regard à l'approche de l'amant; *viwoka*, affectation d'indifférence; *vibhrama*, badinage de jeunesse, caprice; *lalita*, langueur, gestes languissants; *hēld*, lascivité; *līlā*, imitation des manières de l'amant pour passer le temps en son absence.] — (5) Divertissement, amusement. — (6) Déguisement. — (7) Jeu [comme celui de la balle]. — (8) Sueur ou chaleur occasionnant la transpiration. — (9) Défaillance. — (10) Dissimulation. — ^e (11) Hâte.

^a Ou अनवधानं. — ^b Ou केली. — ^c Ou परिहासः. — ^d Aussi लक्ष्यं. — ^e Quelques-uns lisent à tort कूर्दनं. — ^f Aussi प्रस्वेदः. — ^g अवहित्या, [aussi अवहित्यं, et अहित्यं] आकारगुप्तिः. — ^h Aussi आवेगः.

- 1 [स्याद्] आच्छुरित्कं ^a [हासः सोत्प्रासः]
 2 [स मनाक्] स्मितं ॥ ३४ ॥
 3 [मध्यमः स्याद्] विहसितं
 4 रोमाञ्चो ^b लोमहर्षणं ।
 5 क्रन्दितं रुदितं ^c क्रुष्टं
 6 जृम्भस् [तु त्रिषु] जृम्भणं ॥ ३५ ॥
 7 विप्रलम्भो ^d विसंवादो
 8 रिङ्गण ^e-स्वलने [समे] ।
 9 [स्यान्] निद्रा शयनं स्वापः ^f स्वप्नः संवेश [इत्यपि] ॥ ३६ ॥
 10 तन्त्री ^g प्रमीला
 11 भ्रुकुटिर् भ्रुकुटी भ्रूकुटिः ^h [स्त्रियः]
 12 अट्टष्टिः [स्याद् असौम्ये ऽक्षिण]
 13 संसिद्धि-प्रकृती [त्व इमे] ॥ ३७ ॥
 14 स्वरूपं ⁱ [च] स्वभावश् [च] निसर्गश् [चा-]

(1) Éclat de rire. — (2) Sourire. — (3) Rire. — (4) Horrification. — (5) Pleurs, larmes. — (6) Baillement. — (7) Manquement de parole [action de tromper par une fausse assurance, ou de ne pas remplir une promesse]. — (8) Action de se traîner, de se rouler [action de marcher à quatre pattes comme les enfants, ou de tomber comme sur un terrain glissant, ou de s'écarter de son devoir, etc.] — (9) Sommeil, ou erreur occasionnée par le sommeil, songe. — (10) Lassitude. — (11) Froncement de sourcils. [Quelques-uns font cet article synonyme du suivant.] — (12) Regard de déplaisir. — (13, 14) État naturel.

^a Également अचक्षुरितं. — ^b Aussi रोमहर्षः, रोमविक्रिया, रोमोद्गमः, रोमोद्देहः. — ^c Également क्रन्दनं et रोदनं. — ^d Aussi विप्रलापः. — ^e Aussi रिङ्गणं. — ^f Aussi सुप्तिः. — ^g Et तन्दिः ou तन्द्रा et तन्द्रीः; mais ce dernier mode d'inflexion est blâmé. — ^h Aussi भ्रुकुटिः, भ्रुकुटी, भ्रूकुटी et भ्रुकुटी. — ⁱ Aussi रूपं.

- 1 [-थ] वेपथुः ।
 2 कम्पो^a
 3 [सथ] क्षण उद्धर्षो मह^b उद्धव उत्सवः ॥ ३८ ॥

CHAPITRE II.

SECTION PREMIÈRE.

RÉGIONS INFERNALES, OBSCURITÉ, SERPENTS, POISON.

- 4 अधोभुवन^c-पाताल-बलिसद्य-सातलं ।
 5 नागलोको
 6 [सथ] कुह्रं शुषिरं^d विवरं विलं ॥ १ ॥
 7 छिद्रं निर्व्यथनं रोक्कं^e रन्ध्रं श्वभ्रं^f वषा शुषिः^g ।
 8 गर्तावटौ^h [भुवि श्वभ्रे]
 9 [सरन्ध्रे] शुषिरं [त्रिषु] ॥ २ ॥
 10 अन्धकारो [सस्त्रियां] ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमःⁱ ।
 11 [ध्वान्ते गाढे] सन्धतमसं^j
 12 [क्षीणे] सवतमसं

(1, 2) Tremblement. — (3) Fête. — (4, 5) Région infernale, séjour de *Bali* et des *Nāgas* sous la terre. — (6, 7) Trou ou vide. — (8) Trou dans la terre. — (9) Perforé ou plein de trous. — (10) Obscurité. — (11) Grande obscurité. — (12) Obscurité incomplète.

^a Aussi कम्पनं et कम्पितं. — ^b Aussi महस्. Voy. liv. III, chap. iv. — ^c Aussi अधस् ind. अधोलोकः m. etc. — ^d Ou सुषिरं. — ^e Aussi विरोक्कं. — ^f Ou स्वभ्रं. — ^g Aussi शुषी et सुषिः. — ^h गर्त-श्ववट; aussi श्ववटिः. — ⁱ Aussi तमसं et तमः, तमा, तमं. — ^j Aussi अन्धतमसं.

- 1 [तमः ॥ ३ ॥
 2 विष्वक्] सन्तमसं
 3 नागाः काद्रवेयास्
 4 [तदीश्वरः] ॥ ४ ॥
 5 शेषो ऽनन्तो
 6 वासुकिस्^a [तु] सर्पाजो
 7 [ऽथ] गोनसे^b ।
 8 तिलित्सः [स्याद्]
 9 अजगरे शयुर् वाह्स [इत्य् उभौ] ॥ ५ ॥
 10 अलर्गेद्वा^c जलव्यालः
 11 [समौ] राजिल-डुण्डुभौ^d ।
 12 मालुधानो मातुलाहिरू

(1, 2) Obscurité universelle. — (3) *Nāgas* [demi-dieux ayant une forme humaine, avec une queue de serpent et le cou étendu du *coluber naga*; ils sont enfants de *Kadrou*, femme de *Kaś'yaṇa*]. — (4, 5) *Sécha*, leur chef. — (6) *Vāsouki*, roi des serpents [fils de *Vasouka*, et souvent confondu avec le précédent comme les autres chefs des *Nāgas*, *Takchaka*, *Sankha*, *Mahāpadma*, etc.] — (7, 8) Espèce de serpent. — (9) Boa ou grand serpent, *boa constrictor*, etc. — (10) Serpent aquatique. — (11) Amphibène; généralement représenté comme un serpent à double tête, inoffensif. [Les commentateurs ne sont nullement d'accord sur les noms vulgaires des serpents mentionnés dans le texte.] — (12) Serpent bigarré [un commentateur le décrit comme un serpent à quatre pattes avec un large corps et une longue queue; désignant peut-être une espèce d'*iguana*; à moins qu'il ne soit question d'un animal fabuleux.]

^a Ou वासुकिः. — ^b गोनसः ou गोनासः, vulg. *bor*. — ^c Quelques-uns lisent अलर्गदः, d'autres अलिर्गदः; vulg. *alādh*. — ^d डुण्डुभः ou दृण्डुभः et उडुभः; vulg. *dhonra*.

- 1 निर्मुक्तो मुक्ताकञ्चुकः ॥ ६ ॥
- 2 सर्पः पृदाकुर भुजगो भुजंगो ऽहिर भुजङ्गमः ।
- 3 आशीविषो विषधरश् चक्री व्यालः^a सरीसृपः^b ॥ ७ ॥
- 4 कुण्डली गूढपाच्^c चक्षुःश्रवाः काकोदरः फणी ।
- 5 द्वर्वाकरो दीर्घपृष्ठो दृक्षूको विलेशयः^d ॥ ८ ॥
- 6 उरगः^e पन्नगो भोगी जिह्मगः पवनाशनः ।
- 7 [त्रिष्व] आह्वयं [विषास्थ्यादि]
- 8 स्फटायां^f [तु] फणा^g [द्वयोः] ॥ ९ ॥
- 9 [समौ] कञ्चुक-निर्मोकौ
- 10 क्ष्वेउस् [तु] गरलं विषं ।
- 11 [पुंसि क्लीवे च] काकोल-कालकूट-ह्लाह्लाः^h ॥ १० ॥
- 12 सौराष्ट्रिकःⁱ शौक्लिकेयो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः ।
- 13 दारदो वत्सनाभश् [च विषभेदा अमी नव] ॥ ११ ॥
- 14 विषवैद्यो जाङ्गलिको^j
- 15 व्यालग्राह्य^k आहितुण्डिकः^l ।

(1) Serpent qui a dépouillé sa peau. — (2-6) Serpent. — (7) Appartenant à un serpent, *adj.* — (8) Cou du serpent étendu en forme de coiffe. — (9) Sa peau. — (10) Son venin. — (11-13) Poisons de neuf sortes énumérés, les uns minéraux, les autres végétaux. — (14) Marchand d'antidotes ou sorcier employant des charmes contre le poison. — (15) Preneur de serpents.

^a Ou व्याडः. — ^b Quelques-uns ajoutent सरिसृपः. — ^c गूढपाद्, aussi गूढपदः et गूढपादः. — ^d Ou विलशयः. — ^e Aussi उरगः et उरगमः. — ^f स्फटा ou फटा. — ^g Masc. et fém.; aussi neut. — ^h Aussi हालाहलः, हालहलः et हाहलः. — ⁱ Ou सौराष्ट्रिकः. — ^j Ou जाङ्गलिकः. — ^k व्यालग्राही ou व्यालग्राहः. — ^l Aussi अहितु-ण्डिकः.

SECTION II.

ENFER, AMES DES TRÉPASSÉS, MISÈRE, PEINE.

- 1 [स्यान्] नारकस् [तु] नरको निरयो दुर्गतिः [स्त्रियां] ।
 2 [तद्भेदास्] तपनावीचि^a -महारौख-रैरवाः ॥ १ ॥
 3 संहारः^b कालसूत्रं [चेत्याद्याः]
 4 [सत्वास् तु] नारकाः ।
 5 प्रेता^c
 6 वैतरणी^d [सिन्धुः]
 7 [स्याद्] अलक्ष्मीस् [तु] निर्ऋतिः ॥ २ ॥
 8 विष्टिर् आजूः^e
 9 कारणा^f [तु] यातना^g तीव्रवेदना ।
 10 पीडा बाधा^h व्यथा दुःखम् आमनस्यंⁱ प्रसूतिजं ॥ ३ ॥

(1) Enfer. — (2, 3) Différents enfers énumérés dans le texte [il y en a d'autres encore comme le *Támisra*, l'*And'hatámisra*, la *Sálmali*, l'*Asi-patravana*, etc. Voyez Manou, IV, 87]. — (4, 5) Ames des trépassés. — (6) Rivière de l'enfer. — (7) Malheur ou misère. — (8) Travail non payé [ou bien, action de jeter dans l'enfer; ou, en astrologie, la période [*karan'a*] appelée *bhadrá*. — Un travail forcé et non récompensé étant une cause de peine, est placé dans ce chapitre; les mots énoncés désignent, suivant quelques-uns, la personne qui exécute un semblable travail]. — (9) Agonie ou peine vive. — (10) Peine. [Les deux derniers mots sont séparés du reste, par quelques-uns, comme signifiant *détresse mentale*; d'autres, au contraire, les font, ainsi que les quatre qui précèdent, synonymes des trois de l'article suivant.]

^a तपन-अवीचि. — ^b Ou संघातः. — ^c Aussi परेताः. — ^d Ou वैतरणिः. — ^e आजू
 ou आजूर. — ^f Ou कारिका. — ^g Ou याचना. — ^h Ou आत्राधा. — ⁱ Aussi अमा-
 नस्यं et आमनस्यं.

1 [स्यात्] कष्टं कृच्छ्रम् आभीलं

2 [त्रिषु एषां भेद्यगामि यत्]^a ॥ ४ ॥

SECTION III.

MERS, EAU, ILES, RIVAGES, BATEAUX, POISSONS, PIÈCES D'EAU,
PLANTES AQUATIQUES.

3 समुद्रो ऽब्धिर् अकूपारः^b पारावारः^c सस्तिपतिः ।

4 उद्वान् उदधिःसिन्धुः सरस्वान् सागरो ऽर्णवः ॥ १ ॥

5 रत्नाकरो जलनिधिर् यादःपतिर् अपांपतिः ।

6 [तस्य प्रभेदाः] क्षीरोदो लवणोदस् [तथापरे] ॥ २ ॥

7 आपः^d [स्त्री भूमि] वारु वारि सलिलं^e कमलं जलं^f ।

8 पयः कीलालम् अमृतं जीवनं^g भुवनं वनं ॥ ३ ॥

9 कबन्धम्^h उदकंⁱ पाथः पुष्करं सर्वतोमुखं ।

10 अम्भो ऽर्णस् तोय-पानीय-नीर^j-क्षीराम्बु^k-शम्बरं^l ॥ ४ ॥

11 मेघपुष्पं घनरसस्

(1) Peine corporelle. — (3-5) Mer ou océan. — (6) Mers particulières, celle de lait et celle d'eau salée [outre cinq autres, comme la mer d'eau fraîche, celle de liqueur spiritueuse, celle de beurre, celle de lait caillé, et celle de jus de canne à sucre; ce sont vraisemblablement des désignations de golfes, ou divisions de l'océan]. — (7-11) Eau.

^a Ceux des mots précédents qu'on emploie comme adjectifs prennent les trois genres. — ^b Aussi आकूपारः, कूपारः et कूपारः. — ^c Ou पारावारः et अवारवारः. — ^d Sing. अप्, aussi आपस् neut. — ^e Aussi सरिलं ou सलं. — ^f Ou त्रुडं. — ^g Aussi जीवनीय. — ^h Ou suivant une autre leçon कम् अन्धं, ou encore d'un seul mot कम्बन्धं. — ⁱ Aussi उदं et दकं. — ^j Aussi नारं. — ^k क्षीर-अम्बु. — ^l Ou सम्बरं.

- 1 [त्रिषु द्वे] आप्यम् अम्मयं ।
 2 भङ्गस् तरङ्ग उर्मिर्^a [वा स्त्रियां] वीचिर्^b
 3 [अथोर्मिषु ॥ ५ ॥
 4 महत्सू-]-लोल^c-कल्लोलौ
 5 [स्याद्] आवर्ता [ऽम्भसां भ्रमः] ।
 6 पृषन्ति^d विद्भु-पृषताः [पुमांसो] विद्भुषः^e [स्त्रियः] ॥ ६ ॥
 7 वक्राणि^f पुटभेदाः [स्युर्]
 8 भ्रमाश्च [च] जलनिर्गमाः ।
 9 कूलं रोधश्^g [च] तीरं [च] प्रतीरं [च] तटं [त्रिषु] ॥ ७ ॥
 10 पारावारे^h [पार्वीची तीरे]
 11 पात्रं [तदन्तरं] ।
 12 द्वीपो [ऽस्त्रियाम्] अन्तरीपं [यद् अन्तर्वीरिणस् तटं] ॥ ८ ॥
 13 [तोयोत्थितं तत्] पुलिनं
 14 सैकतं सिक्तामयं ।

(1) Humide ou formé d'eau comme l'écume, etc. — (2) Vague, flot. — (3, 4) Houle, lame d'eau. — (5) Gouffre. — (6) Goutte d'eau ou de tout autre liquide. — (7) Descente d'eau tournante, courant tortueux [selon quelques-uns, bras de rivière; suivant d'autres, eau tournoyante]. — (8) Tranchée, ou conduit le long d'un mur d'un édifice [ou bien bouillonnement d'eau, ou bien encore ressac de la mer. — Quelques-uns font cet article synonyme du précédent.] — (9) Rivage, bord. — (10) Bord opposé [pāra] et prochain [avāra]. — (11) Lit d'une rivière. — (12) Ile. — (13) Ile formée par alluvion [ou bien ayant des bords escarpés, ou île quelconque]. — (14) Banc de sable [ou île ayant des

^a Masc. et fém. aussi उर्मो f. — ^b Aussi विचिः et वीची ou विची f. — ^c उल्लोल. — ^d Sing. पृषत्; aussi पृषन्ति n. — ^e विद्भुष [वद्भुट] ou विद्भुष. — ^f वक्रं ou चक्रं. — ^g Neut. aussi रोधः masc. — ^h पार-स्यवार.

- 1 निषद्वरस् [तु] जम्बालः पङ्को [ऽस्त्री] शद्व-कद्वमौ ॥ ८ ॥
 2 जलोच्छ्वासाः परीवाहाः^a
 3 कूपकास् [तु] विद्वारकाः ।
 4 नाव्यं [त्रिलिंगं नौतार्ये]
 5 [स्त्रियां] नौस्^b तरणिस् तरिः^c ॥ १० ॥
 6 उडुपं^d [तु] प्लवः कौलः
 7 स्रोतो^e [ऽम्बुसरणं स्वतः] ।
 8 आतरस्^f तरपण्यं [स्याद्]
 9 द्रोणी^g काष्ठाम्बुवाहिनी^h ॥ ११ ॥
 10 सांयात्रिकः पोतवणिक्
 11 कर्णधारस् [तु] नाविकः ।
 12 नियामकाःⁱ पोतवाहाः

rivages sablonneux]. — (1) Boue, bourbe. — (2) Inondation [ou bien conduit ou canal pour faire écouler un excès d'eau]. — (3) Puits temporaire [ou trou creusé pour l'eau dans le lit desséché d'un ruisseau, ou encore roc ou arbre divisant le courant d'une rivière]. — (4) Navigable. — (5) Bateau. — (6) Radeau, train fait d'herbe, etc. — (7) Courant naturel [ou courant rapide]. — (8) Passage, prix du passage. — (9) Bassin ovale [ayant la forme d'un bateau, avec une ouverture par devant, et employé pour verser de l'eau; on le fait de bois, de pierre ou d'autres matériaux]. — (10) Marchand qui voyage. — (11) Pilote. — (12) Batelier, marinier [ce qui s'entend du timonier ou du rameur, de celui qui est employé à traîner le bateau, ou de celui qui veille en haut du mât].

^a परीवाहः ou परिवाहः. — ^b Aussi नौका. — ^c Aussi तरणी et तरी. — ^d Également उडुपं. — ^e Ou स्रोतं. — ^f Aussi आतारः. et अनुतरः. — ^g Ou द्रोणिः et द्रुणिः ou द्रुणी. — ^h Suivant une autre leçon द्रोणिका अम्बुवाहिनी; aussi अम्बुसेचनी. — ⁱ नियामकः ou नियामः.

- 1 कूपको गुणवृक्षकः ॥ १२ ॥
 2 नौकादण्डः क्षेपणिः^a [स्याद्]
 3 अरित्रं केनिपातकः ।
 4 अभ्रिः^b [स्त्री] काष्ठकुक्षालः^c
 5 सेकपात्रं [तु] सेचनं ॥ १३ ॥
 6 [क्लीवे] ऽर्द्धनावं [नावो ऽर्द्धे]
 7 [ऽतीतनौके] ऽतिनु [त्रिषु] ।
 8 [त्रिषु] अगाधात्^d
 9 प्रसन्नो ऽच्छः^e
 10 कलुषो ऽनच्छ आविलः ॥ १४ ॥
 11 निम्नं गभीरं गम्भीरम्
 12 उत्तानं [तद्विपर्यये] ।
 13 अगाधम्^f अतलस्पर्श
 14 कैवर्ते दास^g-धीवरौ ॥ १५ ॥
 15 आनायः [पुंसि] जालं [स्यात्]
 16 शणसूत्रं^h पवित्रकं ।

(1) Mât [suivant quelques-uns, poteau auquel un bateau est amarré]. — (2) Rame, aviron. — (3) Gouvernail. — (4) Ratissoire ou pelle. — (5) Seau, ou vase pour ôter l'eau d'un bateau. — (6) Moitié d'un bateau. — (7) Débarqué d'un bateau. — (9) Clair, transparent. — (10) Trouble. — (11) Profond. — (12) Bas. — (13) Très-profond. — (14) Pêcheur. — (15) Filet. — (16) Ficelle faite de crotalaire jon-

^a Ou क्षेपणी et क्षिपणिः ou क्षिपणी. — ^b Ou अभ्रो et अभ्रिः. — ^c Aussi कूददालः et कुदालः. — ^d Les mots suivants jusqu'à अगाध sont adjectifs. — ^e Aussi स्वच्छः. — ^f Aussi अगाधं. — ^g Ou दासः. — ^h Aussi शणसूत्रं et सनसूत्रं.

1 मत्स्याधानी कुवेणी ^a [स्यद्]

2 वडिशं ^b मत्स्यवेधनं ^c ॥ १६ ॥

3 पृथुरेमा कषो ^d मत्स्यो ^e मीनो वैसारिणो ^f ऽण्डजः ।

4 विसारः शकली ^g [चा-]

5 [-द्य] गडकः शकुलार्भकः ॥ १७ ॥

6 सल्लदंष्ट्रः पाठीन

7 उलुपी ^h शिशुकः [समौ] ।

8 नलमीनश् ⁱ चिलिचिमः ^j

9 प्रोष्ठी [तु] शफरी ^k [द्वयोः] ॥ १८ ॥

10 द्रुद्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधानम्

11 [अथो कषाः] ।

cée [ou suivant d'autres interprétations, filet fait de semblables ficelles, ou généralement corde d'un filet]. — (1) Panier à poisson. — (2) Hamçon. — (3, 4) Poisson. — (5) Espèce de dorade, *sparus cmarginatus*, Buch. — (6) Espèce de silure, *silurus pelorius*, B. — (7) Marsouin [ou, suivant quelques interprétations, autre espèce de poisson ayant la forme du marsouin]. — (8) Sorte de mélette, *clupea cultrata*, B. ? [Trois explications différentes sont données par divers auteurs, mais tous s'accordent à dire que le poisson dont il est question fréquente les glayeuls aquatiques et les roseaux]. — (9) Espèce de carpe, *cyprinus chrysoparius*, B. * *C. pausius* et * *C. sophore*, Ham. Wils. Dict. — (10) Petit frai. — (11, et p. 60, lig. 1 et 2.) Diverses espèces de poissons énumérées dans le texte, savoir : le *rohita*, sorte de carpe, *cyprinus denticulatus*, B. * *C. rohita*, Ham. — le

* Ou कुवेणिः et कुवेणाः; aussi कुपिणी. — ^b Ou वडिशा et वडिशी; aussi वलिशं et वलिशी. — ^c Ou मत्स्यवेधनी. — ^d Ou कसः. — ^e Aussi मच्छः et मत्सः. — ^f Aussi विसारी. — ^g Aussi शक्री. — ^h Aussi उलूपी, उल्लूपी, उलुपी, उलपी, चुलूपी. — ⁱ Ou तलमीनः et नडमीनः. — ^j Aussi चिलीचिमिः, चिलिचिमः, चिलीचिमः, चिलिचिमिः, चिलीमः, चिलिमीनकः. — ^k Suivant quelques-uns शफरी masc. शफरः.

- 1 रोहितो ^a मद्गुरः शालो ^b रज्जीवः शकुलस् ^c तिमिः ॥ १९ ॥
 2 तिमिङ्गिला-[-द्वयश् चा-]
 3 [-थ] यादांसि जलजन्तवः ^d ।
 4 [तद्देहाः] शिशुमारोद् ^e - शङ्खो ^f मकार-[-द्वयः] ॥ २० ॥
 5 [स्यात्] कुलीरः कर्कटकः ^g
 6 कूर्मे कमठ-कच्छुपौ ।
 7 ग्राहो स्वहारो
 8 नक्रस् [तु] कुम्भीरो ^h
 9 [-थ] महीलता ॥ २१ ॥
 10 गण्डूषट्ः किञ्चुलुको ⁱ
 11 निहाका गोधिका [समे] ।

madgoura, espèce de silure, *silurus batrachus*, L. * *macropteronatus magur*, Ham. — le *s'ala*, sorte de dorade, *sparus spilotos*, B. * *ophiocephalus wrahl*, Ham. — le *radjiva*, grand poisson * *cyprinus niloticus*, B. — le *s'akoula*, poisson inconnu, et le *timi*, poisson de mer fabuleux d'une taille prodigieuse, de même que le *timingila* [et autres espèces mentionnées dans d'autres dictionnaires]. — (3) Animaux aquatiques spécialement amphibiés. — (4) Diverses espèces énumérées, entr'autres, savoir : le *s'is'oumdra*, espèce de marsouin, * *delphinus gangeticus*, Wils. Dict. — l'*oudra*, espèce de loutre; le *s'ankou*, sorte de raie, * *raia sankur*, Ham. — le *makara*, ou monstre marin [baleine ou veau marin?]. — (5) Cancres. — (6) Tortue. — (7) Requin [les explications diffèrent: suivant un commentateur, c'est un éléphant d'eau; peut-être faut-il entendre par là l'hippopotame? suivant d'autres, c'est l'alligator ou crocodile du Gange]. — (8) Crocodile. — (9, 10) Ver. — (11) Alligator ou crocodile du Gange [quelques-uns

^a Aussi रोहित् et लोहितः. — ^b Ou शालः. — ^c Ou सकुलः, suivant quelques-uns. — ^d Sing. यादः, जलजन्तुः. — ^e शिशुमार-उद्. — ^f Sing. शङ्खुः. — ^g Ou कर्कटः. — ^h Ou कुम्भीलः. — ⁱ Aussi किञ्चिलिकः et किञ्चुलूकः ou किञ्चुलुः.

- 1 रक्तपा [तु] जलौकायां^a [स्त्रियां भूमि] जलौकसः^b ॥ २२ ॥
 2 मुक्तास्फोटः [स्त्रियां] श्रुक्तिः
 3 शंखः [स्यात्] कम्बुर [अस्त्रियां] ।
 4 क्षुद्रशंखाः शंखनखाः^c
 5 शम्बूका^d जलश्रुक्तयः^e ॥ २३ ॥
 6 भेके मण्डूक- वर्षाभू^f-शालूर^g-प्लव- दुर्गाः ।
 7 शिली^h गण्डूपदी
 8 भेकी वर्षाभ्वी
 9 कमठी दुलिःⁱ ॥ २४ ॥
 10 [मद्दुरस्य प्रिया^j] शृङ्गी^k
 11 दुर्नामा^l दीर्घकोषिका^m ।
 12 जलाशया जलाधारास्

disent que c'est l'*iguana*, distinguant toutefois une espèce différente de l'espèce aquatique]. — (1) Sangsue. — (2) Huitre à perle. — (3) Conque. — (4) Petites coquilles. — (5) Coquilles bivalves. — (6) Grenouille. — (7) Petit ver [ou, suivant quelques-uns, ver femelle]. — (8) Grenouille femelle [ou petite grenouille]. — (9) Tortue femelle [ou petite tortue]. — (10) Espèce de silure, *silurus pungentissimus*, B. — (11) Pétoncle. — (12) Lac ou étang, réservoir ou pièce d'eau quelconque.

^a जलौका ou जलोका, जलूका, जलायुका, जलासुका, जलालोका, जलजन्तुका, जलसूची, जलोरगी, जलिकावेणी. — ^b Pluriel avec la signification du singulier, aussi जलैकाः ou जलौकसी, ou bien जलौकसः m. et जलौकसं n. — ^c शंखनखः ou शंखनकः. — ^d शंबूकः, ou शंबुकः, शंबुः, श्रांबुकः et श्रांबूकः. — ^e जलश्रुक्तिः. — ^f Aussi वृष्टिभूः. — ^g Ou शालूरः. — ^h Un commentateur lit सिली. — ⁱ Ou दुली, दुलिः et दुडिः. — ^j Ou, suivant quelques commentateurs, deux synonymes, मद्दुरस्य [मद्दुरसी] अप्रिया. — ^k Aussi शृंगिः. — ^l Aussi दुर्नामो. — ^m Ou दीर्घकोषिका.

- 1 [तत्रागाधजलो] दूहः^a ॥ २५ ॥
 2 आहावस् [तु] निपानं [स्याद् उपकूपजलाशये] ।
 3 [पुंस्य् स्वा-]-न्धु^b-प्रही कूप उदपानं [तु पुंसि वा] ।
 4 नेमिस् त्रिका-[-स्य]
 5 वीनाहो^c [मुखबन्धनम् अस्य यत्] ॥ २६ ॥
 6 पुष्करिण्यां^d [तु] खातं [स्याद्]
 7 अखातं^e द्वेखातकं ।
 8 पद्माकस् तडागो^f [ऽस्त्री]
 9 कासारः सरसी सरः ॥ २७ ॥
 10 वेशन्तः पल्वलं [चा-]-ल्पसरो^g
 11 वापी^h [तु] दीर्घिका ।
 12 खेयं [तु] परिखा-

(1) Lac profond. — (2) Auge près d'un puits [remplie au moyen du puits, et servant à abreuver les bestiaux]. — (3) Puits. — (4) Barre de bois triangulaire pour la corde du puits [ou, selon d'autres, charpente de bois à la base du puits, sur laquelle repose la maçonnerie, ou bien couvercle du puits, ou encore pièce de bois placée à son ouverture]. — (5) Couvercle ou dessus d'un puits. — (6) Grand étang. — (7) Étang naturel [ou étang au devant d'un temple]. — (8) Étang assez profond pour le lotus. — (9) Étang ou réservoir quelconque. [Cet article est synonyme du précédent, suivant quelques interprétations, selon d'autres, les trois mots énoncés sont restreints dans leur signification à un étang semblable au précédent, mais factice.] — (10) Bassin ou petit étang [ou étang qui, dans la saison chaude, est bas ou entièrement à sec]. — (11) Étang large et oblong. — (12) Fossé.

* Aussi दूहः. — ^b अन्धु. — ^c Quelques-uns ajoutent विनाहः. — ^d पुष्करिणी. — ^e Aussi आखातं. — ^f Ou तडाकः et तटाकः. — ^g अल्पसरो. — ^h Ou वापिः.

- 1 -धास् ^a [त् अम्भसां यत्र धारणं] ॥ २८ ॥
- 2 [स्याद्] आलवालम् ^b आवालम् आवापो
- 3 [ऽथ] नदी सस्ति ।
- 4 तरंगिणी शैवलिनी तटिनी ह्रदिनी ^c धुनी ^d ।
- 5 स्रोतस्विनी ^e द्वीपवती स्रवन्ती निम्नगापगा ^f ॥ २९ ॥
- 6 गङ्गा विष्णुपद्मे जङ्गतनया सुरनिम्नगा ।
- 7 भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्मसूर [अपि] ॥ ३० ॥
- 8 कालिन्दी सूर्यतनया यमुना ^g शमनस्वसा ।
- 9 रेवा [तु] नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका ^h ॥ ३१ ॥
- 10 कस्तोया सदानीरा
- 11 वाहुदा सैतवाहिनी ।
- 12 शितद्रुम् ⁱ [तु] शतद्रुः [स्याद्]
- 13 विपाशा [तु] विपाट् [स्त्रियां] ॥ ३२ ॥
- 14 शोणो हिरण्यवाहुः ^j [स्यात्]
- 15 कुल्या-[-ल्पा कृत्रिमा सस्ति] ।

(1) Digue. — (2) Bassin autour du pied d'un arbre. — (3-5) Rivière. — (6, 7) Le Gange. — (8) La *Yamound*, vulgairement *Djemna* ou *Djawan* [elle se réunit au Gange près de *Prayâga*]. — (9) La *Narmadâ* vulgairement *Narbadâ*. — (10) La *Karatoyâ* [rivière du nord du Bengale]. — (11) La *Bâhoudâ*, * vulg. *Behut* [Hydaspes] Wils. Dict. — (12) La *S'atadrou*, vulg. *Setledje* [rivière du Pendjâb]. — (13) La *Vipâs'a* [autre rivière du Pendjâb]. — (14) Le *Sona* [il se réunit au Gange au-dessus de *Patna*]. — (15) Canal ou conduit pour l'irrigation, ruisseau en général.

^a आधास्. — ^b Aussi अलवालं. — ^c Aussi ह्रदिनी. — ^d Également धुनिः et धूनी. — ^e Aussi स्रोतस्वती et स्रोतोवहा. — ^f निम्नगा, अपगा, ou अपगा. — ^g Aussi यमी. — ^h Ou मेकलकन्यका. — ⁱ Aussi शतुद्रिः. — ^j Ou हिरण्यवाहः.

- 1 शशवती वेत्रवती चन्द्रभागा^a सरस्वती ॥ ३३ ॥
 2 कावेरी [सस्ति ऽन्याश् च]
 3 सम्भेदः सिन्धुसंगमः ।
 4 [द्वयोः] प्रणाली [पयसः पदव्यां]
 5 [त्रिषु तूत्तरौ ॥ ३४ ॥
 6 देविकायां सखां च भवे] द्वाविक-सारवौ ।
 7 सौगन्धिकं [तु] कल्लारं
 8 क्लृप्तं रत्नासन्ध्यकं ॥ ३५ ॥
 9 [स्याद्] उत्पलं कुवलयम्^b
 10 [अथ] नीलाम्बुजन्म [च] ।
 11 इन्दीवरं^c [च नीले ऽस्मिन्]
 12 [सिते] कुमुद^d-कैरवे ॥ ३६ ॥

(1, 2) Différentes rivières nommées dans le texte, la *S'arāvati*, la *Vétra-vatī*, * vulg. *Betwa*, rivière qui se jette dans la *Djemna* au-dessous de *Calpi*; la *Tchandrabhāgā*, * vulg. *Tchinab*, dans le *Pendjāb*; la *Sarasvatī*, * vulg. *Sarsouti*; la *Kāvērī*, * rivière du *Dékhan* [outre d'autres comme celles de *Kausikī*, *Gandakī*, *Godāvarī*, *Tcharmanvatī*, *Tāpī* ou *Tapatī*, *Sarayou*, *Gautamī* etc.]. — (3) Embouchure d'une rivière [confluent de deux rivières, ou jonction d'une rivière avec la mer]. — (4) Issue d'un étang, égouttoir d'un édifice. — (5, 6) Appartenant à certaines rivières, à la *Dévikā* [ou *Dévā*], et à la *Sarayou* [ou *Sarjou*] respectivement. [Dans ces deux exemples l'adjectif est irrégulier]. — (7) Nénuphar blanc, *nymphaea lotus*. [Les deux mots de cet article et les deux de l'article suivant sont des noms de quatre plantes différentes, suivant quelques commentateurs]. — (8) Nénuphar rouge, *nymphaea rubra*. — (9) Nénuphar quelconque. — (10, 11) Nénuphar bleu; *nymphaea caerulea*, et *nymphaea stellata*? — (12) Nénuphar blanc bon à manger, *nymphaea esculenta*.

^a Ou चन्द्रभागी, aussi चान्द्रभागा, ou -गी. — ^b Aussi कुवलं, कुवं et कुवेलं. — ^c Ou इन्दीवारं. — ^d Aussi कुमुत्.

- 1 शालूकम्^a [एषां कन्दः स्याद्]
- 2 वारिपर्णी^b [तु] कुम्भिका ।
- 3 जलनीली [तु] शैवालं^c शैवलो^d
- 4 [ऽथ] कुमुद्वती^e ॥ ३७ ॥
- 5 कुमुद्विन्यां
- 6 नलिन्यां [तु] विसिनी-पद्मिनी-[-मुखाः^f] ।
- 7 [वा पुंसि] पद्मं नलिनम् अरविन्दं महोत्पलं ॥ ३८ ॥
- 8 सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयं ।
- 9 पंकेरुहं ताम्रसं सारसं सरसीरुहं^g ॥ ३९ ॥
- 10 विसप्रसून^h-राजीव-पुष्करम्भोरुहाणिⁱ [त्र] ।
- 11 पुण्डरीकं सिताम्भोजम्
- 12 [अथ] रक्तसरोरुहे ॥ ४० ॥
- 13 रक्तोत्पलं कोकनटं

(1) Racine bonne à manger, d'une des espèces précédentes. — (2) *Pistia stratiotes*. — (3) *Vallisneria*, et différentes espèces trouvées dans les eaux stagnantes. — (4, 5) Place abondante en nénuphars [ou comme quelques-uns l'interprètent, tige flexible d'un nénuphar, ou suivant d'autres, la plante nommée *menyanthes indica* ou *cristata*]. — (6) Assemblage de fleurs de lotus. — (7-10) Lotus; *nelumbium speciosum*, ou *nymphaea nelumbo*. — (11) Lotus blanc. — (12, 13) Lotus rouge.

^a Ou शालूकं. — ^b Ou वारिपर्णी; aussi पर्णी. — ^c शैवालं (*Ed. Calc.—Wils. Dict.—MSS.*) शैवालं (*Ed. Ser.*) — ^d Également शैवलं; aussi शैवलं, शैवालः, शैवालः et शैवालः masc. et neut. mais les manuscrits sont en désaccord sur le genre assigné à ces différentes leçons. — ^e Également कुमुद्वती. — ^f Outre d'autres synonymes comme मृपालिनी, कमलिनी, पुटकिनी etc. — ^g Aussi सरसिरुहं. —

^h Aussi विशप्रसूनं et विषप्रसूनं. — ⁱ पुष्कर-अम्भोरुहः; aussi अम्भोरुहः [-रुहः].

- 1 नाला^a नालम्
 2 [अथास्त्रियां] ।
 3 मृणालं^b विसम्^c
 4 [अब्जादिकदम्बे] षण्डम्^d [अस्त्रियां] ॥ ४१ ॥
 5 कर्हाटः शिफाकन्दं^e
 6 किञ्जल्कः केशरो^f [ऽस्त्रियां] ।
 7 संवर्तिका^g नवदलं
 8 बीजकोशो^h वराटकः ॥ ४२ ॥
 9 [उक्तं स्वर्व्यामदिक्कालधीशब्दादि सनाद्यत्रकं ।
 10 पातालभोगि नक्कं वारि चैषां तु संगतं] ॥ ४३ ॥

(1) Tige d'un nénuphar. — (2, 3) Fibres de cette tige. — (4) Assemblage de nénuphars. — (5) Racine d'un nénuphar. — (6) Filament. — (7) Feuille nouvelle d'un nénuphar. — (8) Semence du lotus, ou péricarpe rayonné qui la contient. — (9, 10) Énumération des sections du premier livre.

^a Ou नाली; aussi नालः. — ^b Et मृणाली, petite fibre. — ^c Aussi विशं et विषं. — ^d Ou षण्डं. — ^e Masc. et neut. également शिफा f. et कन्दः m. n. — ^f Aussi केशरः. — ^g Ou संवर्तिः. et संवर्ती. — ^h Ou बीजकोषः.

LIVRE II.

CHAPITRE PREMIER.

TERRE, CONTRÉES, ROUTES, MESURES DE DISTANCE.

- 1 [वर्गः पृथ्वीपुरुक्ष्माभृद्वनौषधिमृगादिभिः ।
- 2 नृब्रह्मक्षत्रविट्शूद्रैः साङ्गोपाङ्गैर् इहोदिताः] ॥ १ ॥
- 3 भूरू भूमिर्^a अचलानन्ता^b रसा विश्वम्भरा स्थिरा ।
- 4 धरा धरित्री धरणिः क्षोणी^c ज्या काश्यपी क्षितिः ॥ २ ॥
- 5 सर्वसहा^d वसुमती वसुधोर्वो^e वसुन्धरा ।
- 6 गोत्रा कुः पृथिवी^f पृथ्वी क्ष्मावनिर्^g मेढिनी ब्रह्मी^h ॥ ३ ॥
- 7 मृन् मृत्तिकाⁱ
- 8 [प्रशस्ता तु] मृत्सा मृत्सा [च मृत्तिका] ।
- 9 उर्वरा [सर्वशस्याढ्या]
- 10 [स्याद्] ऊषः क्षारमृत्तिका ॥ ४ ॥
- 11 ऊषवान् ऊषरो^j [द्वाव् अण्य् अन्यलिङ्गौ]

(1, 2) Énoncé des chapitres de ce livre. — (3-6) Terre. — (7) Sol.
— (8) Sol excellent. — (9) — produisant toutes sortes de récoltes. —
(10) Terrain salin. — (11) Lieu dont le terrain est salin.

^a Aussi भूमि. — ^b अचला, अनन्ता. — ^c Également धरणी et क्षोणिः, क्षौणिः ou क्षौणी. — ^d Aussi सहा. — ^e वसुधा, उर्वो. — ^f Ou पृथ्वी. — ^g क्ष्मा, अवनिः ;
aussi क्षमा et अवनी. — ^h Ou महिः. — ⁱ Aussi मृदा et मृत्तिः. — ^j Ou suivant une
autre leçon ऊषरः et अनूषरः.

- 1 स्यलं स्यली^a ।
 2 [समानौ] मरु-धन्वानौ^b
 3 [द्वे] खिलाप्रहृते^c [समे] ॥ ५ ॥
 4 [त्रिषु]
 5 [अथो] जगती लोको विष्टपं^d भुवनं जगत् ।
 6 [लोको ऽयं] भारतं^e [वर्ष]
 7 [शरावत्यास् तु यो ऽवधेः ॥ ६ ॥
 8 देशः प्राग्दक्षिणः] प्राच्य
 9 उदीच्यः [पश्चिमोत्तरः] ।
 10 प्रत्यन्तो स्नेच्छदेशः [स्यान्]
 11 मध्यदेशस् [तु] मध्यमः ॥ ७ ॥
 12 आर्यावर्तः पुण्यभूमिर् [मध्यं विन्ध्यहिमालयोः] ।
 13 नीवृज् जनपदो

(1) Place, endroit de terre ferme. — (2) Région privée d'eau. — (3, 4) [Terrain] non labouré, ou inculte. — (5) Monde. — (6) L'Inde. — (7, 8) Région orientale [est, ou sud de la rivière de *S'arāvati* qui coule du nord-est au sud-ouest]. — (9) Région du nord [nord, ou ouest de la *S'arāvati*]. — (10) Pays de barbares. — (11) Région du milieu [située entre les deux chaînes de montagnes de l'*Himālaya* et du *Vindhya*, depuis le confluent du Gange et de la *Yamounā*, jusqu'à la disparition de la *Sarasvatī*,* et comprenant par conséquent les provinces modernes d'Allahâbâd, Agra, Delhi, Aoude etc.] — (12) Région sainte [s'étendant, depuis la mer orientale jusqu'à la mer occidentale, et bornée par les deux chaînes de montagnes de l'*Himālaya* et du *Vindhya*]. — (13) Contrée habitée.

^a Aussi स्यला. — ^b धन्वन्. — ^c खिल-अप्रहृत. — ^d Aussi पिष्टपं ou पिष्टपः. — ^e Ou भारतवर्ष.

1 देश-विषयौ [तू-]-पवर्तनं^a ॥ ८ ॥

2 [त्रिष्व् आगोष्ठान्^b]

3 [नउप्राये] नड्वान् नड्वल [इत्यपि] ।

4 कुमुद्वान् [कुमुदप्राये]

5 वेतस्वान् [वडुवेतसे] ॥ ९ ॥

6 शाद्वलः [शाद्वहस्ति]

7 [सजंवाले तु] पङ्कलः ।

8 जलप्रायम् अनूपं [स्यात्]

9 [पुंसि] कच्छस्^c [तथाविधः] ॥ १० ॥

10 [स्त्री] शर्करा शर्करिलः शर्करः शर्करावति^d ।

11 [देश एवादिमाव्]

12 [एवम् उन्नेयाः] सिकतावति^e ॥ ११ ॥

13 [देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसंपन्नव्रीह्यिपालितः

(1) Contrée quelconque habitée ou inhabitée. [Quelques commentateurs font cet article synonyme du précédent]. — (3) Lieu abondant en roseaux; — (4) — en nénuphars; — (5) — en rotangs; — (6) — en herbe verte. — (7) [Lieu] boueux, fangeux. — (8) Aquatique ou humide. — (9) Voisin de l'eau [quelques-uns font cet article synonyme du précédent]. — (10, 11) Plein de petites pierres. [Les deux premiers mots cités sont exclusivement applicables à une place abondante en graviers, en tessons etc.; et les deux autres, à une chose pleine de graviers.] — (12) Sablonneux. — (13, et p. 70, lig. 1.) [Terrain dont le riz est] arrosé par une rivière ou par la pluie.

^a उपवर्तनं. — ^b Les mots suivants jusqu'au premier mot du second vers de la stance 13, prennent les trois genres. — ^c Masc., aussi neutre, et suivant quelques-uns, féminin. — ^d शर्करावत्. — ^e Les dérivés se forment ici de la même manière que les précédents : ainsi, सिकता, सिकतिलः sablonneux (comme un pays;) सैकतः सिकतवान् plein de sable.

- 1 स्यान्] नदीमातृको देवमातृकश् [च यथाक्रमं] ॥ १२ ॥
 2 [सुगन्धि देशे] राजन्वान्
 3 [स्यात् ततो ऽन्यत्र] राजवान् ।
 4 गोष्ठं गोस्थानकं
 5 [तत् तु] गोष्ठीनं [भूतपूर्वकं] ॥ १३ ॥
 6 पर्यन्तभूः पस्सिरः
 7 सेतुर् आलौ^a [स्त्रियां पुमान्] ॥ १४ ॥
 8 वामलूरश् [च] नाकुश् [च] वल्मीकं^h [पुन्नपुंसकं] ।
 9 अयनं वर्त्म मार्गाध्व^c-पन्थानः^d पदवी^e सृतिः ॥ १५ ॥
 10 सरणिः^f पद्मतिः^g पथ्या वर्तन्^h एकपदीⁱ [-ति च] ।
 11 अतिपन्थाः सुपन्थाश् [च] सत्यथश् [चार्चिते ऽध्वनि] ॥ १६ ॥
 12 व्यध्वो दुग्ध्वो विपथः कद्ध्वा कापथः^j [समाः] ।
 13 अपन्थास्^k [त्] अपथं [तुल्ये]
 14 शृङ्गाटक-चतुष्पथे ॥ १७ ॥

(2) [Pays] gouverné par un roi juste. — (3) — gouverné par un monarque. — (4) Vacherie. — (5) Place d'une ancienne vacherie. — (6) Terrain voisin d'une rivière ou d'une montagne, etc. — (7) * Levée, digue, chaussée, portion de terre élevée qui sépare les champs et qui sert, durant l'inondation, pendant les pluies, au passage des voyageurs. [Wils. Dict.] — (8) Petite hauteur formée par des fourmis ou des taupes etc. — (9, 10) Route, chemin ou voie. — (11) Bonne route. — (12) Mauvaise route. — (13) Manque de route. — (14) Rencontre de quatre routes.

^a आलिः ou आली. — ^b Ou वल्मीकं. — ^c मार्ग-अध्वन्. — ^d पथिन्, पथन् ou पथ. — ^e Ou पद्विः. — ^f Aussi सरणिः, सरणी et सरणी. — ^g Ou पद्मती. — ^h वर्तनी ou वर्तनिः, aussi वर्त्मनि ou वर्त्मनी. — ⁱ एकपदी ou एकपादू. — ^j Ou कुपथः. — ^k अपथिन्.

- 1 प्रान्तरं [दूरशून्यो ऽध्वा]
 2 कान्तारो [वर्त्म दुर्गमं] ।
 5 गव्यूतिः [स्त्री] क्रोशयुगं
 4 नल्वः [क्लिष्कुचतुःशतं] ॥ १८ ॥
 5 घंटापथः संसरणं
 6 [तत् पुरस्यो-]-पनिष्करं^a ॥ १९ ॥

CHAPITRE II.

VILLES, BATIMENTS, HABITATIONS.

- 7 पूः [स्त्री] पुरो^b-नगर्यौ^c [वा] पत्तनं^d पटभेदनं^e
 8 स्थानीयं निगमो
 9 [ऽन्यत् तु यन् मूलनगरात् पुरं ।
 10 तत्] शाखानगरं
 11 वेशो^f वेश्याजनसमाश्रयः ॥ १ ॥
 12 आपणस् [तु] निषद्यायां
 13 विपणिः^g पण्यवीथिका ।

(1) Route longue et solitaire. — (2) Chemin difficile ou dangereux [mais quelques interprétations font cet article synonyme du précédent]. — (3) Lieue [mesurée par 2000 brasses]. — (4) Stade [mesuré par 400 coudées]. — (5) Grand chemin. — (6) Rue. — (7, 8) Ville ou cité. — (9, 10) Faubourg, — (11) Maison de prostituées. — (12) Marché. — (13) Boutique. [Les interprétations diffèrent ici beaucoup ; quelques-

^a उपनिष्करं. — ^b Aussi पुरिः et पुरं. — ^c नगरी. — ^d Aussi पट्टनं et पट्टनी. —
^e Ou पटभेदनं. — ^f Ou वेशः. — ^g Ou विपणी.

- 1 रथ्या प्रतोली विशिखा
 2 [स्याच्] चयो वप्रम् [अस्त्रियां] ॥ २ ॥
 3 प्राकारो वरणः शालः^a
 4 प्राचीरं^b [प्रान्ततो वृतिः] ।
 5 भित्तिः [स्त्री] कुञ्जम्^c
 6 एडुकं^d [यद् अन्तन्यस्तकीकसं] ॥ ३ ॥
 7 गृह-गेहोदवसितं^e वेश्म सद्य निवेतनं ।
 8 निशान्त-वस्त्य^f-सदनं^g भवनागार^h-मन्दिरं ॥ ४ ॥
 9 गृहाः [पुंसि च भून्व्य एव] निकाय्य-निलयालयाःⁱ ।
 10 वासः कुटी^j [द्वयोः] शाला^k सभा
 11 संजवनं^l [त्व इदं] ॥ ५ ॥
 12 चतुःशालं^m

uns font ces termes synonymes des deux précédents; selon d'autres ils signifient : rue d'un marché, étal, plate-forme sur laquelle des marchandises sont exposées pour la vente, place de vente sans marché, etc.] — (1) Grande rue. — (2) Rempart [selon des interprétations diverses : levée de terre tirée du fossé d'une ville fortifiée et servant de fondation aux murailles; fondations d'un édifice en général; levée de terre tirée d'un fossé; porte d'une ville fortifiée]. — (3) Bâtiment [particulièrement : mur de clôture en maçonnerie sur un rempart ou sur une levée de terre]. — (4) Haie, mur de terre ou toute autre clôture. — (5) Mur. — (6) Mur construit avec des décombres [ou tombeau]. — (7-10) Maison. — (11, 12) Groupe de quatre maisons.

^a Ou सालः. — ^b Aussi प्राचीनं. — ^c Ou कुञ्चं. — ^d Ou एडुकं et एडोक्. — ^e गेह-उदवसितं. — ^f Ou वस्त्यं. — ^g Aussi सादनं. — ^h भवन-भ्रगार (ou भ्रगार) — ⁱ निलय-भ्रालय. — ^j Masc. ou fém. कुटिः, fém. कुटी, aussi कुटीरं, कुटः et कूटः. (Ed. Calc. — Wils. Dict.) — ^k Ou साला. — ^l Ou संयमनं. — ^m Aussi चतुःशाली ।

- 1 [मुनीनां तु] पर्णशालोटजो^a [ऽस्त्रियां] ।
 2 चैत्यम् आयतनं [तुल्ये]
 3 वाजिशाला [तु] मन्दुरा ॥ ६ ॥
 4 आवेशनं शिल्पशाला^b
 5 प्रपा पानीयशालिका ।
 6 मठश्च [छात्रादिनिलयो]
 7 गञ्जा^c [तु] मद्रिगृहं ॥ ७ ॥
 8 गर्भागारं वासगृहं
 9 अरिष्टं सूतिकागृहं^d ।
 10 वातायनं गवाक्षः [स्यान्]
 11 मण्डपो^e [ऽस्त्री] जनाश्रयः ॥ ८ ॥
 12 हर्म्या-[-दि^f धनिनां वासः]
 13 प्रासादो [देवभूजां] ।

(1) Hutte en feuilles. — (2) Autel ou appentis pour des sacrifices [suivant d'autres : arbre sacré, ou encore : monument de bois ou d'autres matériaux élevé en l'honneur d'une personne morte.] — (3) Écurie. — (4) Manufacture. — (5) Place où l'on distribue l'eau. — (6) Collège, école, ou bien couvent d'ascétiques, etc. — (7) Taverne, cabaret. — (8) Milieu d'une maison. — (9) Appartement d'une femme, réservé à une femme en couches. [Cet article et le précédent sont synonymes selon quelques commentaires]. — (10) Fenêtre ou soupirail. — (11) Salle temporaire. — (12) Demeure des riches, grand édifice de maçonnerie. — (13) Temple ou palais.

^a पर्णशाला, उटजः. — ^b Aussi शिल्पिशाला, et शिल्पिशालं ou शिल्पिशालं. — ^c Ou गुञ्जा. — ^d Ou सूतिकागृहं. — ^e Également fém. मण्डपा. — ^f हर्म्यं, outre d'autres synonymes comme ऋटः etc.

- 1 सौधो [ऽस्त्री] राजसदनं
 2 उपकार्योपकारिका ^a ॥ ८ ॥
 3 स्वस्तिकः सर्वतोभद्रो नन्द्यार्वता-[-द्वयो ^bऽपि च] ।
 4 विच्छन्दकः ^c [प्रभेदा हि भवन्तीश्चस्त्रनां] ॥ १० ॥
 5 [स्त्यगारं भूमुजाम्] अन्तःपुरं [स्याद्] अवरोधनं ।
 6 शुद्धान्तश् [चा-]-वरोधश् ^d [च]
 7 [स्याद्] अदः क्षौमम् ^e [अस्त्रियां]
 ॥ ११ ॥
 8 प्रघाण ^f-प्रघणालिन्दा ^g [वह्निर्द्वारप्रकोष्ठके] ।
 9 गृह्णावग्रहणी देहल्य ^h
 10 अङ्गनं ⁱ चत्वारजिरे ^j ॥ १२ ॥
 11 [अधस्तादारुणि] शिला ^k
 12 नासा [दारूपरिस्थितं] ।

(1) Résidence royale. [Cet article et le précédent sont synonymes suivant quelques interprétations.] — (2) Palais, caravansérai. — (3, 4) Temples de diverses formes saintes. — (5, 6) Appartements d'une reine. — (7) Chambre située au sommet d'une maison [suivant d'autres interprétations : derrière d'un édifice, place fortifiée sur le devant d'un bâtiment, appartement au-dessus d'une salle, bâtiment d'une forme particulière ; pour cet article et les deux suivants, les explications diffèrent beaucoup]. — (8) Terrasse devant la porte d'une maison. — (9) Seuil d'une porte. — (10) Cour ou basse-cour. — (11) Charpente inférieure d'une porte. — (12) Pièce de bois placée dans la partie supérieure, linteau.

^a उपकार्यो [aussi उपकारी] उपकारिका. — ^b Et autres synonymes comme रुचकं etc. — ^c Ou विच्छन्दकः. — ^d अवरोधः. — ^e Ou क्षौमं. — ^f Aussi, comme quelques-uns écrivent ces mots, प्रघानः et प्रघनः. — ^g अलिन्दः ou अलिन्दः. — ^h देहली. — ⁱ Ou अङ्गणं. — ^j चत्वार-अजिरे. — ^k Ou शिली.

- 1 प्रच्छन्नम् अन्तर्द्वारं [स्यात्]
 2 पक्षद्वारं [तु] पक्षकः ॥ १३ ॥
 3 वलीक-नीध्रे^a पटलप्रान्ते
 4 [ऽथ] पटलं^b छदिः^c ।
 5 गोपानसी [तु] वलभी^d [छादने वक्रदारुणि] ॥ १४ ॥
 6 कपोतपालिकायां [तु] विटङ्कं [पुन्नपुंसकं] ।
 7 [स्त्री] द्वारं द्वारं प्रतीहारः
 8 [स्याद्] वितर्दिस्^e [तु] वेदिका^f ॥ १५ ॥
 9 तोरणो [ऽस्त्री] वह्निद्वारं
 10 पुरद्वारं [तु] गोपुरं ।
 11 [कूटं पूर्वारि यद्] धस्तिनखस्^g [तस्मिन्]
 12 [अथ त्रिषु] ॥ १६ ॥

(1) Porte secrète dans la maison. — (2) Porte de derrière. [Quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (3) Bord du chaume. — (4) Chaume ou toit. — (5) Charpente d'un toit de chaume. — (6) Colombier, volière. — (7) Porte. — (8) Terrasse couverte dans une cour [ou suivant d'autres interprétations : place de repos quadrangulaire faite en bois, banc; place dans une cour, pour s'asseoir ou pour se tenir à l'abri; lieu quadrangulaire dans la cour d'un temple ou d'un grand édifice; terrasse munie de piliers; étage sur quatre piliers au milieu d'une maison quadrangulaire : dans cet article, dans le suivant et dans plusieurs autres endroits, les interprétations sont très-différentes]. — (9) Décoration du pilier d'une porte [suivant d'autres explications : arcade ou grande porte décorée, porte extérieure]. — (10) Porte d'une ville. — (11) Construction en avant d'une porte.

^a नीध्रे ou नीत्रं. — ^b Aussi पटं et चालं. — ^c Fém. et non neut. comme le disent à tort les commentateurs. — ^d Aussi वडभिः ou वडभी. — ^e Ou वितर्दि. — ^f Aussi वेदिः et वेदी. — ^g हस्तिनखः.

- 1 कपाटम्^a अरं [तुल्ये]
 2 [तद्विष्कम्भे^b] ऽर्गलं [न ना] ।
 3 आरोहणं [स्यात्] सोपानं
 4 निःश्रेणिस्^c [त्व] अधिरोहिणी^d ॥ १७ ।
 5 सम्मार्जनी शोधनी [स्यात्]
 6 सङ्को^e ऽवकरस् [तया ।
 7 क्षिप्ने]
 8 मुखं निःसरणं
 9 सन्निवेशो निकर्षणं ॥ १८ ॥
 10 [समौ] संवसथ-ग्रामौ
 11 वेश्मभूर वास्तुर् [अस्त्रियां] ।
 12 ग्रामान्त उपशल्यं [स्यात्]
 13 सीम-सीमे [स्त्रियाम् उभे] ॥ १९ ॥
 14 घोष आभीरपल्ली^f [स्यात्]
 15 पङ्कणः श्वरालयः ॥ २० ॥

(1) Porte. — (2) Verrou ou barre. — (3) Escalier, degrés. — (4) Échelle. — (5) Balai. — (6, 7) Poussière ou balayures. — (8) Entrée d'une maison [passage au travers ou hors d'une maison, d'une ville ou d'un marché, route d'entrée et de sortie, entrée par la porte de la maison]. — (9) Espace découvert dans une ville [place de divertissement au dehors ou dedans]. — (10) Village. — (11) Situation d'une habitation. — (12) Espace près d'un village [cet article est synonyme du précédent suivant quelques-uns]. — (13) Borne ou limite. — (14) Station de pâtres. — (15) Demeure des hommes de la dernière classe.

^a Aussi कवाटं. — ^b Suivant une autre leçon, ce mot offre un synonyme विष्कम्भः, ou suivant quelques-uns विष्कम्भि. — ^c Aussi निःश्रेणी, निःश्रेणीः et निःश्रेणी.

— ^d Aussi अधिरोहिणी. — ^e Ou सङ्कोः. — ^f Aussi आभीरपल्लिः.

CHAPITRE III.

MONTAGNES, ROCHERS, FONTAINES, CAVERNES, MINES.

- 1 महीध्रे ^a शिखरि-क्ष्माभृद्-अर्हार्य-धर-पर्वताः ।
 2 अद्रि-गोत्र-गिरि-ग्रावाचल ^b-शैल-शिलोच्चयाः ॥ १ ॥
 3 लोकालोकश् चक्रवालः ^c
 4 त्रिकूटस् त्रिककुत् [समौ] ।
 5 अस्तस् [तु] चरमक्ष्माभृद्
 6 उदयः पूर्वपर्वतः ॥ २ ॥
 7 हिमवान् निषधो विन्ध्यो माल्यवान् पारियात्रकः ।
 8 गन्धमादनम् [अन्ये च] हेमकूटा-[-दयो नगाः] ॥ ३ ॥
 9 पाषाण-प्रस्तर-ग्रावोपलाश्मानः ^d शिला दृषत् ।
 10 कूटो [ऽस्त्री] शिखरं शृङ्गं
 11 ग्रपातस् [त्वं] अतटो ^e भृगुः ॥ ४ ॥

(1, 2) Montagne. — (3) Rangée de montagnes entourant la terre [limite de la lumière et de l'obscurité]. — (4) Montagne ayant trois sommets. — (5) Montagne occidentale [derrière laquelle le soleil se couche]. — (6) Montagne orientale [sur laquelle le soleil se lève]. — (7, 8) Montagnes diverses nommées dans le texte; savoir : l'*Himālaya*, ou la chaîne neigeuse du nord de l'Inde, la montagne appelée *Nichadha*, le *Vindhya*, ou la chaîne tropicale qui sépare le sud du nord de l'Inde, le *Mālyavat*, le *Pāriyātraka*, le *Gandhamādana* et l'*Hémakoûta* [outre d'autres comme le *Malaya*, le *Tchitrakoûta*, le *Maināka*, etc.]. — (9) Pierre ou rocher. — (10) Pic ou sommet. — (11) Précipice.

^a महीध्रः ou महिध्रः et महीधरः. — ^b ग्राव-अचल. — ^c Ou चक्रवाटः. — ^d ग्राव-उपाल-अश्रमन्. — ^e Ou suivant une autre leçon तटः.

- 1 कटको [स्त्री नितम्बो ऽद्रेः]
 2 सुः प्रस्थः सानूरु [आस्त्रयौ] ।
 5 उत्सः प्रश्रवणं^a
 4 [वारिप्रवाहो] निर्कारो करः ॥ ५ ॥
 5 दरी [तु] कन्दरो [वा स्त्री]
 6 [देवावात-विले] गुहा ।
 7 गद्वरं
 8 गण्डशैलास् [तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः] ॥ ६ ॥
 9 खनिः^b [स्त्रियाम्] आकारः [स्यात्]
 10 पादाः प्रत्यन्तपर्वताः
 11 उपत्यका-[-द्रेरु^c आसन्ना भूमिर्]
 12 [ऊर्ध्वम्] अधित्यका ॥ ७ ॥
 13 धातुरू [मनःशिलाद्यद्रेरु]
 14 गैरिकं [तु विशेषतः] ।
 15 निकुञ्ज-कुञ्जौ [वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे] ॥ ८ ॥

(1) Penchant d'une montagne. — (2) Plateau. — (3) Fontaine. [Quelques-uns font cet article et le suivant synonymes.] — (4) Cascade. — (5) Caverne artificielle. — (6, 7) Caverne naturelle. [Les deux mots de l'explication sont des synonymes, suivant quelques-uns.] — (8) Rochers tombés d'une montagne. — (9) Mine. — (10) Collines près d'une montagne. — (11) Terrain près du pied d'une montagne. — (12) Terrain situé sur une montagne. — (13) Fossile ou minéral. — (14) Craie rouge. — (15) Place couverte de plantes grimpanes, etc.

^a Aussi प्रश्रवणं (Ed. Calc. — Wils. Dict. — MSS.) — ^b Aussi खनी ou खानिः. — ^c अद्रेः.

CHAPITRE IV.

SECTION PREMIÈRE.

FORÊTS, JARDINS, ARBRES ET PLANTES.

- 1 अटव्य^a-अरण्यं विपिनं गहनं काननं वनं^b ।
 2 महारण्यम् अरण्यानी
 3 गृहाराण्यम् [तु] निष्कुटाः ॥ १ ॥
 4 आरामः [स्याद्] उपवनं [कृत्रिमं वनम् एव तत्] ।
 5 [अमात्यगणिकागेहोपवने] वृक्षवाटिका ॥ २ ॥
 6 [पुमान्] आक्रीड उद्यानं [राजः साधारणं वनं] ।
 7 [स्याद् एतद् एव] प्रमदवनम्^c [अन्तःपुरोचितं] ॥ ३ ॥
 8 वीथ्य् आलिः आवलिः पंक्तिः श्रेणी^d
 9 लेखास्^e [तु] राजयः^f ।
 10 वन्या वनसमूहे [स्याद्]
 11 अंकुरो^g अभिनवोद्भिदि^h ॥ ४ ॥

(1) Forêt ou bois. — (2) Grande forêt. — (3) Bocage près d'une maison. — (4) Jardin. — (5) Jardin planté par un ministre d'état, etc. — (6) Jardin royal public. — (7) Jardin royal de plaisance. — (8) Rang ou rangée. — (9) Ligne continue. [Quelques-uns font cet article synonyme du précédent.] — (10) Multitude de bosquets. — (11) Bourgeon.

^a अटविः ou अटवो. — ^b Aussi वनो. — ^c Ou प्रमदावनं. — ^d Aussi वीथिः, आली, आवली, et श्रेणीः. Quelques-uns ajoutent पंक्ति. — ^e लेखा ou रेखा. — ^f राजिः ou राजी. — ^g Aussi अंकरः. — ^h अभिनवोद्भिद्.

- 1 वृक्षो महीरूहः शाखी विटपी पादपस् तरुः ।
 2 अनोक्कहः कुटः ^a सालः ^b पलाशी दु-दुमागमाः ^c ॥ ५ ॥
 3 वानस्पत्यः [फलैः पुष्पात्]
 4 [तैर् अपुष्पाद्] वनस्पतिः ।
 5 ओषधयः ^d [फलपाकान्ताः]
 6 [स्याद्] अबन्ध्यः फलेग्रहिः ^e ॥ ६ ॥
 7 बन्ध्यो ऽ फलो ऽ वकेशी [च]
 8 फलवान् फलिनः फली ।
 9 प्रफुल्लोत्फुल्ल ^f -संफुल्ल-व्याकोष ^g -विकच-स्फुटाः ॥ ७ ॥
 10 फुल्लश् [चैते] विकसिते [स्युर्]
 11 [अबन्ध्यादयस् त्रिषु ^h] ।
 12 स्थाणु [वा ना] ध्रुवः शंकुर्
 13 [ऋस्वशाखाशिफः] क्षुपः ॥ ८ ॥
 14 [अप्रकाण्डे] स्तम्ब-गुल्मौ
 15 वल्ली ⁱ [तु] व्रततिर् ^j लता ।

(1, 2) Arbre. — (3) Arbre qui fructifie après avoir donné des fleurs [comme le manguiier, l'eugenia, etc.]. — (4) Arbre sans fleurs apparentes [comme l'arbre à pain, etc.]. — (5) Plante annuelle qui meurt après la maturité du fruit. — (6) Fécond. — (7) Stérile. — (8) Portant fruit. — (9, 10) Épanoui, comme une fleur. — (12) Tronc d'un arbre ébranché. — (13) Petit arbre [ayant des branches et des racines courtes]. — (14) Arbrisseau. — (15) Plante rampante.

^a Ou कुटः. — ^b Ou शालः. — ^c दुम-अगमः. — ^d ओषधिः, ou ओषधी. — ^e Aussi फलेग्रहिः. — ^f प्रफुल्ल-उत्फुल्ल. — ^g Ou व्याकोषः. — ^h Les mots précédents, à compter du dernier membre de la stance 6, prennent les trois genres. — ⁱ Aussi वल्लीः. — ^j Aussi व्रतती et प्रतती.

1 [लता प्रतानिनी] वीरुद् गुल्मिन्य्^a उलप [इत्यपि] ॥ ८ ॥

2 [नगाद्यारोह] उच्छ्राय उत्सेधश् [चो-]-च्छ्रायश्^b [च सः] ।

3 [अस्त्री] प्रकाण्डः स्कन्धः [स्यान् मूलाच्छाखावधेस् तरोः]

॥ १० ॥

4 [समे] शाखा-लते

5 स्कन्धशाखा-शाले

6 शिफा-जटे ।

7 [शाखाशिफा-]-वरोहः^c [स्यान्]

8 [मूलाच् चाग्रं गता] लता ॥ ११ ॥

9 शिरो ऽग्रं शिखरं [वा ना]

10 मूलं ब्रध्नो [ऽङ्घ्रिनामकः] ।

11 सारो मज्जा [समौ]

12 त्वक् [स्त्री] वल्कं वल्कलम् [अस्त्रियां] ॥ १२ ॥

13 काष्ठं दार्व^d

14 इन्धनं [त्] एध इध्मम् एधः समित् [स्त्रियां] ।

(1) Plante qui s'étend. [Quelques-uns rangent l'explication parmi les synonymes, d'autres donnent à cet article et au précédent la même signification.] — (2) Hauteur d'un arbre, d'une colline, etc. — (3) Tronc. — (4) Branche. — (5) Grosse branche. — (6) Racine fibreuse. — (7) Branche pendante prenant racine [comme celles du figuier d'Inde]. — (8) Liane, plante grimpante. [Quelques-uns font de cet article une seconde explication du précédent, et donnent à l'article ainsi modifié le sens de *plante grimpant de la racine au sommet d'un arbre.*] — (9) Sommet d'un arbre. — (10) Sa racine. [Tous les mots ayant le sens de *pied*, ont aussi celui de *racine.*] — (11) Moëlle. — (12) Écorce. — (13) Bois. — (14) Bois de chauffage. [Quelques-uns donnent aux deux derniers

^a गुल्मिनी. — ^b उच्छ्रायः. — ^c अवारोहः. — ^d दारु.

- 1 निष्कृष्टः कोटरं [वा ना]
 2 वल्लरि मञ्जरीः^a [स्त्रियौ] ॥ १३ ॥
 3 पत्रं^b पलाशं छदनं^c दलं पर्णं छदः [पुमान्] ।
 4 पल्लवो [ऽस्त्री] किसलयं
 5 विस्तारो विटपो [ऽस्त्रियां] ॥ १४ ॥
 6 [वृक्षादीनां] फलं शस्यं^d
 7 वृन्तं प्रसववन्धनं ।
 8 [आमे फले] शलाटुः [स्यात्]
 9 [शुष्के] वानम् [उभे त्रिषु] ॥ १५ ॥
 10 क्षारको जालकं [क्लीवे]
 11 कालका^e कोरकः [पुमान्] ।
 12 [स्याद्] गुच्छकस्^f [तु] सत्वकः
 13 कुद्मलो^g मुकुलो [ऽस्त्रियां] ॥ १६ ॥
 14 [स्त्रियः] सुमनसः^h पुष्पं प्रसूनंⁱ कुसुमं [समं]^j ।

mots, d'autres aux trois derniers la signification de chauffage consacré à un usage religieux.] — (1) Creux d'un arbre. — (2) Pédicule composé. — (3) Feuille. — (4) Jet, extrémité d'une branche portant de nouvelles feuilles, etc. — (5) Branche avec un jet nouvellement développé; [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (6) Fruit. — (7) Queue d'une feuille ou d'un fruit, pétiole, pédoncule. — (8) [Fruit] vert; — (9) — sec. — (10) Bouton, bourgeon. — (11) Fleur non épanouie. — (12) Grappe de fleurs. — (13) Bouton qui s'ouvre. — (14) Fleur.

^a Aussi वल्लरी et मञ्जरी. — ^b Ou पत्रं. — ^c Ou ह्यदनं. — ^d Ou सस्यं. — ^e Aussi कलिः et कली. — ^f Ou गुत्सकः, également गुच्छः ou गुत्सः. — ^g Aussi कुद्मलः. — ^h Pluriel fém. ayant le sens du singulier; quelques-uns admettent un singulier [सुमनाः] et même le neutre [सुमनः]. — ⁱ Aussi सूनं. — ^j Suivant une autre leçon,

- 1 मकरन्दः पुष्पसः
 2 परागः सुमनोरजः ॥ १७ ॥
 3 [द्विहीनं प्रसवे सर्वं हरीतक्याद्यः स्त्रियां^a] ।
 4 आश्वत्थ-वैणव-प्लाक्ष नैयग्रोधैरुदं^b [फले^c] ॥ १८ ॥
 5 वार्हतं [च]
 6 [फले जम्बाः^d] जम्बूः [स्त्री] जम्बु जाम्बवं ।
 7 [पुष्पे जातीप्रभृतयः स्वलिङ्गा व्रीहयः फले ॥ १९ ॥
 8 विदार्याद्यास् तु मूले ऽपि^e]
 9 [पुष्पे क्लीवे ऽपि^f] पाटला ॥ २० ॥

(1) Nectar, miel d'une fleur. — (2) Poussière, pollen. — (4, 5) Fruits de certaines plantes. — (6) Fruit de l'arbre nommé *eugenia jambu*. — (9) Fleur de la bignone odorante, *bignonia suaveolens*.

सुमं, fleur. — ^a Les noms de plantes deviennent généralement neutres pour signifier le produit de la plante, savoir : la fleur et le fruit (et, suivant quelques-uns, la racine et la feuille), à l'exception du mot हरीतकी et de certains autres (comme द्राक्षा, कोषातकी etc.) qui gardent le féminin lorsqu'ils signifient le fruit, etc. — ^b नैयग्रोधैरुदं. — ^c Les mots cités pour exemples sont des dérivés employés pour signifier le fruit; il y en a encore d'autres exemples comme वैल्वं etc. — ^d Ici le neutre, le dérivé et le féminin irrégulier sont tous les trois employés. — ^e Le mot जाती et d'autres comme यूथिका, मल्लिका etc. conservent irrégulièrement le genre originel, lorsqu'ils signifient la fleur de la plante; les noms de gramens et de plantes légumineuses, désignent également la plante et la graine; le mot विदारो et d'autres comme गम्भारी etc., sont employés de même pour désigner la racine ou la fleur, et, selon quelques-uns, le fruit. — ^f Ici le neutre et le genre féminin originel sont tous deux admissibles, et même aussi le masculin.

SECTION II.

ARBRES DE DIVERSES ESPÈCES.

- 1 बोधिद्रुमश्^a चलदलः पिप्पलः कुञ्जराशनः ।
- 2 अश्वत्ये
- 3 [ऽथ] कपित्थे^b [स्युर्] दधित्य-ग्राहि-मन्मथाः ॥ १ ॥
- 4 [तस्मिन्] दधिफलः पुष्पफल-दन्तशठाव् [अपि] ।
- 5 उडुम्बरे^c जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः ॥ २ ॥
- 6 कोविदारो चमरिक्कः कुद्दालो युगपत्रकः ।
- 7 सप्रपर्णी विशालत्वक् शारदी^d विषमच्छदः ॥ ३ ॥
- 8 आग्बधे^e राजवृक्ष-सम्पाक^f-चतुरङ्गुलाः ।
- 9 आरेवत-व्याधिघात-कृतमाल-सुवर्णाकाः ॥ ४ ॥
- 10 [स्युर्] जम्बीरे दन्तशठ-जम्भ-जम्भीर-जम्भलाः ।
- 11 वरुणो वरणः सेतुस् तिक्तशाक्कः कुमारकः ॥ ५ ॥
- 12 पुत्रागे पुरुषस् तुंगः केसरो^g देवबल्लभः ।

(1, 2) Figuier sacré, *ficus religiosa*. — (3, 4) Pomme de bois ou d'éléphant; *feronia elephantium* ou *cratæva valanga*. — (5) Figuier sauvage, *ficus glomerata*, Roxb. — (6) Ébénier de montagne, *bauhinia variegata*, et autres espèces. — (7) *Echites scholaris* ou * *alstonia scholaris*. Wils. Dict. — (8, 9) *Cassia fistula*. — (10) Limonier, citronnier. — (11) *Cratæva tapia* ou *capparis trifoliata*. — (12) Pounnâg [vulg.] *rottileria tinctoria*, Roxb.

^a Aussi बोधिः. — ^b Aussi कवित्थः. — ^c Quelques-uns écrivent उडुम्बरः. — ^d Aussi प्रारदः m. — ^e Aussi आग्बध et अग्बधः. — ^f Également प्राम्याकः et ग्राम्याकः. — ^g Aussi केशरः.

- 1 पारिभद्रे निम्बतरू मन्दारः पारिजातकः ॥ ६ ॥
 2 तिनिशे स्यन्दनो नेमी ^a रथदूरु अतिमुक्तकः ।
 3 वञ्जुलश् चित्रकृच् [चा-]
 4 [-थ द्वौ] पीतन-कपीतनौ ॥ ७ ॥
 5 आघ्रातके ^b
 6 मधूके ^c [तु] गुडपुष्प-मधुद्रुमौ ।
 7 वानप्रस्थ-मधुष्ठीलौ
 8 [जलजे ऽत्र] मधूलकः ॥ ८ ॥
 9 पीलौ ^d गुडफलः खंसी
 10 [तस्मिन्स तु गिरिसिम्भवे]
 11 अक्षौड ^e-कन्दरालौ ^f [द्वौ]
 12 अंकोठे [तु] निकोचकः ^g ॥ ९ ॥
 13 पलाशे किंशुकः पर्णी वातपोथो
 14 [ऽथ] वेतसे ।

(1) Arbre au corail, *erythrina fulgens* [mais quelques-uns appliquent les noms sanscrits à l'arbre appelé *melia sempervirens*]. — (2, 3) *Tinis* [vulg.] *dalbergia oujeinensis*, Roxb. — (4, 5) *Spondias mangifera*. — (6, 7) *Bassia latifolia*. — (8) Autre espèce croissant dans l'eau [ou, suivant une autre leçon, sur un terrain montagneux]. — (9) *Pilou*. [Ce nom est appliqué dans quelques provinces à l'arbre nommé par Roxburgh *careya arborea*, dans d'autres à celui qu'il appelle *salvadora persica*.] — (10, 11) Arbre décrit comme une espèce du précédent croissant sur les montagnes; [mais le nom hindi correspondant appartient au noyer ou *juglans regia*, et aussi au *croton moluccanum* ou à l'*aleurites triloba*.] — (12) *Alangium hexapetalum*. — (13) *Butea frondosa*. — (14, et p. 86, lig. 1.) *Bayas* ou *bent*. [Quel-

^a नेमिः ou नेमिन् [-मी] et नेमी f. suivant quelques-uns. — ^b Aussi अघ्रातकः. —

^c Aussi मधुकः et मधुः. — ^d पीलुः. — ^e Ou अक्षौडः et अक्षौटः. — ^f Aussi कर्परालः.

— ^g Aussi निकोठकः.

- 1 रघाम्रपुष्प^a-विटुल-शीत-वानीर-वञ्जुलाः ॥ १० ॥
 2 [द्वौ] पखियाध-विटुलौ नादेयी [चा-]-म्बुवेतसे^b ।
 3 शोभाञ्जने^c शिशु-तीक्ष्णगन्धकाक्षीव^d-मोचकाः ॥ ११ ॥
 4 [स्तौ ऽसौ] मधुशिशुः [स्याद्]
 5 अरिष्टः^e फेनिलः [समौ] ।
 6 विल्वे शाण्डिल्य-शैलूषौ मालूर-श्रीफलाव् [अपि] ॥ १२ ॥
 7 प्लक्षो जटी^f पर्कटी [स्यान्]
 8 न्यग्रोधो वहुपाद् वटः ।
 9 गालवः शावरो^g लोध्रस् तिरीटस् तिल्व-मार्जनौ ॥ १३ ॥
 10 आम्रश् चूतो रसालो
 11 [ऽसौ] सहकारो [ऽतिसौरभः] ।
 12 कुम्भोलूखलकं^h [क्लीवे] कौशिको गुग्गुलुःⁱ पुरः ॥ १४ ॥

ques-uns rapportent le nom sanscrit *vétasa* au rotang, mais il paraît qu'il est question d'une autre plante.] — (2) La même plante croissant dans l'eau. — (3) *Hyperanthera morunga* ou *guilandina morunga*. — (4) Variété rouge de cette espèce. — (5) Savonnier, *sapindus saponaria* et autres espèces [mais ces noms sont appliqués aussi à une espèce de *mimosie* [*mimosa abstergens*, R.]. — (6) *Ægle marmelos* ou *cratæva marmelos*. — (7) Figuier à feuilles ondulées, *ficus venosa*, * *F. infectoria*. Wils. — (8) Figuier indien, *ficus indica*. — (9) *Lodh* pâle, * *symplocus racemosa*. Wils. [Le *lodh* est une écorce usitée dans la teinture, et dont il y a deux espèces employées. Quelques-uns restreignent le premier terme à l'espèce désignée et font le reste commun aux deux espèces.] — (10) Manguier, *mangifera indica*. — (11) Espèce de manguier très-odorante. — (12) *Bdellium*.

^a रघ-अम्रपुष्प, aussi रघाम्रपुष्पः. — ^b अम्बुवेतसः. — ^c Également सोभाञ्जनः ou सौभाञ्जनः. — ^d तीक्ष्णगन्धक-[ou तीक्ष्णगन्ध] अक्षीव [ou अक्षीव et काक्षीव]. — ^e Aussi रिष्टः. — ^f तटिन् masc. aussi तटो et तटिः fém.; de même pour पर्कटी. — ^g Aussi मावरः. — ^h कुम्भ-उलूखलक; aussi कुम्भोलुः, et खलकं, ou कुम्भोलूखलकं. — ⁱ Ou

- 1 शेलुः^a श्लेष्मातकः शीत उद्दालो बहुवारकः ।
 2 राजादनं^b पियालश्^c [च] सन्नकटुर^d धनुःपटः^e ॥ १५ ॥
 3 गम्भारी सर्वतोभद्रा काश्मरी^f मधुपर्णिका ।
 4 श्रीपर्णी भद्रपर्णी [च] काश्मर्यश् [चाय्]
 5 [अथ द्वयोः] ॥ १६ ॥
 6 कर्कन्धूर^g वदरी कोलिः^h
 7 कोलं कुवल-फेनिले ।
 8 सौवीरं वदरं घोण्टा-[-य्]
 9 [अथ स्यात्] स्वादुकण्टकः ॥ १७ ॥
 10 त्वकङ्कतःⁱ सुवावृत्तो ग्रन्थिलो व्याघ्रपाद् [अपि] ।
 11 ऐरावतो नागरङ्गो^j नाद्वयी भूमिजम्बुका ॥ १८ ॥
 12 तिन्दुकः^k स्फूर्जकः कालस्कन्धश् [च] शितिसारके ।

(1) *Sebesten*; *cordia myxa* et *cordia latifolia*, Roxb. — (2) *Piyá* [beng.] *chironjia sapida*, Roxb. [mais le nom est dans quelques endroits appliqué à deux espèces de *grewia*, *G. orientalis* et *G. didyma*]. — (3, 4) *Gambhâri*, probablement l'arbre appelé *gmelina arborea*. — (5, 6) Jujubier, *zizyphus jujuba* [et autres espèces]. — (7, 8) Fruit du jujubier. [Quelques-uns donnent aux deux derniers mots, d'autres aux trois derniers la signification d'espèce sauvage; d'autres interprètent les derniers comme désignant à la fois la plante et le fruit du jujubier commun.] — (9, 10) *Buentchi* [vulg.] *flacourtia sapida*, R. — (11) Oranger. [Quelques-uns séparent les deux derniers mots comme devant être attribués à une autre plante.] — (12) Sorte d'ébène, *diospyros melanoxyton*, R. et *D. glutinosa*, Koen.

गुग्गुलः. — ^a Aussi सेलुः. — ^b Également राजातनं ou -नः. — ^c Et प्रियालः. — ^d Aussi सन्नः et कटुः. — ^e Également धनुः [धनु ou धनुष्] et पटः. — ^f Aussi काश्मरी. — ^g Masc. कर्कन्धुः et -न्धूः; fém. कर्कन्धूः. — ^h Aussi कोली et कोला au fém. — ⁱ Aussi वैकंकतः. — ^j Également नारङ्गः ou नार्यङ्गः. — ^k Aussi तिन्दुकी.

- 1 काकेन्दुः कुलकः काकतिन्दुकः काकपीलुके ॥ १९ ॥
 2 गोलीढो^a झाटलो घण्टापाटलि^b मोक्ष-मुष्कौ ।
 3 तिलकः क्षुरकः श्रीमान्
 4 [समौ] पिचुल-झावुकौ ॥ २० ॥
 5 श्रीपर्णिका कुमुदिका कुम्भी कैटर्य-कट्फलौ ।
 6 क्रमुकः पट्टिका-[-ल्यः स्यात्] पट्टी लाक्षाप्रसादनः ॥ २१ ॥
 7 नूदस् [तु] पूषः क्रमुको ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु [च] ।
 8 तूलं [च]
 9 नीप-प्रियक-कदम्बास्^c [तु] हृलिप्रिये ॥ २२ ॥
 10 वीरवृक्षो ऽरुष्करो ऽग्निमुखी भल्लातकी [त्रिषु] ।
 11 गर्दभाण्डे कन्दराल-कपीतन-सुपार्श्वकाः ॥ २३ ॥
 12 प्लक्षश् [च]
 13 तिन्तिडी^d चिञ्चाम्बिका-^e
 14 [-थो] पीतसालके ।

(1) Autre espèce d'ébène, *diospyros tomentosa*, R. — (2) *Ghantápárali* [nom vulgaire] * *bignonia suaveolens*, Wils. Dict. — (3) *Tilá* [vulg.]. — (4) *Tamarix indica* et *T. diæca*. — (5) *Káyaphal* [vulg.] * arbrisseau dont l'écorce et les grains sont employés en médecine. Wils. Dict. — (6) *Lodh* rouge. — (7, 8) Mûrier, *morus indica* [selon quelques-uns, *hibiscus populneoïdes*. Voyez sl. 23]. — (9) *Nauclea orientalis*, * *N. kadamba*, Wils. Dict. — (10) *Semecarpus anacardium*. — (11, 12) *Párspípál* [vulg.] *hibiscus populneoïdes*, R. [Quelques-uns confondent ces noms sanscrits avec ceux du figuier à feuilles ondulées.] — (13) Tamarin, *Tamarindus indica*. — (14, et p. 89, l. 1) *Asan* [vulg.] *terminalia alata tomentosa*, Roxb.; * *pentaptera tomentosa*, Wils. Dict.

^a Aussi गोलिहः. — ^b Ou घण्टा et पाटलिः. — ^c Également कादम्बः. — ^d Aussi तिन्तिली- et तिन्तिडोकः m. f. n. — ^e चिञ्जा, अम्बिका ou अम्बीका, आम्बिका et आम्बीका.

- 1 सर्जकासन^a-बन्धूकपुष्प-प्रियक-जीवकाः ॥ २४ ॥
 2 साले^b [तु] सर्ज-कार्प्याश्चकर्णकाः^c सस्यसंवरः^d ।
 3 नदीसर्जी वीरतरू इन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः ॥ २५ ॥
 4 राजादन-फलाध्यक्षे^e क्षीरिकायाम्
 5 [अथ द्वयोः] ।
 6 इङ्गदी तापसतरू
 7 भूर्जे चर्मि-मृदुत्वचौ ॥ २६ ॥
 8 पिच्छला पूरणी मोचा स्थिरायुः शाल्मलिर्^f [द्वयोः] ।
 9 पिच्छा [तु] शाल्मलीवेष्टे
 10 रोचनः कूटशाल्मलिः ॥ २७ ॥
 11 चिरविल्वो^g नत्तमालः करजश्च [च] करञ्जके ।
 12 प्रकीर्यः पूतिकरजः पूतिकः कलिमारकः^h ॥ २८ ॥
 13 [करञ्जभेदाः] षडग्रन्थो मर्कट्यⁱ अङ्गारवल्लरी ।
 14 रोही रोहितकः^j ग्रीहशत्रुर् द्वाडिमपुष्पकः ॥ २९ ॥

(2) *Sakhwa* ou *Sál* [vulg.] arbre à charpente commun; * *shorea robusta*. Wils. Dict. — (3) *Kahúá* [vulg.] *terminalia alata glabra*, R.; * *pentaptera arjana*, Wils. Dict. — (4) *Khiraní* [vulg.] *mimusops kauki*. — (5, 6) *Ingüa* [vulg.] — (7) *Bhodjpatr* [vulg.] — arbre dont l'écorce est employée. — (8) Coton soyeux, *bombax heptaphyllum*. — (9) Sa gomme. — (10) Autre espèce de coton soyeux. — (11) *Karandj* [vulg.] *galedupa arborea*, ou *robinia mitis*. — (12) *Bonduc* gris, *cæsalpina* ou *guilandina bonduccella*. — (13) Autres espèces [apparemment variétés du bonduc]. — (14) *Rohin* [vulg.] plante médicinale; * *andersonia rohitaka*, Wils. Dict.

^a सर्जक-असन [aussi आसनः et अग्रानः]. — ^b Aussi शालः. — ^c कार्प्य-[ou कार्पर्य] अश्वकर्णकः. — ^d Aussi शस्यसंवरः. — ^e Aussi राजादनफल et अध्यक्ष. — ^f Aussi शाल्मली f. Également शाल्मलिः m. f. — ^g Aussi चिरविल्वः. — ^h Également पूतिकरञ्जः, पूतिकः, कलिकारकः. — ⁱ मर्कटी. — ^j Aussi रोहीतकः.

- 1 गायत्री^a बालतनयः^b खद्विरो दन्तधावनः ।
 2 अग्निद्वे विट्खद्विरे
 3 कदरः [खद्विरेः सिते] ॥ ३० ॥
 4 सोमवल्को [ऽप्य्]
 5 [अथ] व्याघ्रपुच्छ-गन्धर्वहस्तकौ ।
 6 एण्ड उरुवृकश्^c [च] रुचकश्^d चित्रकश् [च सः] ॥ ३१ ॥
 7 चञ्चुः पञ्चुङ्गुलो मण्ड^e -वर्द्धमान-व्यउम्बकाः^f ।
 8 [अल्पा शमी] शमीरः^g [स्यात्]
 9 शमी सक्तुफला^h शिवा ॥ ३२ ॥
 10 पिण्डीतको मरुवकः श्रसनः कालाटकः ।
 11 शल्यश् [च] मदने
 12 शक्रपादपः पारिभद्रकः ॥ ३३ ॥
 13 भद्रदारु द्रुक्लिमं पीतदारु [च] दारु [च] ।
 14 पूतिकाष्ठं [च सप्त स्युर] देवदारुण्यⁱ
 15 [अथ द्वयोः] ॥ ३४ ॥

(1) *Khayar* [vulg.] *mimosa catechu* [*khayar*] Linn. — (2) *Mimose fétide*; **mimosa farnesiana*, Wils. Dict. — (3, 4) *Mimose blanche*. — (5-7) *Palma Christi*, ou *ricinus communis*. — (8) Variété de *s'ami*. — (9) *S'ami* ou *saen* [vulg.] *mimosa albida*; **acacia suma*, Wils. Dict. — (10, 11) *Mayan* [vulg.] *vangueria spinosa* R. [Mais les noms sanscrits sont rapportés aussi à l'arbrisseau appelé *gardenia dumetorum*.] (12-14) *Deodar*; [dans le Bengale, *uvaria longifolia*; plus probablement un pin ou un sapin; **pinus devadaru*, Roxb.]

^a Fém.; aussi गायत्रिन् [-त्री] m. — ^b Également बालपत्रः et बालदलकः. — ^c Aussi उरुवुकः. — ^d Également रुचुकः et रुवुकः ou रुवुकः. — ^e Aussi अमण्डः ou आमण्डः. — ^f Également व्यउम्बनः. — ^g Aussi शमीरुः. — ^h Ou सक्तुफली. — ⁱ देवदारु.

- 1 पाटलिः^a पाटलामोघा^b काचस्थाली^c फलेरूहा ।
 2 कृत्तवृन्ता कुवेराक्षी
 3 श्यामा [तु] महिला-[-ह्वया] ॥ ३५ ॥
 4 लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली ।
 5 विष्वक्सेना गन्धफली कार्म्भा प्रियकश् [च सा] ॥ ३६ ॥
 6 मण्डूकपर्णा-पत्रोर्णा-नट-कट्वङ्ग-टुण्टुकाः ।
 7 श्योनाक^d-शुकनासर्त्त^e-दीर्घवृन्त-कुटन्नटाः ॥ ३७ ॥
 8 शोणकश् [चा-]-रलौ^f
 9 तिष्यफला [त्] आमलकी [त्रिषु] ।
 10 अमृता [च] वयस्था^g [च]
 11 [त्रिलिङ्गस् तु] विभीतकः ॥ ३८ ॥
 12 अक्षस् तुषः कर्षफलो भूतवासः कलिद्रुमः ।
 13 अभया [त्] अव्यथा पथ्या वयस्था^h पूतनामृताⁱ ॥ ३९ ॥
 14 ह्रीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवा ।
 15 पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं [चा-]
 16 [-थ] द्रुमोत्पलः ॥ ४० ॥

(1, 2) *Bignonia suaveolens*. — (3-5) *Priyangou* [vulg.] graine odorante ainsi nommée. [D'autres synonymes de femme comme le mot *mahilā*, désignent aussi cette plante.] — (6-8) *Sonapat* [vulg.] *bignonia indica*. — (9, 10) Myrobolan emblic, *phyllanthus emblica*. — (11, 12) Myrobolan beleric, *terminalia belerica*. — (13, 14) Myrobolan jaune, *terminalia citrina*. — (15) *Saral*, arbre qui fournit une résine; * *pinus longifolia*, Wils. Dict. — (16, et p. 92 l. 1.) *Kaniyār* [vulg.] *pterospermum acerifolium* ou pen-

* Masc.; aussi पाटलो f. — ^b पाटला, अमोघा [ou मोघा.] — ^c Également काली et स्थाली. — ^d Aussi स्योनाकः. — ^e शुकनास-ऋत्त. — ^f अरलुः ou अरटुः. — ^g Ou वयःस्था; aussi कायस्था. — ^h Même variante. — ⁱ पूतना, अमृता.

1 कर्णिकारः परिव्याधो

2 लकुचो^a लिकुचो उरुः ।

3 पनसः^b कण्टकिफलो^c

4 निचुलो ऽम्बुज इञ्जलः^d ॥ ४१ ॥

5 काकोडुम्बरिका फल्गुर मलपूर^e जघनेफला ।

6 अरिष्टः सर्वतोभद्र-हिङ्गुनिर्वास-मालकाः ॥ ४२ ॥

7 पिचुमर्दश्^f [च] निम्बे

8 [ऽथ] पिच्छिलागुरु^g शिंशपा^h ।

9 कपिला भस्मगर्भा [सा]

10 शिरीषस् [तु] कपीतनः ॥ ४३ ॥

11 भण्डलोⁱ [ऽप्य]

12 [अथ] चाम्पेयश् चम्पको हेमपुष्पकः ।

15 [रतस्य कलिका] गन्धफली [स्याद्]

tapetes acerifolia. — (2) *Barahal* [vulg.] *artocarpus lokutsha* [*lacucha*] R. — (3) Arbre à pain ou *jaca*; *artocarpus integrifolia*. — (4) *Hijjal* [vulg.] *eugenia acutangula*; * *barringtonia acutangula*, Wils. Dict. — (5) Figuier à feuilles opposées, *ficus oppositifolia*. — (6, 7) *Nimb* [vulg.] *nimba azadiracta* [*ázád-derakht*] ou *melia azadirachta*. — (8) *Sisó* [vulg.] *dalbergia sissoo*, R. — (9) Autre espèce [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (10, 11) *Siris* [vulg.] *mimosa seereessa*, [*sirísha*] R.; * *acacia sirisa*, Wils. Dict. — (12) *Tchampa*; *michelia champaca*. — (15) Fleur de cet arbre.

^a Également नकुचः. — ^b Aussi फलसः. — ^c Et कण्टकीफलः ou कण्टकफलः. — ^d Aussi हिङ्गलः. — ^e मलपू [-पू:] aussi मलपूर [-पू:] et मलयूः. — ^f Et पिचुमन्दः. — ^g पिच्छिला, अगुरु. — ^h Ou suivant quelques-uns अगुरुशिंशपा. — ⁱ Aussi भण्डरः, भण्डोलः ou भण्डोरः.

[अथ] केसरे^a ॥ ४४ ॥

2 वकुलो

3 वञ्जुलो ऽशोके

4 [समौ] कक्-दाडिमौ^b ।

5 चाम्पेयः केसरो नागकेसरः^c काञ्चना-[-द्वयः] ॥ ४५ ॥

6 जया जयन्ती तर्कारी नाट्यी वैजयन्तिका ।

7 श्रीपर्णम् अग्निमन्यः [स्यात्] कणिका गणिकारिका ॥ ४६ ॥

8 जयो^d

9 [ऽथ] कुटजः^e शक्रो वत्सको गिरिमल्लिका ।

10 [रतस्यैव] कलिङ्गद्वयं^f भद्रयवं [फले] ॥ ४७ ॥

11 कृष्णपाकफलाविग्र^g-सुषेणाः कर्मद्वके ।

12 कालस्कन्धस् तमालः [स्यात्] तापिच्छो^h [ऽथ]

(1, 2) *Mul-sari* [vulg.] *mimusops elengi*. — (3) *Asok* [vulg.] *Jonesia asoca*, R. — (4) Grenadier. — (5) *Nâgésar* [vulg.] *mesua ferrea*. [Tous les synonymes de l'or le sont aussi du *nâgésar*, comme le mot *kântchana*.] — (6) *Jainti* [vulg.] *æschynomene sesban*. — (7, 8) *Kaniyâri* [vulg.] *premna spinosa* et *P. longifolia*. [Quelques-uns font ces cinq mots synonymes des cinq de l'article précédent comme noms de l'*arani* ou *premna spinosa*.] — (9) *Koraïya* [vulg.] *echites antidysenterica*, ou *nerium antidysentericum*. — (10) Sa semence. — (11) *Karonda* [vulg.] *carissa carandas* [appliqué aussi mais à tort à l'arbrisseau appelé *flacourtia cataphracta*.] — (12) *Tamâl* [vulg.] arbre noté pour la couleur obscure de ses fleurs ; * *xanthocymus pictorius*, Roxb. Wils. Dict.

^a Également केसरः. — ^b Et दालिमः, दाडिम्बः ou डालिमः; aussi दाडिमो f. — ^c Aussi केसरः et नागकेसरः. — ^d जया (*Ed. Calc.* — *Wils. Dict.*) — ^e Aussi कौटजः. — ^f कलिङ्ग-द्वयं. — ^g कृष्णपाकफल- [aussi कृष्णपाकः, पाकफलः, कृष्णफलः, पाककृष्णफलः et autres combinaisons des mêmes termes] अविग्रं ou अविग्रः. — ^h Aussi तापिञ्जः.

1

[अथ] सिन्धुकः^a

॥ ४८ ॥

2 सिन्धुवारेन्द्रसुरसौ^b निर्गुण्डीन्द्राणिके^c-[-त्यपि] ।3 वेणी खरा गरी^d देवताडो जीमूत [इत्यपि] ॥ ४९ ॥

4 श्रीहस्तिनी [तु] भरुण्डी

5 तृणशून्यं^e [तु] मल्लिका ।6 भूपद्मी शीतभीरुश्^f [च]7 [सैवा-]-स्फोता^g [वनोद्भवा] ॥ ५० ॥8 शेफालिका^h [तु] सुवहा निर्गुण्डी नीलिका [च सा] ।9 [सितासौ] श्वेतसुरसा भूतवेश्ⁱ

10

[अथ] मागधी ॥ ५१ ॥

11 गणिका वृथिकाम्बुष्ठा^j

12

[सा पीता] हेमपुष्पिका ।

(1, 2) *Séduarî* [vulg.] *vitex trifolia* et *nigundo* [appliqué aussi à l'arbrisseau appelé *buddleia neemda*, B. — (3) *Déôtâr* [vulg.] plante; * *andropogon serratum*, Wils. Dict. — (4) *Sirtari* [vulg.] *heliotropium indicum*. — (5, 6) Jasmin d'Arabie, *jasminum sambac*. — (7) Variété sauvage. — (8) *Nebâri* [vulg.] *jasminum villosum*, R. [Les noms sanscrits sont assignés dans le Bengale au *nyctanthes arbor tristis*. Quelques-uns appliquent les deux derniers termes à une espèce différente.] — (9) La même plante blanche. — (10, 11) Espèce de jasmin; * *jasminum auriculatum*, Wils. Dict. — (12) Jasmin jaune.

^a Également सिन्धुकः. — ^b सिन्धुवार-[ou सिन्धुवारः]-इन्द्रसुरस[ou इन्द्रसुरिसः]. — ^c निर्गुण्डी [aussi निर्गुण्ठी] इन्द्राणिका. — ^d Également अगरी et खरागरी ou गरागरी. — ^e Aussi तृणशून्या f. — ^f Également प्रातभीरुः. — ^g आस्फोता ou आस्फोटा. — ^h Aussi शेफालिः ou शेफाली et श्रीफालिका. — ⁱ भूतवेशी. — ^j वृथिका, अम्बुष्ठा.

- 1 अतिमुक्तः पुण्ड्रकः [स्याद्] वासन्ती माधवीलता^a ॥ ५२ ॥
 2 सुमना^b मालती ज्ञातिः
 3 सप्रला नवमालिका ।
 4 माध्यं कुन्दं
 5 रक्तकस् [तु] बन्धूको^d बन्धुजीवकः ॥ ५३ ॥
 6 सहा कुमारी तरणिरू
 7 अम्नानस् [तु] महासहा ।
 8 [तत्र शोणे] कुरवकः^e
 9 [तत्र पीते] कुरुण्टकः^f ॥ ५४ ॥
 10 [नीला झिण्टी द्वयोर्] बाणा दासी [चा-]-र्तगलश्^g [च सा] ।
 11 सैरीयकस्^h [तु] झिण्टी [स्यात्]
 12 [तस्मिन्] कुरवको [ऽरुणे] ॥ ५५ ॥
 13 [पीता] कुरुण्टको [झिण्टी तस्मिन्] सहचरीⁱ [द्वयोः] ।
 14 ओडुपुष्यं जवा^j

(1) *Mlati latá*, [vulg.] *gærtnera racemosa* ou *banisteria bengalensis*. — (2) Jasmin à grandes fleurs, *jasminum grandiflorum*. — (3) Jasmin double, *j. sambac floribus multiplicatis*. — (4) Jasmin à fleurs nombreuses, *jasminum multiflorum* ou *J. pubescens*. — (5) *Dophariya* [vulg.] *pentapetes phœnicea* [les noms sanscrits énoncés sont assignés par quelques-uns à l'*ixora coccinea*; * *I. bandhuca*, Wils. Dict.] — (6) Aloès; *aloe perfoliata*. (7) — Amaranthe à fleurs en globe, *gomphrena globosa*. — (8) Espèce cramoisie. — (9) Variété jaune [ou blanche]. — (10) Barlerie bleue, *barleria cœrulea*, R. — (11) *Jhinhî*, *barleria cristata*. — (12) Espèce pourpre. — (13) Espèce jaune, *barleria prionitis*. — (14) Rose de la Chine, *hibiscus rosa*

^a Aussi माधवी et लता. — ^b सुमनस् [-नाः] f. ou सुमना f. — ^c Aussi ज्ञाती. — ^d Aussi बन्धुकः. — ^e Ou कुरवकः. — ^f Aussi कुरुण्टकः. — ^g अर्तगलः, ou अर्तगलः. — ^h Ou सैरीयकः. — ⁱ Ou सहचरी. — ^j Aussi जवा.

- 1 वज्रपुष्पं [पुष्पं तिलस्य यत्] ॥ ५६ ॥
 2 प्रतिहास^a-शतप्रास-चण्डात-ह्यमारकाः ।
 3 करवीरे
 4 करीरे [तु] क्रकर^b-ग्रन्थिलाव् [उभौ] ॥ ५७ ॥
 5 उन्मत्तः कितवो धूर्तो धुस्तूरः^c कनका-[-ह्यः] ।
 6 मातुलो मदनश् [चा-]
 7 [-स्य फले] मातुलपुत्रकः ॥ ५८ ॥
 8 फलपूरो वीजपूरो रुचको मातुलुङ्गके ।
 9 समीरणो मरुवकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः ॥ ५९ ॥
 10 जम्बीरो^d [ऽप्य्]
 11 [अथ] पर्णासे कठिञ्जर-कुठेरकौ ।
 12 [सिते] ऽर्जको [ऽत्र]
 13 पाठी [तु] चित्रको वङ्गि-[-संज्ञकः] ॥ ६० ॥

sinensis; * *H. mutabilis*, Wils. Dict. — (1) Fleur du sésame. — (2, 3) Laurier rose odorant, *nerium odorum*. — (4) *Karil* [vulg.] décrit comme une plante épineuse recherchée par les chameaux; * *capparis aphylla*, Roxb. — (5, 6) Pomme épineuse, *datura metel* et *D. fastuosa*. [Tous les mots signifiant *or* sont des synonymes de cette plante, comme le mot cité *kanaka*.] — (7) Fruit de cet arbrisseau. — (8) Citronnier, *citrus medica* [deux espèces sont ici nommées, mais quelques-uns considèrent les mots comme synonymes]. — (9, 10) *Marāa* [vulg.] marjolaine [les noms sanscrits cités sont aussi assignés à une espèce de basilic ou *ocymum* à petites feuilles et à une autre espèce de citron.] — (11) *Parnās* [plante considérée par quelques-uns comme le basilic sacré, *ocymum sanctum*]. — (12) Espèce blanche, *ocymum gratissimum*; * *O. villosum*, Wils. Dict. — (13) Dentelaire de Ceylan, *plumbago zeylanica*. [Tous les mots signifiant *feu* désignent aussi

^a Ou प्रतिहासः. — ^b Aussi क्रकचः. — ^c Aussi धुस्तूरः et धूस्तूरः. — ^d Aussi जम्बीरः.

- 1 अर्का-[-ह्व-]-वसुकास्फोट^a-गणरूप-विकीरणाः ।
- 2 मन्दाश् [चा-]-र्कपर्णे^b
- 3 [ऽत्र शुक्ले] ऽलर्क-प्रतापसौ ॥ ६१ ॥
- 4 शिवमल्ली पाशुपत एकाष्टीलो^c वको^d वसुः^e ।
- 5 वन्दा^f वृक्षादनी वृक्षरूहा जीवन्तिके-[-त्यपि] ॥ ६२ ॥

SECTION III.

PLANTES MÉDICINALES OU AYANT DES QUALITÉS PARTICULIÈRES.

- 6 वत्सादनी छिन्नरूहा गुडूची^g तन्त्रिकामृता^h ।
- 7 जीवन्तिका सोमवल्ली विशल्या मधुपर्ण्यⁱ [अपि] ॥ १ ॥
- 8 भूर्वा^j देवी मधुसा मोरटा तेजनी सुवा^k ।
- 9 मधूलिका मधुश्रेणी^l गोकर्णी पीलुपर्ण्य [अपि] ॥ २ ॥
- 10 पाठाम्बष्ठा^m विद्वकर्णीⁿ स्थापनी श्रेयसी रसा ।
- 11 एकाष्टीला पापचेली प्राचीना वनतित्तिका ॥ ३ ॥

cette plante, de même que *vahni*.] — (1, 2) Asclépiade gigantesque, *asclepias gigantea*; * *calotropis gigantea*, Wils. Dict. [Tous les noms du soleil sont des synonymes de cette plante, comme *arka*.] — (3) Espèce blanche. — (4) *Bakapouchpa* [plante confondue par quelques-uns avec l'*æschynomene grandiflora*, mais qui en paraît différente]. — (5) Plante parasite, *epidendrum tesseloides* et autres espèces. — (6, 7) *Gouritcha* [vulg.] *menispermum glabrum*. — (8, 9) *Aletris hyacinthoides* ou *dracæna nervosa*; * *sansevieria zeilanica*, Wilson's Dict. — (10, 11) *Ak-nidhi* [vulg.] *cissampelos hexandra*.

^a वसुक-आस्फोट. — ^b अर्कपर्णा. — ^c Aussi एकाष्टीला f. — ^d Aussi वकोः. — ^e Et वसुकः ou वसूकः. — ^f Également वन्दका et वन्दाका. — ^g Aussi गुडुची. — ^h तन्त्रिका, अमृता. — ⁱ मधुपर्णा. — ^j Et भूर्वा. — ^k Également सुवा. — ^l Aussi धनुःश्रेणी ou धनुः et श्रेणी. — ^m पाठा, अम्बष्ठा. — ⁿ Également अविद्वकर्णी et अविद्वकर्णा.

- 1 कटुः कटुम्बराशोकरोहिणी ^a कटुरोहिणी ।
- 2 मत्स्यपित्ता कृत्तभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी ॥ ४ ॥
- 3 आत्मगुप्ता जडाव्यण्डा ^b कण्डूरा ^c प्रावृषायणी ।
- 4 ऋष्यप्रोक्ता शूकशिम्बिः ^d कपिकच्छुश् ^e [च] मर्कटी ॥ ५ ॥
- 5 चित्रोपचित्रा ^f न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी ^g वृषा ।
- 6 प्रत्यक्ष्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपर्ण्यु [अपि] ॥ ६ ॥
- 7 अपामार्गः शैबरीको ^h धामार्गव ⁱ -मयूरकौ ।
- 8 प्रत्यक्षपर्णी ^j कीशपर्णी ^k किण्णिही खरमञ्जरी ॥ ७ ॥
- 9 फञ्जिका ब्राह्मणी पद्मा भार्गी ब्राह्मणयष्टिका ।
- 10 अङ्गारवल्ली बालेयशाक ^l -वर्वर-वर्द्धकाः ॥ ८ ॥
- 11 मञ्जिष्ठा विकसा ^m जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका ⁿ ।
- 12 मण्डूकपर्णी भण्डीरी ^o भण्डी योजनवल्ग्यु ^p [अपि] ॥ ९ ॥
- 13 यासो यवासो ^q दुःस्पर्शो धन्वयासः ^r कुनाशकः ।

(1, 2) *Katouki* [plante médicinale]. — (3, 4) *Kawatch* ou *kowitch*; [vulg.] *dolichos pruriens*; * *carpopogon pruriens*, Wils. Dict. — (5, 6) *Musalí* [vulg.] plante médicinale, probablen. *l'anthericum tuberosum*, * R.; *salvinia cucullata*, Wils. Dict. — (7, 8) *Apáng* [vulg.] espèce de cadelari, *achyranthes aspera*. — (9, 10) *Bamanáithí* [vulg.] *ovieda verticellata*, R.; * *siphonanthus indica*, Wils. Dict. — (11, 12) Espèce de garance, *rubia manjit* [*manjistha*] Roxb. — (13, et p. 99, lig. 1.) *Jawásá* [peut-être l'*hedysarum alhagi*? ou plutôt une nouvelle espèce].

^a कटुम्बरा [aussi कटुम्बरा] अशोकरोहिणी; aussi अशोका et रोहिणी. — ^b जडा [ou अजडा], अव्यण्डा ou अशयण्डा. — ^c Ou कण्डूरा. — ^d Et शुकशिम्बी ou शुकशिम्बा. — ^e Aussi कपिकच्छू. — ^f चित्रा, उपचित्रा. — ^g Également सम्बरी. — ^h Et शैबरी. — ⁱ Aussi धामार्गवः. — ^j Ou प्रत्यक्षपर्णी. — ^k Et कीशपर्णी. — ^l Aussi बालेयः. — ^m Ou विकसा. — ⁿ Aussi कालमेषिका. — ^o Et भण्डीरी. — ^p Également योजनपर्णी. — ^q Également यासः et अयासः. — ^r Aussi धन्वयासः et धनुर्यासः.

- 1 रोदनी^a कच्छुरानन्ता^b समुद्रान्ता दुरालभा ॥ १० ॥
- 2 पृष्णिपर्णी^c पृथक्पर्णी चित्रपर्ण्य अङ्घ्रिवल्लिका ।
- 3 क्रोष्टुविन्ना सिंहपुच्छी कलशिरू^d धावनिरू^e गुहा ॥ ११ ॥
- 4 निदिग्धिका स्पृशी व्याघ्री वृहती कण्टकारिका ।
- 5 प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिके-[-त्यपि] ॥ १२ ॥
- 6 नीली काला क्लीतकिका ग्रामीणा मधुपर्णिका ।
- 7 रञ्जनी श्रीफली तुल्या द्रोणी^f दोला^g [च] नीलिनी ॥ १३ ॥
- 8 अवल्गुजः सोमराजी^h सुवल्लिःⁱ सोमवल्लिका ।
- 9 कालमेषी^j कृत्तफला वाकुची^k पूतिफल्य [अपि] ॥ १४ ॥
- 10 कृत्तोपकुल्या^l वैदेही मागधी चपला कणा ।
- 11 उषणा^m पिप्पलीⁿ शौण्डी काला
- 12 [-थ] करिपिप्पली ॥ १५ ॥

(2) *Tchákouliya*. [Les explications diffèrent : les noms dans cette ligne et dans la suivante étant synonymes suivant quelques-uns, mais désignant deux plantes différentes suivant d'autres ; la première semble être l'*hedy-sarum lagopodioides* ; * *hemionites cordifolia*, Roxb. Wils. Dict.] — (3) *Rám-vásak* [même plante que la précédente selon le Dictionnaire de Wilson]. — (4, 5) Espèce de morelle piquante, *solanum Jacquini*. — (6, 7) Indigo, *indigofera tinctoria*. — (8, 9) *Somrádj* [vulg.] *conyza* [ou *serratula*] *anthelmintica*. — (10, 11) Poivre long, *piper longum*. — (12, et p. 100, lig. 1.) Autre espèce ; * *pothos officinalis*, Roxb. Wils. Dict.

^a Également चोदनी. — ^b कच्छुरा, अनन्ता. — ^c Ou पृष्णिपर्णी. — ^d Aussi कलश्री et कलसिः. — ^e Ou धावनी. — ^f Quelques-uns écrivent तूणी, d'autres तूली. — ^g Aussi मेला suivant une autre leçon. — ^h सोमराजिन् m. ; aussi सोमराज्ञी f. — ⁱ Aussi सुवल्ली (Ed. Calc. — Wils. Dict.) — ^j Également कालमेशी. — ^k Quelques-uns écrivent वागुञ्जी. — ^l कृष्णा, उपकुल्या. — ^m Aussi उषणा. — ⁿ Également पिप्पलिः.

- 1 कपिवल्ली कोलवल्ली श्रेयसी वशिः^a [पुमान्] ।
 2 चव्यं^b [तु] चविका^c
 3 काकचिञ्ची गुञ्जे [तु] कृत्तला ॥ १६ ॥
 4 पलंकषा [त्] इक्षुगन्धा श्रद्धंघ्रा स्वाटुकण्टकः ।
 5 गोकण्टको गोकुर्को वनशृङ्गाट [इत्यपि] ॥ १७ ॥
 6 विश्वा विषा प्रतिविषातिविषोपविषारूपा^d ।
 7 शृङ्गी महौषधं [चा-]
 8 [-थ] क्षीरावी दुग्धिका [समे] ॥ १८ ॥
 9 शतमूली बहुसुताभीरू^e इन्दीवरी वरी ।
 10 ऋष्यप्रोक्ता-भीरूपत्री-नारायण्यः^f शतावरी ॥ १९ ॥
 11 अहिरू
 12 [अथ] पीतदु-कालेयक^g-हरिद्रवः^h ।
 13 दार्वी पचम्बचाⁱ दारुहरिद्रा पर्जन्यी-[-त्यपि] ॥ २० ॥
 14 वचोग्रगन्धा^j षडुग्रन्था गोलोमी शतपर्विका ।

(2) Plante qui produit ce poivre [ou synonyme du précédent; ou encore nom d'une plante différente; *tetranthera apetala*, Roxb.; * *piper chavya*, R. Wils. Dict.] — (3) *Ratti* [vulg.] *abrus precatorius*. — (4, 5) *Gokharou* [vulg.] *barleria* [ou *ruellia*] *longifolia*. [Le nom de *gokharou* semble être aussi appliqué au *tribulus lanuginosus*.] — (6, 7) *Atis* [vulg.] *betula*? (*Asiatic Researches*, t. VI, p. 573). — (8) *Dudhi* [vulg.] *asclepias rosea*, R. et autres espèces. — (9-11) *Satdvarī* [vulg.] *asparagus racemosus*, Willd. — (12, 13) *Dāru haldī* [vulg.] *amomum xanthorrhizon*, Roxb. * *curcuma xanthorrhizon*, Wils. Dict. — (14) Iris des marais? *iris pseudacorus*?

^a Et वसिः. — ^b Aussi चव्या. — ^c Ou चवो et चविकं. — ^d प्रतिविषा, अतिविषा, उपविषा, अरूपा. — ^e बहुसुता, अभीरूः. — ^f Sing. नारायणी. — ^g Aussi कालीयकः. — ^h हरिद्रु. — ⁱ Également पचम्बचा. — ^j वचा, उग्रगन्धा.

- 1 [शुक्ला] हैमवती
 2 वैद्यमातृ-सिंह्यौ ^a [तु] वासिका ^b ॥ २१ ॥
 3 वृषो ^c ऽटरुषः ^d सिंहास्यो वासको ^e वाजिदन्तकः ।
 4 आस्फोता ^f गिरिकर्णी [स्यात्] विष्णुक्रान्तापराजिता ^g ॥ २२ ॥
 5 इक्षुगन्था [तु] काण्डेक्षु-कोकिलाक्षेक्षुर ^h-क्षुराः ।
 6 शालेयः ⁱ [स्यात्] शीतशिवश् च्छत्रा मधुरिका मिशी ^j ॥ २३ ॥
 7 मिश्रेया-[-प्य]
 8 [अथ] सीरुण्डो ^k वज्रद्रुः ^l सुक् सुही ^m गुडा ⁿ ।
 9 समन्तदुग्धा-
 10 [-थो] वेल्लम् अमोघा ^o चित्रतण्डुला ॥ २४ ॥
 11 तण्डुलश् ^p [च] कृमिघ्नश् [च] विडङ्ग ^q [पुन्नपुंसकं] ।
 12 बला वाय्रालको
 15 घण्टारवा [तु] शणपुष्पिका ॥ २५ ॥

(1) Espèce blanche, *acorus calamus*. — (2, 3) *Justicia adhatoda* et *J. ganderussa*. — (4) *Clitoria ternatea*. — (5) *Barleria longifolia* [mais ces mots s'appliquent aussi au câprier épineux, *capparis spinosa*]. — (6, 7) Deux espèces d'aneth, *anethum sowa* et *A. pammorium*, R. — (8, 9) Euphorbe [diverses espèces, comme l'*euphorbia tiroucalli* etc.] — (10, 11) *Bâbren* [la semence est employée comme vermifuge]. — (12) *Sida cordifolia* et *rhombifolia* etc. — (13) *Crotalaria retusa*, *C. sericea*, et autres espèces.

^a सिंह्यौ. — ^b Aussi वाश्रा et वाशिका, (et वासका *Ed. Calc. Wils. Dict.*) — ^c Ou वृषः. — ^d Et ऋटरुषः. — ^e Également वाशकः. — ^f Aussi आस्फोटा. — ^g विष्णु-क्रान्ता, अपराजिता. — ^h कोकिलाक्ष-इक्षुर. — ⁱ Ou शालेयः. — ^j Aussi मिसिः, मिसी, et मिशिः. — ^k Aussi सिहुण्डः et शीहुण्डः. — ^l Également वज्रः. — ^m Ou सुहा, aussi सुहिः. — ⁿ Et गुडी; aussi गुडः. — ^o Et मोघा. — ^p Aussi तन्तुलः. — ^q Ce mot et les deux précédents prennent les trois genres suivant quelques-uns.

- 1 मृद्वीका गोस्तनी^a द्राक्षा स्वाद्वी मधुसू-[-ति च] ।
 2 सर्वानुभूतिः सरला^b त्रिपुटा^c त्रिवृता त्रिवृत् ॥ २६ ॥
 3 त्रिभण्डी रेचनी^d •
 4 श्यामा-पालिन्ध्यौ^e [तु] सुषेणिका ।
 5 काला मसूरविदलार्द्धचन्द्रा^f कालमेषिका ॥ २७ ॥
 6 मधुकं क्लीतकं यष्टिमधुका मधुयष्टिका^g ।
 7 विदारी क्षीरशुक्लेक्षुगन्धा^h क्रोष्ट्री [च या शिता] ॥ २८ ॥
 8 [अन्या] क्षीरविदारी [स्यान्] महाश्वेतर्क्षगन्धिकाⁱ ।
 9 लाङ्गली शारदी तोयपिप्पली शकुलादनी ॥ २९ ॥
 10 खराश्चा कारवी दीप्यो^j मयूरो लोचमस्तकः^k ।
 11 गोपी^l श्यामा शारिवा [स्याद्] अनन्तोत्पलशारिवा^m ॥ ३० ॥
 12 योग्यम् ऋद्धिः सिद्धि-लक्ष्म्यौ
 13 वृद्धेरु [अप्यु आह्वया इमे] ॥ ३१ ॥

(1) Raisin. — (2, 3) *Teorí*, espèce blanche; * *convolvulus turpethum*, Wils. Dict. — (4, 5) Espèce noire. — (6) Réglisse? *glycyrrhiza glabra?* ou l'*abrus precatorius albus*, dont on emploie la racine. — (7) *Bhuinkaonrá*, espèce sombre, *convolvulus paniculatus*. [Les explications diffèrent et transposent la distinction de couleur.] — (8) Autre espèce pâle. — (9) *Kantchará* [vulg.], *jussieua repens*. — (10) *Celosia cristata*. — (11) *Syám-latá*; * *echites frutescens*, Wils. Dict. [Les interprétations diffèrent : les uns rapportent les deux derniers termes; d'autres, toute la ligne à une plante différente.] — (12) *Riddhi*. — (13) *Vridhhi* [cet article a pour synonymes les mots de l'article précédent; ce sont des drogues médicinales].

^a Aussi गोस्तना. — ^b Aussi सर्पा, सर्सा, et सवहा; quelques-uns lisent सुवहा. — ^c Et त्रिपुटो. — ^d Également रेचनी. — ^e पालिन्धी ou पालिन्दी. — ^f मसूरविदला अर्द्धचन्द्रा. — ^g Aussi यष्टो. — ^h क्षीरशुक्ला, इक्षुगन्धा. — ⁱ महाश्वेता, ऋक्षगन्धिका. — ^j Aussi दीपकः. — ^k Également लोचमर्कटः. — ^l Ou गोपा. — ^m अनन्ता, उत्पलशारिवा.

SECTION IV.

PLANTES UTILES.

- 1 कदली^a वारणबुसा^b रम्भा मोचांशुमत्फला^c ।
- 2 काष्ठीला
- 3 मुद्गपर्णी [तु] काकमुद्गा सहे-[-त्यपि] ॥ १ ॥
- 4 वार्ताकी^d ह्लिङ्गुली सिंही भण्डाकी^e दुःप्रधर्षणी^f ।
- 5 नाकुली सुसा रस्ना सुगन्धा^g गन्धनाकुली^h ॥ २ ॥
- 6 नकुलेष्टा भुजङ्गाक्षी शत्राकी सुवहा [च सा] ।
- 7 विदारोगन्धांशुमतीⁱ सालपर्णी^j स्थिरा ध्रुवा ॥ ३ ॥
- 8 तुण्डिकेरी समुद्रान्ता कर्पासी^k वद्रे-[-ति च] ।
- 9 भारद्वाजी [तु सा वन्या]

(1, 2) Bananier; *musa sapientium*. — (3) *Mugānt* [vulg.] * *phaseolus trilobus*, Wils. Dict. — (4) Aubergine ou plante aux œufs, *solanum melongena*. — (5, 6) *Rasan*, plante incertaine * qui est supposée fournir un antidote à la mangouste lorsqu'elle est blessée par un serpent. Wils. Dict. [Voyez *Asiat. Res.* tom. IV, p. 309. La seconde ligne, suivant quelques-uns renferme des noms d'une plante différente.] — (7) *Sálparnī* [vulg.] *hedysarum gangeticum*. — (8) Cotonnier. — (9) Cotonnier sauvage [dans le Bengale, l'*hibiscus vitifolius* porte le nom de cotonnier sauvage, *vana-kārpāsa*].

* Aussi कदलः m. — ^b Également वारणबुषा; quelques-uns écrivent वारबुषा. — ^c मोचा, अंशुमत्फला. — ^d Aussi वार्ता ou वार्ताकुः; et masc. वार्ताकः वार्ताकुः; et वार्ताकिन् [-की] — ^e भण्डाकी (*Éd. Ser. MS. beng.*) भण्डाकी (*Éd. Calc. Wils. Dict.*) — ^f Aussi दुःप्रधर्षणी. — ^g Quelques-uns lisent नागसुगन्धा. — ^h Les médecins considèrent cette plante comme une variété de la précédente. — ⁱ विदारोगन्धा, [aussi विदारो] अंशुमती. — ^j Également सालपर्णी. — ^k Et कर्पासी.

- 1 शृङ्गी^a [तु] वृषभो^b वृषः ॥ ४ ॥
 2 गङ्गेरुकी नागवला श्षा रूस्वगवेधुका ।
 3 धामार्गवो घोषकः [स्यान्]
 4 महाजाली^c [स पीतकः] ॥ ५ ॥
 5 ज्योत्स्नी^d पटोलिका जाली
 6 नादेयी भूमिजम्बुका ।
 7 [स्यात्] लाङ्गलिक्ख् अग्निशिखा
 8 काकाङ्गी काकनासिका ॥ ६ ॥
 9 गोधापदी [तु] सुवहा
 10 मुसली^e तालमूलिका ।
 11 अजशृङ्गी विषाणी [स्याद्]

(1) *Richabha*, drogue médicinale. — (2) *Gorakha* [plusieurs plantes sont désignées sous ce nom. — * *Hedysarum lagopodioides*. Wils. Dict.] — (3) *Gochâ*, à fleurs blanches; — (4) — à fleurs jaunes. — (5) Petit concombre, *trichosanthes diœca*, R. [Les mêmes noms sont aussi appliqués à la plante appelée *luffa acutangula* ou au *cucumis acutangulus*.] — (6) *Bhuinjâmb*. [Les interprétations diffèrent beaucoup; quelques-uns remarquent que les termes sont ici répétés par erreur; voyez sect. II, sloka 18.] — (7) *Lângaliya* [vulg.]* petite plante grimpante, *gloriosa superba*, ou *comelina salicifolia*, Wils. Dict. — (8) *Kâk-janghî* [vulg.], *leea æquata* [ou *trichosanthes cucumerina*, suivant d'autres synonymes hindis]. — (9) *Cissus pedata*, Vahl. — (10) *Mousal* [vulg. — peut-être l'*anthericum tuberosum*; * *curculigo orchioides*, Wils. Dict.] — (11) *Mérâsringî* [vulg. plante représentée comme laiteuse et épineuse, avec un fruit semblable à une corne de bélier, et employée comme remède pour les yeux].

^a Fém. aussi ऋग्निन् [-गी] m. — ^b Aussi ऋषभः (*Wils. Dict.* — *MSS.*) — ^c Fémin. aussi महाजालिन् masc. suivant quelques-uns, mais à tort. — ^d Et ज्योत्स्ना. — ^e Aussi मुषली.

गोजिह्वा-द्वार्विके^a [समे] ॥ १ ॥

ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागवह्य् [अप्य]

[अथ] द्विजा ।

हरेण^b रेणुका कौन्ती कपिला भस्मगन्धिनी ॥ ८ ॥

एलवालुकम् ऐलेयं सुगन्धि हरिवालुकं^c ।

वालुकं [चा-]

[अथ] पालंक्वां^d मुकुन्दः^e कुन्द^f-कुन्दुः^g ॥ ९ ॥

बालं ह्रिवेरं^h-वर्हिष्ठोद्रीच्यंⁱ [केशाम्बुनाम च] ।

कालानुसार्य-वृद्धाश्मपुष्पं^j-शीतशिवानि [तु] ॥ १० ॥

शैलेयं

तालपर्णी [तु] दैत्या गन्धकुटो मुरा ।

गन्धिनी

गजभक्ष्या^k [तु] सुवह्य सुरभी^l रसा ॥ ११ ॥

(1) *Gojî* [vulg. herbe potagère qui croît dans les champs de blé, *phlo-mis esculenta*? * *Elephantophus scaber*, Wils. Dict.] — (2) Bétel, *piper betel*. — (3, 4) *Rénoukâ* [cet article et les cinq suivants sont des parfums de différentes sortes]. — (5, 6) *Eldbâlouka*. — (7) *Koundourou* [peut-être la résine de la plante nommée *boswellia serrata*, ou *B. thurifera*, Wils. Dict.] — (8) *Bâlâ* [*andropogon schænanthus*? — Tous les synonymes de *cheveu* et d'eau désignent aussi cette résine]. — (9, 10) Benjoin. — (11, 12) *Mourâ*. — (13, et p. 106, lig. 1.) *Salaé* [vulg.] *boswellia serrata*, Roxb. * *B. thuri-*

* Aussi द्वार्विका. — ^b हरेणुः. — ^c Également हरिवालुकं. — ^d पालंकी et पालंक्वा. — ^e Aussi masc. et fém. मुकुन्दः. — ^f Quelques-uns lisent कुन्दः. — ^g Et non कुन्दुरः qui est fautif. — ^h Aussi ह्रिवेरं. — ⁱ वर्हिष्ठ-[ou वर्हिःष्ठ] उद्रीच्यं (*Wils. Dict.* — *MSS.*) — उदिव्यं (*Éd. Ser.*) — उदियं (*Éd. Calc.*) — ^j वृद्ध-अश्मपुष्प (*Éd. Calc.* — *Wils. Dict.* — *MSS.*) — अश्मपुष्प (*Éd. Ser.*) — ^k Et गजभक्ष्या. — ^l सुरभिः ou सुरभी; aussi सुरभीरसा.

- 1 महेरणा^a कुन्दुरूकी शल्लकी^b ह्लादिनी^c [-ति च] ।
 2 अग्निज्वाला-सुभिन्ने [तु] धातकी धातृपुष्पिका^d ॥ १२ ॥
 3 पृथ्वीका चन्द्रवालैला^e निष्कुटि^f वडुला-
 4 [-थ सा ।
 5 सूक्ष्मो-]-पकुञ्चिका^g तुल्या कोरङ्गी त्रिपुटा त्रुटिः^h ॥ १३ ॥
 6 व्याधिः कुष्ठं पाणिभाव्यं व्याप्यंⁱ पाकलम् उत्पलं ।
 7 शंखिनी चौरपुष्पी [स्यात्] केशिन्य
 8 [अथ] वितुन्नकः ॥ १४ ॥
 9 झटामलाञ्जटा^j ताली शिवा तामलकी [-ति च] ।
 10 प्रपौण्डरीकं पुण्डर्यं^k
 11 [अथ] तुन्नः कुवेरकः ॥ १५ ॥
 12 कुणिः^l कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षो^m
 13 [सथ] राक्षसी ।

fera, Wils. Dict. — (2) *Lythrum fruticosum*, L. ou *grislea tomentosa*, R. — (3) Grand cardamome. — (4, 5) Petit cardamome. — (6) *Koûr* ou *kouth*; * *costus speciosus*, Wils. Dict. — (7) *Tchor-kântâ* [vulg.] *andropogon aciculatum*. — (8, 9) *Bhoûmi âmalâkî* [un commentateur applique les noms sanscrits à l'arbrisseau appelé *flacourtia cataphracta*]. — (10) *Pound'ariya* [espèce décrite comme une petite plante herbacée à feuille semblables à celles de l'*hedysarum gangeticum*; employée pour les maux d'yeux]. — (11, 12) *Tounna* [vulg.] *cedrela toona* [tunna]. — (13) *Tchor*, espèce de parfum.

^a Également महेरणा. — ^b Aussi सल्लकी et सिल्लकी ou शिल्लकी. — ^c Également ह्लादिनी. — ^d Ou धातृपुष्पिका. — ^e चन्द्रवाला, एला. — ^f Et निष्कुटी. — ^g उपकुञ्चिका. — ^h Ou त्रुटी. — ⁱ Et व्याप्यं, ou व्याप्यं. — ^j कटा, अमला [quelques-uns lisent काटा et माला; aussi काटामला], अञ्जटा, également अमलाञ्जटा. — ^k Ou पौण्डर्यं. — ^l Aussi तुणिः. — ^m Ou नन्दीवृक्षः.

- 1 चण्डा धनहरी क्षेम-दुःपत्र-गणह्रासकाः^a ॥ १६ ॥
 2 व्याडायुधं^b व्याघ्रनाखं करजं चक्रकारकं ।
 3 शुषिरा विद्रुमलता कपोताङ्गि नटी नली ॥ १७ ॥
 4 धमन्यु^c अञ्जनकेशी [च] हनुर हृदयविलासिनी ।
 5 श्रुक्तिः शंखः खुरः कोलदलं नखम्^d
 6 [अथा-]-ढकी^e ॥ १८ ॥
 7 काक्षी मृत्ना तुबरिका^f मृतालक^g-सुराधृजे ।
 8 कुटन्नटं दशपुं^h वानेयं परिपेलवंⁱ ॥ १९ ॥
 9 प्लव-गोपुर-गोनर्द-कैवर्तिमुस्तकानि^j [च] ।
 10 ग्रन्थिपर्णा शुकं वर्हिपुष्पं^k स्थौण्य-कुङ्कुमे^l ॥ २० ॥
 11 मरुन्माला^m [तु] पिशुना स्पृक्षाⁿ देवी लता लघुः ।

(1) *Tchor.* — (2) *Nakhî*; cet article et le suivant sont des parfums. — (5) *Nalî.* — (4) Autre parfum. [Quelques commentateurs font les deux premiers termes synonymes des précédents, et non des suivants.] — (5) *Nakhî.* [Cet article et les autres semblables, ci-dessus mentionnés, sont désignés ici comme des parfums végétaux; mais ce que l'on vend sous le nom de *nakhî* paraît être un poisson à coquille séché. Tout terme signifiant *ongle* désigne aussi ce parfum. Selon quelques-uns, les mots des deux lignes précédentes sont synonymes de ceux de celle-ci.] — (6, 7) *Toubarî*, terre odorante. — (8, 9) *Cyperus rotundus.* — (10) *Gânthiala*, parfum. — (11, et p. 108, lig. 1.) *Piring* ou *Asparac* [vulg.] *medicago esculenta*, R. * *Tri-*

^a Également गणः. — ^b Aussi व्याडायुधं. — ^c धमनी ou धमनिः. — ^d Également नखी f. — ^e आढकी. — ^f Aussi तूबरो ou तूवरो et तूबरिका ou तूवरोका. — ^g Également मृत्नालकं, et मृत् et तालकं. — ^h Aussi दशपूरं et दशपुरं ou दशपूरं. — ⁱ Ou, suivant une autre leçon, परिपेलं ou पारिपेलं. — ^j Également कैवर्तिमुस्तकं ou कैवर्तो-मुस्तकं. — ^k Ou वर्हिःपुष्पं; aussi वर्हि et पुष्पं; également वर्ह et शुकवर्ह. — ^l Quelques-uns ajoutent à cet article le mot मरुत् de la ligne suivante. — ^m Aussi मरुत् et माला. — ⁿ Ou पृक्षा.

- 1 समुद्रान्ता वधुः^a कोटिवर्षा^b लङ्कोपिके^c [-त्यपि] ॥ २१ ॥
- 2 तपस्विनी जटामांसी^d जटिला लोमशा मिसी^e ।
- 3 त्वक्पत्रम्^f उक्तं भृङ्गं त्वचं चोचं वराङ्गकं ॥ २२ ॥
- 4 कर्चूरको द्राविडकः काल्पको^g वेधमुल्यकः ॥ २२ ॥

SECTION V.

DROGUES ET HERBES POTAGÈRES, PLANTES HERBACÉES, PALMIERS.

- 5 औषध्यो^h [जातिमात्रे स्यूर]
- 6 [अजातौ सर्वम्] औषधं ।
- 7 शाका-[-ल्यं पत्रपुष्पादि]
- 8 तण्डुलीयोऽल्पमारिषः ॥ १ ॥
- 9 विशल्याग्निशिखानन्ताⁱ फलिनी शक्रपुष्प्य^j [अपि] ।
- 10 [स्याद्] ऋक्षगन्था^k इगलान्त्रावेगी^l वृद्धदास्कः ॥ २ ॥

gonella corniculata, Wils. Dict. — (2) Nard indien, *valeriana jatamansi*. — (3) Casse ligneuse [ou bien les trois premiers termes signifient *mala-bathrum*, et les trois autres, l'écorce de la casse]. — (4) *Zerumbet* ou *zedoaire*, *curcuma zerumbet*, R. — (5) Herbe ou plante annuelle. — (6) Drogue ou simple. — (7) Plante bonne à manger. — (8) Amarante, *Amaranthus polygamus*, * *A. polygonoides*, Wils. Dict. — (9) Espèce d'herbe potagère indéterminée. — (10, et p. 109, l. 1.) Autre espèce, peut-être le *convolvulus argenteus*.

^a वधुः (Éd. Ser.) — वधुः (Éd. Calc. — Wils. Dict. — MSS.) — ^b Aussi कोटो et वर्षा. — ^c Aussi लङ्कोपिका ou लङ्कोयिका; également वर्षालङ्कोयिका. — ^d Aussi जटा et मांसी. — ^e Ou मिशिः, मिषिः et मिषो; quelques-uns lisent ici आमिषो, mais à tort. — ^f Aussi त्वक् et पत्र. — ^g Ou काल्यकः. — ^h औषधिः et औषधो. — ⁱ विशल्या, अग्निशिखा, अनन्ता. — ^j शक्रपुष्पी. — ^k Ou ऋष्यगन्था. — ^l इगलान्त्री [et इगलाङ्गी; aussi इगला et अन्त्री] आवेगी.

- 1 जुङ्गो^a
- 2 ब्राह्मी^b [तु] मत्स्याक्षी वयस्था^c सोमवल्लरी^d ।
- 3 पटुपर्णी हैमवती स्वर्णक्षीरी हिमावती ॥ ३ ॥
- 4 ह्यपुच्छी [तु] काम्बोजी माषपर्णी महासहा ।
- 5 तुण्डिकेरी^e रक्तफला विम्बिका पीलुपर्ण्य^f [अपि] ॥ ४ ॥
- 6 वर्वरा कवरी तुङ्गी खरपुष्पाजगन्धिका^g ।
- 7 एलापर्णी [तु] सुवहा राम्ना युक्तासा [च सा] ॥ ५ ॥
- 8 चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बुषाम्लोषिका^h ।
- 9 सहस्रवेधी चुक्रो ऽम्रवेतसः शतवेध्यⁱ [अपि] ॥ ६ ॥
- 10 नमस्कारी गण्डकालीⁱ समङ्गा खट्विरी-[-त्यपि] ।
- 11 जीवन्ती जीवनी^j जीवा जीवनीया मधुश्^k [च सा] ॥ ७ ॥
- 12 कूर्चशीर्षो मधुस्कः शृङ्ग-ऋस्वाङ्ग-जीवकाः ।

(2) Plante lunaire, *asclepias acida*, R. ou *cynanchum viminale* [mais quelques-uns distinguent la *brâhmî* de la *soma-latâ*]. — (3) Espèce médicinale [que l'on dit croître sur les montagnes neigeuses.] — (4) *Mâchânt* [vulg.] *Glycine debilis*, Wils. Dict. — (5) *Têlacoutcha* [vulg.] *momordica monadelpha*, ou *bryonia grandis*. — (6) *Barbarâ* [vulg.] *ocymum gratissimum?* *O. pilosum*, Roxb. Wils. Dict. — (7) *Elânt* [vulg.] *mimosa octandra?* — (8) Oseille des bois, *oxalis monadelpha*, R. — (9) Oseille [d'autres interprétations sont aussi données par les commentateurs. * *Rumex vesicarius*, Wils. Dict.] — (10) Plante sensitive. [Quelques-uns font les quatre termes de cet article et les cinq précédents synonymes comme noms d'une plante sensitive, d'autres rapportent cette ligne au *lycopodium imbricatum*, R.] — (11) *Djîyatî* [vulg.] *celtis orientalis?* — (12) *Djivaka* [vulg.]

1. ^a Également तुङ्गा f. — ^b Ou ब्रह्मी. — ^c Et वयःस्था. — ^d Aussi सोमवल्लरिः et सोमवल्लिका, et d'autres termes synonymes comme सोमलता, चन्द्रवल्लरी. — ^e Ou तुण्डिकेरी. — ^f पीलुपर्णी. — ^g खरपुष्पा, अजगन्धिका. — ^h दन्तशठ, अम्बुषा, अम्लोषिका. — ⁱ Aussi गण्डकारी. — ^j Ou जीवना. — ^k Aussi मधुस्रवा et स्रवा.

- 1 किराततिक्तो भूनिम्बो ऽनार्यतिक्तो ^a
- 2 [ऽथ] सप्रला ॥ ८ ॥
- 3 विमला सातला ^b भूरिफेना चर्मकषे ^c [-त्यपि] ।
- 4 वायसोली स्वादुरसा वयस्था ^d -
- 5 [-थ] मकूलकः ^e ॥ ९ ॥
- 6 निकुम्भो ^f दन्तिका प्रत्यक्ष्रेण्यु ^g उदुम्बरपर्ण्यु [अपि] ।
- 7 अजमोदा [तू-]-ग्रगन्धा ^h
- 8 ब्रह्मदर्भा यवानिका ⁱ ॥ १० ॥
- 9 [मूले] पुष्कर-काश्मीर-पद्मपत्राणि ^j [पौष्करे] ।
- 10 अव्यधातिचरा ^k पद्मा चारटी पद्मचारिणी ॥ ११ ॥
- 11 काम्पिलः ^l कर्कशश् चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनी ^m [-त्यपि] ।
- 12 प्रपुन्नाडस् ⁿ [त्] एउगजो ददुघ्नश् चक्रमर्दकः ॥ १२ ॥
- 13 पद्माट उरणाक्षश् ^o [च]
- 14 पलाण्डुस् [तु] सुकन्दकः ^p ।

(1) Espèce de gentiane, *gentiana cherayta*, R. — (2, 3) *Tcharmaghás* [vulg.]. — (4) *Kákolí* [vulg.]. — (5, 6) *Dantí* [vulg.]. — (7) *Carvi*; *carum carvi* [ou suivant quelques-uns synonyme du suivant; d'autres le confondent avec l'*apium involucreatum*]. — (8) *Ajwaen* [vulg.] *ligusticum ajwaen*, R. — (9) Espèce de costus, *costus speciosus*? — (10) *Sthalpadm* [vulg.] *hibiscus mutabilis*. — (11) *Soundá-rotchaní* [vulg.] *crinum*? — (12, 13) Casse, *cassia tora*, ou *C. alata*. — (14) Oignon, *allium cepa* et

^a Également चिरातिक्तः. — ^b Ou प्रातला. — ^c Aussi चर्मकसा. — ^d Et कयस्था ou कायस्था. — ^e Ou मुकूलकः. — ^f Également निकुम्भः. — ^g प्रत्यक्ष्रेणी. — ^h अग्रगन्धा. — ⁱ Ou यवानी; aussi यमानी et यमानिका. — ^j Également पद्मपर्णी. — ^k अव्यधातिचरा. — ^l Et कंपिलः; ou कपोलः; aussi कंपिलः et कांपिल्यः. — ^m Également रोचनी. — ⁿ Et प्रपुन्नाडः; ou प्रपुनाडः. — ^o Suivant une autre leçon, tout mot signifiant bélier. — ^p Aussi मुकन्दकः; et मुकुन्दकः.

- 1 लतार्क-दुटुमौ^a [तत्र हस्ति]
 2 [सथ] महौषधं ॥ १३ ॥
 3 लशुनं गृञ्जनारिष्ट^b-महाकन्द-स्सोनकाः ।
 4 पुनर्नवा [तु] शोधय्री
 5 वितुन्नं सुनिषण्णकं ॥ १४ ॥
 6 [स्याद्] वातकः शीतलो^c ऽपराजिताशनपर्ण्य^d [अपि] ।
 7 पारवताङ्घ्रिः कटभी पण्या^e ज्योतिष्मती लता ॥ १५ ॥
 8 वार्षिकं त्रायमाणा [स्यात्] त्रायन्ती बलमद्रिका ।
 9 विष्वक्सेनप्रिया गृष्टि^f वाराही वद्रे-[-त्यपि] ॥ १६ ॥
 10 मार्कवो^g भृङ्गराजः^h [स्यात्]
 11 काकमाची [तु] वायसी ।
 12 शतपुष्पाⁱ सितछत्रातिछत्रा^j मधुरा मिसिः^k ॥ १७ ॥
 13 अवाक्पुष्पी कारवी [च]
 14 सरणा^l [तु] प्रसारणी ।

A. *ascalonicum*. — (1) Oignon vert. — (2, 3) Ail. — (4) Plante purgative, *boerhavia diffusa alata*. — (5) Espèce d'herbe potagère, *marsilea dentata*, R. — (6) *Asan-parni* [vulg.] * *marsilea quadrifolia*, Wils. Dict. — (7) Pois de merveille, *cardiospermum halicacabum*. — (8) *Trâyamân'a*. — (9) *Vârâhî*, ou *tchâmârâlou* [vulg.] *dioscorea*. — (10) *Bhringariva* [vulg.] *eclipta* ou *verbesina prostrata*. — (11) Herbe potagère, *solanum trilobum*? * *S. indicum*, Wils. Dict. — (12, 13) *Sonph*, anis ou plutôt *anethum sowa*, R. [Quelques-uns appliquent les deux derniers termes à une plante différente.] — (14, et p. 112, l. 1.) *Gandhabhâdâliyâ* [vulg.] *pæ-*

—^a Également दुटुमः. — ^b गृञ्जन-अरिष्ट. — ^c Ou शीतलवातकः. — ^d अपराजिता अशनपर्णी et शरणपर्णी. — ^e Aussi पिण्या. — ^f Également वृष्टिः. — ^g Également मार्करः. — ^h Aussi भृङ्गराजन् [-जा] et भृङ्गराजन् neut. — ⁱ Ou सतपुष्पा. — ^j सितछत्रा अतिछत्रा. — ^k Et मिशिः ou मिषिः. — ^l Aussi सर्पा.

- 1 [तस्यां] कटम्भरा राजवला भद्रवले-[-ति च] ॥ १८ ॥
 2 जनी^a जतूका^b रजनी^c जतुकृच् चक्रवर्तिनी ।
 3 संस्पर्शी-
 4 [-थ] शटी^d गन्धमूली^e षडग्रन्थिके-[-त्यपि] ॥ १९ ॥
 5 कर्वुरी^f [ऽपि] पलाशो
 6 [ऽथ] कारवेल्लः कटिल्लकः ।
 7 सुषवी^g [चा-]
 8 [-थ] कुलकं^h पटोलस् तित्तकः पटुः ॥ २० ॥
 9 कम्पाण्डकस्ⁱ [तु] कर्काहूर्
 10 इर्वारुः^j कर्कटी^k [स्त्रियौ] ।
 11 इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी [स्यात्]
 12 तुंब्यु^l अलाबूरु^m [उभे समे] ॥ २१ ॥
 13 चित्रा गवाक्षी गोडुम्बा
 14 विशाला [त्] इन्वारुणी ।

deria foetida. — (2, 3) *Tchakavat*, plante odorante. — (4, 5) *Ambahaldi* [le nom hindi, emprunté ici à des ouvrages médicaux, appartient à une nouvelle espèce de *curcuma*. * *C. omhaldi*, Wils. Dict.]. — (6, 7) *Momordica charantia*. — (8) *Trichosanthes diæca*, R. — (9) Citrouille, *cucurbita pepo*. — (10) Espèce de concombre, *cucumis utilatissimus*, R. — (11) Citrouille âcre [variété de l'espèce suivante]. — (12) Citrouille allongée, *cucurbita lagenaris*. — (13) Autre espèce de concombre, *cucumis madraspatanus*. — (14) Coloquinte, *cucumis colocynthis*.

^a Ou जनिः. — ^b Également जतुका. — ^c Quelques-uns lisent जननी. — ^d Et सटी ou षटी. — ^e Quelques-uns lisent गन्धशटी. — ^f Ou कर्वुरः; aussi कर्चूरः. — ^g Et सुषवी ou सुषावी. — ^h Aussi कुलकं. — ⁱ Ou कम्पाण्डकः. — ^j Aussi इर्वारुः, इर्वालुः, उर्वारुः et एर्वारुः. — ^k Également कर्कटिः. — ^l तुम्बी ou तुम्बिः. — ^m Aussi अलाबुः, अलाबुः et लाबुः.

- 1 अर्शोघ्नः शूराः^a कन्दो
 2 गण्डीस् [तु] समष्टिला ॥ २२ ॥
 3 कलम्बू^b उपोदिका^c [स्त्री तु] मूलकं हिलमोचिका ।
 4 वास्तूकं^d [शाकभेदाः स्युर]
 5 दूर्वा [तु] शतपर्विका ॥ २३ ॥
 6 सहस्रवीर्या-भार्गव्यौ^e रुहानन्ता^f
 7 [-थ सा सिता] ।
 8 गोलोमी शतवीर्या [च] गण्डाली शकुलाक्षकः ॥ २४ ॥
 9 कुरुविन्दो मेघ-[-नामा] मुस्ता मुस्तकम् [अस्त्रियां] ।
 10 [स्याद्] भद्रमुस्तको^g गुन्द्रा
 11 चूडाला चक्रलोच्चटा^h ॥ २५ ॥
 12 वंशे त्वक्सार-कर्मार-त्वचिसार-तृणध्वजाः ।

(1) Racine bonne à manger; *arum campanulatum*, R. — (2) Herbe potagère [décrite comme croissant dans un terrain aquatique]. — (3, 4) Diverses sortes d'herbes potagères énumérées dans le texte : 1° *convolvulus repens*, 2° *basella rubra* ou *B. lucida*, 3° la rave, *raphanus sativus*, 4° *hing-tsha* [*hilantcha*] *repens*, R., 5° *chenopodium album*, etc. — (5, 6) *Agrostis linearis*, Koen.; *panicum dactylon*, Wils. Dict. — (7, 8) Herbe semblable à fleurs blanches, *agrostis diandra*? [Quelques-uns appliquent deux de ces termes à une espèce, et les deux qui restent à une autre.] — (9) Espèce de souchet odorant, *cyperus rotundus*. [Les autres synonymes de *nuage* s'appliquent aussi à cette plante, de même que *mégha*.] — (10) Autre espèce, *cyperus pertenuis*, R. — (11) Espèce différente [les interprétations diffèrent; selon les uns, c'est un souchet [*cyperus*], selon d'autres, la *zédouaire*; * *kyllinga monocephala*, Wils. Dict.]. — (12, et p. 114, lig. 1.) Bambou,

* Aussi शूराः. — ^b कलम्बू; aussi कलम्बू; et कलम्बूः. — ^c Aussi उपोदको, उपादिका et अपोदिका; également पातको, पोतिका et पूतिका. — ^d Ou वास्तूकं. —

* भार्गवी — ^f रुहा, अनन्ता. — ^g Aussi भद्र. — ^h चक्रला [et शुकला] उच्चटा.

- 1 शतपर्वा यवफलो वेणु-मस्कर-तेजनाः ॥ २६ ॥
 2 [वेणवः] कीचकास् [ते स्युर् ये स्वनन्यनिलोद्धताः] ।
 3 ग्रन्थिर् [ना] पर्व-परुषी^a
 4 गुन्द्रस् तेजनकः शरः^b ॥ २७ ॥
 5 नउस्^c [तु] धमनः पोटगलो
 6 [ऽथ] काशम्^d [अस्त्रियां] ।
 7 इक्षुगन्था पोटगलः
 8 [पुंसि भूमि तु] बल्वजाः^e ॥ २८ ॥
 9 रसाल इक्षुस्
 10 [तद्भेदाः] पुण्ड्र^f-कान्तास्का-[-द्यः] ।
 11 [स्याद्] वीरणं वीस्तरं
 12 [मूले ऽस्यो-]-शीम्^g [अस्त्रियां] ॥ २९ ॥
 13 अभयं नलदं सेव्यम् अमृणालम्^h जलाशयं ।
 14 लामञ्जकं लघुलयम्ⁱ अबदाहेष्टकापथे^j ॥ ३० ॥

bambusia arundinacea, R. et autres espèces. — (2) Les mêmes résonnant par l'effet du vent. — (3) Nœud ou joint. — (4) *Saraharī* [vulg.] *saccharum sara*, R. — (5) Roseau, *arundo tibialis** ou *A. karka*, Wils. Dict. — (6, 7) *Kās* [vulg.], *saccharum spontaneum*. — (8) *Bugāi* [vulg.] *saccharum cylindricum*, Willd. ? [Mais le nom sanscrit semble être aussi appliqué au *coracanus indicus* ou à l'*eleusine indica*.] — (9) Canne à sucre. — (10) Variétés de la même espèce. — (11) Herbe odorante, *andropogon muricatum*. — (12-14) Racine de cette herbe.

^a परुन् neut. aussi masc. परु [रुः]. — ^b Ou सरः. — ^c Et नलः. — ^d Ou कासः m. aussi काप्रो et काप्रा f. — ^e Aussi au singulier बल्वजः. — ^f Ou पौण्ड्रः. — ^g उपरीर् et उपीर्. — ^h Et मृणालं. — ⁱ Aussi लघु et लयं. — ^j अबदाह-[aussi अबदानं, selon quelques-uns, mais à tort] इष्टकापथं; également इष्टं et कापथं.

- 1 [नलादयस्] तृणं^a [गर्भुत्श्यामाकप्रमुखा अपि] ।
 2 [अस्त्री] कुशं कुथो ढर्भः पवित्रम्
 3 [अथ] कत्तृणं ॥ ३१ ॥
 4 पौर-सौगन्धिक-ध्याम-देवजग्धक-रौहिषं ।
 5 इत्रातिच्छत्र^b -पालघ्नौ
 6 मालातृणक-भूस्तृणे ॥ ३२ ॥
 7 शष्पं^c वालतृणं
 8 घासो यवसस्^d
 9 तृणम् अर्जुनं ।
 10 [तृणानां संहतिस्] तृण्या
 11 नद्या [तु नउसंहतिः] ॥ ३३ ॥
 12 तृणराजा-[-द्वयस्] तालो^e
 13 नारिकेस्^f [तु] लाङ्गली^g ।

(1) Plante graminée. — (2) *Kous'a*, herbe sacrée, *Poa cynosuroides*, Koen. — (3, 4) Herbe odorante. — (5) Champignon. — (6) *Andropogon schænanthus*; [mais quelques-uns font ces termes synonymes des précédents]. — (7) Herbe nouvelle. — (8) Herbe de prairie [propre à être mangée par les bestiaux]. — (9) Herbe en général. — (10) Abondance d'herbe. — (11) Abondance de roseaux. — (12) Palmier, *borassus flabelliformis*. — (13) Cocotier, *cocos nucifera*.

^a Ce mot s'applique aux roseaux, aux herbes et aux grains, comme le प्र्यामकः *panicum frumentaceum*, R. etc.; il comprend les herbes ci-après mentionnées, outre diverses sortes de graminées, comme le कुङ्गः *panicum italicum*, le कोदूवः *paspalum frumentaceum*, etc. — ^b इत्रा, अतिच्छत्र. — ^c Et शष्पं. — ^d Aussi जवसः. — ^e Également तलः. — ^f Et नारिकेलः, नाडिकेलः, नारीकेलः etc. aussi नारिकेली, नारिकेलिः f. etc. — ^g Fém.; aussi लाङ्गलिन् [-ली] m., mais quelques-uns ne l'admettent pas.

- 1 घोण्टा [तु] पूगः क्रमुको गुवाकः^a खपुरो
 2 [ऽस्य तु ॥ ३४ ॥
 3 फलम्] उद्वगम्
 4 [एते च] हिनताल^b -[सहितास् त्रयः] ।
 5 खजूरः
 6 केतकी^c
 7 ताली^d
 8 खजूरी [च]
 9 तृणद्रुमाः ॥ ३५ ॥

CHAPITRE V.

LIONS ET AUTRES QUADRUPÈDES, INSECTES, OISEAUX, TROUPES,
 AMAS.

- 10 सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो ह्यर्धक्षः केसरी^e हरिः ।
 11 शार्दूल-द्वीपिनौ व्याघ्रे
 12 तरक्षुस्^f [तु] मृगादनः ॥ १ ॥

(1) Faufel; *areca faufel* [ou *catechu*]. — (2, 3) Noix de cet arbre, appelée noix de bétel. — (4) Dattier des marais, *phœnix* (ou *elate*) *paludosa*, R. — (5) Dattier, *phœnix* (ou *elate*) *sylvestris*. — (6) *Pandanus odoratissimus*. — (7) *Corypha talliera*, R. ou *C. umbraculifera*. — (8) Dattier sauvage; *phœnix bulbifera*? R. — (9) [Les arbres énumérés dans les stances 34 et 35 sont des] palmiers. — (10) Lion. — (11) Tigre [le *dwipi*, comme espèce distincte, est l'once ou la panthère]. — (12) Hyène [quelques-uns pensent qu'il s'agit ici du léopard].

^a Et गुवाकः. — ^b Aussi हिनतालः. — ^c Masc. केतकः. — ^d Ou ताडिः, ताडी et तालिः. — ^e Aussi केसरी. — ^f Aussi तरक्षः.

- 1 वराहः शूकरो ^a घृष्टिः ^b कोलः पोत्री किरः ^c किटिः ।
 2 ढंघ्री घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार [श्लपि] ॥ २ ॥
 3 कपि-प्रवङ्ग-प्रवग ^d-शाखामृग-वलीमुखाः ^e ।
 4 मर्कटो वानरः कीशो वनौका
 5 [अथ] भल्लुके ^f ॥ ३ ॥
 6 ऋक्षाच्छभल्ल ^g-भाल्लुका
 7 गण्डके खङ्ग- खङ्गिनौ ^h ।
 8 लुलापो ⁱ महिषो वाहद्विषत्-कासर-सैरिभाः ॥ ४ ॥
 9 [स्त्रियां] शिवा ^j भूरिमाय-गोमायु-मृगधूर्तकाः ।
 10 शृगाल ^k-वञ्चक-क्रोष्टु-फेरु-फेरव-जम्बुकाः ^l ॥ ५ ॥
 11 ओतुर विडालो ^m मार्जारो वृषदंशक-आवुभुक् ।
 12 [त्रयो] गौधेर-गौधार-गौधेया गोधिकाम्बजे ॥ ६ ॥
 13 श्वावित् [तु] शल्यस्
 14 [तल्लोमि] शलली शललं शलं ।
 15 वातप्रमीरू वातमृगः
 16 कोक ईहामृगो वृकः ॥ ७ ॥

(1, 2) Porc. — (3, 4) Singe. — (5, 6) Ours. — (7) Rhinocéros. — (8) Buffle. — (9, 10) Chacal. — (11) Chat. — (12) Iguane. — (13) Porc-épic. — (14) Dards du porc-épic. — (15) Antilope rapide. — (16) Loup.

^a Également सूकरः. — ^b Et घृष्टिः. — ^c Quelques-uns lisent किरिः, fem. किर्या-णी. — ^d Aussi प्रवङ्गमः et प्रवङ्गः ou प्रवगः; quelques-uns ajoutent प्रवङ्गमः. — ^e Également वलिमुखः. — ^f भल्लुकः et भल्लूकः; aussi भाल्लूकः. — ^g ऋक्ष-अच्छभल्ल, également अच्छः et भल्लः. — ^h खङ्गिन्. — ⁱ Et लुलायः. — ^j Ce mot est féminin, même lorsqu'il est question du mâle. — ^k Ou शृगालः. — ^l Également जम्बूकः. — ^m Aussi विरालः et विलालः.

- 1 मृगे कुरङ्ग-वातायु-हरिणाजिनयोनेयः ^a ।
 2 रेणोयम् [रण्याश् चर्माद्यम्]
 3 [रणस्यै-]-णम् ^b [उभे त्रिषु] ॥ ८ ॥
 4 कदली कन्दली ^c चीनश् चमूरु-प्रियकाव् [अपि] ।
 5 समूरुश् [चेति हरिणा अमी अजिनयोनेयः] ॥ ९ ॥
 6 कृत्तसार ^d -रु-न्यङ्कु-रङ्कु-शम्बर ^e -रौहिषाः ^f ।
 7 गोकर्ण-पृषतैणश्च ^g -रोहिताश् ^h चमरो [मृगाः] ॥ १० ॥
 8 गन्धर्वः शम्भो रामः समरो गवयः शशः ।
 9 [इत्याद्यो मृगेन्द्राद्या गवाद्याः] पशु-[-जातयः] ॥ ११ ॥
 10 उन्दुरुर ⁱ मूषिको ^j [ऽप्य्] आबुर
 11 गिरिका वालमूषिका ।

(1) Daim ou antilope. — (2) Appartenant à une daine, *adj.* — (3) Appartenant à un daim, *adj.* — (4, 5) Espèces de daims dont les peaux sont employées. — (6, 7) Diverses sortes de daims nommés l'un après l'autre dans le texte, comme le *krichn'asāra*, ou l'antilope noire; le *rourou*, ou le cerf, le *rankou*, ou l'axis moucheté; le *prichat*, ou daim porcine; le *richya*, ou l'antilope aux pieds blancs [mais ces termes ne sont pas rigidement appliqués à des espèces différentes, et quelques-unes, comme le *tchamara*, ou bœuf de Tartarie, *bos grunniens*, ne sont pas des daims]. — (8) Animaux divers nommés dans le texte; le *gandharva* est, suivant quelques-uns, le daim au musc; le *s'arabha*, un animal fabuleux à huit jambes; le *gavaya*, le *bos gavæus* [*As. Res.* tom. VIII, p. 487], le *s'as'a*, le lièvre. — (9) Bête en général [les précédents, aussi bien le lion et les autres bêtes sauvages que les animaux domestiques, sont ainsi désignés]. — (10) Rat. — (11) Souris

^a हरिणा-अजिनयोनिः. — ^b रेणं. — ^c Ces deux mots sont féminins; quelques-uns les considèrent comme masculins avec la terminaison radicale लिन्. — ^d Ou कृष्णसारः. — ^e Aussi सम्बरः. — ^f रौहिषः et रोहिष् [-हिट्]. — ^g पृषत- [ou पृषत्]-रण-ऋषयः, [aussi ऋष्यः ou ऋष्यः]. — ^h रोहितः; également रोहित्. — ⁱ Aussi उन्दरुः. — ^j Également मूषकः et मूषो.

1 सरटः^a कृकलासः^b [स्यान्]

2 मुसली^c गृह्गोधिका^d ॥ १२ ॥

3 लूता [स्त्री] तन्तुवायोर्णनाभ^e-मर्कटकाः [समाः] ।

4 नीलङ्गुस्^f [तु] कृमिः^g

5 कर्णजलौका^h शतपथ्य [उभे] ॥ १३ ॥

6 वृश्चिकः शूककीटः [स्याद्]

7 अलिⁱ-द्रुणौ^j [तु] वृश्चिके ।

8 पारावतः^k कलखवः कपोतो

9 [ऽथ] शशादनः ॥ १४ ॥

10 पत्री श्येन

11 उलूके^l [तु] वायसाराति-पेचकौ ।

12 व्याघ्राटः [स्याद्] भारद्वाजः^m

13 खञ्जरीटस् [तु] खञ्जनः ॥ १५ ॥

14 लोहपृष्ठस् [तु] कङ्कः [स्याद्]

15 [अथ] चाषःⁿ किकीदिविः^o ।

ou petit rat. — (1) Léopard, caméléon etc. — (2) Petit léopard de maison. — (3) Araignée. — (4) Insecte. — (5) Centipède, cloporte. — (6) Chenille. — (7) Scorpion. — (8) Colombe ou pigeon. — (9, 10) Épervier ou faucon. — (11) Hibou. — (12) Alouette. — (13) Hochequeue. — (14) Héron. — (15) Geai bleu, *coracias indica* et *C. bengalensis* [ou, sui-

^a Aussi सरट् et प्रारटः. — ^b Ou कृकलासः. — ^c Et मुषली ou मुग्रली. — ^d Également गृह्गोलिका, गृह्गोधा et गृह्गालिका. — ^e तन्तुवाय-[et तन्त्रवाय]-ऊर्णनाभः [et ऊर्णनाभिः]. — ^f Et नीलाङ्गुः. — ^g Également कृमिः. — ^h Aussi कर्णजलौकस् [-काः]. — ⁱ अलिः ou अलिन्; aussi अलिः et अलिन्. — ^j द्रुणः ou द्रूणः. — ^k Également पारावतः. — ^l Ou उलूकः. — ^m Et भारद्वाजः. — ⁿ Ou चासः. — ^o Également किकीदिविः, किकीदोविः, et किकीदिविः ou किकीदिविः etc., aussi किकिः et दिविः,

- 1 कलिङ्ग-भृङ्ग-धूम्याटा
 2 [अथ स्यात्] शतपत्रकः ॥
 3 दार्वाघाटो
 4 [ऽथ] सारङ्गः ^a स्तोककश्च ^b चातकः [समाः] ।
 5 कृकवाकुस् ताम्रचूडः कुङ्कुटश्च चरणायुधः ।
 6 चटकः कलविङ्गः [स्यात्]
 7 [तस्य स्त्री] चटका
 8 [तयोः ।
 9 पुमपत्ये] चाटकैः [स्त्यपत्ये] चटकै-[-व हि] ॥ १८ ॥
 10 कर्करेटुः कोरुटुः [स्यात्]
 11 कृकाण-क्रकौरौ [समौ] ।
 12 वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक [इत्यपि] ॥ १९ ॥
 13 काके [तु] कर्टरिष्ट ^c-वलिपुष्ट-सकृत्प्रजाः ।
 14 ध्वान्नात्मघोष ^d-परभृद्-वलिभुग्-वायसा [अपि] ॥ २० ॥
 15 द्रोणकाकस् ^e [तु] काकोलो

vant d'autres interprétations, un oiseau différent]. — (1) Espèce de pie-grièche ou de corbeau, *lanius caeruleus*, *L. forficatus*, Lath. Wils. Dict. et *corvus balicassius*. — (2, 3) Pivert. — (4) *Pipihá* [vulg.] *cuculus radiatus*; * *C. melanoleucus*, Wils. Dict. [mais il n'est pas certain que le *tchataka* ne soit pas un oiseau différent]. — (5) Oiseau du genre gallinacé. — (6) Moineau. — (7) Femelle du moineau. — (8, 9) Leur progéniture mâle et femelle. — (10) Grue de Numidie. — (11) *Kaër* [vulg.] espèce de perdrix, *perdix sylvatica*? — (12) Coucou noir, * *cuculus indicus*, Wils. Dict. — (13, 14) Corneille. — (15) Corbeau.

ou कोकिः et दोविः. — ^a Ou सारङ्गः. — ^b Et स्तोकः. — ^c कर्ट-अरिष्ट. — ^d ध्वान्ना-आत्मघोष. — ^e Aussi द्रोणाः.

- 1 दात्यूहः^a कालकण्ठकः ।
 2 आतायि^b-चिल्लौ
 3 दात्ताय्य-गृध्रौ
 4 कीर-शुकौ^c [समौ] ॥ २१ ॥
 5 कृङ्-क्रौञ्चौ^d
 6 [ऽथ] वकः कङ्कः
 7 पुष्करा-^e [-ह्वस् तु] सारसः ।
 8 कोकश् चक्रश् चक्रवाको रथाङ्गा-[-ह्वयनामकः] ॥ २२ ॥
 9 काढम्बः कलहंसः [स्याट्]
 10 उक्रोश-कुरौ [समौ] ।
 11 हंसास् [तु] श्वेतगरुतश्^f चक्राङ्गा मानसौकसः ॥ २३ ॥
 12 राजहंसास् [तु ते चञ्चुचरणैर् लोहितैः सिताः] ।
 13 [मलिनैर्] मल्लिका-^g [-व्यास् ते] धार्तराष्ट्राः [सितेतरैः] ॥ २४ ॥
 14 शरारिर्^h आटिर् आडिश् [च]
 15 वलाका विसकण्ठिकाⁱ ।

(1) Gallinule. — (2) Milan. — (3) Vautour. — (4) Perroquet. — (5) Courlieu. — (6) Grue. — (7) Grue indienne. [Tous les synonymes de *lotus* désignent cet oiseau.] — (8) Oie rougeâtre. [Tous les synonymes de *roue* le sont aussi de cet oiseau.] — (9) Canard. — (10) Orfraie. — (11) Oies. — (12, 13) Variétés d'oies ou de cygnes; le *radjahansa* est un cygne blanc avec le bec et les pattes rouges; le *mallika*, un cygne ayant les pattes et le bec bruns; le *dhartarashtra* un cygne ayant les pattes et le bec noirs. — (14) *Sarali* [vulg.], espèce de merle, *turdus ginginianus*. — (15) Petite grue.

^a Ou दात्यूहः. — ^b आतायिन् ou आतापिन्. — ^c Aussi सूकः. — ^d Également कृञ्चः. — ^e पुष्करः; aussi पुष्कराङ्गयः. — ^f Sing. श्वेतगरुत्. — ^g मल्लिकः; aussi मल्लिकात्तः. — ^h Aussi शरालिः ou शरालिः. — ⁱ Mots féminins, même lorsqu'il est ques-

- 1 [हंसस्य योषिद्] वरटा ^a
- 2 [सारसस्य तु] लक्ष्मणा ^b ॥ २५ ॥
- 3 जतुक्वाजिनपत्रा ^c [स्यात्]
- 4 परोक्षी ^d तैलपायिका ।
- 5 वर्वणा [मन्त्रिका ^e नीला]
- 6 सर्वा मधुमन्त्रिका ॥ २६ ॥
- 7 पतङ्गिका पुत्तिका [स्याद्]
- 8 ढंशस् [तु] वनमन्त्रिका ।
- 9 ढंशी [तद्भातिर् अल्पा स्याद्]
- 10 गन्धोली वरटा ^f [द्वयोः] ॥ २७ ॥
- 11 भृङ्गरी शीरुका चीरी ^g झिल्लिका [च समा इमाः] ।
- 12 [समौ] पतङ्ग-शलभौ
- 13 त्रयोतो ज्योतिरिङ्गणः ॥ २८ ॥
- 14 मधुव्रतो मधुकरो मधुलिण्-^h मधुपालिनः ⁱ ।
- 15 द्विरेफ-पुष्पलिङ्-भृङ्ग-षट्पद-भ्रमरालयः ^j ॥ २९ ॥
- 16 मयूरो वर्हिणो वर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गमुक् ।

(1) Canne ou oie. — (2) Grue indienne femelle. — (3) Chauve-souris. — (4) Blatte [*cockroach*]. — (5) Mouche bleue. — (6) Abeille. — (7) Petite abeille. — (8) Taon. — (9) Petite espèce de taon. — (10) Guêpe. — (11) Grillon. — (12) Sauterelle. — (13) Phalène. — (14, 15) Grande guêpe noire, ou escarbot noir. — (16, et page 123, lig. 1.) Paon.

tion du mâle. — ^a Aussi वरटो. — ^b Également लक्ष्मणा. — ^c जतुका [ou जतुका] अजिनपत्रा. — ^d Aussi परोक्षी. — ^e Quelques-uns font de l'explication deux synonymes, मन्त्रिका et नीला ou नीली. — ^f Aussi गन्धाली et वरटी; masc. वरटः. — ^g Également चीरुका. — ^h मधुलिह् [-लिट्]. — ⁱ मधुप- [aussi मधुपायिन्]-अलिन्. — ^j भ्रमर-अलि.

- 1 शिखावलः शिखी केकी मेघनादानुलास्य् [अपि] ॥ ३० ॥
 2 केका [वाणी मयूरस्य]
 3 [समौ] चन्द्रक-मेचकौ ।
 4 शिखा चूडा
 5 शिखण्डस् [तु] पिच्छ-वर्हे^a [नपुंसके] ॥ ३१ ॥
 6 खगे विहङ्ग-विहग-विहङ्गम-विहायसः^b ।
 7 शकुन्ति-पक्षि-शकुनि-शकुन्त-शकुन-द्विजाः ॥ ३२ ॥
 8 पतत्रि-पत्रि-पतग-पतत्-पत्ररथाण्डजाः^c ।
 9 नगौको वाजि-विकिर-वि-विष्किर-पतत्रयः^d ॥ ३३ ॥
 10 नीडोद्भवा गरुत्मन्तः^e पित्सन्तो^f नभसङ्गमाः ।
 11 [तेषां विशेषा] हारीतो^g मद्गुः कारण्डवः प्लवः ॥ ३४ ॥
 12 तित्तिरिः^h कुक्कुभो लावो जीवञ्जीवश् चकोरकः ।
 13 कोयष्टिकष् टिट्ठिभकोⁱ वर्तको वर्तिका^j [-द्वयः] ॥ ३५ ॥
 14 गरुत्-पक्ष^k -रुदाः पत्रं पतत्रं [च] तनूरुहं ।

(2) Cri du paon. — (3) OEil de sa queue. — (4) Sa crête. — (5) Sa queue. — (6-10) Oiseau en général. — (11-13) Oiseaux divers énumérés : le *hârîta* est le pigeon vert, *columba hurrialâ*; le *madgou*, un oiseau de mer; le *kârândava*, une espèce de canard; le *tittiri*, le francolin; le *koukkoubha*, un coq sauvage, *phasianus gallus*; le *lâva*, une sorte de caille *perdix chinensis*; le *djivandjiva*, peut-être un faisan; le *tchakoraka*, une espèce de perdrix, *perdix rufa*, B.; le *t'itt'ibhaka*, le *jacana*, ou *tringa goensis*, le *vartaka*, une caille mâle; la *vartikâ*, sa femelle, [Outre d'autres oiseaux comme le *matsyaranga*, ou martin-pêcheur, etc.] — (14) Aile.

^a Fém. et neut.; aussi masc. वर्हेः. — ^b Sing. विहायाः. — ^c पत्ररथ-अण्डज. — ^d Sing. पतत्रिः. — ^e Sing. गरुत्मान्. — ^f Sing. पित्सन्. — ^g Aussi हारितः. — ^h Ou तित्तिरिः. — ⁱ Et टिट्ठिभकः. — ^j Également वर्तका. — ^k Aussi masculin पक्षं et पक्षस् neutre.

- 1 [स्त्री] पक्षतिः पक्षमूलं
 2 चञ्चुस्^a त्रोटिर्^b [उभे स्त्रियौ] ॥ ३६ ॥
 3 प्रडीनोडीन^c-संडीनान्त् [स्ताः खगगतिक्रियाः] ।
 4 पेशी^d कोषो^e [द्विहीने] ऽण्डं
 5 कुलायो नीडम् [अस्त्रियां] ॥ ३७ ॥
 6 पोतः पाको ऽर्भको डिम्भः पृथुकः^f शावकः शिशुः ।
 7 [स्त्रीपुंसौ] मिथुनं द्वन्द्वं^g
 8 युग्मं [तु] युगलं युगं ॥ ३८ ॥
 9 समूह-निवह-व्यूह-सन्दोह-विसर-ब्रजाः ।
 10 स्तोमौघ^h-निकर-व्रात-वार-सङ्घात-सञ्चयाः ॥ ३९ ॥
 11 समुदायः समुदयः समवायश्ⁱ चयो गणः ।
 12 [स्त्रियां तु] संहतिर् वृन्दं निकुरुम्बं कदम्बकं ॥ ४० ॥
 13 [वृन्दभेदाः समैर्] वर्गः
 14 सङ्घ-सार्थौ [तु जन्तुभिः] ।
 15 [सजातीयैः] कुलं
 16 यूथं [तिरश्चां पुन्नपुंसकं] ॥ ४१ ॥

(1) Sa base. — (2) Bec. — (3) Manières de voler; savoir : l'action de s'envoler, de prendre l'essor, et de se percher [ou suivant une autre interprétation, de tourner, de monter et de descendre]. — (4) OEuf. — (5) Nid. — (6) Jeune animal. — (7) Couple, le mâle et la femelle. — (8) Paire, couple. — (9-12) Troupe, multitude. — (13) Multitude de choses semblables; — (14) — d'animaux; — (15) — d'animaux¹ du genre; — (16) — d'oiseaux et de bêtes.

^a Et चञ्चू. — ^b Ou त्रोटो. — ^c प्रडीन-उडीन. — ^d Et पेशिः. — ^e Ou कोशः, également पेशीकोषः. — ^f Aussi प्रथुकः la femelle. — ^g Quelques-uns font le dernier terme, d'autres les deux, synonymes des suivants. — ^h स्तोम-ओघ. — ⁱ Et समावायः.

- 1 [पशूनां] समजो
 2 [ऽन्येषां] समाजो
 3 [ऽथ सधर्मिणां ।
 4 स्यान्] निकायः
 5 पुञ्ज^a-राशी [तू-]-त्कारः^b कूटम् [अस्त्रियां] ॥ ४२ ॥
 6 कापोत-शौक-मयूर-तैत्तिरा-[-दीनि तद्गणे] ।
 7 [गृह्णासक्ताः पक्षिमृगाश्] द्वेकास् [ते] गृह्यकाश् [च ते] ॥ ४३ ॥

CHAPITRE VI.

SECTION PREMIÈRE.

HOMME, FEMME, PARENTS, ÉTAT PARTICULIER DU CORPS.

- 8 मनुष्या मानुषा^c मर्या मनुजा मानवा^d नराः ।
 9 [स्युः] पुमांसः^e पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः^f ॥ १ ॥
 10 स्त्री योषिट्^g अबला योषा^h नारी सीमन्तिनी वधूः ।

(1) Multitude de bestiaux; — (2) — d'autres êtres [hommes, etc.]. — (3, 4) — de personnes pratiquant les mêmes devoirs. — (5) Tas de grain, etc. — (6) Troupes de divers oiseaux, de colombes, de perroquets, de paons et de francolins [d'autres dérivés sont formés de même, comme *aulouka*, troupe de hiboux]. — (7) Oiseaux ou animaux domestiques. — (8) Homme, genre humain. — (9) Homme ou mâle; [ces deux lignes renferment des termes synonymes, suivant quelques-uns.] — (10, et p. 126, lig. 1.) Femme ou femelle.

^a Aussi पुञ्जिः fém. — ^b उत्कार. — ^c Sing. मनुष्यः, मानुषः etc. — ^d मानवः; aussi dans un mauvais sens माणवः. — ^e Sing. पंसु [पुमान्]. — ^f Sing. नृ [नार]. —

^g Aussi योषिता. — ^h Également ज्योषा.

- 1 प्रतीपदर्शिनी वामा वनिता महिला ^a [तथा] ॥ २ ॥
 2 [विशेषाश् चा-]-ङ्गना ^b भीरुः ^c कामिनी वामलोचना ।
 3 प्रमदा भाविनी ^d कान्ता ललना [च] नितम्बिनी ॥ ३ ॥
 4 सुन्दरी रमणी ^e रमा ^f
 5 कोपना [सैव] भामिनी ।
 6 वरारोह मत्तकाशिन्यु ^g उत्तमा वरवर्णिनी ॥ ४ ॥
 7 [कृताभिषेका] महिषी
 8 भोगिन्यो ^h [ऽन्या नृपस्त्रियः] ।
 9 पत्नी पाणिगृहीती [च] द्वितीया सहधर्मिणी ⁱ ॥ ५ ॥
 10 भार्या जाया-[-श्च पुंभूमि] दाराः ^j
 11 [स्यात् तु] कुटुम्बिनी ।
 12 पुरन्ध्री ^k
 13 सुचरित्रा [तु] सती साध्वी ^l पतिव्रता ॥ ६ ॥

(2-4) Diverses sortes de femmes; les termes sont louangeurs, comme bien faite, timide, aimante, ayant de beaux yeux, etc. — (5) Femme colère. — (6) Femme excellente; belle, bien portante et affectionnée [toutefois quelques-uns ne font pas ces termes synonymes, mais les regardent comme désignant diverses sortes de femmes]. — (7) Reine qui a été sacrée [aussi femme de roi en général]. — (8) Autres épouses d'un roi. — (9, 10) Épouse ou femme mariée [quelques-uns restreignent les deux premiers termes, d'autres les quatre premiers, au sens particulier de femme mariée avec les rites religieux]. — (11, 12) Matrone, ou femme dont le mari et les enfants sont vivants. — (13) Femme fidèle et vertueuse.

^a Ou महिला et महिला. — ^b अङ्गना. — ^c Aussi भीरुः, et भीलुः. — ^d Une autre leçon offre मानिनी. — ^e Quelques-uns lisent रमणा. — ^f Également रमा. — ^g Et मत्तकाशिनी ou मत्तकाषिनी. — ^h Sing. भोगिनी. — ⁱ Également सहधर्मिणी. — ^j Aussi fém. दारा. — ^k Quelques-uns ajoutent पुरन्धिः. — ^l Ou साधुः.

- 1 कृतसापत्निकाध्यूढाधिविन्ना^a
 2 [-थ] स्वयंवरा ।
 3 पतिम्बरा [च] वर्या-
 4 [-थ] कुलस्त्री कुलपालिका^b ॥ ७ ॥
 5 कन्या^c कुमारी
 6 गौरी [तु] नग्निकानागतार्तवा^d ।
 7 [स्यान्] मध्यमा^e दृष्टरजास्
 8 तरुणी^f युवतिः^g [समे] ॥ ८ ॥
 9 [समाः] सुषा-जनी^h-वध्वश्ⁱ
 10 चिरण्ठी^j [तु] सुवासिनी^k ।
 11 इच्छावती कामुका [स्याद्]
 12 वृषस्यन्ती [तु] कामुकी ॥ ९ ॥

(1) Femme répudiée ou dont le mari a épousé une autre femme. — (2, 3) Épousée choisissant son mari. — (4) Femme chaste. — (5) Jeune fille [le premier terme désigne une jeune fille âgée de neuf ans, le second, de douze, ou bien les deux termes, sans distinction d'âge, signifient *vierge*]. — (6) Jeune fille [ici également si l'âge est distingué, le premier mot signifie une fille de huit ans, le second, une de dix; comme synonymes, ils désignent une fille qui n'a pas encore ses règles]. — (7) Fille parvenue à la puberté. — (8) Jeune femme [entre seize et trente ans d'âge]. — (9) Belle-fille. — (10) Femme demeurant dans la maison de son père [mariée ou non mariée]. — (11) Femme désireuse d'une chose [avide de richesses, de nourriture, etc.]. — (12) Femme amoureuse ou lascive.

^a कृतसापत्निका [et कृतसापत्निका, कृतसापत्नी, कृतसापत्नीका ou कृतसापत्निका] अध्यूढा, अधिविन्ना. — ^b Et कुलपाली. — ^c Aussi कन्यका. — ^d नग्निका [ou लग्निका], अनागतार्तवा. — ^e Également मध्या. — ^f Ou तलनी. — ^g Aussi युवती et युनी. — ^h Ou जनिः. — ⁱ वधुः ou वधूः; également वधूटी. — ^j Également चिरिण्ठी. — ^k Aussi स्ववासिनी.

- 1 [कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं सा-]-भिसारिका ^a ।
 2 पुंश्चली धर्षिणी ^b बन्धव्य् असती कुलटेवरी ^c ॥ १० ॥
 5 स्वैरिणी पांशुला- ^d
 4 [-थ स्याद्] अशिष्यी [शिषुना विना] ।
 5 अवीरा [निष्पतिसुता]
 6 विश्वस्ता- ^e विधवे [समे] ॥ ११ ॥
 7 आलिः ^f सखी वयस्या [च]
 8 पतिवती सभर्तृका ।
 9 वृद्धा पलिनी ^g
 10 प्राज्ञी [तु] प्राज्ञा
 11 प्रज्ञा [तु] धीमती ॥ १२ ॥
 12 शूद्रा [शूद्रस्य भार्या स्यात्]
 15 शूद्रा [तज्जातिरु अङ्गना] ।
 14 आभीरी [तु] महाशूद्रा [जातिपुंयोगयोः समा] ॥ १३ ॥
 15 अर्याणी [स्वयम्] अर्या [स्यात्]
 16 क्षत्रिया क्षत्रियाण्य् ^h [अपि] ।

(1) Femme qui va à un rendez-vous. — (2, 3) Femme déloyale ou impudique. — (4) Femme sans enfants. — (5) Femme qui n'a ni mari ni fils. — (6) Veuve. — (7) Amie d'une femme. — (8) Femme dont le mari est vivant. — (9) Femme vieille ou à cheveux gris; — (10) — intelligente; — (11) — sage. — (12) Femme d'un *S'ôdra* [soit qu'elle appartienne à la même classe, ou à une classe différente]. — (13) Femme de la classe des *S'ôdras*. — (14) Laitière [femme d'un laitier ou de la même classe]. — (15) Femme de la classe des *Vais'yas*. — (16) Femme

^a भिसारिका. — ^b Aussi धर्षिणी. — ^c कुलटा, इत्वरि. — ^d Également पांशुला.
 — ^e Et विश्वस्था. — ^f Ou अलि. — ^g Ou पलिता. — ^h क्षत्रियाणी.

- 1 उपाध्याया-[-ष्य] उपाध्यायी
 2 [स्याद्] आचार्या-[-पि च स्वतः] ॥ १४ ॥
 3 आचार्याणी [तु पुंयोगे]
 4 [स्याद्] अर्यो
 5 क्षत्रियी [तथा] ।
 6 उपाध्यायान्य्^a उपाध्यायी
 7 पोटा [स्त्री पुंसलक्षणा] ॥ १५ ॥
 8 वीरपत्नी वीरभार्या
 9 वीरमाता [च] वीरसूः ।
 10 ज्ञातापत्या प्रजाता [च] प्रसूता [च] प्रसूतिका ॥ १६ ॥
 11 [स्त्री] नग्निका कोटवी^b [स्याद्]
 12 दूती^c -सञ्चारिके [समे] ।
 13 कात्यायन्य्^d [अर्द्धवृद्धा या काषायवसनाधवा] ॥ १७ ॥
 14 सैरिन्ध्री^e [परवेश्मस्था स्ववशा शिल्पकारिका] ।

de la classe des *Kchatriyas*. — (1) Précepteur femelle. — (2) Institutrice spirituelle. — (3) Épouse d'un maître spirituel. — (4) Femme d'un *Vais'ya*. — (5) Femme d'un *Kchatriya*. — (6) Femme d'un précepteur. — (7) Femme masculine [ayant la gorge comme une femme et de la barbe comme un homme]. — (8) Épouse d'un héros. — (9) Mère d'un héros. — (10) Femme qui a mis au monde un enfant [les deux derniers synonymes sont restreints par quelques-uns à une femme récemment accouchée]. — (11) Femme nue. — (12) Messenger femelle ou entremetteuse. — (13) Veuve d'un âge moyen, portant un vêtement indiquant la pratique des austérités. — (14) Ouvrière qui ne dépend de personne, mais qui demeure dans la maison d'un autre et pratique un art.

^a उपाध्यायानो. — ^b Également कोटवी; quelques-uns ajoutent कोटरी. — ^c Aussi दूतिः. — ^d कात्यायनी. — ^e Aussi सैरिन्ध्री; quelques-uns ajoutent सैरिन्धिः.

- 1 असिक्नी ^a [स्याद् अंवृद्धा या प्रैष्यान्तःपुरचारिणी] ॥ १८ ॥
 2 वारस्त्री गणिका वेश्या ^b रूपाजीवा-
 3 [-थ सा जनैः ।
 4 सत्कृता] वारमुष्या [स्यात्]
 5 कुट्टनी ^c शम्भली ^d [समे] ॥ १९ ॥
 6 विप्रश्रिका [त्] ईक्षणिका दैवज्ञा-
 7 [-थ] रजस्वला ।
 8 स्त्रीधर्मिण्यु ^e अविर् ^f आत्रेयी ^g मलिनी पुष्पवत्यु ^h [अपि] ॥ २० ॥
 9 ऋतुमत्यु ⁱ [अप्यु] उदक्या-[-पि]
 10 [स्याद्] रजः ^j पुष्पम् आर्तवं ।
 11 अद्वालुरु दोहृदवती
 12 निष्कला ^k विगतार्तवा ॥ २१ ॥
 13 आपन्नसत्वा [स्याद्] गुर्विण्यु ^l अन्तर्वती [च] गर्भिणी ।
 14 [गणिकादेस् तु] गाणिक्यं
 15 गाभिण्यं

(1) Esclave femelle jeune et fréquentant les appartements des femmes. — (2) Courtisane ou fille publique. — (3, 4) Femme à la tête d'une troupe de filles publiques. — (5) Maquerelle. — (6) Diseuse de bonne aventure. — (7-9) Femme ayant ses règles. — (10) Règles, menstrues. — (11) Femme ayant des envies comme dans la grossesse; — (12) — qui n'est plus propre à avoir d'enfants, qui n'a plus ses règles. — (13) Femme enceinte. — (14) Assemblage de courtisanes; — (15) — de femmes enceintes.

^a Et असिता. — ^b Également वेष्या. — ^c Quelques-uns ajoutent कुट्टनी. — ^d Aussi सम्भली. — ^e स्त्रीधर्मिणी. — ^f Et अवीः. — ^g Quelques-uns ajoutent आर्त्रेयी. — ^h पुष्पवती. — ⁱ ऋतुमती. — ^j रजस् neut. aussi रज m. — ^k Également निष्कली et निष्कला ou निष्कली. — ^l गुर्विणी.

- 1 यौवतं ^a [गणे] ॥ २२ ॥
- 2 पुनर्भूर् द्विधिषूर् ^b [ऊठा द्विः]
- 3 [तस्या] द्विधिषुः ^c [पतिः] ।
- 4 [स तु द्विजो] ऽग्नेद्विधिषुः [सैव यस्य कुटुम्बिनी] ॥ २३ ॥
- 5 कानीनः ^d कन्यक्काजातः [सुतो]
- 6 [ऽथ] सुभगासुतः ।
- 7 सौभागिनेयः [स्यात्]
- 8 पारस्त्रैण्येयस् [तु परस्त्रियाः] ॥ २४ ॥
- 9 पैतृष्वसेयः ^e [स्यात्] पैतृष्वस्त्रीयश् [च पितृष्वसुः ।
- 10 सुतो]
- 11 [मातृष्वसुश् चैवं] ^f
- 12 वैमात्रेयो विमातृजः ॥ २५ ॥
- 13 [अथ] बान्धकिनेयः [स्यात्] बन्धुलश् [चा-]-सतीसुतः ^g ।
- 14 कौलटेयः ^h कौलटेरो
- 15 [भिन्नुकी तु सती यद्दि ॥ २६ ॥

(1) Assemblage de jeunes femmes. — (2) Femme mariée deux fois [veuve vierge et remariée]. — (3) Second mari de cette femme. — (4) Homme qu'elle a rendu chef de famille. — (5) Fils d'une femme non mariée. — (6, 7) Fils d'une mère heureuse. — (8) Fils de l'épouse d'un autre. — (9, 10) Fils d'une tante paternelle. — (11) Fils d'une tante maternelle. — (12) Fils d'une belle-mère. — (13, 14) Bâtard, fils d'une épouse infidèle. — (15, et p. 132, lig. 1.) Fils d'une mendiante.

^a Aussi यौवनं. — ^b Quelques-uns ajoutent द्विधिषुः. — ^c Également द्विधिषुः. — ^d कानीनी f. fille d'une femme non mariée. — ^e पितृष्वसेयः (Ed. Calc.) — ^f Les termes se forment comme les précédents, ex. मातृष्वसेयः et मातृष्वस्त्रीयः. — ^g असतीसुतः. — ^h Quelques-uns ajoutent कौलटिनेयः.

- 1 तदा] कौलटिनेयो [ऽस्याः] कौलटयो [ऽपि चात्मजः] ।
 2 आत्मजस् तनयः सूनुः सुतः पुत्रः^a
 3 [स्त्रियां त्व् अमी ॥ २७ ॥
 4 आद्ध्र] दुहितरं^b [सर्वे]^c
 5 ऽपत्यं तोकं [तयोः समे] ।
 6 [स्वजाते त्व्] औसोरस्यौ^d
 7 तातस् [तु] जनकः पिता ॥ २८ ॥
 8 जनयित्री^e प्रसूर माता जननी
 9 भगिनी^f स्वसा^g ।
 10 ननान्दा^h [तु स्वसा पत्युर्]
 11 नप्तीⁱ पौत्री^j सुतात्मजा ॥ २९ ॥
 12 [भार्यास् तु भ्रातृवर्गस्य] यातरः^k [स्युः परस्परं] ।
 15 प्रजावती भ्रातृजाया
 14 मातुलानी [तु] मातुली ॥ ३० ॥
 15 [पतिपत्न्योः प्रसूः] श्वश्रूः

(2) Fils. — (3, 4) Fille. — (5) Progéniture mâle ou femelle. — (6) Fils légitime [fils d'un mari et d'une femme de la même classe]. — (7) Père. — (8) Mère. — (9) Sœur. — (10) Sœur d'un mari. — (11) Petite-fille [soit dans la ligne masculine, soit dans la ligne féminine]. — (12) Femme du frère d'un mari. — (13) Épouse d'un frère. — (14) Femme d'un oncle maternel. — (15) Belle-mère.

^a Aussi पुत्रः. — ^b दुहितृ. — ^c Tous les termes précédents signifiant fils, signifiant au féminin une fille : आत्मजा, तनया, सूनुः, सुता, पुत्री, पुत्रिका ou पुत्रका. — ^d औसः et उरस्यः; quelques-uns écrivent औरस्यः. — ^e Aussi जनित्री. — ^f Également भगिनी. — ^g स्वसृ. — ^h Ou ननन्द [न्दा]; aussi नन्दिनी. — ⁱ Et नपत् [-पत्ता] petit-fils ou petite-fille. — ^j Généralement restreint à la fille d'un fils. — ^k Sing. यातृ.

- 1 श्वशुरस् [तु पिता तयोः] ।
 2 [पितुर् भ्राता] पितृव्यः [स्यान्]
 3 [मातुर् भ्राता तु] मातुलः ॥ ३१ ॥
 4 श्यालाः ^a [स्युर् भ्रातरः पत्न्याः]
 5 [स्वामिनो] देवृ ^b -देवरो ^c ।
 6 स्वस्त्रीयो भागिनेयः ^d [स्याज्]
 7 जामाता ^e दुहितुः पतिः ॥ ३२ ॥
 8 पितामहः ^f पितृपिता
 9 [तत्पिता] प्रपितामहः ^g ।
 10 [मातुर्] मातामहा-[-य् एवं] ^h
 11 सपिण्डास् [तु] सनाभयः ⁱ ॥ ३३ ॥
 12 समानोदर्य-सोदर्य ^j -सगर्भ्य-सहजाः [समाः] ।
 13 सगोत्र-वान्धव-ज्ञाति-बन्धु-स्व-स्वजनाः [समाः] ॥ ३४ ॥
 14 ज्ञातेयं
 15 बन्धुता [तेषां क्रमाद् भावसमूहयोः] ।

(1) Beau-père. — (2) Oncle paternel. — (3) Oncle maternel. — (4) Frères d'une épouse. — (5) Frère d'un mari. [Les deux mots cités désignent le plus jeune frère; mais quelques-uns appliquent le premier au frère aîné, et le second au plus jeune.] — (6) Fils d'une sœur. — (7) Mari d'une fille, gendre. — (8) Père d'un père, grand-père paternel. — (9) Bisaïeul paternel. — (10) Grand-père maternel. — (11) Parents. — (12) Frère de père et de mère. — (13) Parent éloigné. — (14) Parenté. — (15) Réunion de parents.

^a श्यालः; ou स्यालः. — ^b Aussi देव [-वः]. — ^c Également देवलः. — ^d Au fém. स्वस्त्रीया et भागिनेयो fille d'une sœur. — ^e Aussi यामातृ [-ता]. — ^f पितामही grand-mère — ^g प्रपितामही bisaïeule. — ^h Ainsi प्रमातामहः bisaïeul maternel. — ⁱ Sing. सपिण्डः, सनाभिः. — ^j Aussi सोदरः; et सहोदरः.

- 1 धवः प्रियः पतिर् भर्ता ^a
- 2 जारस् [तू-]-पपतिः ^b [समौ] ॥ ३५ ॥
- 3 [अमृते जारजः] कुण्डो
- 4 [मृते भर्तरि] गोलकः ^c ।
- 5 भ्रात्रीयो ^d भ्रातृजे
- 6 भ्रातृभगिन्यौ भ्रातराव् [उभौ] ॥ ३६ ॥
- 7 मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ [च तौ] ।
- 8 श्वश्रूश्चश्रुरौ श्वश्रुरौ
- 9 पुत्रौ [पुत्रश् च दुहिता च] ॥ ३७ ॥
- 10 दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती [च तौ] ।
- 11 गर्भाशयो जरायुः ^e [स्याद्] उल्वं [च] कललो [ऽस्त्रियां] ॥ ३८ ॥
- 12 सूतिमासो वैजननो
- 13 गर्भो भ्रूण [श्मौ समौ] ।
- 14 तृतीयाप्रकृतिः ^f शण्डः ^g क्लीवं पण्डो नपुंसकं ॥ ३९ ॥
- 15 शिशुत्वं शैशवं बाल्यं
- 16 तारुण्यं यौवनं [समे] ।

(1) Mari. — (2) Amant d'une femme mariée. — (3) Fils adultérin. — (4) Bâtard d'une veuve. — (5) Fils d'un frère. — (6) Frère et sœur. — (7) Père et mère. — (8) Père et mère d'un mari ou d'une épouse. — (9) Fils et fille. — (10) Mari et femme. — (11) Ventre. [Quelques-uns restreignent au dernier mot, d'autres aux deux derniers, la signification d'embryon.] — (12) Dernier mois de la grossesse. — (13) Fœtus. — (14) Eunuque. — (15) Enfance [jusqu'à l'âge de seize ans]. — (16) Jeu-

^a भर्तृ. — ^b उपपतिः. — ^c Ou गोलः. — ^d Ou भ्रातृव्यः. — ^e जरायु et जरायुस्. — ^f Le terme composé est proprement तृतीयप्रकृतिः. — ^g Et षण्डः ou सण्डः; quelques-uns ajoutent षण्डः.

1 [स्यात्] स्याविरं [तु] वृद्धत्वं

2 वृद्धसङ्घे [ऽपि] वार्द्धकं ^a ॥ ४० ॥

3 पलितं ^b [जस्ता शौक्ल्यं केशादौ]

4 विस्रसा जरा ।

5 [स्याद्] उत्तानशया ^c डिम्भा स्तनपा [च] स्तनन्धयी ^d ॥ ४१ ॥

6 बालस् [तु स्यान्] माणवको

7 वयस्यस् तरुणो युवा ।

8 प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जग्म् [अपि] ॥ ४२ ॥

9 वर्षीयान् दशमी ज्यायान्

10 पूर्वजस् [त्व्] अग्रियो ^e ऽग्रजः ।

11 जघन्यजे [स्युः] कनिष्ठ ^f -यवीयो ^g -ऽवरजानुजाः ^h ॥ ४३ ॥

12 अमांसो दुर्बलश् छातो ⁱ

13 बलवान् मांसलो ऽंसलः ।

14 तुन्दिलस् तुन्दिकस् ^j तुन्दी वृहत्कुक्षिः पिचिण्डिलः ^k ॥ ४४ ॥

nesse ou âge viril. — (1) Vieil âge [commençant après soixante-dix ans chez les hommes, et après cinquante chez les femmes]. — (2) Réunion de vieillards [le second mot signifie aussi vieil âge]. — (3) Cheveux gris. — (4) Décrépitude. — (5) Enfant. — (6) Jeune garçon [n'ayant pas au delà de seize ans]. — (7) Jeune homme, ou homme dans l'âge viril [de seize à soixante-dix]. — (8) Vieillard. — (9) Homme très-âgé. — (10) Frère aîné, premier né. — (11) Jeune frère. — (12) Faible, mince. — (13) Fort, robuste. — (14) Replet, pansu.

^a Aussi वार्द्धक्यं. — ^b Ou पलितः qui a des cheveux gris. — ^c Ou bien, au masc.

उत्तानशयः, etc., car ce mot et les suivants [jusqu'à la stance 49] prennent les trois genres. — ^d Quelques-uns écrivent स्तनन्धया. — ^e Aussi अग्रिमः, अग्र्यः et अग्र्योयः

— ^f Et कनीयान् ou कन्यसः. — ^g यवीयान्; également यविष्ठः. — ^h अवरज-अनुज.

— ⁱ Ou प्रातः. — ^j Ou तुन्दिभः. — ^k Aussi पिचिण्डवान्.

- 1 अत्रट्टो ऽवनाटश् [चा-]-वभ्रटो^a नतनासिके ।
 2 केशवः केशिकः केशी
 3 वलिनो वलिभः^b [समौ] ॥ ४५ ॥
 4 विकलाङ्गस् [तु] पोगण्डः^c
 5 खर्वो ऋस्वश् [च] वामनः ।
 6 खरणाः [स्यात्] खरणसो
 7 विग्रस् [तु] गतनासिकः ॥ ४६ ॥
 8 खुरणाः [स्यात्] खुरणसः
 9 प्रञ्चुः^d प्रगतजानुकः
 10 ऊर्द्धञ्चुर^e ऊर्द्धजानुः [स्यात्]
 11 संञ्चुः^f संहतजानुकः ॥ ४७ ॥
 12 [स्यात्] एडे बधिरः
 13 कुब्जे गडुलः^g
 14 कुकरो कुणिः^h ।
 15 पृश्निर्ⁱ अल्पतनौ

(1) Qui a le nez camus. — (2) Qui a beaucoup de cheveux ou de beaux cheveux. — (3) Flasque. — (4) Difforme [ayant un membre, comme un doigt du pied ou de la main, de moins ou de trop]. — (5) Nain. — (6) Qui a le nez pointu. — (7) Qui n'a pas de nez. — (8) Ayant le nez comme un sabot. — (9) Dont les jambes sont tortues, ou qui a les genoux de côté. — (10) Qui a de longues jambes, ou des genoux épais. — (11) Dont les genoux se touchent. — (12) Sourd. — (13) Bossu. — (14) Ayant un bras tortu ou desséché. — (15) Petit, court, mince.

^a अत्रट्टः. — ^b Également वलिमान्. — ^c Aussi अयोगण्डः. — ^d Aussi प्रञ्चः et प्रगतजानुः. — ^e Et ऊर्द्धञ्चः. — ^f Également संञ्चः et संहतजानुः. — ^g Et गण्डुलः. —

^h Aussi कूणिः et कोणिः. — ⁱ Également पृष्णिः.

- 1 ओणः पंगौ
 2 मुण्डस् [तु] मुण्डते ॥ ४८ ॥
 3 वलिरः केकरे
 4 खोडे खञ्जः
 5 [त्रिषु जरावराः^a] ।
 6 जटुलः कालकः पिप्पुस्
 7 तिलकस् तिलकालकः ॥ ४९ ॥

SECTION II.

SANTÉ, MÉDECINE, MALADIES, PARTIES DU CORPS.

- 8 अनामयं [स्याद्] आरोग्यं
 9 चिकित्सा रुक्प्रतिक्रिया ।
 10 भेषजौषध^b-भैषज्यान्^c अगदो जायुर् [इत्यपि] ॥ १ ॥
 11 [स्त्री] रुग् रुजा [चो-]-पताप^d-रोग-व्याधि-गदामयाः^e ।
 12 [पुमान्] यक्ष्मा^f क्षयः शोषः
 13 प्रतिश्यायस्^g [तु] पीनसः^h ॥ २ ॥

(1) Perclus. — (2) Chauve, rasé. — (3) Louche. — (4) Boiteux. — (6) Tache de rousseur ou signe. — (7) Tache ou marque [ou personne ayant des taches de rousseur ou des signes]. — (8) Santé. — (9) Médecine. — (10) Médicament. — (11) Maladie. — (12) Consomption pulmonaire. — (13) Catarrhe.

^a Les mots précédents (depuis la st. 41) s'accordent en genre avec le sujet. — ^b भेषज-औषध. — ^c भैषज्य. — ^d उपताप. — ^e गद-आमय. — ^f Également तक्ष्मा et तक्ष्मः; et राजयक्ष्मा ou राजतक्ष्मा. — ^g Aussi प्रतिश्रया et प्रतिश्यायः. — ^h Également अपीनसः et पिनसः.

- 1 [स्त्री] क्षुत् क्षुतं क्षवः [पुंसि]
 2 कासस्^a [तु] क्षवथुः [पुमान्] ।
 3 शोफस् [तु] श्वयथुः शोथः
 4 पादस्फोटो विपादिका ॥ ३ ॥
 5 किलासं सिध्म^b
 6 कच्छां^c [तु] पाम पामा^d विचर्चिका ।
 7 कण्डूः खर्जूश् [च] कण्डूया^e
 8 विस्फोटः पिटकस्^f [त्रिषु] ॥ ४ ॥
 9 व्रणो [ऽस्त्रियाम्] ईर्मन्^g अरुः [क्लीवे]
 10 नाडीव्रणः [पुमान्] ।
 11 कोटो मण्डलकं
 12 कुष्ठ-श्वित्रे^h
 13 दुर्नामकार्शसीⁱ ॥ ५ ॥
 14 आनाहस् [तु] विबन्धः [स्याद्]
 15 ग्रहणीरूक्^j प्रवाहिका ।
 16 प्रच्छर्दिका^k वमिष् [च स्त्री पुमांस् तु] वमथुः [समाः] ॥ ६ ॥

(1) Éternuement. — (2) Toux. — (3) Tumeur. — (4) Engélure, ampoule ou ulcère au pied. — (5) Pustule. — (6) Gale. — (7) Démangeaison. — (8) Clou. — (9) Mal ou blessure. — (10) Ulcère. — (11) Sorte de lèpre; lèpre blanche avec des taches rondes. — (12) Lèpre. — (13) Hémorroïdes. — (14) Epistasis, rétention d'urine ou constipation. — (15) Diarrhée. — (16) Vomissement.

^a Aussi काप्रः. — ^b Ou सिध्मं. — ^c कच्छूः. — ^d पामन् [-मा] du. पामानौ; पामा, du. पामे. — ^e Aussi कण्डूतिः. — ^f Également ब्रिटकः. — ^g Aussi au masc. ईर्मः. — ^h Et श्वेतं ou श्वेत्रं. — ⁱ दुर्नामक-अर्शस्; également अर्शस्; aussi अर्श [-र्शः] m. —

^j Aussi ग्रहणिः et ग्रहणो. — ^k Également इर्दिस् n. et इर्दिः ou इर्दो f.

- 1 [व्याधिभेदा] विद्रुधिः^a [स्त्री] ज्वर-मेह^b-भगन्दराः ।
 2 अश्मरी मूत्रकृच्छ्रं^c [स्यात्]
 3 [पूर्वे शुक्रावधेस् त्रिषु^d] ॥ ७ ॥
 4 रोगहार्थे^e अगदंकारो भिषग्-वैद्यौ चिकित्सके ।
 5 वार्ते निरामयः कल्य उल्लाघो [निर्गतो गद्यात्] ॥ ८ ॥
 6 ग्लान-ग्लान्
 7 आमयावी विकृतो व्याधितो ऽपटुः ।
 8 आतुरो ऽभ्यमितो^f ऽभ्यान्तः
 9 [समौ] पामन-कच्छुरौ ॥ ९ ॥
 10 दद्रुणो^g दद्रुगो [स्याद्]
 11 अश्मरोगयुतो^h ऽर्शसः ।

(1, 2) Maladies diverses : *vidroudhi*, abcès interne; *djwara*, fièvre; *méha*, gonorrhée [quelques-uns interprètent ce mot par *gonorrhée simple* ou *faiblesse séminale*; d'autres par *diabète*]; *bhagandara*, fistule à l'anus; *asmarī*, pierre ou gravelle; *moutrakrittchhra*, strangurie [quelques-uns font ces deux termes synonymes comme signifiant dysurie]. — (4) Médecin [ou adjectivement, pratiquant la médecine]. — (5) Remis d'une maladie [quelques-uns restreignent le dernier terme au convalescent, ou à celui qui est récemment rétabli d'une maladie]. — (6) Amaigri ou faible. — (7, 8) Malade. — (9) Galeux. — (10) Affligé d'éruptions dartreuses; — (11) — d'hémorrhoides.

^a विद्रुधिः (Éd. Ser. voyez p. 420.) — विद्रुधिः (Éd. Calc. — Wils. Dict. — MSS.)

— ^b Aussi प्रमेहः. — ^c मूत्रकृच्छ्रं (Éd. Calc. — MSS.) — मूत्रकृच्छ्रं (Éd. Ser.) —

^d Les termes suivants jusqu'au premier mot de la stance 13, prennent les trois genres.

— ^e रोगहारी. — ^f अभ्यमितः (Éd. Calc. — MSS. — Wils. Dict.) — अभ्यसितः (Éd.

Ser.) — ^g Aussi दद्रुणः; de दद्रुः, दद्रुः, दद्रुः ou दद्रुः dartre. — ^h अश्मरोगयुतः

(Éd. Calc. — MSS. — Wils. Dict.)

- 1 वातकी वातरोगी [स्यात्]
 2 सातिसारो ऽतिसारकी ॥ १० ॥
 3 [स्युः] क्लिन्नाक्षे चुल्ल-चिल्ल-पिल्लाः [क्लिन्ने ऽक्षिण चाप्य् अमी] ।
 4 उन्मत्त उन्माद्वति
 5 श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी ॥ ११ ॥
 6 न्युब्धो [भुग्ने रुजा]
 7 [वृद्धनाभौ] तुण्डिल^a-तुण्डिभौ ।
 8 किलासी सिध्मलो
 9 ऽन्धो ऽदृङ्
 10 मूर्च्छाले मूर्त-मूर्च्छितौ ॥ १२ ॥
 11 शुक्रं तेजो-रेतसी^b [च] वीज-वीर्येन्द्रियाणि^c [च] ।
 12 मायुः पित्तं
 13 कफः श्लेष्मा
 14 [स्त्रियां तु] त्वग्^d असृग्धरा^e ॥ १३ ॥
 15 पिशितं तरसं मांसं पललं क्रव्यम् आमिषं^f ।
 16 उत्तप्लं शुष्कमांसं [स्याद्] वल्लूरं [तत् त्रिलिङ्गकं] ॥ १४ ॥

(1) Affligé de goutte ou de rhumatisme; — (2) — de dysenterie. — (3) Chassieux [au neutre les mots signifient : œil affecté de chassie]. — (4) Fou, aliéné. — (5) Pituiteux. — (6) Bossu par suite de maladie [le mot signifie aussi une maladie qui occasionne une bosse au dos]. — (7) Qui a un nombril proéminent. — (8) Qui a des pustules. — (9) Aveugle. — (10) Défaillant. — (11) Semence, sperme. — (12) Bile. — (13) Pituite. — (14) Peau. — (15) Chair. — (16) Chair séchée.

^a Aussi तुन्दिलः. — ^b रेतस्. — ^c वीर्य-इन्द्रिय. — ^d त्वच् et त्वचा f. ou त्वचं n. — ^e Ou असृग्धारा. — ^f Et अमिषं.

- 1 रुधिरे ऽसृग्-लोहितास्र^a -रक्त-क्षतज-शोणितं ।
 2 बुक्काग्रमांसं^b हृदयं हृन्^c
 3 मेढस्^d [तु] वपा वसा ॥ १५ ॥
 4 [पश्चाद्ग्रीवा शिरा] मन्या
 5 नाडी^e [तु] धमनिः^f सिरा^g ।
 6 तिलकं क्लोम^h
 7 मस्तिष्कं गोर्ध
 8 किङ्गं मलो [ऽस्त्रियां] ॥ १६ ॥
 9 अन्त्रं पुरितद्ⁱ
 10 गुल्मस् [तु] ग्रीहा^j [पुंस्य्]
 11 [अथ] वस्त्रसा^k ।

(1) Sang. — (2) Cœur [quelques écrivains restreignent aux deux premiers mots la signification de cœur, et aux deux derniers, celle de *poitrine*]. — (3) Serum de la chair [ou suivant une autre interprétation, moëlle des os. — (4) Muscles de la nuque du cou. — (5) Nerf, tendon; boyau ou vaisseau tubulaire quelconque du corps humain. — (6) Vessie. — (7) Cerveille [quelques-uns font l'article qui précède synonyme de celui-ci]. — (8) Excrétion ou excrément. [On en compte douze, ou neuf seulement suivant quelques-uns; les douze sont : le serum, la semence, le sang, la crasse, l'urine, les excréments, l'ordure des oreilles, les ongles, la pituite, les larmes, les concrétions des yeux et la sueur. Voyez MANOU, livre v, st. 135.] — (9) Entrailles. — (10) Rate. — (11, et p. 142, lig. 1.) Tendon ou muscle.

^a लोहित-अस्र; quelques-uns ajoutent अश्रं. — ^b बुक्का, अग्रमांसं; également बुक्का-ग्रमांसं; बुक्क [-क्कः -क्का-क्की-क्कं] ou बुक्कन् [-क्का-क्कन्]; aussi बृक्क, बृक्क, बृक्कन् et बृक्कन्. — ^c हृत्. — ^d Neutre, ou मेढ [-दः] m. — ^e Et नाडिः. — ^f Ou धमनी. — ^g Également शिरा. — ^h Aussi क्लोमं. — ⁱ Également पुरितत्. — ^j ग्रीहन् ou ग्रीहन् [-हन्] m. aussi ग्रीहा f. — ^k Également वस्त्रसा.

- 1 न्नायुः [स्त्रियां]
 2 कालखण्ड-यकृती [तु समे इमे] ॥ १७ ॥
 3 मृणिका ^a स्यन्दिनी लाला
 4 दूषिका ^b [नेत्रयोर् मलं] ।
 5 मूत्रं प्रस्राव
 6 उच्चारवस्करौ ^c शमलं शकृत् ^d ॥ १८ ॥
 7 गूथं पुरीषं ^e वर्चस्कम् [अस्त्री] विष्ठा-विषौ ^f [स्त्रियौ] ।
 8 [स्यात्] कर्परः कपालो [ऽस्त्री]
 9 कीकसं कुल्यम् अस्थि [च] ॥ १९ ॥
 10 [स्यात् शरीरास्थि] कङ्कालः
 11 [पृष्ठास्थि तु] कशेरुका ^g ।
 12 शिरोस्थि ^h [तु] करोटिः ⁱ [स्त्री]
 13 पार्श्वस्थानि [तु] पार्शुका ^j ॥ २० ॥
 14 अङ्गं प्रतीको ऽवयवो ऽपघ्नो
 15 [ऽथ] कलेवरं ।
 16 गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः ॥ २१ ॥
 17 कायो द्रहः [क्लीवपुंसोः स्त्रियां] मूर्तिस् तनुस् ^k तनूः ।

(2) Foie. — (3) Salive. — (4) Concrétions des yeux. — (5) Urine. — (6, 7) Excréments. — (8) Crâne. — (9) Os. — (10) Squelette. — (11) Épine du dos. — (12) Crâne ou os de la tête. — (13) Côte. — (14) Membre. — (15-17) Corps.

^a Ou सृणोका. — ^b Et दूषो ou दूषोका. — ^c उच्चार-अवस्कर. — ^d Et सकृत्. — ^e पुरीषं (Éd. Calc. — MSS. — Wils. Dict.) पूरीषं (Éd. Scr.) — ^f विट्; aussi विष्ठा. — ^g Et कषेरुका. — ^h शिरोस्थि. — ⁱ Ou करोटी; aussi करोटं n. — ^j Également पार्शुका et पार्शुः. — ^k तनु et तनुस्.

- 1 पादाग्रं प्रपदं
 2 पादः पद्^a अङ्घ्रिष्^b चरणो [ऽस्त्रियां] ॥ २२ ॥
 3 [तद्ग्रन्थी] घुटिके^c गुल्फौ
 4 [पुमान्] पात्तिर् [अधस् तयोः] ।
 5 जंघा [तु] प्रसृता
 6 जानूरुपर्वाष्ठीवद्^d [अस्त्रियां] ॥ २३ ॥
 7 सक्थि [क्लिवे पुमान्] ऊरुस्
 8 [तत्सन्धिः पुंसि] वंक्षणः ।
 9 गुदं [त्] अपानं पायूरु [ना]
 10 वस्तिर्^e [नाभेरु अधो द्वयोः] ॥ २४ ॥
 11 कटो [ना] ओषिफलकं^f कटिः^g ओषी^h ककुब्धती ।
 12 [पश्चान्] नितम्बः [स्त्रीकट्याः]
 13 [क्लिवे तु] जवनं [पुरः] ॥ २५ ॥
 14 [कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्वयहीने] ककुब्धेⁱ ।
 15 [स्त्रियां] स्फिचौ कटिप्रोथाव्^j ।

(1) Bout du pied. — (2) Pied. — (3) Cheilles du pied. — (4) Talon. — (5) Jambe. — (6) Genou. — (7) Cuisse. — (8) Aine. — (9) Anus. — (10) Abdomen. — (11) Hanche et reins [quelques-uns distinguent les deux premiers termes comme signifiant la hanche]. — (12) Fesses d'une femme. — (13) *Mons Veneris*. — (14) Cavités des reins. — (15) Fesses.

^a पत् et पदः m. aussi पादं et पदं n. — ^b Et अङ्घ्रिः m. quelques-uns font ces deux mots aussi neutres. — ^c घुटिका et घुटिः ou घुटो; aussi घुटः. — ^d जानु, ऊरुपर्वा, अष्ठीवत् neut. जानुः, ऊरुपर्वा, अष्ठीवान् masc. — ^e Masc. et fém. aussi वस्ती f. — ^f Également ओषीफलं. — ^g Et कटो. — ^h Ou ओषिः. — ⁱ Aussi ककुब्धं. — ^j Sing. कटिप्रोथः; également कटिः et प्रोथः.

- 1 उपस्थो [वक्ष्यमाणयोः] ॥ २६ ॥
- 2 भगं योनिर्^a [द्वयोः]
- 3 शिश्रो मेढ्रो^b मेढ्न-शेफसी^c ।
- 4 मुष्को ऽण्डकोषो^d वृषणः
- 5 [पृष्ठवंशाधरे] त्रिकं ॥ २७ ॥
- 6 पिचिण्ड^e-कुक्षी^f जठरोदरं^g तुन्दं
- 7 स्तनौ कुक्षौ ।
- 8 चूचुकं^h [तु] कुचाग्रं [स्यान्]
- 9 [नना] क्रोडं भुजान्तरं ॥ २८ ॥
- 10 उरो वत्सं [च] वक्षश्च [च]
- 11 पृष्ठं [तु चरमं तनोः] ।
- 12 स्कन्धोⁱ भुजशिरो ऽसो^j [ऽस्त्री]
- 13 [सन्धी तस्यैव] जत्रुणी^k ॥ २९ ॥
- 14 वाङ्मूले [उभौ] कक्षौ
- 15 पार्श्वम् [अस्त्री तयोर् अग्रधः]

(1) Parties de la génération. — (2) Vulve. — (3) Pénis. — (4) Scrotum, aussi les testicules. — (5) Extrémité de l'épine [consistant en trois os, l'os sacrum, etc.] — (6) Ventre. — (7) Seins, mamelles. — (8) Mamelon. — (9, 10) Sein [quelques-uns séparent les deux premiers termes des trois autres, distinguant la gorge entre les épaules (c'est-à-dire le premier os du sternum) de la région du cartilage ensiforme]. — (11) Derrière, dos. — (12) Épaule. — (13) Os du cou. — (14) Aisselles. — (15) Côté.

^a Et योनी fém. — ^b मेढ्रः (MS. Beng. — Wils. Dict.) — मेढ्रः (Éd. Ser.) — मेढ्रं (Éd. Calc.) — ^c श्रेफस् ou श्रेपस् n. aussi श्रेफः, श्रेपः et श्रेब्रः m. — ^d Et अण्डकोशः. — ^e Aussi पिचण्डः. — ^f कुक्षिः et कुक्षः. — ^g जठर-उदर. — ^h Aussi चुचुकं et चुचुकः. — ⁱ Masc. aussi स्कन्धस् n. — ^j Ou ग्रंथः. — ^k Sing. जत्रु.

- 1 मध्यमं [चा-]-वल्लं^a [च] मध्यो [ऽस्त्री]
 2 [द्वौ परौ द्वयोः] ॥ ३० ॥
 3 भुज-वाहू^b प्रवेष्टो द्वोः^c
 4 [स्यात्] कफोणिसु^d [तु] कूर्परः^e ।
 5 [अस्योपरि] प्रगण्डः [स्यात्]
 6 प्रकोष्ठसु [तस्य चाप्यधः] ॥ ३१ ॥
 7 [मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य] करभो [वह्निः] ।
 8 पञ्चशास्त्रः शयः^f पाणिसु
 9 तर्जनी [स्यात्] प्रदेशनी^g ॥ ३२ ॥
 10 अङ्गुल्यः^h करशाखाः [स्युः]
 11 [पुंस्यु] अङ्गुष्ठः प्रदेशिनी ।
 12 मध्यमानामिकाⁱ [चापि] कनिष्ठा^j [चेति ताः क्रमात्] ॥ ३३ ॥
 13 पुनर्भवः^k कररुद्धो नखो [ऽस्त्री] नखरो^l [ऽस्त्रियां] ।
 14 प्रादेश^m-ताल-गोकर्णासु [तर्जन्याद्वियुते तते] ॥ ३४ ॥

(1) Milieu du corps. — (2, 3) Bras. — (4) Coude. — (5) Humérus, de l'épaule au coude. — (6) Avant-bras. — (7) Métacarpe, du poignet au petit doigt. — (8) Main. — (9) Index. — (10) Doigts. — (11, 12) Les doigts énumérés dans leur ordre : le pouce, l'index, le doigt du milieu, l'annulaire et le petit doigt. — (13) Ongle. — (14) Court empan de trois sortes, savoir : le *pradés'a*, du bout du pouce à celui de l'index étendu, empan; le *tāla*, à celui du doigt du milieu, le *gokarn'a*,

^a अवल्लं; également विल्लं. — ^b वाहुः m. f. aussi वाह [-हः -हा]. — ^c Masc. et दोषा f. — ^d Et कफोणिः; aussi कफोणी et कफणी. — ^e Aussi कूर्परः (*Wils. Dict. — Éd. Calc.*) — ^f Et ग्रामः. — ^g Ou प्रदेशिनी. — ^h अङ्गुलिः et अङ्गुली, अङ्गुरिः ou अङ्गुरी; aussi अङ्गुलः et अङ्गुलं. — ⁱ मध्यमा, अनामिका et अनामा. — ^j Aussi कन्यसा, कनीनी et कनीनिका. — ^k Aussi पुनर्भवः. — ^l Aussi नखरा f. — ^m Ou प्रदेशः.

- 1 [अङ्गुष्ठे सक्निष्ठे स्याद्] वितस्तिरू [द्वादशाङ्गुलैः] ।
 2 [पाणौ] चपेट^a-प्रतल^b-प्रहस्ता [विस्तृताङ्गुलौ] ॥ ३५ ॥
 3 [द्वौ संहृतौ] संहृतलः^c [प्रतलौ^d वामदक्षिणौ] ।
 4 [पाणिर् न्कुकुञ्जः] प्रसृतस्^e
 5 [तौ युताव्] अञ्जलिः [पुमान्] ॥ ३६ ॥
 6 [प्रकोष्ठे विसृतकोरे] हस्तौ
 7 [मुष्ट्या तु बद्धया] ।
 8 सरत्निः [स्याद्]
 9 अरत्निस् [तु निष्कनिष्ठेन माष्टना] ॥ ३७ ॥
 10 व्यामो [वाह्योः सकारयोस् ततयोस् तिर्यगन्तरं] ।
 11 [ऊर्ध्वविसृतद्वोः पाणिनृमाने] पौरुषं [त्रिषु] ॥ ३८ ॥
 12 कण्ठो गलो

au bout de l'annulaire. (1) Long empan, du bout du pouce à celui du petit doigt; mesure de douze doigts. — (2) Paume de la main avec les doigts étendus. — (5) Deux paumes semblables jointes. — (4) Paume de la main courbée, comme pour tenir un liquide. — (5) Deux paumes semblables jointes. — (6) Coudée [depuis le coude jusqu'au bout du doigt du milieu, mesure de vingt-quatre doigts]. — (7, 8) Coudée courte [depuis le coude jusqu'à l'extrémité du poing]. — (9) Coudée intermédiaire [depuis le coude jusqu'à l'extrémité du petit doigt]. — (10) Brasse [espace entre les bouts des doigts quand les mains sont étendues, *orgya*]. — (11) Mesure de la portée d'un homme [égale à la hauteur à laquelle il atteint lorsqu'il élève les deux bras avec les doigts étendus]. — (12) Gosier.

^a Aussi चपेटः et चपटः. — ^b Également तलं. — ^c Ou सिंहतलः. — ^d En omettant la terminaison du terme précédent, celui-ci est fait par quelques-uns synonyme du premier, dans un sens moins restreint. — ^e Aussi प्रसृतिः.

- 1 [सथ] ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरे^a -[त्यपि] ।
 2 कम्बुग्रीवा [त्रिरेखा सा-]
 3 -वटुर^b घाटा कृकाटिका ॥ ३९ ॥
 4 वक्त्रास्ये^c वदनं तुण्डम् आननं लपनं मुखं ।
 5 [क्लीवे] घ्राणं गन्धवह्ना घोणा नासा^d [च] नासिका ॥ ४० ॥
 6 ओष्ठाधरो^e [तु] रदनच्छदौ दशनवाससी ।
 7 [अधः स्याच्] चिवुकं^f
 8 गण्डौ कपोलौ
 9 [तत्परो] हनुः^g ॥ ४१ ॥
 10 रदना दशना दन्ता^h रदास्
 11 तालु [तु] काकुदं ।
 12 रसज्ञा रसनाⁱ जिह्वा^j
 13 [प्रान्ताव् ओष्ठस्य] सृङ्गणी^k ॥ ४२ ॥
 14 ललाटम् अलिकं^l गोधिर्

(1) Cou. — (2) Cou marqué de trois lignes comme une coquille [c'est considéré comme la marque d'une grande destinée]. — (3) Derrière du cou [ou, suivant une autre interprétation, partie droite du cou]. — (4) Bouche ou face. — (5) Nez. — (6) Lèvres. — (7) Menton. — (8) Joues. — (9) Mâchoire. — (10) Dents. — (11) Palais. — (12) Langue. — (13) Coins de la bouche. — (14) Front.

^a कन्धरा f. quelques-uns ajoutent कन्धरः m. — ^b अटुरः. — ^c वक्त्र-आस्य. — ^d Et नसा ou नस्या. — ^e ओष्ठौ, अधरौ et ओष्ठाधरौ; car proprement le premier mot [ओष्ठः] signifie la lèvre supérieure, et le second [अधरः], la lèvre inférieure. — ^f Aussi चिवुः. — ^g Aussi हनुः f. — ^h Sing. दन्तः; quelques-uns ajoutent दत्. — ⁱ Ou रसना aussi रसनं n. — ^j Et जिह्वः masc. — ^k Duel de सृङ्गन्; aussi सृङ्गन् ou सृङ्गिन् et सृङ्गं, सृङ्गं ou सृङ्गि; aussi सृङ्गणी f. — ^l Également अलिकं.

- 1 [ऊर्द्धे दृग्भ्यां] भ्रुवौ^a [स्त्रियां] ।
 2 कूर्चम् [अस्त्री भ्रुवोर् मध्यं]
 3 तारका-[-क्षणः] कनीनिका ॥ ४३ ॥
 4 लोचनं नयनं नेत्रम् ईक्षणं चक्षुर^b-अक्षिणी^c ।
 5 दृग्-दृष्टी [चा-]
 6 -श्रु^d नेत्राम्बु रोदनं [चा-]-स्रम्^e असु [च] ॥ ४४ ॥
 7 अपाङ्गौ [नेत्रयोर् अन्तौ]
 8 कटाक्षो^f [ऽपाङ्गदर्शने] ।
 9 कर्ण-शब्दग्रहौ श्रोत्रं^g श्रुतिः [स्त्री] अवणं अवः^h ॥ ४५ ॥
 10 उत्तमाङ्गं शिरःⁱ शीर्षं मूर्द्धा [ना] मस्तको^j [ऽस्त्रियां] ।
 11 चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोरूढः ॥ ४६ ॥
 12 [तद्वन्दे] कैशिकं कैश्यम्
 13 अलकाश् चूर्णकुन्तलाः ।
 14 [ते ललाटे] ध्रमरकाः
 15 काकपत्तः शिखण्डकः^k ॥ ४७ ॥

(1) Sourcils. — (2) Espace entre les sourcils. — (3) Prunelle de l'œil. — (4, 5) OEil. — (6) Larme. — (7) Coins extérieurs des yeux. — (8) OEillade. — (9) Oreille. — (10) Tête. — (11) Cheveu. — (12) Chevelure. — (13) Boucles de cheveux. — (14) Boucles sur le front. — (15) Touffes de cheveux laissées lors de la tonsure; [les explications différent; cela signifie trois (quelques-uns disent cinq) touffes de cheveux laissés lors de la tonsure solennelle des enfants, ou de ceux de la classe

^a Sing. भ्रूः. — ^b Quelques-uns ajoutent चक्षुः. — ^c Sing. अक्षि, quelques-uns ajoutent अक्षं. — ^d अश्रु. — ^e अक्षं ou अश्रं. — ^f Aussi कान्तः. — ^g Ou श्रोत्रं. — ^h अवस् n. aussi अव m. — ⁱ शिरस् n. aussi शिर m. — ^j Également मस्तः. — ^k Ou शिखाण्डकः et शिखण्डः.

- 1 कवरी^a केशवेशो
 2 [ऽथ] धम्मिल्लः [संयताः कचाः] ।
 3 शिखा चूडा केशपाशी
 4 [व्रतिनस् तु] जटा सटा^b ॥ ४८ ॥
 5 वेणिः प्रवेणिः^c
 6 शीर्षण्य-शिरस्यौ [विशदे कचे] ।
 7 पाशः^d पक्षश् [च] हस्तश् [च कलापार्थाः कचात् परे] ॥ ४९ ॥
 8 तनूरुहं^e रोम लोम
 9 [तद्द्वौ] श्मश्रु [पुंमुखे] ॥ ५० ॥

SECTION III.

HABILLEMENTS, PARURES, PARFUMS, GUIRLANDES.

- 10 आकल्प-वेशौ^f नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनं ।
 11 [दृश्येते त्रिषु]^g

militaire en particulier ; ou toute touffe laissée sur la tête]. — (1) Tresse, manière d'arranger la chevelure. — (2) Cheveux tressés [attachés autour de la tête ; ou mêlés de fleurs et couverts de perles, etc.] — (3) Touffe laissée sur la couronne de la tête. — (4) Cheveux collés ensemble, comme les portent les ascétiques. — (5) Chevelure non ornée [comme celle que portent les femmes en l'absence de leurs maris]. — (6) Cheveux propres et non mêlés. — (7) Cheveux nombreux ou ornés. — (8) Poils du corps. — (9) Barbe. — (10) Habillement ou parure.

^a Fém. ou कवरी; masc. et कवरं neut. — ^b Quelques-uns ajoutent शटा. —

^c Aussi वेणी et प्रवेणी. — ^d Ces termes sont employés en composition avec un mot signifiant cheveu ; comme केशपाशः, केशपक्षः. — ^e Également तनूरुहं. — ^f Ou वेपः.

— ^g Les dix noms qui suivent prennent les trois genres.

- 1 अलङ्कृतालङ्करिणुश्च^a [च] मण्डितः ॥ १ ॥
 2 प्रसाधितो ऽलङ्कृतश्च [च] भूषितश्च [च] परिष्कृतः ।
 3 विभ्राड् भ्राजिणु-रोचिणु
 4 भूषा [तु स्याद्] अलङ्क्रिया^b ॥ २ ॥
 5 अलङ्कारस् [त्] आभरणं परिष्कारो विभूषणं^c ।
 6 मण्डनं [चा-]
 7 [-द्य] मकुटं^d किरोटं [पुन्नपुंसकं] ॥ ३ ॥
 8 चूडामणिः शिरोरत्ने
 9 तरलो [हारमध्यगः] ।
 10 वालपाश्या पारिथ्या
 11 पत्रपाश्या ललाटिका ॥ ४ ॥
 12 कर्णिका तालपत्रं [स्यात्]
 13 कुण्डलं कर्णविष्टनं ।

(1, 2) Orné; [quelques-uns restreignent aux deux premiers mots la signification de *personne ayant du goût pour la parure*, d'autres donnent aux trois premiers le sens de *personne qui pare.*] — (3) Éléphant. — (4) Action d'orne, de parer. — (5, 6) Ornaments, bijoux, colifichets. — (7) Aigrette, diadème ou tiare. — (8) Joyau sur l'aigrette ou le diadème. — (9) Pierre du milieu d'un collier. — (10) Ornement pour la chevelure [bande ou chaîne plate d'or ou d'argent avec ou sans bijoux dessus, portée entre les cheveux divisés sur la tête; suivant quelques-uns, le premier terme signifie un collier de perles attachant les cheveux]. — (11) Ornement de tête [joyau, colifichet en or, ou autre porté sur le front au-dessous de la séparation des cheveux; étoile sur le front; quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (12) Ornement pour l'oreille [cylindre creux traversant le lobe de l'oreille]. — (13) Boucle d'oreille

^a अलङ्कृता, अलङ्करिणुः. — ^b Quelques-uns omettent les trois lignes qui suivent.
 — ^c Aussi भूषणं. — ^d Ou मुकुटं.

- 1 ग्रैवेयकं^a कण्ठभूषा
 2 लम्बनं [स्यात्] ललन्तिका ॥ ५ ॥
 3 [स्वर्णैः] प्रालम्बिका-
 4 [-थो-]-रःसूत्रिका^b [मौक्तिकैः कृता] ।
 5 हारो मुक्तावली
 6 देवच्छन्दो [ऽसौ] शतयष्टिकः ॥ ६ ॥
 7 [हारभेदा यष्टिभेदा] गुत्स^c-गुत्सार्द्ध^d-गोस्तनाः ।
 8 अर्द्धहारो माणवक
 9 एकावल्^e [एकयष्टिका] ॥ ७ ॥
 10 [सैव] नक्षत्रमाला [स्यात् सप्तविंशतिमौक्तिकैः] ।
 11 आवापकः पारिहार्यः^f कटको वलयो [ऽस्त्रियां] ॥ ८ ॥
 12 केयूरम् अङ्गुष्ठं [तुल्ये]
 13 अङ्गुलीयकम्^g उर्मिका ।
 14 [साक्षर-]-ङ्गुलिमुद्रा^h [सा]

(1) Collier court. — (2) Collier long descendant au dessous du sein. — (3) Collier d'or. — (4) Collier de perles. — (5) Guirlande de perles. — (6) Guirlande composée de 100 fils quelques-uns disent 103]. — (7, 8) Guirlandes de diverses sortes; la première [*goutsā*] de 32 rangs, la seconde [*goutsārdha*] de 24 rangs, la troisième [*gostana*] composée de 4 ou de 34 fils, la quatrième [*ardhahāra*] de 64 fils, la cinquième [*mānavaka*] composée de 20 rangs. — (9) Guirlande d'un seul fil. — (10) Collier de 27 perles. — (11) Bracelet d'or ou de coquillages etc. — (12) Ornement du bras, porté au-dessus du coude. — (13) Bague. — (14) Bague portant un sceau.

^a Également ग्रैवेयं et ग्रैवं. — ^b ऊःसूत्रिका. — ^c Aussi गुच्छः. — ^d Ou गुच्छार्द्धः. — ^e एकावली. — ^f Aussi पारिहार्यः (*Wils. Dict.*) — ^g Quelques-uns ajoutent अङ्गुरीयकं. — ^h अङ्गुलिमुद्रा.

- 1 कङ्कणं करभूषणं ॥ ८ ॥
- 2 [स्त्रीकट्यां] मेखला काञ्ची^a सप्तकी रसना^b [तथा] ।
- 3 [क्लीवे] सारसनं [चा-]
- 4 [-थ पुंस्कट्यां] शृङ्खलं [त्रिषु] ॥ १० ॥
- 5 पादाङ्गदं तुलाकोटि^c मञ्जीरो नूपुरो [स्त्रियां] ।
- 6 हंसकः पादकटकः
- 7 किङ्किणी^d क्षुद्रघण्टिका ॥ ११ ॥
- 8 [त्वक्फलकृमिरोमाणि] वस्त्रयोनिर्
- 9 [दश त्रिषु^e] ।
- 10 वाल्कं [क्षौमादि]
- 11 फालं [तु] कार्पासं वादरं [च तत्] ॥ १२ ॥
- 12 कौशेयं^f कृमिकोशोत्थं
- 13 राङ्गवं मृगरोमजं ।

(1) Ornement du poignet; anneau large, solide, avec ou sans perles. — (2, 3) Ceinture d'une femme [les termes ici énoncés sont synonymes, mais ils signifient des ceintures de diverses sortes, différant pour le nombre des fils]. — (4) Ceinturon d'un homme. — (5, 6) Ornement des pieds, bagues portées à l'orteil [quelques-uns distinguent les deux derniers termes comme signifiant un ornement distinct]. — (7) Clochettes, ou ornements retentissants. — (8) Matières de quatre sortes propres à faire des vêtements [1° l'écorce des plantes, comme la crotalaire joncée, le lin, le chanvre, l'hibiscus, etc.; 2° les fruits, comme le coton, 3° les produits des insectes, comme la soie; 4° les poils et la laine]. — (10) Fait d'écorce comme de lin. — (11) Fait de coton. — (12) De soie. — (13) De laine [fait du poil d'un cerf appelé *rankou*, ou de toute autre espèce de poil ou

^a Aussi काञ्चिः. — ^b Et रश्मना. — ^c Masc. ou तुलाकोटिः et तुलाकोटी f. — ^d Ou कङ्कणी. — ^e Les dix mots (ou pour mieux dire les onze mots) suivants prennent les trois genres. — ^f Aussi कौषेयं.

- 1 अनाहृतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं [च] नवाम्बरे^a ॥ १३ ॥
 2 [तत् स्याद्] उद्गमनीयं [यद् धौतयोर् वस्त्रयोर् युगं] ।
 3 पत्रोर्णं धौतकौशेयं
 4 बहुमूल्यं महाधनं^b ॥ १४ ॥
 5 क्षोमं^c दुकूलं [स्याद्]
 6 [द्वे तु] निवीतं^d प्रावृतं [त्रिषु] ।
 7 [स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य] दशाः [स्युर्] वस्तयो^e [द्वयोः] ॥ १५ ॥
 8 द्वैर्घ्यम् आयाम^f आरोहः^g
 9 परिणाहो विशालता ।
 10 पटच्चरं जीर्णवस्त्रं
 11 [समौ] नक्तक^h-कर्पटौ ॥ १६ ॥
 12 वस्त्रम् आच्छादनं वासश्ⁱ चेलं^j वसनम् अंशुकं ।
 13 सुचेलकः पटो^k [स्त्री स्याद्]

de laine]. — (1) Tissu neuf et non blanchi. — (2) Paire de vêtements blanchis. — (3) Soie blanchie [ou soie sauvage]. — (4) Chose précieuse. — (5) Soie tissée. — (6) Voile ou manteau. — (7) Bords d'un vêtement. — (8) Longueur. — (9) Largeur. — (10) Vieux vêtement. — (11) Vêtement sale ou déchiré [les explications diffèrent beaucoup : quelques-uns font cet article synonyme du suivant ; selon d'autres, ces deux mots signifient mouchoir, chiffon, chemise de nuit, etc.] — (12) Vêtement, tissu. — (13) Beau tissu [cet article est aussi considéré comme synonyme du précédent].

^a Quelques-uns rangent ce mot parmi les adjectifs. — ^b Même observation pour ces deux mots. — ^c Aussi क्षौमं. — ^d Ou निवृतं. — ^e Aussi sing. वस्तिः. — ^f Également आयतिः f. — ^g Quelques-uns lisent आनाहः. — ^h Également लक्तक. — ⁱ Neut. aussi वासः m. — ^j Et चेली f. — ^k Aussi पटिः et पटो f. mais c'est un diminutif qui signifie proprement une sorte particulière de vêtement.

- 1 वराशिः^a स्थूलशाटकः ॥ १७ ॥
- 2 निचोलः^b प्रच्छदपटः
- 3 [समौ] रत्नक-कम्बलौ ।
- 4 अन्तरीयोपसंव्यान^c -परिधानान्य् अधो ऽंशुके ॥ १८ ॥
- 5 [द्वौ] प्रावारोत्तरासङ्गौ^d [समौ] वृहत्तिका [तथा] ।
- 6 संव्यानम् उत्तरीयं [च]
- 7 चोलः कूर्पासकः [स्त्रियाः^e] ॥ १९ ॥
- 8 नीशारः [स्यात् प्रावरणे हिमानिलनिवारणे] ।
- 9 [अर्द्धीरुकं वस्त्रीणां स्याच्] चण्डातकम् [अंशुकं] ॥ २० ॥
- 10 [स्यात् त्रिष्ट्] आप्रपदीनं [तत् प्राप्नोत्य् आप्रपदं हि यत्] ।
- 11 [अस्त्री] वितानम् उल्लोचो
- 12 दृष्या^f [-यं वस्त्रवेशमनि] ॥ २१ ॥
- 13 प्रतिसीरा जवनिका^g [स्यात्] तिरस्करणी^h [च सा] ।
- 14 परिकर्माङ्गसंस्कारःⁱ

(1) Tissu grossier [quelques-uns font ces mots et les précédents synonymes]. — (2) Couverture ou enveloppe [aussi drap de lit, couverture de litière, etc. ou encore voile]. — (3) Couverture de lit, tapis. — (4) Vêtement inférieur. — (5, 6) Vêtement supérieur. — (7) Corset ou jaquette. — (8) Manteau chaud. — (9) Jupe. — (10) Habillement descendant jusqu'aux pieds. — (11) Dais, petite tente. — (12) Tente. — (13) Paravent ou tenture. — (14) Toilette pour la propreté; action de se parer en se frottant de sandal ou de parfums.

^a Également वरासः. — ^b Et निचुलः. — ^c अन्तरीय-उपसंव्यान. — ^d प्रावार-उत्तरासङ्गः. — ^e कूर्पासको ऽस्त्रियां (Éd. Calc.) — ^f दृष्यं, quelques-uns lisent दृश्यं. — ^g Aussi जवनिका ou यमनिका. — ^h Et तिरस्कारिणी. — ⁱ परिकर्म [aussi प्रतिकर्म], अङ्गसंस्कारः.

1 [स्यान्] मार्ष्टिर् मार्जना मृजा ॥ २२ ॥

2 उद्वर्तनोत्सादने ^a [द्वे समे]

3 आप्लाव आप्लवः ।

4 स्नानं

5 चर्चा [तु] चार्चिक्यं स्यासको

6 [सथ] प्रबोधनं ॥ २३ ॥

7 अनुबोधः ^b

8 पत्रलेखा पत्राङ्गुलि ^c [श्मे समे] ।

9 तमालपत्र-तिलक-चित्रकानि विशेषकं ॥ २४ ॥

10 [द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्]

11 [अथ] कुङ्कुमं ।

12 काश्मीरजन्माग्निशिखं ^d वरं ^e वाल्हीक ^f-पीतने ॥ २५ ॥

13 रक्त-संकोच-पिशुनं धीर-लोहितचन्दनं ^g ।

14 लाक्षा राक्षा ^h जतु ⁱ [क्लीवे] यावो ऽलक्तो दुमामयः ॥ २६ ॥

(1) Action de se nettoyer en s'essuyant, ou en se baignant et en se frottant d'huile et de bois de sandal. — (2) Action de se parfumer. — (3, 4) Bain. — (5) Action de parfumer quelqu'un en l'enduisant de sandal, etc. — (6, 7) Action de ranimer un parfum. — (8) Action de peindre le corps; lignes tracées avec du safran, du musc, etc. sur la poitrine, les joues, etc. — (9, 10) Cercle sur le front. — (11-13) Safran. [Les mots comme *rakta*, signifiant *rouge* ou *sang*, s'appliquent aussi à cet article]. — (14) Laque. [Quelques-uns distinguent les quatre derniers mots,

^a उद्वर्तन-उत्सादन; aussi उच्छादनं. — ^b Écrit à tort par quelques-uns अनुबोधः. —

^c Aussi पत्रावली et autres synonymes. — ^d काश्मीरजन्म [ou कश्मीरजन्म], अग्निशिख.

— ^e Ou वरं, aussi चारु. — ^f Également वाल्हीकं et वरवाल्हीकं. — ^g Aussi रक्तचन्दनं

etc. — ^h Ou रक्षा. — ⁱ Un auteur sépare ce mot de ceux qui précèdent et qui suivent.

- 1 लवङ्गं द्वेकुसुमं श्री-[-संज्ञम्]
 2 [अथ] ज्ञायकं^a ।
 3 कालीयकं^b [च] कालानुसार्य [चा-]
 4 [-थ समार्थकं] ॥ २७ ॥
 5 वंशिकागुरु^c -रजार्ह-लोह-क्रिमिज-जोङ्गकं ।
 6 कालागुर्व^d अगुरुः
 7 [स्यात् तन्] मङ्गल्या [मल्लिगन्धि यत्] ॥ २८ ॥
 8 यक्षधूपः सर्जरसो ऽराल^e -सर्वरसाव् [अपि] ।
 9 वक्ररूपो [ऽप्य्]
 10 [अथ] वृक्षधूप^f -कृत्रिमधूपकौ ॥ २९ ॥
 11 तुरूष्कः पिण्डकः सिंहो^g यावनो [ऽप्य्]
 12 [अथ] पायसः ।
 13 श्रीवासो^h वृक्षधूपो [ऽपि] श्रीवेष्ट-सरलद्रवौ ॥ ३० ॥
 14 मृगनाभिर्ⁱ मृगमदः^j कस्तूरी^k [चा-]

d'autres les trois derniers de ceux qui précèdent; la distinction semble être établie entre la gomme ou résine et la teinture fournie par l'insecte]. — (1) Clous de girofle. [Les autres synonymes de *Lakchmī* s'appliquent aussi à cet article]. — (2, 3) Bois jaune odorant [peut-être le bois de sandal jaune]. — (4, 5) Bois d'aloès [*amyris agallocha*, R.] — (6) Espèce noire. — (7) Espèce très-odorante. — (8, 9) Résine. — (10) Parfum composé. — (11) Encens. — (12, 13) Térébenthine. — (14) Musc.

^a Et ज्ञायकं. — ^b Ou कालेयकं et कालियकं. — ^c वंशिका [et वंशक neut. aussi वंशिका fém.], अगुरु. — ^d कालागुरु. — ^e Également रालः. — ^f Ou वक्षधूप. — ^g Un auteur lit सिंह. — ^h Masc. aussi श्रीवासम् n. — ⁱ Également मृगः et नाभिः f. — ^j Aussi मदः. — ^k कस्तूरी (*Wils. Dict.* — *Éd. Calc.* — *MSS.*) कस्तुरी (*Éd. Ser.*).

- 1 [-थ] कोलकं ।
 2 ककरोलकं कोशफलम्
 3 [अथ] कर्पूरम् [अस्त्रियां] ॥ ३१ ॥
 4 धनसारश्च^a चन्द्र-[-संज्ञः] सिताम्रो^b ह्रिमवालुका ।
 5 गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्च चन्दनो [ऽस्त्रियां] ॥ ३२ ॥
 6 तैलपर्णिक-गोशीर्षे हरिचन्दनम् [अस्त्रियां] ।
 7 तिलपर्णी [तु] पत्राङ्गं^c रञ्जनं रक्तचन्दनं ॥ ३३ ॥
 8 कुचन्दनं [चा-]
 9 [-थ] ज्ञातीकोश^d -ज्ञातीफले^e [समे] ।
 10 [कर्पूरागुरुकस्तूरीककरोलैर्] यक्षकट्टमः ॥ ३४ ॥
 11 गात्रानुलेपनी वर्तिर्^f वर्णकं [स्याद्] विलेपनं ।

(1, 2) Bdellium. — (3, 4) Camphre [tous les synonymes de la lune s'appliquent aussi au camphre]. — (5) Bois de sandal. — (6) Variétés. de bois de sandal [qui prennent le nom des contrées qui les produisent, ou d'autres circonstances suivant l'explication de quelques-uns; la première est blanche; la seconde de la couleur du laiton et très-odorante; la troisième est jaune et dite avoir l'odeur d'une mangue mure]. — (7, 8) Sandal rouge, *pterocarpus santalinus* [selon quelques-uns il s'agit du vermillon, ou *minium*, mais les écrivains médicaux séparent ces termes et font du *patranga* le bois de *sappan*, *cæsalpina sappan*]. — (9) Macis. — (10) Pâte parfumée composé de camphre, de bois d'aloès, de musc et de bdellium, en proportions égales, ou bien des trois premières substances avec du safran et du bois de sandal]. — (11) Parfum pour la personne [broyé ou non broyé; mais quelques-uns distinguent les deux derniers mots comme restreints aux parfums broyés].

^a धनसारः (*Wils. Dict.* — *MSS.* — *Éd. Calc.*) धनसारः (*Éd. Ser.*). — ^b Ou सितामः.
 — ^c Aussi पत्रांगं et पत्रांगं. — ^d Et ज्ञातीकोषं. — ^e Également ज्ञातीफलं et ज्ञातिः
 ou ज्ञाती et फलं. — ^f Ou वर्ती.

- 1 चूर्णानि ^a वासयोगाः [स्युर]
 2 भावितं वासितं [त्रिषु] ॥ ३५ ॥
 3 [संस्कारो गन्धमाल्याद्यैर् यः स्यात् तद्] अधिवासनं ।
 4 माल्यं माला-स्रजौ ^b [मूर्द्धि]
 5 [केशमध्ये तु] गर्भकः ॥ ३६ ॥
 6 प्रभ्रष्टकं [शिखालम्बि]
 7 [पुरो न्यस्तं] ललामकं ।
 8 प्रालम्बम् [ऋजुलम्बि स्यात् कण्ठाद्]
 9 वैकक्षकं [तु तत् ॥ ३७ ॥
 10 यत् तिर्यक् क्षिप्रम् उरसि]
 11 [शिखास्व्] आपीउ-शेखरौ ।
 12 रचना [स्यात्] पस्विन्द ^c
 13 आभोगः परिपूर्णता ॥ ३८ ॥
 14 उपधानं [तू-]-पवर्हः ^d
 15 शय्यायां शयनीय-[-वत्] ।
 16 शयनं
 17 मञ्च-पर्यङ्क-पल्यङ्काः खट्वा ^e [समाः] ॥ ३९ ॥

(1) Poudre à jeter sur les étoffes [poudre rouge, etc.] — (2) Parfumé. — (3) Action de parfumer [de parer de guirlandes odorantes, etc.] — (4) Guirlande. — (5) Guirlande portée sur les cheveux. — (6) Guirlande qui pend de la mèche du milieu de la tête; — (7) — tombant sur le front; — (8) — qui pend autour du cou; — (9, 10) — portée en guise d'écharpe; — (11) — attachée sur le sommet de la tête. — (12) Ornement, arrangement de la chevelure. — (13) Achèvement, accomplissement. — (14) Coussin. — (15, 16) Lit. — (17) Bois de lit.

^a Sing. चूर्ण. — ^b Sing. स्रज्. — ^c Ou पस्विन्दः. — ^d उपवर्हः. — ^e खट्वा.

- 1 गेण्डुकः^a कन्दुको
 2 द्वीपः प्रदीपः
 3 पीठम् आसनं ।
 4 समुद्रकः^b संपुटकः
 5 प्रतिग्रहः^c पतद्ग्रहः ॥ ४० ॥
 6 प्रसाधनी^d कङ्कतिका^e
 7 पिष्टातः पटवासकः ।
 8 दर्पणे मुकुरादर्शौ^f
 9 व्यजनं तालवृन्तकं^g ॥ ४१ ॥

CHAPITRE VII.

RACE, CLASSES, ORDRES, CLASSE SACERDOTALE, SACRIFICE,
 AUSTÉRITÉ, HYPOCRISIE, MARIAGE.

- 10 सन्ततिरू गोत्र-जनन-कुलान्य^h अभिजनान्वयौⁱ ।
 11 वंशो ऽन्ववायः सन्तानो
 12 वर्णाः [स्यूरू ब्राह्मणादयः] ॥ १ ॥
 13 राजवीजी राजवंश्यो

(1) Balle pour jouer. — (2) Lampe. — (3) Chaise ou siège. — (4) Cas-
 sette. — (5) Pot à cracher. — (6) Peigne. — (7) Poudre parfumée.
 — (8) Miroir. — (9) Éventail. — (10, 11) Race ou lignage. — (12) Clas-
 ses [la sacerdotale et les trois autres]. — (13) Issu d'une maison royale.

^a Aussi गेण्डुकः. — ^b Et समुद्रः. — ^c Ou प्रतिग्रहः. — ^d Aussi प्रसाधनं. — ^e Éga-
 lement कङ्कतो et कङ्कतं. — ^f मुकुर [et मकुर et मंकुर] अदर्श, et आदर्श. — ^g Ou ताल-
 वृन्तं. — ^h Sing. कुलं. — ⁱ अभिजन-अन्वय.

- 1 वीज्यस् [तु] कुलसम्भवः ।
 2 महाकुल^a-कुलीनार्य^b-सम्य-सञ्जन-साधवः^c ॥ २ ॥
 3 ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश् [चतुष्टये] ।
 4 आश्रमो [ऽस्त्री]
 5 द्विजात्^d-अग्रजन्म-भूदेव^e-वाडवाः ॥ ३ ॥
 6 विप्रश् [च] ब्राह्मणो
 7 [ऽसौ] षट्कर्मा [यागादिभिर् युतः] ।
 8 विद्वान् विपश्चिद् दोषज्ञः सन् सुधीः कोविदो बुधः ॥ ४ ॥
 9 धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः^f संख्यावान् पण्डितः कविः ।
 10 धीमान् सूरिः^g कृती कृष्टिर् लब्धवर्णो विचक्षणः ॥ ५ ॥
 11 दूरदर्शी दीर्घदर्शी
 12 श्रोत्रिय-ह्यन्वसौ [समौ] ।
 13 उपाध्यायो ऽध्यापको

(1) Issu d'une famille. — (2) De parentage honorable. — (3) Hommes des quatre ordres énumérés successivement : 1° le *brahmachârî* ou l'étudiant en théologie qui a reçu l'investiture et qui n'est pas marié; 2° le *grihî* ou maître de maison; 3° le *vânaprastha* ou anachorète; 4° le *bhikchou* ou mendiant, dévot ascétique. — (4) Ordre ou état religieux [l'un des quatre ci-dessus énumérés]. — (5, 6) Homme de la classe sacerdotale. — (7) Brâhmane pratiquant les six actes qui lui sont alloués : [le sacrifice, l'étude, l'action de faire du bien, celle d'assister au sacrifice, celle d'enseigner, celle de recevoir des aumônes]. — (8-11) Sage ou instruit [quelques-uns séparent les deux derniers termes comme signifiant prévoyant]. — (12) Prêtre versé dans la sainte écriture. — (13) Maître.

^a Ou महाकुल. — ^b कुलीन-[aussi कुल्यः, कौलेयः et कौलेयकः] आर्यः. — ^c Sing. साधुः. — ^d द्विजातिः, aussi द्विजः et द्विजन्मा. — ^e Ou भूमिदेवः. — ^f Aussi प्राज्ञः. — ^g Aussi सूरिन् [-रो].

- 1 [सथ स्यान् निषेकादिकृद्] गुरुः ॥ ६ ॥
 2 [मन्त्रव्याख्याकृद्] आचार्य
 3 [आदेष्टा त्व अध्वरे] व्रती ।
 4 यष्टा [च] यजमानश्च [च]
 5 [स सोमवति] दीक्षितः ॥ ७ ॥
 6 इज्याशीलो यायजूको
 7 यज्वा [तु विधिनेष्टवान्] ।
 8 [स गीष्पतीष्ट्या] स्थपतिः
 9 सोमपीती [तु] सोमपः^a ॥ ८ ॥
 10 सर्ववेदाः [स येनेष्टो यागः सर्वस्वदक्षिणः] ।
 11 अनूचानः [प्रवचने साङ्गे ऽधीती]
 12 [गुरोस् तु यः ॥ ९ ॥
 13 लब्धानुज्ञः] समावृत्तः

(1) Père spirituel [soit le père naturel, soit le précepteur spirituel]. — (2) Maître qui enseigne la sainte écriture. — (3, 4) Homme qui emploie des prêtres à un sacrifice. — (5) Homme qui emploie des prêtres pour des cérémonies particulières dans lesquelles on boit le jus de l'asclépiade acide [quelques-uns font ce mot synonyme des deux précédents]. — (6) Homme qui sacrifie fréquemment; — (7) — qui sacrifie suivant la règle; — (8) — qui le fait suivant la règle de *Vrihaspati*; — (9) — qui a bu le jus de l'asclépiade acide; — (10) — qui a donné toute sa fortune aux prêtres employés par lui pour un sacrifice nommé *Viśwajit* [dans ce sacrifice tout le bien de celui qui fait la cérémonie doit être distribué en honoraires]; — (11) — qui a complètement appris la science sacrée [étant versé dans les *Védas* et les six *Védāngas*]. — (12, 13) Élève qui a pris congé de son précepteur [pour devenir maître de maison].

^a Aussi सोमपा [-पाः].

- 1 मुत्वा [त् अभिषवे कृते] ।
 2 छात्रान्तेवासिनौ ^a शिष्ये
 3 शैक्षाः प्राथमकल्पिकाः ॥ १० ॥
 4 [एकब्रह्मव्रताचार मिथः] सब्रह्मचारिणः ^b ।
 5 सतीर्थ्याश् ^c [चै-]-कगुरुवः ^d
 6 [चितवान् अग्निम्] अग्निचित् ॥ ११ ॥
 7 [पारंपर्योपदेशे स्याद्] ऐतिह्यम् इतिहा-[-व्ययं ^e] ।
 8 उपज्ञा [ज्ञानम् आयं स्यात्]
 9 [ज्ञात्वारम्भ] उपक्रमः ॥ १२ ॥
 10 यज्ञः सवो ऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर मखः क्रतुः ।
 11 [पाठो होमश् चातिथीनां सपर्या तर्पणं बलिः ॥ १३ ॥
 12 एते पञ्च] महायज्ञा [ब्रह्मयज्ञादिनामकाः] ।

(1) Homme qui a fait des ablutions [pour se préparer à un sacrifice]. — (2) Élève. — (3) Novices [ou élèves qui ont récemment commencé l'étude des *Védas*]. — (4) Compagnons d'études [suivant ensemble les mêmes études, avec de semblables austérités]. — (5) Frères spirituels [élèves du même précepteur]. — (6) Adorateur du feu [homme qui a pris et placé ou consacré un feu du sacrifice]. — (7) Instruction traditionnelle. — (8) Connaissance non enseignée. — (9) Entreprise commencée après examen. — (10) Sacrifice [ou cérémonie dans laquelle sont faites des oblations]. — (11, 12) Grands sacrifices [devoirs pieux au nombre de cinq, nommés actes religieux des *Védas*, des Dieux, des hôtes, des mânes et des êtres de ce monde; savoir : 1° l'étude de l'écriture; 2° les oblations faites aux dieux; 3° l'accueil hospitalier fait aux hôtes; 4° la libation d'eau adressée aux mânes des ancêtres; 5° la nourriture jetée sur la terre ou dans l'eau pour les Dieux ou les êtres de ce monde; voyez MANOU ;

^a छात्र-अन्तेवासिन्. — ^b Sing. सब्रह्मचारी. — ^c सतीर्थ्यः et सतीर्थः. — ^d Sing. एकगुरुः. — ^e इतिह, अव्ययं.

- 1 समड्या-परिषद्-गोष्ठी-सभा-समिति-संसदः ^a ॥ १४ ॥
- 2 आस्थानी [क्लीवम्] आस्थानं [स्त्रीनपुंसकयोः] सदः ।
- 3 प्राग्वंशः [प्राग्वविर्गह्यात्]
- 4 सदस्या विधिदर्शिनिः ॥ १५ ॥
- 5 सभासदः सभास्तारः सम्याः सामाजिकाश् [च ते] ।
- 6 अध्वर्युद्गातृ-होतारो ^b [यजुःसामर्ग्विदः क्रमात्] ॥ १६ ॥
- 7 [आग्नीध्राद्या ^c धनैर् वार्या] ऋत्विजो ^d याजकाश् [च ते] ।
- 8 वेदिः ^e [परिष्कृता भूमिः]
- 9 [समे] स्थण्डिल-चत्वरे ॥ १७ ॥
- 10 चषालो दूपकटकः
- 11 कुम्भा [सुगह्नावृतिः ^f] ।
- 12 दूपाग्रं तर्भ

liv. III, st. 6g et suiv.] — (1, 2) Assemblée ou réunion. — (3) Chambre en face de celle dans laquelle les oblations sont mises en réserve [elle est allouée au sacrificateur, à sa famille et aux assistants]. — (4) Assistants dont l'office est de remarquer et de corriger les erreurs. — (5) Membres de l'assemblée. — (6) Prêtres récitant des prières, versés chacun dans un des trois *Védas*, savoir : le prêtre nommé *Adhwaryou*, versé dans le *Yadjous*; l'*Oudgâtri*, dans le *Sâma*, et le *Hotri*, dans le *Rig-véda*. — (7) Prêtres officiants, payés pour accomplir un sacrifice [et nommés, suivant leur office respectif, *Agnidhra*, etc.; seize prêtres semblables sont employés sous différentes désignations]. — (8) Autel [ou lieu préparé pour attacher la victime ou placer les vases]. — (9) Lieu du sacrifice [terrain aplani pour cet objet]. — (10) Anneau de bois au sommet du poteau du sacrifice [selon quelques-uns, anneau de fer à sa base]. — (11) Enceinte placée autour de la place du sacrifice [pour écarter les profanes]. — (12) Sommet du poteau du sacrifice appelé *yoûpa*. [Ce poteau est une colonne octangulaire

^a Sing. संसत्. — ^b अध्वर्यु-उद्गातृ-होतृ. — ^c आग्नीध्रः ou अग्नीध्रः. — ^d Sing. ऋत्विक्. — ^e Aussi वेदी. — ^f Quelques-uns font de ce mot un synonyme.

- 1 [निर्मन्थ्य दारुणि त्] अरणिर्^a [द्वयोः] ॥ १८ ॥
 2 दक्षिणाग्निर् गार्हपत्याहवनीयौ^b [त्रयो ऽग्नयः] ।
 3 [अग्नित्रयम् इदं] त्रेता
 4 प्रणीतः [संस्कृतो ऽनलः] ॥ १९ ॥
 5 समूह्यः परिचाय्योपचाय्याव्^c [अग्नौ प्रयोगिणः] ।
 6 [यो गार्हपत्याद् आनीय दक्षिणाग्निः प्रणीयते ॥ २० ॥
 7 तस्मिन्] आनाय्यो
 8 [ऽथा-]-मायी^d स्वाहा [च] हुतभुक्प्रिया ।
 9 [ऋक्] सामिधेनी^e धाय्या [च या स्याद् अग्निसमिन्धने] ॥ २१ ॥
 10 [गायत्रीप्रमुखं]^f ऋद्धो

de bambou ou de bois de *khadira* (*mimosa catechu*) auquel la victime est attachée pour marquer la fin du sacrifice.] — (1) Bois pour allumer du feu [par l'attrition de deux morceaux de bois]. — (2) Trois sortes de feux consacrés nommés : *Dakchinâgni*, *gârhapaty* et *âhavanîya*. [Le premier est le feu pris d'un feu consacré ou d'un feu domestique et placé vers le sud; le second, le feu entretenu sans cesse par un maître de maison, et le troisième le feu pris de celui-là et préparé pour recevoir des oblations, le feu consacré.] — (3) Les trois feux sacrés collectivement. — (4) Feu consacré par des prières. — (5) Feu du sacrifice en général [ou, suivant d'autres interprétations, feux de sacrifices particuliers]. — (6, 7) Sorte de feu sacré [le feu du midi, pris au foyer d'un maître de maison et consacré]. — (8) Épouse du feu [déesse qui préside aux prières qu'on récite en faisant les offrandes]. — (9) Prières récitées pour exciter le feu [et qui sont usitées en mettant du bois au feu]. — (10) Mètre.

^a Masc. et fém. aussi अरणी f. — ^b गार्हपत्य-आहवनीय. — ^c परिचाय्य-उपचाय्य. — ^d अमायी. — ^e सामिधेनी (*Wils. Dict.* — *Éd. Calc.* — *MS. dev.*) सामधेनी (*Éd. Ser.* — *MS. beng.*) — ^f Mesures de vers dans les Védas de diverses sortes : comme गायत्री ou गायत्री 24 syllabes (6 × 4); उष्णिक् 28 syll. (7 × 4); अनुष्टुप् 32 syll. (8 × 4); वृहती 36 syllabes (9 × 4); पंक्तिः 40 syllabes. (10 × 4) etc.

- 1 [हृव्यपाके] चरुः [पुमान्] ।
 2 आमिक्षा ^a [सा शृतोक्ते या क्षीरे स्याद् दधियोगतः] ॥ २२ ॥
 3 ध्रुवित्रं ^b [व्यजनं तद् यद् रचितं मृगचर्मणा] ।
 4 पृषदाज्यं [सदध्याज्ये]
 5 परमानं [तु] पायसः ॥ २३ ॥
 6 हृव्य-कव्ये [द्वैवपिल्ये अन्ने]
 7 पात्रं [स्रुवादिकं] ।
 8 ध्रुवोपभृत् ^c जुह्व ^d [ना तु] स्रुवो ^e [भेदाः] स्रुचः [स्त्रियः] ॥ २४ ॥
 9 उपाकृतः [पशुरू असौ यो ऽभिमन्व्य क्रतौ हृतः] ।
 10 परम्पराकं शमनं ^f प्रोक्षणं [च बधार्थकं] ॥ २५ ॥
 11 [वाच्यलिङ्गाः] प्रमीतोपसम्पन्न ^g-प्रोक्षिता [हृते] ।

(1) Oblation préparée pour les dieux [ou pour les mânes; selon quelques-uns, vase dans lequel les oblations sont préparées]. — (2) Caillé mêlé de petit-lait. — (3) Écran de peau d'antilope [et servant à éventer le feu du sacrifice]. — (4) Oblation de beurre et de caillé; — (5) — de riz, de lait et de sucre. — (6) *Havia*, oblation aux dieux; *kavia*, oblation aux mânes. — (7) Vase de toute sorte [comprenant les espèces ci-après mentionnées, outre d'autres, comme le mortier avec son pilon, la cuiller, la jarre, etc.] — (8) Vases de diverses sortes employés dans le sacrifice, et nommés *dhrouva*, *oupabhrit*, *jouhoû*, *srouva* et *srouk*. [Le premier est un vase ayant la forme d'une feuille de figuier d'Inde (*ficus indica*), et fait de bois de *flacourtia sapida*; le second, un vase rond fait avec le bois du figuier sacré (*ficus religiosa*); le troisième, un vase demi-circulaire fait avec du bois de *butea frondosa*; le quatrième, une cuiller de bois de *khadira* (*mimosa catechu*); le cinquième ne diffère pas du précédent, quoique quelques-uns le distinguent.] — (9) Victime tuée ou que l'on va tuer. — (10) Immolation. — (11) Tué ou immolé.

^a Quelques-uns écrivent आमिक्षा. — ^b Aussi ध्रुवित्रं. — ^c ध्रुवा, उपभृत्. — ^d Ou जुहुः. — ^e स्रुचः m. ou स्रूः f. — ^f Aussi शसनं ou ससनं. — ^g प्रमीत-उपसम्पन्न.

- 1 सात्राय्यं हविर्
 2 [अग्नौ तु द्रुतं त्रिषु] वषट्कृतं ॥ २६ ॥
 3 [दीक्षान्तो ^a] ऽवभृथो [यज्ञः]
 4 [तत्कर्माहं तु] यज्ञियं ।
 5 [त्रिषु]
 6 [अथ क्रतुकर्मे-]-ष्टं ^b
 7 पूर्तं [त्वातादिकर्मणि] ॥ २७ ॥
 8 अमृतं विघसो [यज्ञशेषभोजनशेषयोः] ।
 9 द्यागो विहापितं दानम् उत्सर्जन-विसर्जने ॥ २८ ॥
 10 विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनं ।
 11 प्रादेशनं निर्वपणम् अपवर्जनम् अंहतिः ^c ॥ २९ ॥
 12 [मृतार्थं तदहृदानं त्रिषु स्याद्] औद्देहिकं ^d ।
 13 पितृदानं निवापः ^e [स्यात्]

(1) Oblation destinée [chose à sacrifier ou à offrir; ordinairement du beurre clarifié]. — (2) Brûlé comme en sacrifice [sacrifié dans le feu] — (3) Sacrifice supplémentaire [qui a pour objet d'expier toute faute commise dans le principal]. — (4, 5) Qui convient à un sacrifice, *adj.* — (6) Acte de sacrifice [oblation ou autre acte d'un sacrifice ou le sacrifice lui-même]. — (7) Acte de libéralité pieuse [comme de creuser un étang ou un puits, de construire un temple ou une maison, de planter un jardin, etc.] — (8) *Amrita*, reste d'un sacrifice [comme du beurre clarifié]; *vighasa*, reste d'une oblation [reste de la nourriture offerte aux dieux, aux mânes, à un hôte vénérable, à un parent spirituel, etc.] — (9-11) Don ou donation. — (12) Obsèques d'une personne décédée. — (13) Dons en l'honneur des morts.

^a Quelques-uns font de ce mot un synonyme. — ^b इष्टं. — ^c Ou अंहति; aussi अंहितिः. — ^d Aussi औद्देहिकं et औद्देहिकं. — ^e Et निर्वपः.

- 1 आद्यं [तत्कर्म शास्त्रतः] ॥ ३० ॥
 2 अन्वाहार्यं^a मासिके
 3 [ऽंशो ऽष्टमो ऽङ्कः] कुतपो [ऽस्त्रियां] ।
 4 पर्येषणा परीष्टिश्च [चा-]-न्वेषणा^b [च] गवेषणा ॥ ३१ ॥
 5 सनिस्^c [त्] अध्येषणा
 6 याञ्जाभिश्चिस्तिरू^d याचनार्थना^e ।
 7 [षट् तु त्रिष्व^f]
 8 अर्थ्यम् [अर्थार्थे]
 9 पाद्यं [पादाय वारिणि] ॥ ३२ ॥
 10 [क्रमाद्] आतिथ्यातिथेये^g [अतिथ्यर्थे ऽत्र साधुनि] ।
 11 [स्याद्] आवेशिक आगन्तुरू^h अतिथिरूⁱ [ना गृह्णागते^j] ॥ ३३ ॥
 12 पूजा नमस्या पचितिः सपर्यार्चिर्हणाः^k [समाः] ।

(1) Repas funèbre [nourriture donnée aux prêtres, et autres cérémonies prescrites en l'honneur des ancêtres]. — (2) Service funèbre mensuel [repas funèbre en l'honneur des ancêtres, le jour de la nouvelle lune; quelques-uns restreignent cela aux cérémonies mensuelles pour une personne récemment décédée]. — (3) Huitième heure du jour [vers midi, car le jour ou la période du jour éclairé comprend quinze heures (*mouhoûrtas*); l'offrande aux mânes faite vers midi est réputée la meilleure]. — (4) Recherche ou enquête [particulièrement, recherche du devoir par le raisonnement]. — (5) Requête ou sollicitation. — (6) Action de demander ou de mendier. — (8) Oblation respectueuse [d'eau seulement, ou d'herbes et de fleurs, etc. avec de l'eau]. — (9) Eau pour laver les pieds. — (10) Convenable pour un hôte, *adj.* — (11) Hôte. — (12) Culte [adoration

^a Aussi अन्वाहार्यकं et अनुहार्यः. — ^b अन्वेषणा. — ^c Aussi सनी. — ^d याञ्जा, अभि-
 प्रास्तिः. — ^e याचना, अर्थना. — ^f Les six mots qui suivent prennent les trois genres.
 — ^g आतिथ्य-आतिथेय. — ^h Également आगान्तुः. — ⁱ Aussi अतिथिः; ou अतिथी f. —
^j Quelques-uns comprennent ce mot parmi les synonymes. — ^k सपर्या-अर्चा-अर्हणा.

- 1 वरिविस्था [तु] शुश्रूषा परिचर्या^a -[-प्य्] उपासनं^b ॥ ३४ ॥
 2 ब्रज्याटाट्या^c पर्यटनं
 3 चर्या [त्त् इर्यापथस्थितिः] ।
 4 उपस्पर्शस् [त्त्] आचमनम्
 5 [अथ] मौनम् अभाषणं ॥ ३५ ॥
 6 आनुपूर्वो^d [स्त्रियां वा-]-वृत्^e परिपाटी^f अनुक्रमः ।
 7 पर्यायश् [चा-]
 8 -तिपातस्^g [तु स्यात्] पर्यय उपात्ययः ॥ ३६ ॥
 9 नियमो व्रतम् [अस्त्री तच् चोपवासादि] पुण्यकं ।
 10 उपवस्तं [तू-]-पवासो^h
 11 विवेकः पृथगात्मता ॥ ३७ ॥
 12 [स्याद्] ब्रह्मवर्चसं वृत्ताध्ययनद्विर्
 13 [अथाञ्जलिः] ।

ou respect]. — (1) Service. — (2) Action d'errer pour recueillir des aumônes [de voyager par austérité]. — (3) Persévérance dans les austérités. — (4) Action de buvoter [de prendre dans la bouche sans avaler]. — (5) Silence. — (6, 7) Ordre, méthode. — (8) Négligence de ce qui est prescrit ou habituel. — (9) Acte méritoire [comme de jeûner]. — (10) Jeûne. — (11) Différence. — (12) Sainteté résultant de l'étude de l'écriture et de l'observation de ses préceptes. — (13, et page 168, lig. 1.) Action de joindre les deux mains en lisant les *Védas* [acte d'humilité accompagné d'une courte prière au commencement et à la fin de la leçon; ou bien mouvement des mains ainsi jointes, servant à marquer l'accentuation, lorsqu'on lit le *Sāmaveda*].

^a Également परिचर्या. — ^b Aussi उपासना ou उपास्तिः. — ^c ब्रज्या, ऋटाट्या; aussi ऋटा et ऋट्या. — ^d Également au neutre आनुपूर्व्यं, आनुपूर्वं, ou आनुपूर्वकं. — ^e आवृत्. — ^f Et परिपाटिः. — ^g अतिपातः. — ^h उपवासः, ou उपोषितं, उपोषणं, औपवस्तं. etc.

- 1 पाठे] ब्रह्माञ्जलिः
 2 [पाठे विष्णुषो] ब्रह्मविन्द्वः^a ॥ ३८ ॥
 3 [ध्यानयोगासने] ब्रह्मासनं
 4 कल्पे विधि-क्रमौ ।
 5 मुख्यः [स्यात् प्रथमःकल्पो]
 6 ऽनुकल्पस् [तु ततो ऽधमः] ॥ ३९ ॥
 7 [संस्कारपूर्वं ग्रहणं स्याद्] उपाकरणं^b [श्रुतेः] ।
 8 [समे तु] पादग्रहणम्^c अभिवादनम् [श्रुतेः] ॥ ४० ॥
 9 भिक्षुः परिव्राट्^d कर्मन्दी पाराशर्य^e [अपि] मस्करी ।
 10 तपस्वी तापसः पारिकाञ्ची
 11 वाचंयमो मुनिः ॥ ४१ ॥

(2) Salive sanctifiée [gouttes de salive crachées en lisant les *Védas*]. — (3) Posture sainte adaptée au recueillement de la pensée et à la méditation [action d'être assis les pieds levés ou les doigts entrelacés, etc.] — (4) Précepte sacré, pratique prescrite par les *Védas* pour amener certaines conséquences. — (5) Injonction principale relative à un acte religieux [comme : « sacrifiez avec du riz, répandez de l'herbe *kous'a* »]. — (6) Injonction secondaire [comme : « au défaut du riz, servez-vous de *nibári*; au défaut du *kous'a*, employez du *kás'a* ou de la *dourvá* »]. — (7) Étude sacrée [lecture des *Védas* après l'initiation]. — (8) Révérence [inclination ou prosternation devant une personne à laquelle on s'adresse par son nom]. — (9) Mendiant ou *sannyáśi*, homme qui est entré dans le quatrième ordre, celui de la dévotion, et qui suit les règles de *Karmanda* ou *Páráśarya*. — (10) Ascétique voué à la dévotion et cherchant la sagesse spirituelle [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (11) Religieux pratiquant une taciturnité rigide [entièrement exempt de passions et insensible au plaisir et à la peine].

^a Sing. ब्रह्मविन्दुः. — ^b Aussi उपाकर्म et उपग्रहणं. — ^c Également उपसंग्रहणं. — ^d Et परिव्राजकः. — ^e पाराशरी et पराशरी.

1 तपःकेशसहो दान्तो

2 वर्णिनो ब्रह्मचारिणः^a ।

3 ऋषयः सत्यवचसः^b

4 स्नातकस् [त्] आप्तवव्रती^c ॥ ४२ ॥

5 [ये] निर्जितेन्द्रियग्रामा^d यतिनो यतयश्^e [च ते] ।

6 [यः स्यण्डिले व्रतवशात् शेते] स्यण्डिलशाय्य^f [असौ] ॥ ४३ ॥

7 स्याण्डिलश्^g [चा-]

8 [-थ] विरजस्तमसस्^h [स्युर्] द्वयातिगाः ।

9 पवित्रः प्रयतः पूतः

(1) Homme qui supporte les austérités. — (2) Étudiants en théologie [pratiquant les austérités pendant l'étude des *Védas*]. — (3) Saints infailibles [on en compte sept classes; savoir : les *Maharchis*, les *Dévarchis*, comme *Nârada*, les *Brahmarchis*, comme *Ka'syapa*, les *Paramarchis*, les *Kandarchis*, les *S'routarchis* et les *Râdjarchis*]. — (4) Maître de maison initié [homme qui est entré dans le second ordre après avoir passé par le premier; lorsqu'il a terminé son noviciat, mais sans avoir acquis la connaissance des *Védas*, il est appelé *Vratasnâtuka*; lorsqu'il a acquis cette connaissance avant l'expiration du temps prescrit pour ses études, il est dit *Vidyâsnâtaka*, et lorsqu'il a terminé à la fois ses études et son noviciat, il est appelé *Oubhayasnâtaka*]. — (5) Sages qui ont dompté leurs sens [qui répriment leurs organes et s'abstiennent de tout ce qui est blâmable, comme *Vas'ichtha* et autres]. — (6, 7) Homme qui se couche sur la terre nue par mortification. — (8) Hommes parfaitement vertueux, exempts de toute mauvaise qualité [ayant acquis la connaissance de Dieu, et obtenu la béatitude pendant leur vie, comme *Vyâsa* et autres, etc.] — (9) Personne purifiée par les austérités et la mortification.

^a Sing. वर्णि, ब्रह्मचारी. — ^b Sing. ऋषिः [aussi ऋषिः], सत्यवाक्. — ^c Et आप्तवव्रती. — ^d Quelques-uns excluent ce mot des synonymes. — ^e Sing. यती et यतिः. — ^f -शायी. — ^g स्याण्डिलः (MSS. — *Wils. Dict.*) स्यण्डिलः (Éd. Ser. — Éd. Calc.) — ^h Sing. -तमाः.

- 1 पाषण्डाः ^a सर्वलिङ्गिनः ^b ॥ ४३ ॥
- 2 [पालाशो दण्ड] आषाढो ^c [व्रते]
- 3 गम्भस् [तु वैणवः] ।
- 4 [अस्त्री] कमण्डलुः कुण्डी ^d
- 5 [व्रतिनाम् आसनं] वृषी ^e ॥ ४५ ॥
- 6 अजिनं चर्मकृत्तिः [स्त्री]
- 7 भैक्षं [भिक्षाकदम्बकं] ।
- 8 स्वाध्यायः [स्याज्] जपः ^f
- 9 सूत्याभिषवः ^g सवनं [च सा] ॥ ४६ ॥
- 10 [सर्वैन्साम् अपध्वंसि जप्यं त्रिष्टु] अघमर्षणं ।

(1) Hérétiques et imposteurs [qui prennent les insignes des quatre tribus et ordres, mais dont les pratiques sont contraires aux *Védas*, comme par exemple (disent les commentateurs) les Bouddhistes, etc.] — (2) Bâton d'un étudiant, coupé sur un arbre appelé *pâlâsa* [*butea frondosa*] et porté par certains ascétiques pendant la pleine lune du mois *achâd'ha*. — (3) Bâton coupé sur un bambou et porté par les étudiants avec de l'herbe *kous'a* [tout autre bâton de bambou est nommé *vain'ava*]. — (4) Pot à l'eau de bois ou de terre [l'étudiant, aussi bien que l'ascétique du troisième ou du quatrième ordre, était anciennement obligé de porter un pot à l'eau]. — (5) Coussin d'un étudiant, siège fait d'herbe *kous'a* [*poa cynosuroides*]. — (6) Peau à son usage [communément une peau d'antilope]. — (7) Amas d'aumônes. — (8) Action de lire ou de marmoter des prières. — (9) Bain religieux préparatoire, lors d'un sacrifice [aussi, selon l'explication de quelques-uns, action d'extraire le jus de l'asclépiade acide et de le boire]. — (10) Prière expiatoire [méditée pendant qu'une goutte d'eau tient au nez; le nom de la prière, qui est aussi celui de son auteur, signifie expiatoire; elle est supposée expier même les fautes en pensée].

^a पाषण्डः ou पाखण्डः. — ^b -लिङ्गिन्. — ^c Et आषाढः. — ^d Également कुण्डिका.
— ^e Ou वृषी. — ^f Ou जपः. — ^g सूत्या, अभिषवः.

- 1 दर्शश् [च] पौर्णमासश् [च यागौ पद्धान्तयोः पृथक्] ॥ ४९ ॥
 2 [शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत् कर्म तद्] यमः ।
 3 नियमस् [तु स यत् कर्मानित्यम् आगन्तुसाधनं] ॥ ४८ ॥
 4 उपवीतं [यज्ञसूत्रं^a प्रोद्धृते दक्षिणे कोर] ।
 5 प्राचीनावीतम् [अन्यस्मिन्]
 6 निवीतं [कण्ठलम्बितं] ॥ ४८ ॥
 7 [अङ्गुल्यग्रे तीर्थं] दैवं
 8 [स्वल्पाङ्गुल्योर् मूले] कायं ।
 9 [मध्ये ऽङ्गुष्ठाङ्गुल्योः] पैत्रं
 10 [मूले च्यङ्गुष्ठस्य] ब्राह्मं ॥ ५० ॥
 11 [स्याद्] ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायुज्यम् [श्यपि] ।
 12 देवभूया^b -[-दिकं तद्वत्]

(1) Sacrifice de chaque demi-mois, de la nouvelle lune et de la pleine lune respectivement [accompli par les personnes qui entretiennent un feu perpétuel]. — (2) Devoir perpétuel [comme la véracité, etc. Voyez MANOU, liv. x, st. 63]. — (3) Devoir volontaire [comme le pèlerinage, le jeûne, etc.] — (4) Cordon passé sur l'épaule gauche et sous le bras droit [voyez MANOU, liv. II, st. 63; c'est le mode ordinaire de le porter]. — (5) Cordon passé sur l'épaule droite et sous le bras gauche [on le porte ainsi pendant certaines cérémonies particulières]. — (6) Cordon suspendu au cou. — (7) Partie de la main consacrée aux Dieux; bouts des doigts [quelques-uns excluent le pouce. — Voyez MANOU, liv. II, st. 59]. — (8) — au créateur [*Pradjapati*] la base des deux plus petits doigts; — (9) — aux Mânes; entre le pouce et l'index; — (10) — aux *Védas*, sous la base du pouce. — (11) État de déification, union avec *Brahma*. — (12) Déification inférieure, identification avec un Dieu.

^a Ce terme général pour le cordon sacerdotal, est considéré par quelques-uns comme un synonyme du mot précédent. — ^b देवभूयं, देवत्वं ou देवसायुज्यं.

- 1 कृच्छ्रं [सान्तपनादिकं] ॥ ५१ ॥
 2 [संन्यासवत्यनशने पुमान्] प्रायो
 3 [ऽथ] वीरहा ।
 4 नष्टाग्निः
 5 कुहना [लोभान् मिथ्येर्यापथकल्पना] ॥ ५२ ॥
 6 ब्रात्यः संस्कारहीनः [स्याद्]
 7 अस्वाध्यायो निराकृतिः ।
 8 धर्मध्वजी लिङ्गवृत्तिर्
 9 अवकीर्णी क्षतव्रतः ॥ ५३ ॥
 10 [सुप्ते यस्मिन् अस्तम् एति सुप्ते यस्मिन् उदेति च ।
 11 अंशुमान्] अभिनिर्मुक्ताभ्युदितौ ^a [तौ यथाक्रमं] ॥ ५४ ॥
 12 परिवेत्ता-[-नुजो ^b ऽनूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात्] ।
 13 परिवित्तिस् ^c [तु तज्ज्यायान्]

(1) Pénitence [celle du *Sântapana*, ou toute autre comme le *Tchândrâ-yana*, ou le *Prâdjâpatya*, etc. voy. MANOU, I. XI, st. 212 etc.] — (2) Action de jeûner jusqu'à la mort. — (3, 4) Homme qui a laissé son feu sacré [qui l'a éteint ou négligé, ou qui s'est absenté en confiant l'entretien du feu à sa famille]. — (5) Hypocrisie [action de pratiquer des austérités religieuses par avarice, ou par orgueil, etc.] — (6) Personne non initiée [pour qui les cérémonies prescrites n'ont pas été accomplies, qui n'a pas reçu l'investiture]. — (7) Homme qui n'a pas fait ses études [qui n'a pas lu les *Védas* selon la règle]. — (8) Hypocrite ou imposteur [homme qui prend l'extérieur de la religion, et s'en fait un métier]. — (9) Homme qui viole son vœu [qui interrompt par incontinence les austérités qu'il a commencé à pratiquer]. — (10, 11) Homme qui est endormi au coucher du soleil ou à son lever, respectivement. — (12) Homme marié avant son frère aîné [cela regarde le premier mariage]. — (13) Frère aîné non

^a अभिनिर्मुक्त-अभ्युदित. — ^b अनुज. — ^c Aussi परिवृत्तिः et परिवृत्तिः.

- 1 विवाहोपयमौ ^a [समौ] ॥ ५५ ॥
 2 [तथा] परिणयोद्वाहोपयमाः ^b पाणिपीडनं ^c ।
 3 व्यवायो ग्राम्यधर्मश् [च] रतं ^d निधुवनं ^e [च सः] ॥ ५६ ॥
 4 त्रिवर्गो ^f [धर्मकामार्थैश्]
 5 चतुर्वर्गः [समोक्षकैः] ।
 6 [सबलैस् तैश्] चतुर्भद्रं
 7 जन्याः [स्निग्धा वरस्य ये] ॥ ५७ ॥

CHAPITRE VIII.

SECTION PREMIÈRE.

CLASSE MILITAIRE, ROIS, MINISTRES, ENNEMIS, ALLIÉS, MOYENS
 DE DÉFENSE ET DE SUCCÈS.

- 8 मूर्द्धाभिषिक्तो राजन्यो बालुजः क्षत्रियो ^g विराट् ।
 9 राज्ञि ^h राट्-पार्थिव-क्षमाभृन् ⁱ-नृप ^j-भूप ^kमहीक्षितः ^l ॥ १ ॥
 10 [राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्याट्] अधीश्वरः ।

marié. — (1, 2) Mariage. — (3) Copulation. — (4) Les trois objets des désirs de l'homme [le devoir, l'amour et la richesse]. — (5) Les quatre objets [les trois ci-dessus mentionnés et la béatitude finale, ou l'exemption de transmigration]. — (6) Les mêmes également puissants. — (7) Parents du marié. — (8) Homme de la classe militaire. — (9) Roi. — (10) Empereur, souverain de tous les princes voisins [quelques-uns font cet article

^a विवाह-उपयम. — ^b परिणय-उद्वाह-उपयम. — ^c Aussi पाणिग्रहणं etc. — ^d Aussi रमणं, गुरतं et रतिः. — ^e Également मैथुनं — ^f Et त्रिगणः. — ^g Aussi क्षत्रिन्, क्षत्रः et क्षत्रः. — ^h राजन्. — ⁱ Également महीभृत्. — ^j Aussi नृपतिः, नरपतिः etc. — ^k Aussi भूपालः, भूमिपालः etc. — ^l Sing. महीक्षित्.

1 चक्रवर्ती सार्वभौमो

2 [नृपो ऽन्यो] मण्डलेश्वरः ॥ २ ॥

3 [येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश् च यः ।

4 शास्ति यश् चाज्ञया राजः स] सम्राट्^a

5 [अथ] राजकं ॥ ३ ॥

6 राजन्यकं [च नृपतिक्षत्रियाणां गणे क्रमात्] ।

7 मन्त्री धीसचिवो ऽमात्यो

8 [ऽन्ये] कर्मसचिवास्^b [ततः] ॥ ४ ॥

9 महामात्राः प्रधानानि

10 पुरोधस् [तु] पुरोहितः ।

11 [द्रष्टरि व्यवहाराणां] प्राड्विवाकाक्षदृशकौ^c ॥ ५ ॥

12 प्रतीहारे^d द्वारपाल-द्वास्थ^e-द्वास्थित-दृशकाः^f ।

13 रक्षिवर्गस् [त्] अनीकस्थो

14 [ऽथा]-ध्यक्षाधिकृतौ^g [समौ] ॥ ६ ॥

synonyme du suivant]. — (1) Monarque universel, souverain de la terre, d'une mer à l'autre. — (2) Tout autre prince. — (3, 4) Prince souverain qui a accompli un sacrifice appelé *râdjasouya*, et qui exerce une autorité despotique sur les autres [ou prince qui a l'une de ces qualifications]. — (5) Réunion de princes; — (6) — d'hommes de la classe militaire. — (7) Ministre ou conseiller. — (8) Autres ministres. — (9) Compagnons du roi. — (10) Prêtre ou chapelain. — (11) Juge. — (12) Garde ou portier. — (13) Garde armé. — (14) Surintendant d'un département quelconque [selon d'autres, de celui des recettes et des dépenses].

^a सम्राट् (Éd. Calc. — Wils. Dict. — MSS.) सम्राट् (Éd. Ser.) — ^b कर्मसचिवः; aussi अमात्यः. — ^c प्राड्विवाक-अक्षदृशक. — ^d Aussi प्रतिहारः. — ^e Ou द्वाःस्थः; aussi द्वारिन् [-रो], द्वारिकः, द्वौवारिकः. — ^f Aussi उपदृशकः et द्वास्थितदृशकः. — ^g अध्यक्ष-अधिकृत.

- 1 स्थायुको [sधिकृतो ग्रामे]
 2 गोपो [ग्रामेषु भूरिषु] ।
 3 भौरिकः कनकाध्यक्षो
 4 ह्य्याध्यक्षस् [तु] नैधिकः^a ॥ ७ ॥
 5 [अन्तःपुरे त्व् अधिकृतः स्याद्] अन्तर्वंशिको [जनः] ।
 6 सौविद्विज्ञाः कञ्चुकिनः^b स्थापत्याः^c सौविदाश्^d [च ते] ॥ ८ ॥
 7 शंढो^e वर्षवरस् [तुल्यौ]
 8 सेवकार्यनुजीविनः^f ।
 9 [विषयानन्तरो राजा] शत्रुर्
 10 मित्रम्^g [अतः परं] ॥ ९ ॥
 11 उदासीनः [परतरः]
 12 पार्त्तिग्राहस् [तु पृष्ठतः] ।
 13 रिपौ^h वैरि-सपत्नारि-ⁱ द्विषद्-द्वेषण-दुर्हृद्ः^j ॥ १० ॥

(1) Inspecteur d'un village. — (2) Inspecteur d'un district. — (3) Trésorier, surintendant de l'or. — (4) Directeur de la monnaie, surintendant du monnayage d'argent [ou de l'argent en général]. — (5) Chambellan, surintendant des appartements des femmes. — (6) Serviteurs des femmes [hommes qui gardent les appartements des femmes du roi]. — (7) Eunuque, serviteur châtré [quelques-uns font cet article synonyme du précédent]. — (8) Domestique, serviteur. — (9) Ennemi, prince voisin [car l'inimitié s'élève fréquemment entre voisins]. — (10) Allié, prince plus éloigné. — (11) Étranger ou neutre [prince éloigné qui ne témoigne ni amitié ni inimitié]. — (12) Ennemi qui reste en arrière. — (13, et p. 177, lig. 1 et 2.) Ennemi quelconque.

^a Aussi टङ्कपतिः. — ^b Sing. कञ्चुकी. — ^c स्थापत्यः ou स्थपतिः. — ^d सौविदः ou सुविदः. — ^e Un commentateur lit षण्डः; mais à tort, car le terme est षण्डः; et signifie impuissant. — ^f सेवक-अर्थि-अनुजीविन्. — ^g Ou मित्रं. — ^h रिपु. — ⁱ सपत्न [ou सापत्न्य]-अरि. — ^j Sing. दुर्हृत्.

- 1 द्विः^a-विपद्नाहितामित्र^b-दस्यु-शात्रव-शत्रवः^c ।
 2 अभिघाति^d-परागति^e-प्रत्यर्थि-परिपन्थिनः ॥ ११ ॥
 3 वयस्यः स्निग्धः सवया
 4 [अथ] मित्रं^f सखा सुहृत् ।
 5 सख्यं साप्रपदीनं [स्याद्]
 6 अनुरोधो ऽनुवर्तनं ॥ १२ ॥
 7 यथार्हवर्णः प्रणिधिर् अपसर्पश्^g चरः स्पशः ।
 8 चारश् [च] गूढपुरुषश्
 9 [चा-]-प्रः^h प्रत्ययितस् [त्रिषु] ॥ १३ ॥
 10 सांवत्सरो ज्योतिषिकोⁱ द्वैवज्ञ-गणकाव् [अपि] ।
 11 [स्युर्] मौढूर्तिक-मौढूर्त-ज्ञानि-कार्तान्तिका [अपि] ॥ १४ ॥
 12 तान्त्रिको ज्ञातसिद्धान्तः
 13 सत्री^j गृहपतिः [समौ] ।
 14 लिपिकारो^k ऽक्षरचणो ऽक्षरचञ्चुश्^l [च] लेखके ॥ १५ ॥

(3) Ami, contemporain. — (4) Ami. — (5) Amitié. — (6) Complaisance [action d'accomplir une chose désirée; selon quelques-uns, service.] — (7, 8) Espion [les deux premiers, d'autres disent les trois premiers termes, signifient un agent secret sous un déguisement; et le reste, un émissaire occasionnel ou bien un espion en général]. — (9) Fidèle, digne de confiance. — (10, 11) Astrologue. — (12) Homme versé dans une science. — (13) Maître de maison généreux [qui donne constamment des aumônes et qui accomplit des sacrifices]. — (14) Écrivain, scribe.

^a Aussi द्विषः. — ^b विपक्ष-अहित-अमित्र. — ^c Sing. प्रात्रुः. — ^d अभिघातिन् [-तो] et अभिघातिन्; aussi अभिघातिः. — ^e पर-अराति [ou आराति]. — ^f Ou मित्रं invariablement neutre; quelques-uns cependant le font masculin et féminin. — ^g Ou अवसर्पः. — ^h आपः. — ⁱ Ou ज्योतिषिकः. — ^j Aussi सत्री. — ^k Ou लिपिकरः et लिखिकरः. — ^l Aussi अक्षरचञ्चुः.

- 1 लिखिताक्षरसंस्थाने^a लिपिर् लिविर्^b [उभे स्त्रियौ] ।
 2 [स्यात्] सन्देशहो दूतो
 3 दूत्यं^c [तद्भावकर्मणि] ॥ १६ ॥
 4 अध्वनीनो ऽध्वगो ऽध्वन्यः पान्यः पथिक^d [इत्यपि] ।
 5 [स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च] ॥ १७ ॥
 6 राज्याङ्गानि^e प्रकृतयः
 7 [पौराणां श्रेणयो ऽपि च] ।
 8 [सन्धिर् ना विग्रहो यानम् आसनं द्वैधम् आश्रयः] ॥ १८ ॥
 9 [षड्] गुणाः
 10 शक्तयस्^f [तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः] ।
 11 [क्षयः स्थानं च वृद्धिश् च] त्रिवर्गो [नीतिवेदिनां] ॥ १९ ॥

(1) Écriture. — (2) Messenger ou ambassadeur. — (3) Ambassade ou message. — (4) Voyageur. — (5, 6) Parties nécessaires d'une administration royale, savoir ; 1° le roi ou seigneur [*swámi*], 2° son conseiller ou ministre [*amátya*], 3° un ami ou allié [*souhrit*], 4° un trésor [*kos'a*]; 5° un territoire [*ráchtra*], 6° une forteresse [*dourga*]; 7° une armée [*bala*]. — (7) Compagnies [*s'réni*] de citoyens [quelques-uns comptent huit parties nécessaires de l'administration royale, en y comprenant les compagnies de citoyens, d'autres neuf, avec le conseiller spirituel, etc.]. — (8, 9) Six moyens de défense énumérés l'un après l'autre, savoir : la pacification, la guerre, la marche, la halte ou la défense d'un poste, une double ressource ou un stratagème, le recours à une protection. — (10) Pouvoir de trois sortes comme résultant de la majesté, de la persévérance et du conseil. — (11) Triple objet de considération, la perte, l'égalité et le gain [ou la mauvaise chance, la continuation du même état, et le succès; ou bien

^a लिखित [et लिखनं ou लोखनं]-अक्षरसंस्थान; suivant une autre leçon [अक्षरविन्यासे] ce terme et le précédent sont l'interprétation des deux mots qui suivent. — ^b Également लिपो et लिवो. — ^c Et दौत्यं. — ^d Aussi पथकः. — ^e Sing. राज्याङ्गं et प्रकृतिः. — ^f Sing. प्रक्तिः.

- 1 [स] प्रतापः प्रभावश्च [च यत् तेजःकोषदण्डजं] ।
 2 [भेदो दण्डः साम दानम् इत्य्] उपाय-[-चतुष्टयं] ॥ २० ॥
 3 साहसं [तु] दमो दण्डः
 4 साम सान्त्वम् ^a
 5 [अथो समौ] ।
 6 भेदोपजापाव् ^b
 7 उपधा [धर्मद्वैर् यत् परीक्षणं] ॥ २१ ॥
 8 [पञ्च त्रिषु] ^c
 9 अषडक्षीणो [यस् तृतीयाद्यगोचरः] ।
 10 विविक्त-विजन-ह्रन् ^d-निःशलाकास् [तथा] रहः ^e ॥ २२ ॥
 11 रह्य् [चो-]-पांशु ^f [चालिङ्गे]
 12 रह्यं [तद्भवे त्रिषु] ।
 13 [समौ] विश्रम्भ ^g-विश्वासौ
 14 भ्रेषो [भ्रंशो यथोचितात्] ॥ २३ ॥

encore la dépense, l'égalité, et le profit]. — (1) Majesté, dignité que donnent des trésors, des forces et le pouvoir de punir [fierté et impatience des outrages]. — (2) Moyens de succès au nombre de quatre pour réduire l'ennemi, savoir : l'action de semer la division, les mesures de rigueur, la conciliation et les présents. — (3) Châtiment. — (4) Conciliation. — (5, 6) Désunion. — (7) Épreuve de l'honnêteté [épreuve de la loyauté, du désintéressement, de la continence et de l'intrépidité]. — (9) Secret inconnu à une troisième personne. — (10, 11) Solitaire ou retiré. — (12) Qui a lieu en secret. — (15) Assurance, confiance. — (14) Action de s'écarter de ce qui est juste.

^a Également ग्राम et ग्रान्त्वं. — ^b भेद-उपजाप. — ^c Les cinq mots suivants prennent les trois genres. — ^d Aussi ह्रन्. — ^e Neut. aussi रह [-हः] m. — ^f उपांशु. — ^g Et विश्रम्भः.

- 1 अघ्नेष-न्याय-कल्यास् [तु] देशरूपं समञ्जसं ।
 2 युक्तम् औपयिकं लभ्यं भजमानाभिनीत^a-[-वत्] ॥ २४ ॥
 3 न्याय्यं [च त्रिषु षट्]
 4 संप्रधारणा [तु] समर्थनं ।
 5 अववादस् [तु] निर्देशो निदेशः शासनं [च सः] ॥ २५ ॥
 6 शिष्टिश्च^b [चा-]-ज्ञा^c [च]
 7 संस्था [तु] मर्यादा धारणा स्थितिः ।
 8 आगो ऽपराधो मन्तुश्च [च]
 9 [समे तू-]-दान^d-बन्धने ॥ २६ ॥
 10 द्विपाद्यो^e [द्विगुणो दण्डो]
 11 भागधेयः करो^f वलिः ।
 12 [घृष्टादिदेयं] शुल्को [ऽस्त्री]
 13 प्राभृतं [तु] प्रदेशनं ॥ २७ ॥
 14 उपायनम् उपग्राह्यम् उपहारस् [तथो-]-पदा^g ।

(1) Propriété, justesse. — (2, 3) Équitable, juste ou convenable. — (4) Délibération sur la convenance ou l'inconvenance d'une chose [détermination qui en est la suite]. — (5, 6) Ordre ou commandement. — (7) Action de se maintenir dans le droit chemin. — (8) Offense ou transgression. — (9) Action d'attacher. — (10) Peine doublée [deux fois l'amende prescrite ou la punition de la faute]. — (11) Revenu royal. — (12) Péage [droit payable aux bacs et aux passages]. — (13, 14) Présent. [Quelques-uns donnent aux deux premiers termes la signification particulière d'oblation des premiers fruits aux dieux; ou de présent à un ami; et aux quatre derniers termes la signification d'humble offrande au roi, etc.; ou de cadeau ou de présent quelconque. D'autres restreignent tous ces termes à l'un ou l'autre de ces divers sens.]

^a भजमान-अभिनीत. — ^b Aussi प्राप्तिः. — ^c आज्ञा. — ^d उद्दान. — ^e द्विपाद्य (Éd. Calc. — MS. beng. — Wils. Dict.) — ^f Ou कारः. — ^g उपदा.

- 1 [यौतकादि तु यद् देयं] सदायो^a हरणं [च तत्] ॥ २८ ॥
 2 तत्कालस् [तु] तदात्वं^b [स्याद्]
 3 [उत्तरः काल] आयतिः^c ।
 4 सांष्टिकं [फलं सद्यः]
 5 उद्वर्कः [फलम् उत्तरं] ॥ २९ ॥
 6 अदृष्टं [वद्वितोयादि]
 7 दृष्टं [स्वपरचक्रजं] ।
 8 [महीभुजाम्] अदिभयं [स्वपक्षप्रभवं भयं] ॥ ३० ॥
 9 प्रक्रिया [त्] अधिकारः [स्यात्]
 10 चामरं^d [तु] प्रकीर्णकं ।
 11 नृपासनं [यत् तद्] भद्रासनं
 12 सिंहासनं [तु तत्] ॥ ३१ ॥
 13 [हैमं]
 14 छत्रं^e [त्] आतपत्रं

(1) Don spécial, comme un présent nuptial [*yautaka*], ou des aumônes faites à un étudiant lors de son initiation, etc. — (2) Temps présent, [temps où un acte a lieu]. — (3) Temps futur. — (4) Conséquence immédiate. — (5) Conséquence future. — (6) Danger accidentel et imprévu [comme celui d'un incendie, d'une inondation, etc.]. — (7) Danger apparent [comme le désastre causé par le pillage des armées]. — (8) Danger latent [pouvant naître du propre parti d'une personne; et comparé à un serpent aux aguets]. — (9) Action de porter les insignes de la royauté. — (10) Queue de vache [queue du *bos grunniens*, employée comme éventail]. — (11) Trône. — (12, 13) Trône d'or. — (14) Parasol.

^a Également सुदायः. — ^b Neutre; indéclinable suivant quelques-uns. — ^c Fém. aussi आयतः m. — ^d Aussi चमरं et चामरा, -री f. — ^e Ou इत्रं.

- 1 [राजस् तु] नृपलक्ष्म [तत्] ।
 2 भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भो
 3 भृङ्गारः कनकालुका ॥ ३२ ॥

SECTION II.

CAMP, ARMÉE, GUERRE; FUNÉRAILLES, PRISON, VIE.

- 4 निवेशः शिविरं [शण्ठे]
 5 सञ्जनं [तू-]-परक्षणं ^a ।
 6 [हस्त्यश्चरथपादात्तं] सेनाङ्गं [स्याच्च चतुष्टयं] ॥ १ ॥
 7 दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विदो ऽनेकपो द्विपः ।
 8 मतङ्गजो गजो नागः ^b कुञ्जरो वारणः करी ॥ २ ॥
 9 इभः स्तम्बेरमः पद्मी ^c
 10 यूथनाथस् [तु] यूथपः ।
 11 मद्योत्कटो मद्यकलः
 12 कलभः करिशावकः ॥ ३ ॥

(1) Parasol royal [porté sur une canne d'or]. — (2) Jarre propice [jarre d'or remplie d'eau à une place consacrée, et employée pour le sacre d'un roi]. — (3) Vase d'or. — (4) Camp [ou, selon quelques-uns, résidence royale]. — (5) Sentinelle ou garde. — (6) Corps faisant partie d'une armée. [On en distingue quatre; les éléphants, la cavalerie, les chars et l'infanterie, outre les bateaux, les buffles, etc.] — (7-9) Éléphant. — (10) Chef d'un troupeau sauvage. — (11) Éléphant en rut [des tempe duquel commence à couler une liqueur particulière]. — (12) Jeune éléphant [jusqu'à vingt ans; quelques-uns restreignent le terme à un petit au-dessous de cinq ans].

^a उपरक्षणं. — ^b Aussi नगजः. — ^c Et पद्मः.

1 प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः

2 [समाव्] उद्धान्त-निर्मदौ ।

3 ह्यस्तिकं गजता [वृन्दे]

4 करिणी धेनुका वशा^a ॥ ४ ॥

5 गण्डः कटो^b

6 मद्यो दानं

7 वमथुः कर्शीकरः ।

8 कुम्भौ^c [तु पिण्डौ शिरसः]

9 [तयोर्मध्ये] विडुः^d [पुमान्] ॥ ५ ॥

10 अवग्रहो^e ललाटं [स्याद्]

11 इषीका^f [त् अक्षिकूटकं] ।

12 [अपाङ्गदेशो] निर्याणं

13 [कर्णमूलं तु] चूलिका ॥ ६ ॥

14 [अधः कुम्भस्य] वाहिल्यं

(1) Éléphant furieux [des tempes duquel la liqueur coule]. — (2) Éléphant hors du rut [la liqueur ayant cessé de couler]. — (3) Troupeau d'éléphants. — (4) Éléphant femelle. — (5) Tempes. — (6) Liqueur des tempes [qui exsude lorsque l'éléphant est en rut]. — (7) Eau jetée par la trompe de l'éléphant. — (8) Globes frontaux de l'éléphant [bosses qu'il a sur la tête, et qui suintent dans la saison du rut]. — (9) Creux qui se trouve entre ces globes. — (10) Front de l'éléphant. — (11) Prunelle de son œil. — (12) Coin de son œil. — (13) Racine de son oreille. — (14) Partie au-dessous des globes frontaux [ou plutôt au-dessous des protubérances en bas du front, qui sont nommées *vatakoumbha*].

^a De même हस्तिनी, पद्मिनी etc. Aussi करेणुः, वासिता etc. — ^b Également कर्टः.

— ^c Sing. कुम्भः. — ^d Quelques-uns ajoutent विडूः [विदुः Éd. Calc. — MSS. —

Wils. Dict.] — ^e Aussi अवग्रहः. — ^f Et इषिका ou ईषिका; aussi इशीका.

- 1 प्रतिमानम् [अधो ऽस्य यत्] ।
 2 आसनं स्कन्धदेशः [स्यात्]
 3 पद्मकं^a विन्दुजालकं ॥ ७ ॥
 4 पक्षभागः पार्श्वभागो
 5 दन्तभागस् [तु यो ऽग्रतः] ।
 6 [द्वौ पूर्वपश्चाञ्जघादिदेशौ] गात्रावरे^b [क्रमात्] ॥ ८ ॥
 7 तोत्रं वैणुकं^c
 8 आलानं बन्धस्तम्भे
 9 [ऽथ] शृङ्गले ।
 10 अन्दुको^d निगडो [ऽस्त्री स्याद्]
 11 अंकुशो [ऽस्त्री] सृणिः^e [स्त्रियां] ॥ ९ ॥
 12 चूषा^f कक्ष्या^g वरत्रा [स्यात्]
 13 कल्पना सञ्जना [समे] ।

(1) Partie au-dessous de la précédente, entre les défenses. — (2) Le garot de l'éléphant [sur lequel son cornac s'assied]. — (3) Marques sur sa face et sur sa trompe [rouges, blanches ou jaunes]. — (4) Son côté ou flanc. — (5) Son front. — (6) Son épaule et sa cuisse [la première partie de sa jambe de devant et de sa jambe de derrière, respectivement]. — (7) Pique pour le conduire [bambou muni de fer à l'extrémité]. — (8) Poteau auquel il est attaché [ou le poteau et le lien]. — (9, 10) Chaîne pour ses pieds. — (11) Crochet pour le conduire. — (12) Sangle de cuir. — (13) Action d'arranger un éléphant [de le parer avec du minium, etc.; ou de le caparaçonner pour que son maître puisse le monter].

^a Ou पद्मं. — ^b गात्र-अवरं. — ^c Quelques-uns lisent वैणुकं. — ^d Aussi अन्दूकः. — ^e Ou शृणिः; fém.; il est aussi masculin, au dire de quelques-uns, mais d'autres considèrent les exemples de ce genre comme erronés. — ^f Également चूषा et दृष्या ou दृष्या. — ^g Aussi कक्षा.

- 1 प्रवेण्य^a आस्तरणं वर्णः परिस्तोमः^b कुथो^c [द्वयोः] ॥ १० ॥
 2 वीतं [त्त् असारं हस्त्यश्रं]
 3 वारी [तु] गजबन्धनी ।
 4 घोटके^d पीति^e-तुरग-तुरङ्गाश्च^f-तुरङ्गमाः ॥ ११ ॥
 5 वाजि-वाह्वर्ष^g-गन्धर्व-ह्य-सैन्धव-सप्तयः^h ।
 6 आजानेयाःⁱ कुलीनाः [स्युर]
 7 विनीताः साधुवाहिनः^j ॥ १२ ॥
 8 वानायुजाः^k पारशीकाः^l काम्बोजाः वाल्लिका^m [ह्याः] ।
 9 ययुर [अश्वो] ऽश्वमेधीयो
 10 जवनस्ⁿ [तु] जवाधिकः ॥ १३ ॥
 11 पृष्ठः स्तौरी^o
 12 [सितः] कर्को

(1) Harnais [housse en laine de couleur, qu'on met sur le dos de l'éléphant. — (2) [Éléphant ou cheval] impropre à être monté [impropre à la guerre, etc.]. — (3) Étable d'éléphants. — (4, 5) Cheval. — (6) Chevaux d'une bonne race. — (7) Chevaux dressés. — (8) Chevaux de certaines races des différentes contrées mentionnées [mais quelques-uns font les deux premiers termes synonymes, et aussi les deux derniers]. — (9) Cheval propre à être sacrifié dans un *as'wamedha*. — (10) Cheval léger, coursier. — (11) Cheval de somme. — (12) Cheval blanc.

^a प्रवेणो ou प्रवेणिः. — ^b Quelques-uns écrivent परिष्टोमः. — ^c Masc. et fém. aussi neut. — ^d Aussi घोटः. — ^e Ou पीतिन् [-ती]; aussi वीतिः. — ^f तुरङ्ग-अश्व. — ^g वाह-अर्वन्. — ^h Sing. सपिः. — ⁱ आजानेयः ou अजानेयः. — ^j Sing. साधुवाही. — ^k वानायुजः; cheval de Vanâyou; et वनायुजः; cheval de Vanâyou. — ^l पारशीकः; ou पारसीकः; cheval persan. — ^m वाल्लिकः; ou वाल्लिकः. — ⁿ Quelques-uns ajoutent यवनः; aussi प्रतविन् [-वी]. — ^o Aussi स्युरिन् et स्थौरिन्; selon quelques-uns, cela signifie fort.

- 1 रथ्यो [वोढा रथस्य यः] ।
 2 बालः किशोरो
 3 वाम्य्^a अश्वा वउवा
 4 वाउवं [गणे] ॥ २४ ॥
 5 [त्रिष्टु] आश्वीनं [यद् अश्वेन दिनेनैकेन गम्यते] ।
 6 कश्यं [तु मध्यम् अश्वानां]
 7 ह्येषा ह्येषा^b [च निस्वनः] ॥ १५ ॥
 8 निगालम् [तु] गलोद्देशो
 9 [वृन्दे त्व] अश्वीयम् आश्व-[-वत्] ।
 10 आस्कन्दितं धौरितिकं^c रेचितं वल्गितं प्लुतं ॥ १६ ॥
 11 [गतयो ऽमूः पञ्च] धारा
 12 घोणा [तु] प्रोधम् [अस्त्रियाम्] ।
 13 कविका^d [तु] खलीनो^e [ऽस्त्री]
 14 शफं [क्लीवे] खुरः^f [पुमान्] । १७ ।
 15 पुच्छो [ऽस्त्री] लूम-लाङ्गुले^g बालहस्तश् [च] बालधिः ।

(1) Cheval de char. — (2) Poulain. — (3) Jument. — (4) Haras. — (5) Chemin qu'un cheval peut faire en un jour. — (6) Flanc du cheval. — (7) Hennissement. — (8) Cou du cheval. — (9) Multitude de chevaux. — (10) Pas du cheval, savoir : le pas, le trot, l'amble [cantering, *Haughton's Dict.* — moving in the longe, some say sidling, *Colebrooke*], le galop, la voltige, dans l'ordre où ils sont énumérés. — (11) Les pas du cheval en général. — (12) Nez [ou extrémité du museau; ou bien un des termes signifie les naseaux, et l'autre le museau]. — (13) Mors de la bride. — (14) Sabot du cheval. — (15) Sa queue [suivant quelques-

^a वामो. — ^b Aussi ह्येषा. — ^c Aussi धौरितिकं (*Éd. Calc. — Wils. Dict.*) — ^d Et कविः ou कवो. — ^e Également खलिनः. — ^f Et खुरः. — ^g Aussi लाङ्गुलं.

- 1 [त्रिषू-]-पावृत्त^a-लुठितौ [परावृत्ते मुद्गू भुवि] ॥ १८ ॥
 2 [याने चक्रिणि युद्धार्थे] शताङ्गः स्यन्दनो रथः ।
 3 [असौ] पुष्यरथश्^b [चक्रयानं न समराय यत्] ॥ १९ ॥
 4 कर्णारिथः प्रवहणं^c ह्यनं^d [च समं त्रयं] ।
 5 [क्लीवे] ऽनः शकटो [ऽस्त्री स्याद्]
 6 गन्त्री^e [कम्बलिवाह्यकं] । २० ।
 7 शिविका याष्ययानं [स्याद्]
 8 दोला-प्रैखा-[-दिकाः^f स्त्रियां] ।
 9 [उभौ तु] द्वैप^g-वैयाघ्रौ [द्वीपिचर्मावृते रथे] ॥ २१ ॥
 10 [पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्दनः] पाण्डुकम्बली ।
 11 [रथे] काम्बल-वास्त्रा-[-द्याः^h कम्बलादिभिर् आवृते] ॥ २२ ॥
 12 [त्रिषु द्वैपादयो]
 13 रथ्या रथकया [रथव्रजे] ।

uns les deux derniers termes ne s'appliquent qu'à une queue bien fournie]. — (1) Un cheval se roulant. — (2) Chariot de guerre. — (3) Tout autre char [pour voyager, etc.] — (4) Char couvert [pour le transport des femmes; suivant quelques-uns : petit char couvert pour la promenade; ou plutôt, une litière portée à épaules d'hommes]. — (5) Chariot. — (6) Chariot traîné par des bœufs. — (7) Litière. — (8) Hamac ou escarpolette [soit pour le voyage, soit pour l'amusement]. — (9) Char couvert de peau de tigre; — (10) — d'étoffe de laine blanche; — (11) — de tapis ou de toile. — (13) Multitude de chars.

^a उपावृत्त. — ^b Aussi पुष्यरथः. — ^c Et प्रहरणं. — ^d Ou उयनं. — ^e Également गान्त्री. — ^f Outre d'autres termes comme खट्वा etc. — ^g द्वैप et les autres mots des deux lignes suivantes sont employés adjectivement; ex. : द्वैपः रथः. — ^h De même चर्मः couvert de cuir, क्षौमः d'étoffe de lin, दौकूलः d'étoffe de soie.

- 1 धूः^a [स्त्री क्लीबे] यानमुखं
 2 [स्याद्] रथाङ्गम् अपस्करः ॥ २३ ॥
 3 चक्रं रथाङ्गं
 4 [तस्यान्ते] नेमिः^b [स्त्री स्यात्] प्रधिः [पुमान्] ।
 5 पिण्डिका^c नाभिर्^d
 6 अक्षाग्रकीलके [तु द्वयोर्] अणिः^e ॥ २४ ॥
 7 रथगुप्तिर् वह्यो [ना]
 8 कूर्वरस् [तु] युगन्धरः ।
 9 अनुकर्षो^f [द्वार् अघः स्थं]
 10 प्रासङ्गे [ना युगाद् युगः] ॥ २५ ॥
 11 [सर्वं स्याद्] वाहनं^g यानं युग्यं पत्रं^h [च] धोरणंⁱ ।
 12 [परम्परावाहनं यत् तद्] वैनीतकम् [अस्त्रियां] ॥ २६ ॥
 13 आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः ।

(1) Partie antérieure d'une voiture [timon, ou partie où le joug est fixé]. — (2) Partie quelconque d'une voiture. — (3) Roue. — (4) Circonférence d'une roue. — (5) Moyeu [ou bien partie centrale du char lui-même]. — (6) Cheville de l'essieu [ou cheville à l'extrémité du timon]. — (7) Défense d'une voiture [pièce de bois qui l'entoure pour la mettre à l'abri de toute collision]. — (8) Timon [ou bois auquel le joug est fixé]. — (9) Fond d'une voiture. — (10) Joug séparé [pour dresser de jeunes bœufs, ou pour de semblables motifs]. — (11) Moyen de transport quelconque [cheval, éléphant, chariot, etc.] — (12) Moyen de transport médiat [comme le porteur d'une litière, ou un cheval traînant une voiture]. — (13) Conducteurs d'éléphants [quelques-uns restreignent les deux premiers

^a धूरू aussi धुरा. — ^b Et नेमो. — ^c Aussi पिण्डो et पिण्डः. — ^d Et नाभि. — ^e Aussi अणिः et अणी f. — ^f Aussi अनुकर्षन् [-र्षा]. — ^g Et वाहनं. — ^h Aussi पत्रं. — ⁱ धोरणं (Éd. Cal. — MSS. — Wils. Dict.) धारणं (Éd. Sér. lettre brisée?).

- 1 नियन्ता^a प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता [च] सारथिः ॥ २७ ॥
 2 सव्येष्ट^b -दक्षिणस्थौ [च संज्ञा रथकुटुम्बिनः] ।
 3 रथिनः^c स्यन्दनारोहाः
 4 अश्वारोहास् [तु] साधिनः^d ॥ २८ ॥
 5 भटा योधाश् [च] योद्धारः^e
 6 सेनारक्षास् [तु] सैनिकाः ।
 7 [सेनायां समवेता ये] सैन्यास् [ते] सैनिकाश् [च ते] ॥ २९ ॥
 8 [बलिनो ये सहस्रेण] साहस्रास् [ते] सहस्रिणः ।
 9 परिधिस्थः परिचरः
 10 सेनानीर् वाहिनीपतिः ॥ ३० ॥
 11 कञ्चुको वारवाणो^f [ऽस्त्री]
 12 [यत् तु मध्ये सक्ञ्चुकाः ।
 13 बध्नन्ति तत्] सारसनाधिकाङ्ग^g
 14 [अथ] शीर्षकं ॥ ३१ ॥
 15 शीर्षण्यं [च] शिरस्त्रे
 16 [ऽथ] तनुत्रं वर्म दंशनं^h ।

termes au cornac, et les deux derniers au guerrier qui monte l'éléphant]. — (1, 2) Cocher [quelques-uns par erreur font signifier aux deux derniers termes : chevaux du char attelés à droite et à gauche]. — (3) Guerriers en chars. — (4) Cavaliers. — (5) Guerriers en général. — (6) Gardes ou sentinelles. — (7) Troupes rangées en bataille. — (8) Soldats au nombre de mille. — (9) Garde ou soldat d'escorte [garde du corps]. — (10) Général. — (11) Armure, haubert. — (12, 13) Ceinturon sur la cotte de mailles. — (14, 15) Heaume. — (16, et p. 190, lig. 1.) Cotte

^a नियन्तृ. — ^b Et सव्येष्टः. — ^c Sing. रथो. — ^d Sing. साही. — ^e Sing. योद्धार [-द्ध]. — ^f Aussi वाणवारः. — ^g सारसन-अधिकाङ्ग. — ^h Ou दंशनं.

- 1 उरश्छदः कङ्कटको जगर्ः^a कवचो [ऽस्त्रियां] ॥ ३२ ॥
 2 आमृक्तः प्रतिभुक्तश् [च] पिनद्धश् [चा-]-पिनद्ध^b [-वत्] ।
 3 सन्नद्धो वर्मितः सन्नद्धो दंशितो व्यूढकङ्कटः^c ॥ ३३ ॥
 4 [त्रिधामृक्तादयो]^d
 5 [वर्मभृतां] कावचिकं [गणे] ।
 6 पदाति-पत्ति-पद्ग-पादातिक^e -पदाजयः^f ॥ ३४ ॥
 7 पद्गश् [च] पद्विकश् [चा-]
 8 [-थ] पादातं पत्तिसंहतिः ।
 9 शस्त्राजीवे^g काण्डस्पृष्टायुधीयायुधिकाः^h [समाः] ॥ ३५ ॥
 10 कृतहस्तः सुप्रयोगविशिवः कृतपुंख-[-वत्] ।
 11 अपराद्धपृषत्को [ऽसौ लक्ष्याद्यश्च्युतसायकः] ॥ ३६ ॥
 12 धन्वी धनुष्मान् धानुष्को निषंग्यⁱ अस्त्री^j धनुर्धरः ।
 13 [स्यात्] काण्डवांस [तु] काण्डीरः
 14 शाक्तीकः शक्तिहेतिकः ॥ ३७ ॥

de mailles. — (2) Habillé, accoutré. — (3) Armé ou revêtu d'une cotte de mailles. — (5) Multitude de soldats revêtus de cottes de mailles. — (6, 7) Fantassin. — (8) Infanterie. — (9) Soldat de profession. — (10) Habile archer. — (11) Maladroit, manquant le but. — (12) Archer. — (13) Homme combattant avec des flèches seulement. — (14) Guerrier armé d'une lance.

^a Et जगर्ः. — ^b अपिनद्ध. — ^c Ou suivant une autre leçon उढकंकटः. — ^d आमृक्तः et les suivants sont des trois genres. — ^e Aussi पादातः पादातिकः et पादाविकः. — ^f Sing. पदात्तिः. — ^g Ces mots et les suivants jusqu'au sl. 45 inclusivement peuvent être employés adjectivement. — ^h काण्डस्पृष्ट [ou काण्डपृष्ठः] आयुधीय-आयुधिक [Wils. Dict. — L'édition de Sérampour porte आयुधीय et आयुधिक]. — ⁱ निषङ्गे — ^j अस्त्रिन्.

- 1 याष्टीक-पारश्वधिकौ [यष्टिपरशुहेतिकौ] ।
 2 नैस्त्रिंशिको ऽसिहेतिः [स्यात्]
 3 [समौ] प्रासिक-कौन्तिकौ ॥ ३८ ॥
 4 चर्मी फलकपाणिः [स्यात्]
 5 पताकी वैजयन्तिकः ।
 6 अनुप्लवः सहायश् [चा-]-नुचरो ^a ऽभिसरः [समाः] ॥ ३९ ॥
 7 पुरोगाग्रेसर ^b -प्रष्टाग्रतःसर ^c -पुरःसराः ।
 8 पुरोगमः पुरोगामी
 9 मन्दगामी [तु] मन्थरः ॥ ४० ॥
 10 जङ्घालो ^d ऽतिजवः ^e
 11 [तुल्यौ] जङ्घाकरिक-जाङ्घिकौ ।
 12 तस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः ॥ ४१ ॥
 13 जय्यो [यः शक्यते जेतुं]
 14 जेयो [जेतव्यमात्रके]
 15 जैत्रस् [तु] जेता
 16 [यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति ॥ ४२ ॥

(1) Guerrier armé d'une masse d'armes ou d'une hache, respectivement; — (2) — d'une épée; — (3) — d'un javelot; — (4) — portant un bouclier. — (5) Porte-étendard. — (6) Compagnon, camarade. — (7, 8) Conducteur. — (9) Marchant lentement. — (10) Marchant vite. — (11, 12) Courrier, exprès. — (13) Capable de conquérir. — (14) Sujet à être conquis. — (15) Conquérant [ou selon une autre interprétation, qui résiste à l'ennemi avec succès.] — (16, et p. 192, lig. 1.) Homme qui fait

^a अनुचरः. — ^b पुरोग-अग्रेसर ou अग्रसर. — ^c प्रष्ट-अग्रतःसर. — ^d Ou जङ्घिलः.
 — ^e Et अतिबलः.

- 1 [सो] ऽभ्यमित्यो ऽभ्यमित्रियो [ऽप्य्] अभ्यमित्रिण [इत्यपि] ।
 2 ऊर्जस्वलः [स्याद्] ऊर्जस्वी [य ऊर्जातिशयान्वितः] ॥ ४३ ॥
 3 [स्याद्] उरस्वान् उरसिलो
 4 रथिको रथिरो^a रथी ।
 5 कामगाम्य्^b अनुकामीनो [च्छ्]
 6 अत्यन्तीनस् [तथा भृशं] ॥ ४४ ॥
 7 प्रूरो वीरश्^c [च] विक्रान्तो
 8 जेता जिह्नुश् [च] जित्वरः ।
 9 सांयुगीनो [रणे साधुः]
 10 [शस्त्राजीवाद्यस् त्रिषु^d] ॥ ४५ ॥
 11 ध्वजिनी बाहिनी^e सेना पृतनानीकिनी^f चमूः ।
 12 वनूथिनी बलं^g सैन्यं चक्रं [चा-]-नीकम्^h [अस्त्रियां] ॥ ४६ ॥
 13 व्यूहस् [तु] बलविन्यासो

face à l'ennemi avec vigueur]. — (2) Fort, puissant. — (3) Qui a la poitrine large [fort, selon quelques-uns.] — (4) Propriétaire d'un char [ou homme qui monte dans un char]. — (5) Homme qui marche comme il veut [selon quelques-uns, le second mot signifie : agissant comme il veut]. — (6) Homme qui se meut beaucoup. — (7). Héros. — (8) Victorieux, habitué à conquérir. — (9) Habile à la guerre. — (11, 12) Armée, forces [quelques-uns distinguent les quatre derniers termes des sept précédents, comme signifiant un corps d'armée; d'autres comme signifiant soit un corps, soit une armée en général]. — (13) Ordre ou disposition de troupes.

^a Quelques-uns lisent रथिनः mais d'autres condamnent cette variante. — ^b Aussi कामंगामी. — ^c Ou वीरः. — ^d Les précédents à partir de शस्त्राजीव du sloka 35 prennent les trois genres. — ^e Quelques-uns écrivent बाहिनी et ajoutent बाहना. — ^f पृतना [aussi पृतना] अनौकिनी. — ^g Ou बलं. — ^h अनौकं.

1 [भेदा दण्डादयो युधि] ।

2 प्रत्यासारो^a व्यूहपत्तिः

3 [सैन्यपृष्ठे] प्रतिग्रहः^b ॥ ४७ ॥

4 [एकेभैकरथा^c व्यश्वा] पत्तिः [पञ्चपदातिका] ।

5 [पत्त्यङ्गैस् त्रिगुणैः सर्वैः क्रमाद् आख्या यद्योत्तरं] ॥ ४८ ॥

6 सेनामुखं गुल्म-गणौ वाहिनी पृतना चमूः ।

7 अनीकिनी

8 [दशानीकिन्य्] अक्षौहिण्य्^d

9 [अथ] सम्पदि^e ॥ ४९ ॥

10 सम्पत्तिः श्रीश् [च] लक्ष्मीश् [च]

11 विपत्यां^f विपद्-आपदौ^g ।

(1) Dispositions de troupes de plusieurs sortes [comme : *dand'a* en ligne, *bhoga* en colonne, *mand'ala* en cercle, *asanhata* en ordre séparé (renfermant une demi-lune, etc.) Ces dispositions admettent des distinctions secondaires énumérées dans les traités sur la guerre.] — (2) Arrière-garde. — (3) Réserve [corps séparé posté, avec le général, à quatre cents verges en arrière de la ligne]. — (4) Peloton [comprenant un éléphant, un char, trois cavaliers et cinq fantassins]. — (5-7) Corps plus considérables [croissant dans une proportion géométrique; trois *pattis* font un *sédmoukha*, trois de ces corps un *goulma*, etc.; de sorte que le septième, l'*anikini*, consiste en 2,187 éléphants, autant de chars, trois fois autant de cavaliers, et cinq fois autant de fantassins; faisant en tout 21,870, tant éléphants que chars, que cavaliers et que fantassins]. — (8) Armée complète [ou dix fois la dernière, ou 109,350 fantassins, 65,610 cavaliers, 21,870 chars, 21,870 éléphants]. — (9, 10) Succès ou prospérité [accroissement de richesses, etc.] — (11) Adversité.

^a Ou प्रत्यासरः. — ^b Et परिग्रहः ou पतद्ग्रहः. — ^c एकेभा एकरथा, — ^d अक्षौहिणी.

^e सम्पद् et सम्पदा. — ^f विपत्तिः. — ^g Aussi विपदा et आपदा.

- 1 आयुधं [तु] प्रहरणं शस्त्रम् अस्त्रं
 2 [अथास्त्रियौ] ॥ ५० ॥
 3 धनुश्^a-चापौ धन्व^b-शरासन-कोदण्ड-कार्मुकं ।
 4 इष्टासो [ऽप्य्]
 5 [अथ कर्णस्य] कालपृष्ठं [शरासनं] ॥ ५१ ॥
 6 [कपिध्वजस्य] गाण्डीव-गाण्डिवौ [पुन्नपुंसकौ] ।
 7 [कोटिर् अस्या-]-टनी^c
 8 गोधा-तले^d [ज्याघातवारणे] ॥ ५२ ॥
 9 लस्तकस् [तु] धनुर्मध्यं
 10 मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ।
 11 [स्यात्] प्रत्यालीढम् आलीढम् [श्यादि स्थानपञ्चकं] ॥ ५३ ॥
 12 लक्ष्यं लक्षं शर्व्यं [च]^e
 13 शराभ्यास उपासनं ।
 14 पृषत्क-वाण-विशिखा अजिह्मग-खगाशुगाः^f ॥ ५४ ॥

(1) Arme [quelques-uns restreignent le dernier terme à une arme lancée, et le terme précédent à une arme qu'on garde à la main]. — (2-4) Arc. — (5) Arc de *Karn'a*. — (6) Arc d'*Ardjouna*. — (7) Extrémité entaillée d'un arc. — (8) Garde en cuir pour le bras. — (9) Milieu de l'arc. — (10) Corde d'arc. — (11) Deux attitudes en décochant : 1° *pratyālidh'a*, le pied gauche étant en avant, et le droit en arrière; 2° *ālidh'a*, le genou droit en avant, et la jambe gauche en arrière. [Il y en a trois autres : 1° *samapada*, les deux pieds étant rapprochés; 2° *vis'ākha*, un pied étant écarté d'un empan; 3° *mand'ala*, les deux genoux étant courbés.] — (12) But, marque. — (13) Art de tirer de l'arc. — (14, et p. 195, lig. 1.) Flèche.

^a Masc. धनुस् ou धनु et धनू, également fém. धनु etc. — ^b धन्वन् et धन्वं; aussi masc. धन्वा. — ^c अटनी et अटनिः. — ^d तला ou तलं. — ^e Également सर्व्यं. — ^f खग-आशुग.

- 1 कलम्ब^a-मार्गण-शरः^b पत्री रोप इषुर् [द्वयोः] ।
 2 प्रक्ष्वेउनास्^c [तु] नाराचाः
 3 पत्तो वाजः
 4 [त्रिषूत्तरे^d] ॥ ५५ ॥
 5 निरस्तः [प्रहिते वाणे]
 6 [विषाक्ते] द्विध-लिप्रकौ ।
 7 तूणोपासङ्ग^e-तूणीर- निषङ्गा इषुधिर् [द्वयोः] ॥ ५६ ॥
 8 तूण्यां^f
 9 खड्गे [तु] निस्त्रिंश-चन्द्रहासासि^g-रिष्टयः^h ।
 10 कौक्षेयको मण्डलाग्रः करपालःⁱ कृपाण-[-वत्] ॥ ५७ ॥
 11 सरुः^j [खड्गादिमुष्टौ स्यान्]
 12 मेखला [तन्निबन्धनं] ।
 13 फलको [स्त्री] फलं^k चर्म^l
 14 संग्रहो [मुष्टिर् अस्य यः] ॥ ५८ ॥
 15 द्रुघणे^m मुद्गर-घनौ

(2) Flèches de fer. — (3) Plume d'une flèche. (5) Décoché comme une flèche. — (6) Flèche empoisonnée. — (7, 8) Carquois. — (9, 10) Cimenterre. — (11) Garde ou poignée. — (12) Nœud d'épée [courroie ou chaîne qui passe de la garde sur le poignet pour assurer l'épée; suivant quelques-uns, la garde de la poignée]. — (13) Bouclier. — (14) Poignée du bouclier. — (15) Maillet [arme ayant la forme du marteau d'un charpentier].

^a Aussi कलम्ब. — ^b शरः; ou सरुः. — ^c Sing. प्रक्ष्वेउनः, aussi प्रक्ष्वेउना et प्रक्ष्वेदना, f. — ^d Les mots suivants prennent les trois genres. — ^e तूणा [aussi तूणा f.] -उपासङ्ग [également अपासङ्ग]. — ^f तूणी. — ^g चन्द्रहास-असि. — ^h रिष्टिः; ou ऋष्टिः. ⁱ Aussi करबालः. — ^j Quelques-uns ajoutent सरुः. — ^k Ou फर्. — ^l Aussi चर्म. — ^m Aussi द्रुघनः.

- 1 [स्याद्] ईली^a करपालिका^b ।
 2 भिन्दिपालः सृगस् [तुल्यौ]
 3 परिधः परिघातनः ॥ ५८ ॥
 4 [द्वयोः] कुठारः स्वधितिः परशुश्^c [च] परश्वधः^d ।
 5 [स्यात्] शस्त्री [चा-]-सिपुत्री^e [च] कुरिका [चा-]
 -सिधेनुका^f । ६० ।
 6 [वा पुंसि] शल्यं शङ्कुर [ना]
 7 सर्वला^g तोमरो [ऽस्त्रियां] ।
 8 प्रासस्^h [तु] कुन्तः
 9 कोणस् [तु स्त्रियः] पाल्यञ्चिⁱ-कोटयः^j । ६१ ।
 10 सर्वाभिसारः सर्वैधः सर्वसन्नहना-[-र्थकः] ।
 11 लोहाभिहारो^k [ऽस्त्रभृतां रासां नीराजनाविधिः] ॥ ६२ ॥
 12 [यत् सेनयाभिगमनम् अत्रौ तद्] अभिषेणनं ।

(1) Gourdin [suivant quelques-uns c'est une épée courte; suivant d'autres, un bâton ayant la forme d'une épée]. — (2) Flèche courte [qu'on jette avec la main, ou, comme d'autres l'expliquent, qu'on lance par un tube]. — (3) Massue [ou bien bâton garni de fer, ayant la forme d'un pilon]. — (4) Hache. — (5) Couteau. — (6) Javeline. — (7) Levier de fer. — (8) Dard barbelé. — (9) Côté affilé d'une épée [selon quelques-uns, la pointe]. — (10) Réunion d'une armée complète. — (11) Purification des armes [cérémonie religieuse qui a lieu le 19 du mois *ds'wina*, avant l'ouverture de la campagne]. — (12) Marche pour repousser un ennemi.

^a Également हली et हलिः. — ^b Aussi करवालिका. — ^c Aussi पर्शुः. — ^d Également परश्वधः et पश्वधः. — ^e असिपुत्री. — ^f असिधेनुका. — ^g Ou शर्वला. — ^h Et प्रासः. — ⁱ पाली [ou पालिः]-ञ्चि [ou चञ्चि]. — ^j कोटिः ou कोटो. — ^k Quelques-uns écrivent लोहाभिसारः.

- 1 यात्रा ब्रज्याभिनिर्द्याणं^a प्रस्थानं गमनं गमः ॥ ६३ ॥
 2 [स्याद्] आसारः प्रसरणं^b
 3 प्रचक्रं चलिता-[-र्थकं] ।
 4 [अहितान् प्रत्यभीतस्य रणे यानम्] अतिक्रमः^c ॥ ६४ ॥
 5 वैतालिका बोधकराश्च
 6 चाक्रिका घाण्टिका^d-[-र्थकाः] ।
 7 [स्युर] मागधास् [तु] मगधा^e
 8 वन्दिनः^f स्तुतिपाठकाः ॥ ६५ ॥
 9 संशप्तकास् [तु] समयात् संग्रामाद् अनिवर्तिनः] ।
 10 रेणुर [द्वयोः स्त्रियां] धूलिः^g पांशुर^h [ना न द्वयो] रजःⁱ ॥ ६६ ॥
 11 चूर्णे क्षोदः
 12 समुत्पिञ्ज-पिञ्जलौ [भृशमाकुले] ।

(1) Marche d'un assaillant [ou marche en général]. — (2) Action d'entourer un ennemi. — (3) Armée en mouvement [ou fourrageant, selon quelques-uns]. — (4) Action d'attaquer avec courage. — (5) Moniteurs [hommes dont le devoir est d'éveiller le prince, à l'aurore, avec de la musique ou des chansons]. — (6) Choristes [bardes qui chantent en chœur, ou qui sonnent des cloches devant les idoles]. — (7) Bardes de naissance [qui récitent les louanges des rois en leur présence; quelques-uns font cet article et le suivant synonymes]. — (8) Panégyristes [qui suivent une armée en marche et chantent les actions glorieuses]. — (9) Soldats d'élite [qui ont juré de ne pas reculer, et dont le devoir est de rappeler les fuyards]. — (10) Poussière. — (11) Poudre [formée par la pulvérisation; quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (12) Armée

^a ब्रज्या, अभिनिर्द्याणं. — ^b Aussi प्रसरणी, प्रसरणिः et प्रसारणी. f. — ^c Ou अभिक्रमः car on trouve les deux leçons. — ^d Sing. घाण्टिकः; aussi घाण्टिकः. — ^e Sing. मगधाः; aussi मधुकः. — ^f Sing. वन्दी. — ^g Ou धूलिः; aussi धूलिः m. — ^h Et पांसुः. —

ⁱ रजस् n. aussi रज [-जः] m.

- 1 पताका वैजयन्ती [स्यात्] केतनं ध्वजम् [अस्त्रियां] ॥ ६७ ॥
 2 [सा] वीरशंसनं [युद्धभूमिर् यातिभयप्रदा] ।
 3 [अहं पूर्वम् अहं पूर्वम् इत्य्] अहंपूर्विका [स्त्रियां] ॥ ६८ ॥
 4 आहोपुरुषिका [दृषीद् या स्यात् संभावनात्मनि] ॥ ६९ ॥
 5 अहमहमिका [तु सा स्यात् परस्परं यो भवत्यहंकारः] ।
 6 द्रविणं तरः सहो ^a-बल-शौर्याणि स्याम शुष्मं ^b [च] ॥ ७० ॥
 7 शक्तिः पराक्रम-प्राणौ
 8 विक्रमस् [त्] अतिशक्तिता ।
 9 वीरपाणं ^c [तु यत् पानं वृत्ते भाविनि वा णे] ॥ ७१ ॥
 10 युद्धम् आयोधनं जन्यं प्रथनं प्रविद्वारणं ।
 11 मृधम् आस्कन्दनं संख्यं समीकं ^d साम्प्रायिकं ^e ॥ ७२ ॥
 12 [अस्त्रियां] समरानीक ^f-रणाः कलह-विग्रहौ ।
 13 सम्प्रहारभिसम्पात ^g-कलि-संस्फोट ^h-संयुगाः ॥ ७३ ॥
 14 अभ्यामर्ह-समाघात-संग्रामाभ्यागमाह्वः ⁱ ।
 15 समुदायः [स्त्रियः] संयत्-समित्-आजि-समिद्-युधः ^j ॥ ७४ ॥

en grand désordre. — (1) Bannière, étendard [quelques-uns donnent aux deux derniers termes, d'autres aux quatre, la signification de bâton du drapeau]. — (2) Poste dangereux. — (3) Attaque à l'envi [action de courir en avant avec émulation]. — (4) Vanterie. — (5) Prétention à la supériorité. — (6, 7) Force ou puissance. — (8) Grande puissance [ou valeur héroïque]. — (9) Boisson des guerriers [prise pendant le combat pour se rafraîchir, ou auparavant dans le but de se donner du cœur]. (10-15) — Guerre, bataille, combat.

^a सहम् n. aussi सह [-हः] m. — ^b शुष्मं (Éd. Calc. — Wils. Dict. — MSS.) aussi शुष्मन्; शुष्मं (Ed. Sér.) — ^c Quelques-uns admettent वीरपानं. — ^d Aussi प्रमीकं. — ^e Ou सम्प्रायिकं. — ^f समर-अनीक. — ^g सम्प्रहार-अभिसम्पात. — ^h Également. — ⁱ संग्राम-अभ्यागम-आह्व. — ^j Sing. युत्.

1 नियुद्धं वाङ्मुद्ये

2 [सथ] तुमुलं^a रणासंकुले ।

5 ध्वेडा [तु] सिंहनादः [स्यात्]

4 [करिणां] घटना घटा ॥ ७५ ॥

5 क्रन्दनं योधसंरावो

6 वृंहितं कगिर्जितं ।

7 विस्फारो^b [धनुषः स्वानः]

8 पटहाउम्बरौ^c [समौ] ॥ ७६ ॥

9 प्रसभं^d [तु] बलात्कारो हृष्टो

10 [सथ] स्वलितं छलं ।

11 अजन्यं [क्लीवम्] उत्पात उपसर्गः [समं त्रयं] ॥ ७७ ॥

12 मूर्च्छा [तु] कश्मलं^e मोहो [सप्य]

13 अवमर्दस् [तु] पीडनं ।

14 अभ्यवस्कन्दनं [त्व] अभ्यासादनं

15 विजयो जयः ॥ ७८ ॥

(1) Rixe, batterie. — (2) Mêlée. — (3) Cri de guerre. — (4) Troupe d'éléphants réunis en bataille. — (5) Défi mutuel des combattants se provoquant au combat. — (6) Rugissement des éléphants. — (7) Rentissement d'un arc. — (8) Tambour employé dans le combat. — (9) Violence. — (10) Fraude, supercherie, stratagème. — (11) Prodige [comme un tremblement de terre, etc.] — (12) Pamoison, défaillance. — (13) Dévastation. — (14) Action de frapper l'ennemi de manière à le mettre hors de combat [selon d'autres, action de faire face à l'ennemi]. — (15) Victoire.

^a Et तुमुलं, aussi तुसुरं. — ^b Et विष्फारः. — ^c पटह-आउम्बर. — ^d Ou कस्मलं.

— ^e प्रसभः (Éd. Calc. — MS. Beng.)

- 1 वैरशुद्धिः प्रतीकारो वैरनिर्यातनं [च सा] ।
 2 प्रद्रावोद्द्राव^a-सन्द्राव-सन्द्रावा विद्रवो द्रवः ॥ ७६ ॥
 3 अपक्रमोऽपयानं [च]
 4 [रणे भङ्गः] पराजयः ।
 5 पराजित-पराभूतौ [त्रिषु]
 6 नष्ट-तिरोहितौ ॥ ८० ॥
 7 प्रमापणं^b निवर्हणं^c निकारणं निशारणं^d ।
 8 प्रवासनं परासनं निषूदनं^e निहंसनं ॥ ८१ ॥
 9 निर्वासनं संज्ञपनं निर्यन्थनम्^f अपासनं ।
 10 निस्तर्हणं निहननं क्षणनं परिवर्जनं ॥ ८२ ॥
 11 निर्वापणं विशसनं मारणं प्रतिघातनं ।
 12 उद्वासन-प्रमथन-क्रथनोद्भासनानि^g [च] ॥ ८३ ॥
 13 आलम्भ-पिञ्ज-विशर-घातोन्मन्थ^h-बधा [अपि] ।
 14 [स्यात्] पञ्चताⁱ कालधर्मो द्विष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः ॥ ८४ ॥
 15 अन्तो नाशो [द्वयोर] मृत्युर^j मरणं निधनो [स्त्रियां] ।
 16 परासु-प्राप्तपञ्चत्व-परेत-प्रेत-संस्थिताः ॥ ८५ ॥

(1) Vengeance [action de rendre le mal pour le mal]. — (2, 3) Fuite, retraite [quelques-uns interprètent les six premiers termes par *fuite*, et les deux autres par *retraite*]. — (4) Défaite. — (5) Défait, vaincu. — (6) Manquant, perdu, qui a disparu. (7-13) Carnage. — (14, 15) Mort, trépas. — (16, et p. 201, lig. 1.) Trépassé, ayant expiré.

^a प्रद्राव-उद्द्राव. — ^b Quelques-uns ajoutent प्रमापनं. — ^c Ou निवर्हणं. — ^d Et विप्रारणं. — ^e Aussi निषूदनं (Éd. Calc. — MSS.) — ^f Quelques-uns lisent निर्गन्थनं. — ^g क्रथन-उद्भासन. — ^h घात-उन्मन्थ. — ⁱ Également पञ्चत्वं. — ^j Aussi मृत्यु n. également मृतं et मृतिः f.

- 1 मृत-प्रमीतौ [त्रिष्टेते]
 2 चिता चित्या चितिः [स्त्रियां] ।
 3 कबन्धो [ऽस्त्री क्रियायुक्तम् अपमूर्द्धकलेवरं] ॥ ८६ ॥
 4 श्मशानं [स्यात्] पितृवनं^a
 5 कुणपः शवम् [अस्त्रियां] ।
 6 प्रग्रहोपग्रहौ^b बन्धां^c
 7 कारा [स्याद्] बन्धनालये ॥ ८७ ॥
 8 [पुंसि भूम्य्] असवः^d प्राणाश् [चैवं]
 9 जीवो^e ऽसुधारणं ।
 10 आयुर्^f जीवितकालो [ना]
 11 जीवातुर् जीवनौषधं ॥ ८८ ॥

(2) Bûcher funéraire [ou place préparée pour brûler un corps]. — (3) * Tronc sans tête doué de vie. — (4) Cimetière [ou place où les corps sont brûlés]. — (5) Corps mort. — (6) Prisonnier [ou tout être, homme ou bête, enfermé]. — (7) Prison, geôle. — (8) Haleine [inspiration et respiration de cinq sortes, collectivement. Voyez livre I, chapitre 1, sl. 59.] — (9) Vie. — (10) Age, durée de la vie. — (11) Drogue qui peut faire revivre un mort.

* Aussi पितृकाननं, पितृवसतिः, etc. — ^b प्रग्रह-उपग्रह. — ^c वन्दिः ou वन्दी. — ^d Sing. असुः. — ^e Aussi जीवा f. et जीवनं n. — ^f आयुस् n. ou आयु [-युः] m.

CHAPITRE IX.

TROISIÈME CLASSE, PROFESSIONS, LABOUREUR, CHAMP,
GRAINS, USTENSILES, NOURRITURE, BESTIAUX,
COMMERCE, POIDS ET MESURES.

- 1 ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या भूमिस्पृशो^a विशः^b ।
- 2 आज्जीवो जीविका वार्ता वृत्तिर् वतन-जीवने ॥ १ ॥
- 3 [स्त्रियां] कृषिः पाशुपाल्यं वाणिज्यं^c [चेति वृत्तयः] ।
- 4 सेवा श्रवृत्तिर्
- 5 अनृतं^d कृषिर्
- 6 उञ्छशिलं^e [त्] ऋतं ॥ २ ॥
- 7 [द्वे याचितायाचितयोर् यथासंख्यं] मृतामृते^f ।
- 8 सत्यानृतं वाणिग्भावः
- 9 [स्याद्] ऋणं पर्युद्वचनं ॥ ३ ॥
- 10 उद्धारो
- 11 ऽर्थप्रयोगस् [तु] कुसीदं^g वृद्धिजीविका ।

(1) Hommes de la troisième classe [de la classe des marchands et des laboureurs]. — (2) Métier, profession. — (3) Diverses professions énumérées successivement : l'agriculture, l'éducation des bestiaux et le commerce. — (4) Service, domesticité. — (5) Agriculture. — (6) Glanage. — (7) Aumônes sollicitées ou non sollicitées, énoncées successivement. — (8) Trafic, commerce. — (9, 10) Dette. — (11) Profession d'usurier.

^a Sing. भूमिस्पृक्. — ^b Sing. विट्. — ^c Et वाणिज्या f. — ^d Quelques-uns lisent प्रसृतं. — ^e Aussi उञ्छशिलं, également उञ्छः ou उञ्छं l'action de recueillir les grains, et शिलं l'action de glaner des épis. — ^f मृत-अमृत. — ^g Et कुशीदं ou कुशीदं.

- 1 [याञ्जाप्राप्तं] याचितकं
- 2 [नियमाद्^a] आपमित्यकं ॥ ४ ॥
- 3 उत्तमर्णाधमर्णौ^b [द्वौ प्रयोक्तृग्राहकौ क्रमात्] ।
- 4 कुसीदिको वार्द्धुषिको वृद्धाजीवश् [च] वार्द्धुषिः ॥ ५ ॥
- 5 क्षेत्राजीवः कर्षकश्^c [च] कृषिकश् [च] कृषीबलः ।
- 6 [क्षेत्रं] त्रैह्य-शालेयं [त्रीहिशाल्युद्भवोचितं] ॥ ६ ॥
- 7 यव्यं यवक्यं षष्टिक्यं [यवादिभवनं हि यत्] ।
- 8 तिल्यं^d तैलीन-[-वन् माषोमाणुभङ्गाद् द्विरूपता^e] ॥ ७ ॥
- 9 मौद्गीनं कौट्रवीणा-[-दि^f शेषधान्योद्भवोचितं] ।
- 10 वीजाकृतं [तू-]-प्रकृष्टं^g
- 11 सीत्यं^h कृष्टं [च] हृत्य-[-वत्] ॥ ८ ॥

(1) Chose empruntée pour l'usage [commodatum]. — (2) Chose obtenue par échange. — (3) Créancier et débiteur nommés l'un après l'autre. — (4) Usurier. — (5) Laboureur. — (5) [Champs] propres à la culture du blé et du riz [mentionnés successivement]. — (7) [Champ] produisant de l'orge et du riz croissant rapidement; — (8) — produisant du sésame; — (9) [Champs] propres à la culture des fèves [*phaseolus max* et *ph. mungo*] et du *paspalum frumentaceum* [mentionnés l'un après l'autre]. — (10) Terre labourée après l'ensemencement. — (11) Terre labourée.

^a नियमाद् (Éd. Sér. — Éd. Calc.) नियमाद् (MSS.) — ^b यत्नमर्णा-अधमर्णा. Ces mots et les suivants jusqu'à la stance 10 prennent les trois genres. — ^c Ou कार्षकः. — ^d तिल्यं (Éd. Calc.—Wils. Dict.—MSS.) तिलं (Éd. Sér.) — ^e De même माष्यं, माषीणं [champ] produisant de la fève noire (*phaseolus radiatus*), उम्यं, औमोनें produisant du lin, अणव्यं, अणवोनें produisant du panic, भंग्यं, भांगोनें produisant du chauvre. — ^f De même कौलत्थीनं convenable pour le *dolichos biflorus*; चाणकीनं convenable pour les pois chiches. — ^g उपकृष्टं. — ^h Ou शीत्यं.

- 1 त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं त्रिहृल्यं त्रिसीत्यम् [अपि तस्मिन्] ।
 2 द्विगुणाकृते ^a [तु सर्वं पूर्वं] सम्बाकृतम् ^b [अपीह] ॥ ९ ॥
 3 [द्रोणाढकादिवापाद्यौ] द्रौणिकढकिका-[-द्वयः ^c] ।
 4 [खारीवापस् तु] खारीक
 5 [उत्तमर्णाद्वयस् त्रिषु ^d] ॥ १० ॥
 6 [पुन्नपुंसकयोर्] वप्रः कैदारः क्षेत्रम्
 7 [अस्य तु] ।
 8 कैदारकं [स्यात्] कैदार्यं क्षेत्रं कैदारिकं ^e [गणे] ॥ ११ ॥
 9 लोष्ठानि लेष्टवः ^f [पुंसि]
 10 कोटिशो ^g लोष्ठभेदनः ^h ।
 11 प्राजनं ⁱ तोदनं तोत्रं ^j
 12 खनित्रम् अवदारणं ॥ १२ ॥
 13 दात्रं लवित्रम्
 14 आबन्धो योत्रं योक्तम्

(1) Terre labourée trois fois; — (2) — deux fois; — (3, 4) — ensemencée avec certaines mesures de graine appelées *dron'a*, *adh'aka* et *khâri* [ou pouvant les recevoir]. — (6) Champ. — (7, 8) Multitude de champs. — (9) Mottes de terre. — (10) Herse. — (11) Aiguillon. — (12) Bêche, houe. — (13) Faucille. — (14) Lien du joug [avec lequel le bœuf est attelé à la charrue, ou par le moyen duquel le joug est attaché].

^a Aussi द्वितीयाकृतं, द्विहृल्यं, द्विसीत्यं. — ^b Aussi प्रंबाकृतं. — ^c Ainsi द्रौणिकः contenant un *dron'a*, आढकिकः, आढकीनः contenant un *adh'aka*. De même प्रास्थिकः contenant un *prastha* et कौडविकः contenant un *koud'ava*. — Mais खारीकः contenant une *khâri*. — ^d Les mots précédents depuis la stance 5 prennent les trois genres. — ^e Aussi कैदारं. — ^f Sing. लोष्टं et लेष्टुः. — ^g Ou कोटेशः. — ^h Également लोष्टवः et लेष्टवः. — ⁱ Et प्रवयणं. — ^j Ou तोत्रं.

- 1 [अथो] फलं^a ।
 2 निरोषं^b कूटकं
 3 फालः कृषिको^c
 4 लाङ्गलं हलं^d ॥ १३ ॥
 5 गोदारणं [च] सीरो^e
 6 [ऽथ] शम्या [स्त्री] युगकीलकः ।
 7 ईषा^f लाङ्गलदण्डः [स्यात्]
 8 सीता^g लाङ्गलपद्धतिः ॥ १४ ॥
 9 [पुंसि] मेधिः [खले दारु न्यस्तं यत् पशुबन्धने] ।
 10 आशु ब्रीहिः^h पाटलःⁱ [स्यात्]
 11 सितशूक^j-यवौ [समौ] ॥ १५ ॥
 12 तोक्मस् [तु तत्र हरिते]
 13 कलायस् [तु] सतीलकः^k ।
 14 ह्येणु-खण्डिकौ [चास्मिन्]

(1, 2) Corps de la charrue [le bois à l'exclusion du timon et du soc]. —
 (3) Soc de la charrue [quelques-uns font l'article précédent synonyme de
 celui-ci]. — (4, 5) Charrue. — (6) Cheville du joug. — (7) Timon
 de la charrue. — (8) Sillon. — (9) Poteau de l'aire à battre le grain
 [autour duquel les bestiaux tournent pour fouler le grain]. — (10) Riz
 mûrissant dans la saison des pluies. — (11) Orge. — (12) Orge vert
 ou non mûr. — (14, 15) Pois [quelques écrivains distinguent les trois
 premiers termes comme noms de trois espèces de légumes].

* Quelques-uns lisent हलं et le font explicatif. — ^b Ou निरोषं. — ^c Ou कृषकः,
 aussi कृषिका f. — ^d Et हलः m. — ^e Ou शीरोः. — ^f Également ईशा. — ^g Et शीता.
 — ^h Quelques-uns lisent d'un seul mot आशुब्रीहिः. — ⁱ Aussi पाटलिः. — ^j Et शित-
 शूकः. — ^k Ou सतीलः; aussi सीतीनकः ou सतीनकः et सातीनकः.

- 1 कौरदूषस् [तु] कोद्वः^a ॥ १६ ॥
 2 मङ्गल्यको मसूरो^b
 3 [सथ] मकुष्टक^c - मपुष्टकौ^d ।
 4 वनमुद्गे
 5 सर्षपे^e [तु द्वौ] तन्तुभ^f - कदम्बकौ^g ॥ १७ ॥
 6 सिद्धार्थस् [त् एष धवलो]
 7 गोधूमः सुमनः^h [समौ] ।
 8 [स्याद्] यावकस् [तु] कुल्माषश्ⁱ
 9 चणको हरिमन्थकः^j ॥ १८ ॥
 10 [द्वौ तिले] तिलपेजश् [च] तिलपिञ्जश् [च निष्फले] ।
 11 क्षवः क्षुधाभिजननो^k राजिका कृत्तिकासुरी^l ॥ १९ ॥

(1) Sorte de grain, *paspalum frumentaceum*, Kœn. ou *P. kora*, Willd. — (2) Lentille, *ervum lens* ou *cicer lens*. — (3, 4) Espèce de haricot, *phaseolus lobatus*. — (5) Espèce de moutarde, *sinapis dichotoma*, Roxb. — (6) Espèce blanche, *sinapis glauca*, Roxb. — (7) Froment. — (8) Orge à moitié mûr [les interprétations diffèrent beaucoup, selon les uns il s'agit ici de l'orge sans balle, selon d'autres, d'une espèce de riz (*forced rice*) vulg. *bor*, selon d'autres encore, de diverses espèces de haricot, *râdjamácha*, ou de dolichos, *koulattha*.] — (9) Pois chiche, *cicer arietinum*. [Quelques-uns font à tort cet article synonyme du précédent, d'autres du *tchînaka* ou *panicum pilosum*, Roxb.] — (10) Sésame stérile [ne portant pas de fleurs, ou dont les graines ne contiennent pas d'huile]. — (11) Moutarde noire, *sinapis ramosa*, Roxb.

^a Et कुद्वः. — ^b Ou मसूरः aussi मसूरा, मसूरा fém. — ^c Et मुकुष्टकः ou मुदुष्टकः aussi मकुष्टकः. — ^d Et मपुष्टकः ou मपुष्टकः; également मयुष्टकः. — ^e Ou सर्षपः. — ^f Et तन्तुकः. — ^g Aussi कदुस्नेहः. — ^h Aussi सुमनस् [-नाः]. — ⁱ Ou कुल्मासः. — ^j Et हरिमन्थनः. — ^k Ou क्षुधाभिजननः. — ^l कृष्णिका, आसुरी ou असुरी.

1 [स्त्रियौ] कङ्कु^a -प्रियङ्गु^b [द्वे]

2 अतसी [स्याद्] उमा क्षुमा ।

3 मातुलानी [तु] भङ्गायां

4 व्रीहिभेदस् [त्] अणुः [पुमान्] ॥ २० ॥

5 किंशारुः शस्यशूकं [स्यात्]

6 कण्णिशं^c शस्यमञ्जरी ।

7 धान्यं व्रीहिः स्तम्बकारिः

8 स्तम्बो गुच्छस्^d [तृणादिनः] ॥ २१ ॥

9 नाडी नालं^e [च] काण्डो [ऽस्य]

10 पलालो [ऽस्त्री स निष्फलः] ।

11 कडङ्गरो वुसं^f [क्लीवे]

12 [धान्यत्वचि पुमांस] तुषः^g ॥ २२ ॥

13 शूको [ऽस्त्री श्लक्ष्णतीक्ष्णाय]

14 शमी सिम्बा^h

15 [त्रिषूत्तरे]ⁱ ।

(1) Espèce de panic, *panicum italicum*. — (2) Lin et graine de lin, *linum usitatissimum* [quelques-uns confondent cette plante avec le *san'a* ou *crotalaria juncea*]. — (3) Chanvre, *cannabis sativa* [il y a d'autres interprétations, et quelques-uns confondent cette plante avec le lin, d'autres avec la crotalaire]. — (4) *Tchîna*, *panicum pilosum*, Roxb. [d'autres interprétations sont aussi données]. — (5) Barbe du blé. — (6) Épi. — (7) Blé ou riz. — (8) Masse d'herbes, etc. — (9) Tige ou chaume. — (10) Paille. — (11) Fétu. — (12) Balle du riz ou du blé. — (13) Cosse. — (14) Légume ou cosse.

^a Ou कङ्कुः. — ^b Sing. प्रियङ्गुः. — ^c Et कण्णिशं. — ^d Ou गुत्सः. — ^e Aussi नाली et नाडं. — ^f Ou वुषं. — ^g Ou तुसः. — ^h Aussi शिम्बा et शिम्बिः. — ⁱ Les mots suivants prennent les trois genres.

- 1 ऋद्धम् आवसितं^a [धान्यं]
 2 पूतं [तु] वहुलीकृतं ॥ २३ ॥
 3 [माषादयः] शमीधान्ये
 4 शूकधान्ये [यवादयः] ।
 5 शालयः^b [कलमाद्याश्च षष्टिकाद्याश्च पुंस्यमी^c] ॥ २४ ॥
 6 तृणधान्यानि^d नीवारः
 7 [स्त्री] गवेडु^e गवेधुका ।
 8 अयोग्रं मुसलो^f [स्त्री स्याद्]
 9 उटूखलम् उलूखलं ॥ २५ ॥
 10 प्रस्फोटनं शूर्पम्^g [अस्त्री]
 11 चालनी^h तितउः [पुमान्] ।
 12 स्यूतⁱ-प्रसेवौ
 13 काण्डोल-पिटौ^j

(1) Amassé comme du grain [après qu'on l'a nettoyé, d'autres disent auparavant]. — (2) Grain battu et vanné. — (3) Graine en cosse [comme pois et autres légumes]. — (5) Grain barbu [comme orge, blé, etc.]. — (5) Riz [de deux classes, savoir : le riz blanc, etc. croissant dans l'eau, et le riz rouge, etc. demandant seulement un sol humide]. — (6) Grains sauvages [croissant naturellement ou exigeant peu de culture, comme le *nívára*, ou riz sauvage; outre d'autres comme le *s'yámáka*, *panicum frumentaceum*, Roxb.]. — (7) *Coix barbata*, Roxb. — (8) Pilon pour nettoyer le riz. — (9) Mortier. — (10) Van. — (11) Crible. — (12) Sac. — (13) Grenier construit en bambous [selon quelques-uns, corbeille à mettre le grain].

^a Aussi ऋवसितं. — ^b Sing. प्रालिः. — ^c Les noms d'espèces de graines et de légumes ci-dessus mentionnés sont masculins. — ^d Sing. तृणधान्यं. — ^e Et गवेधुः ou गवेधुका. — ^f Également मुषलः. — ^g Ou शूर्प. — ^h Aussi चालनं neut. — ⁱ Également स्यूतः et स्यूनः ou स्योनः. — ^j Aussi पिटकः et पेटकः.

कट-किलिञ्जकौ ॥ २६ ॥

[समानौ]

रसवत्यां [तु] पाकस्थान-महानसे ।

पौरोगवस् [तदध्यक्षः]

सूपकारास् [तु] वल्लवाः ॥ २७ ॥

आरालिका आन्धसिकाः सूदा औदनिका गुणाः ।

आपूपिकः कान्दविको भक्ष्यकार^a [इमे त्रिषु^b] ॥ २८ ॥

अश्मन्तम्^c उद्धानम्^d अधिअयणी चुल्लि^e अन्तिका^f ।

अङ्गारधानिकाङ्गारशकट्य^g [अपि] हसन्त्य^h [अपि] ॥ २९ ॥

हसन्त्यⁱ [अप्य]

[अथ न स्त्री स्याद्] अङ्गारोऽलातम् उल्मुकं ।

[क्लीवे] ऽम्बरीषं^j भ्राष्ट्रो [ना]

कन्दुर^k [वा] स्वेदनी [स्त्रियां] ॥ ३० ॥

(1, 2) Natte [ou écran fait avec de l'herbe, ou tresse de paille]. — (3) Cuisine. — (4) Inspecteur de la cuisine. — (5, 6) Cuisiniers [quelques-uns restreignent les deux premiers termes à la signification d'*homme qui prépare des sauces*, etc.] — (7) Boulanger. — (8) Fourneau, endroit à mettre du feu. — (9, 10) Fourneau portatif. — (11) Tison [brûlant ou éteint; suivant quelques-uns, le premier terme signifie *charbon*, et les deux derniers, *bois à moitié brûlé*]. — (12) Poêle à frire. — (13) Plat de fer ou poëlon [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes].

^a Ou भक्ष्यकारः. — ^b Les mots précédents, depuis पौरोगवः, peuvent être employés adjectivement. — ^c Et अश्मन्तं. — ^d Et उद्धानं ou उद्धारं. — ^e Aussi चुल्ली.

— ^f Ou अन्तिका. — ^g अङ्गारधानिका, अङ्गारशकटो. — ^h हसन्ती. — ⁱ हसनी. —

^j Et अम्बरीषं. — ^k कन्दुरः (Éd. Calc. — Wils. Dict. — MSS.) कन्दूः (Éd. Sér.)

- 1 अलिञ्जरः^a [स्यान्] मणिकं
 2 कर्कर्यु^b आलुरु^c गलन्तिका ।
 3 पिठरः^d स्याल्यु^e उवा^f कुण्डं^g
 4 कलशसु^h [तु त्रिषु द्वयोः] ॥ ३१ ॥
 5 घटः कुट-निपाव्
 6 [अस्त्री] शरावोⁱ वर्द्धमानकः ।
 7 ऋजीषं^j पिष्टपचनं
 8 कंसो^k [ऽस्त्री] पानभाजनं ॥ ३२ ॥
 9 कुतूः [कृत्तेः स्नेहपात्रं]
 10 [सैवाल्या] कुतुपः [पुमान्] ।
 11 [सर्वम्] आवपनं^l भाण्डं पात्रामत्रे^m [च] भाजनं ॥ ३३ ॥
 12 द्वर्विः कम्बिःⁿ खजाका^o [च स्यात्]
 13 तदूरु^p दारुहस्तकः ।
 14 [अस्त्री] शाकं हरितकं शिशु^p

(1) Jarre. — (2) Cruche. — (3) Pot. — (4, 5) Pot à eau. — (6) Cou-
 vercle. — (7) Pot à cuire, marmite. — (8) Gobelet [tasse en métal pour
 boire]. — (9) Outre, bouteille de cuir pour l'huile. — (10) Petite outre,
 bouteille. — (11) Vase quelconque. — (12) Cuiller. — (13) Cuiller de
 bois. — (14) Herbe potagère.

^a Ou अलिञ्जरः. — ^b कर्करो. — ^c Et अलुरु; ou आहः. — ^d Aussi पिठरो. — ^e स्याली
 et neut. स्यालं. — ^f Et उवा. — ^g Ou कुण्डो fem. — ^h Ou कलसः. — ⁱ Et
 सरावः. — ^j Aussi ऋजीषं. — ^k Ou कंसः; aussi कांस्यं. — ^l Quelques-uns placent
 ce mot dans l'explication. — ^m पात्र-अमत्र. — ⁿ Aussi द्वर्वो et कम्बो. — ^o Égale-
 ment खजः m. — ^p Ou शिशुः.

- 1 [अस्य तु नाडिका] ॥ ३४ ॥
 2 कडुम्बश् [च] कलम्बश् [च]
 3 वेसवार^a उपस्करः ।
 4 तिनित्तीकं [च] चुक्रं [च] वृक्षाक्षम्
 5 [अथ] वेल्जं ॥ ३५ ॥
 6 मरिचं^b कोलकं कृत्तम् ऊषणं^c धर्मपत्तनं ।
 7 जीरको जरणोऽजाजी कणा
 8 [कृत्ते तु जीरके] ॥ ३७ ॥
 9 सुषवी^d कारवी पृथ्वी पृथुः कालोपकुञ्चिका^e ।
 10 आर्द्रकं शृङ्गेरं [स्याद्]
 11 [अथ] हत्रा वितुन्नकं ॥ ३७ ॥
 12 कुस्तुम्बुर^f [च] धन्याकम्^g
 13 [अथ] शुण्ठी^h महौषधंⁱ ।
 14 [स्त्रीनपुंसकयोर] विश्वं नागरं विश्वभेषजं ॥ ३८ ॥
 15 आरनालक-सौवीर-कुल्माषाभिषुतानि^j [च] ।

(1, 2) Tige d'herbe potagère. — (3) Condiment. — (4) Assaisonnement acide. — (5, 6) Poivre. — (7) Cumin. — (8, 9) *Kalondji* (vulg.) *Nigella indica*, Roxb. — (10) Gingembre. — (11, 12) Coriandre. — (13, 14) Gingembre sec. — (15, et pag. 212, lig. 1.) Gruau aigre.

^a Aussi वेप्रवारः ou वेषवारः. — ^b Ou मरिचं. — ^c Et ऊषणं. — ^d Aussi सुषवी et सुसवी. — ^e काला, उपकुञ्चिका. — ^f Également तुम्बुर et fém. कुस्तुम्बुरी et तुम्बुरी. — ^g Aussi धान्यकं, धनिकं, धनीयकं, धनेयकं, धान्यं et धन्या fém. — ^h Ou शुपिठः. — ⁱ Aussi fém. महौषधी. — ^j कुल्माष- [n. ou कुल्मासः, कुल्माषः m. et कुल्माषाभिषुतं n.] -अभिषुत.

- 1 अवन्तिसोम-धान्यास्र-^a कुञ्जालानि [च] काञ्चिके^b ॥ ३८ ॥
 2 सहस्रवेधि जतुकं वाह्नीकं^c ह्दिगु रमठं^d ।
 3 तस्यत्री^e कार्वी पृथ्वी वाष्पिका^f क्वरी^g पृथुः ॥ ४० ॥
 4 निशाद्वा^h काञ्चनी पीता हरिद्रा वस्वर्णिनी ।
 5 सामुद्रं [यत् तु] लवणम् अक्षीवंⁱ वसिरं^j [च तत्] ॥ ४१ ॥
 6 सैन्धवो [ऽस्त्री] सितशिवं^k माणिमन्थं^l [च] सिन्धुजे ।
 7 रौमके^m वसुकं
 8 पाक्यं विउं [च] कृतके [द्वयं] ॥ ४२ ॥
 9 सौवर्चले ऽक्ष-रुचके
 10 तिलकं [तत्र मेचके] ।
 11 मत्स्यण्डी फाणितं [खण्डविकारौ]

(2) *Assa foetida*. — (3) *Hingoupatrí*. — (4) *Curcuma*. — (5) *Sel marin*, (6) *Sel de roche*. — (7) Autre espèce [la même que le sel *sámbar*, nommé *raumaka*, selon quelques-uns, d'une montagne de sel appelée *roumá*, ou selon d'autres, d'une rivière ou d'un lac du même nom]. — (8) *Sel factice* [obtenu en faisant bouillir l'argile trouvée sur le bord de la mer ou toute autre terre imprégnée de sel; selon quelques-uns les deux premiers termes sont les noms d'espèces de sel différentes, mais également factices.] — (9) *Sel sochal*, blanc. — (10) Le même, noir. [Il paraît être le même que le sel noir ou *vit'alanava*, sel factice contenant du soufre]. — (11) *Sucre brut* [le premier terme signifie *sucre granulé*, et le second *jus de la canne*

^a धान्यास्र (Édit. Calc.—Wils. Dict.—MSS.) — धन्यास्र (Édit. Sér.) — ^b Aussi काञ्चिकं et काञ्चोके et fém. काञ्चिका. — ^c Ou वाह्नीकं. — ^d Et रमठं. — ^e C'est-à-dire ह्दिगुपत्रो; mais quelques-uns lisent त्वक्पत्रो. — ^f Ou वाष्पिका. — ^g Aussi क्वरी. — ^h Ou निशा et d'autres termes signifiant nuit. — ⁱ Ou अक्षीवं. — ^j Aussi वसिरं. — ^k Et सितसिवं, प्रीतशिवं ou प्रीतसिवं et श्रितशिवं. — ^l Aussi माणिमन्थं. — ^m Aussi रौमं.

- 1 शर्करा सिता ॥ ४३ ॥
- 2 कूर्चिका ^a क्षीरविकृतिः [स्याद्]
- 3 रसाला [तु] मार्जिता ।
- 4 [स्यात्] तेमनं [तु] निष्ठानं
- 5 [त्रिलिङ्गा वासितावधेः] ^b ॥ ४४ ॥
- 6 शूलाकृतं भट्टित्रं [स्यात्] शूल्यं
- 7 ऊख्यं [तु] पैठरं ।
- 8 प्रणीतम् उपसम्पन्नं
- 9 प्रयस्तं [स्यात्] सुसंस्कृतं ॥ ४५ ॥
- 10 [स्यात्] पिच्छिलं [तु] विजिलं ^c
- 11 संमृष्टं शोधितं [समे] ।
- 12 चिकूणां मसृणां स्निग्धं
- 13 [तुल्ये] भावित-वासिते ॥ ४६ ॥
- 14 आपन्नं पौलिर् अभ्यूषो ^d

à sucre épais; quelques-uns mettent le troisième terme au nombre des termes énoncés, et font trois synonymes de sirop]. — (1) Sucre raffiné [sucre terré, d'autres disent candi]. — (2) Lait épais. — (3) Caillé mêlé avec du sucre et des épices. — (4) Sauce ou condiment. — (6) Rôti sur une broche, *adj.* — (7) Bouilli dans un chaudron. — (8) Apprêté. — (9) Assaisonné. — (10) Sauce mêlée avec du gruau de riz [ou bien toute sauce ou condiment avec du jus, autrement encore légumes coupés et trempés dans l'eau]. — (11) Coulé, passé. — (12) Doux, tendre. — (13) Parfumé. — (14) Nourriture à moitié préparée [pour être mangée avec la main;

^a Et कूर्चिका. — ^b Les mots suivants, jusqu'à la strophe 46 inclusivement, prennent les trois genres. — ^c Aussi विन्नं et विन्नं ou विन्नयिनं. — ^d Aussi अभ्यूषः et अभ्यूषः.

- 1 लाजाः^a [पुंभूमि चा-]-क्षतं^b ।
 2 पृथुकः [स्याच्] चिपिटको^c
 3 धाना [भृष्टयवे स्त्रियां] ॥ ४७ ॥
 4 पूपोऽपूपः पिष्टकः [स्यात्]
 5 कर्मभो^d दधिसक्तवः^e ।
 6 भिस्सा^f [स्त्री] भक्तम् अन्योऽन्नम् ओदनो [स्त्री स] दीदिविः ॥ ४८ ॥
 7 भिस्सटा^g दग्धिका
 8 [सर्वरसाग्रे] मण्डम् [अस्त्रियां]
 9 मासराचाम-^hनिस्रावाⁱ [मण्डे भक्तसमुद्भवे] ॥ ४९ ॥
 10 यवागूर उष्णिका आणा विलेपी तरला [च सा] ।
 11 गव्यं [त्रिषु गवां सर्वं]
 12 गोविड् गोमयम् [अस्त्रियां] ॥ ५० ॥
 13 [तत् तु शुष्कं] करीषो [स्त्री]
 14 द्रुथं क्षीरं पयः [समं] ।

selon quelques-uns c'est du pain, selon d'autres c'est de l'orge vert frit]. — (1) Grain frit. — (2) Riz ou grain aplati. — (3) Riz ou orge frit. — (4) Gâteau; — (5) — mêlé avec du lait caillé. — (6) Riz bouilli. — (7) Le même grillé. — (8) Écume. — (9) Écume du riz bouilli. — (10) Gruau de riz. — (11) Qui appartient à une vache, *adj.* — (12) Bouse de vache. — (13) Bouse sèche. — (14) Lait.

^a Ou fém. लाजा. — ^b अक्षतं ou selon une autre leçon अक्षता; masc. pl. Cela signifie, selon quelques-uns, riz entier. — ^c Et चिपिटः ou चिपुटः; également चिपिटः etc. — ^d Aussi कर्मभः. — ^e Pl. de दधिसक्तु. — ^f Un commentateur écrit भिष्सा. — ^g Et भिस्सिता ou भिष्मिता, भिष्मिता, भिष्मिका. — ^h मासर-आचाम. — ⁱ Également विस्रावः.

- 1 पयस्यम् [आज्यदध्यादि]
 2 त्रप्स्यं^a [दधि घनेतस्त्]^b ॥ ५१ ॥
 3 घृतम् आज्यं हविः सर्पिर्
 4 नवनीतं नवोद्धृतं ।
 5 [तत् तु] ह्यैयङ्ग्वीनं [यत् ह्योगोदोहोद्भवं घृतं] ॥ ५२ ॥
 6 दण्डाहृतं कालशेयम्^c अरिष्टम् [अपि] गोसः ।
 7 तक्रं [ह्य्] उदश्चिन् मथितं [पादाम्बु अर्द्धाम्बु निर्जलं] ॥ ५३ ॥
 8 [मण्डं दधिभवं] मस्तु
 9 पीयूषो^d [ऽभिनवं पयः] ।
 10 अशनाया बुभुक्षा क्षुद्^e
 11 ग्रासस् [तु] क्वला-[-र्थकः] ॥ ५४ ॥
 12 सपीतिः [स्त्री] तुल्यपानं
 13 सग्धिः [स्त्री] सहभोजनं ।

(1) Préparé avec du lait [comme le beurre, le caillé, etc.]. — (2) Caillé clair ou délayé. — (3) Beurre clarifié. — (4) Beurre frais. — (5) Beurre du lait de la veille [selon quelques-uns, beurre du lait nouveau]. — (6) Babeurre. — (7) Babeurre avec un quart d'eau (*takra*), avec moitié d'eau (*oudaswit*), sans eau (*mathita*). — (8) Petit-lait du caillé. — (9) Lait d'une vache qui a récemment mis bas [pendant les sept premiers jours]. — (10) Faim. — (11) Bouchée. — (12) Action de boire ensemble. — (13) Action de manger ensemble.

^a Aussi द्रप्स्यं et द्रप्सं; quelques-uns lisent सर्पिर् et interprètent cela par *caillé flottant*. — ^b तक्रं दधि घृतेतस्त् (*Éd. Calc.*); l'autre leçon est confirmée par les MSS. — ^c Ou कालशेयं. — ^d Aussi पीयूषः, -वं et पीयूषं. Selon quelques-uns ce dernier mot signifie : lait après le septième jour qui a suivi le vêlement. — ^e Aussi क्षुधा.

- 1 उदन्या [तु] पिपासा तृ^a तर्षी
 2 जग्धिस् [तु] भोजनं ॥ ५५ ॥
 3 जेमनं^b लेप^c आहारो निघसो^d न्याद [इत्यपि] ।
 4 सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः
 5 फेला^e भुक्तसमुज्जितं ॥ ५६ ॥
 6 कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं^f यथेप्सितं ।
 7 गोपे गोपाल-गोसंख्य-गोधुग्^g-अभीर^h-वल्लवाः ॥ ५७ ॥
 8 [गोमहिष्यादिकं] पाद्वन्धनंⁱ
 9 [द्वौ] गवीश्वरे ।
 10 गोमान् गोमी
 11 गोकुलं [तु] गोधनं^j [स्याद्] गवां व्रजः ॥ ५८ ॥
 12 [त्रिष्ट्व] आशितंगवीनं^k [तद् गावो यत्राशिताः पुर] ।
 13 उक्षाभद्रो बलीवर्द^l ऋषभो वृषभो वृषः ॥ ५९ ॥
 14 अनड्वान्^m सौरभेयो गौर

(1) Soif. — (2, 3) Nourriture. — (4) Satiété. — (5) Bribes, restes [ce qu'on a laissé après le repas, ou, suivant une autre interprétation, ce qui est tombé de la bouche]. — (6) Volontairement. — (7) Pâtre. — (8) Race de bestiaux. — (9, 10) Propriétaire de vaches. — (11) Troupeau. — (12) Récemment brouté par des bestiaux, *adj.* — (13, 14) Bœuf ou taureau.

^a Ou तृषा, aussi तृष्णा. — ^b Ou जमनं. — ^c Aussi लेहः (*Éd. Calc.*). — ^d Également विघसः. — ^e Et फेलिः; aussi masc. फेलकः. — ^f निकामं इष्टं. — ^g Aussi गोदुहः. — ^h Ou अभीरः. — ⁱ Ou, suivant une autre leçon, याद्वं. — ^j Quelques-uns ajoutent धनं comme synonyme. — ^k आशितंगवीनः, ou अशितंगवीनः; aussi उपितंगवीनः où les bestiaux ont séjourné. — ^l Et वरोवर्दः ou वलीवर्दः. — ^m Fém. अनड्वही et अनड्वही.

- 1 [उक्ष्णां संहृतिर्] औक्ष्णकं ।
 2 गव्या गोत्रा [गवां]
 3 [वत्सधेन्वोर्] वात्सक-धैनुके ॥ ६० ॥
 4 [वृषो महान्] महोक्षः [स्याद्]
 5 वृद्धोक्षस् [तु] जर्हवः ।
 6 [उत्पन्न उक्षा] जातोक्षः
 7 [सद्योजातस् तु] तर्णिकः ॥ ६१ ॥
 8 शकृत्कारिस्^a [तु] वत्सः [स्याद्]
 9 दम्य-वत्सतरौ [समौ] ।
 10 आर्षभ्यः [षण्डतायोग्यः]
 11 षण्डो^b गोपतिर् इट्चरः^c ॥ ६२ ॥
 12 [स्कन्धप्रदेशस् तु] बहूः
 13 साम्ना [तु] गलकम्बलः ।
 14 [स्यान्] नस्तितस् [तु] नस्योतः
 15 प्रष्टवाङ् युगपार्श्वगः^d ॥ ६३ ॥
 16 [युगादीनां च वोढारो] युग्य-प्रासंग्य-शाकटाः ।

(1) Troupeau de bœufs; — (2) — de vaches; — (3) — de veaux et de vaches laitières [respectivement]. — (4) Taureau ou bœuf de haute stature. — (5) Vieux taureau. — (6) Jeune taureau. — (7) Veau nouveau-né. — (8) Veau. — (9) Bouvillon; — (10) — propre à être mis en liberté. — (11) Taureau en liberté. — (12) Épaules d'un taureau; — (13) — son fanon. — (14) Bœuf ayant une bride dans le nez. — (15) Jeune animal que l'on dresse. — (16) Bœuf attelé au joug, bœuf que l'on dresse en lui mettant au cou un travail, bœuf dressé pour le trait [énumérés successivement].

^a Ou सकृत्कारिः. — ^b Et शण्डः ou शण्डः. — ^c Aussi इट्चरः. — ^d Ou युगपार्श्वकः.

- 1 [खनति तेन तद्वोढास्येदं] हलिक-सैरिकौ ॥ ६४ ॥
 2 धुर्वहे^a धुर्य-धौरेय-धुरीणाः [स-]-धुरंधराः ।
 3 [उभाव्] एकधुरीणैकधुराव्^b एकधुरावहे ॥ ६५ ॥
 4 [स तु] सर्वधुरीणः [स्याद् यो वै] सर्वधुरावहः ।
 5 माहेयी सौरभेयी गौरू उम्ना माता [च] शृङ्गिणी ॥ ६६ ॥
 6 अर्जुन्य् अघ्या^c रोहिणी [स्याद्]
 7 [उत्तमा गोषु] नैचिकी^d ॥ ६७ ॥
 8 [वर्णादिभेदात् संज्ञाः स्युः] शवली-धवला-^e [-द्वयः]^f ।
 9 द्विहायनी द्विवर्षा [गौरू]
 10 एकाब्दा [त्] एकहायनी ॥ ६८ ॥
 11 चतुरब्दा चतुर्हायण्य्^g
 12 [एवं] त्र्यब्दा त्रिहायणी ।
 15 वशा बन्ध्या-
 14 -वतोका^h [तु] स्रवद्गर्भा

(1) Laboureur, animal propre à être mis à la charrue [la troisième acception des deux mots est : appartenant à une charrue]. — (2) Bête de somme; — (3) — pour des fardeaux particuliers. — (4) Bête pour toute espèce de voiture. — (5, 6) Vache. — (7) Vache excellente. — (8) Vache tachetée, blanche etc. — (9) Génisse de deux ans; — (10) — d'un an; — (11) — de quatre ans; — (12) — de trois ans. — (13) Vache stérile. — (14) Vache avortant par accident.

^a Ou धूर्धरः. — ^b एकधुरीणा-एकधुर. — ^c अघ्या (Éd. Sér. — MS. Beng.) — अघ्या (Éd. Calc. — Wils. Dict.). — ^d Aussi नौचिकी ou नौचिका et निचिकी. — ^e Également शवला et धवली. — ^f Aussi कृष्णा noire, कपिला brune, ou distinguée par d'autres circonstances, comme हृष्णा et वामनी de petite taille, लम्बकर्णौ à longues oreilles, वक्रशृङ्गौ à cornes recourbées, etc. — ^g चतुर्हायणी. — ^h स्रवतोका et वतोका.

- 1 [-थ] सन्धिनी ॥ ६६ ॥
- 2 [आक्रान्ता वृषभेणा-]
- 3 [-थ] वेहृद् गर्भोपघातिनी ।
- 4 काल्योपसर्या ^a [प्रजने]
- 5 प्रष्टौही बालगर्भिणी ॥ ७० ॥
- 6 [स्याद्] अचण्डी [तु] सुकरा
- 7 वहुसूतिः परेष्टुका ।
- 8 चिरसूता वष्कयणी ^b
- 9 धेनुः [स्यान्] नवसूतिका ॥ ७१ ॥
- 10 सुत्रता सुखसंदोह्या ^c
- 11 पीनोध्री पीवस्तनी ।
- 12 द्रोणक्षीरा द्रोणदुवा
- 13 धेनुष्या [बन्धके स्थिता] ॥ ७२ ॥
- 14 समांसमीना [सा यैव प्रतिवर्षं प्रसूयते] ।
- 15 ऊधस् ^d [तु क्लीवम्] आपीनं

(1, 2) Vache qui a été au taureau [selon quelques-uns, vache ayant un veau]. — (3) Vache qui avorte pour avoir été au taureau en temps non convenable. — (4) Vache propre au taureau. — (5) Génisse pleine [ou vache ayant un veau pour la première fois]. — (6) Vache d'un naturel doux. — (7, 8) Vache produisant beaucoup de veaux; — (9) — ayant récemment vélé; — (10) — facile à traire; — (11) — ayant un pis très-fort; — (12) — produisant un *drona* de lait; — (13) — restant à la laiterie [selon quelques-uns, vache mise en gage]; — (14) — donnant un veau tous les ans. — (15) Pis d'une vache.

^a काल्या, उपसर्या. — ^b Également वस्कयनी et वष्कयिणी ou अषकयणी; aussi वष्कयणी etc. — ^c Et सुखसंदोह्या. — ^d Aussi ऊधः et ओधः.

- 1 [समौ] शिवक्-कीलकौ ॥ ७३ ॥
- 2 [नपुंसि] दाम^a सन्दानं
- 3 पशुरङ्गुस् [तु] दामनी^b ।
- 4 वैशाख-मन्य-मन्यान-मन्यानो मन्यदण्डके ॥ ७४ ॥
- 5 कुठरो^c दण्डविष्कम्भे
- 6 मन्यनी गर्गी [समे] ।
- 7 उष्ट्र क्रमेलक-मय-महाङ्गाः
- 8 करभः शिशुः ॥ ७५ ॥
- 9 [करभाः स्युः] शृङ्खलका [दारवैः पादबन्धनैः] ।
- 10 अजा ह्यगी
- 11 स्तुभ^d-ह्यग^e-वस्त-ह्यगलका^f अजे ॥ ७६ ॥
- 12 मेढ्रैश्चोरणोर्णायु-मेष^g-वृष्णय^h एउकाः ।
- 13 [उष्ट्रैश्चोराजवृन्दे स्याद्] औष्ट्रकौरभकाजकंⁱ ॥ ७७ ॥

(1) Pilier contre lequel les vaches se frottent [ou, suivant d'autres, servant à attacher les vaches et les veaux]. — (2) Corde à laquelle les vaches sont attachées, ou qui sert à leur attacher les jambes de derrière pendant qu'on les traite. — (3) Cordon, attache pour lier les jambes des bestiaux, ou pour attacher les bestiaux eux-mêmes. — (4) Batte à beurre. — (5) Poteau autour duquel s'entortille la corde de la batte [ou bien : couvercle de la baratte, pratiqué pour soutenir la batte]. — (6) Baratte. — (7) Chameau. — (8) Jeune chameau [ou tout autre jeune animal]. — (9) Jeunes chameaux entravés, ayant des anneaux de fer aux pieds. — (10) Chèvre. — (11) Bouc. — (12) Bélier. — (13) Troupeaux de chameaux,

^a Fém. दामन् [-मा] ou दामा [-मा]. — ^b Également सामनी et बन्धनी. — ^c Aussi कठरः. — ^d Aussi तुभः et स्तभः ou शुभः. — ^e Et ह्यगः. — ^f Aussi ह्यगलः et ह्यगलः. — ^g मेढ्र- [ou मेढ्र] उष्ट्र-उष्ट्र-उष्ट्रायु. — ^h Sing. वृष्णिः. — ⁱ औष्ट्रक-औष्ट्रक-

- 1 चक्रीवन्तस् [तु] बालेया रसभा^a गर्दभाः खराः ।
 2 वैदेहकः^b सार्थवाहो नैगमो वाणिजो^c वणिक् ॥ ७८ ॥
 3 पण्याजीवो [ह्य] आपणिकः क्रयविक्रायिकश् [च सः] ।
 4 विक्रेता [स्याद्] विक्रायिकः
 5 क्रायक-क्रायिकौ [समौ] ॥ ७९ ॥
 6 वाणिज्यं^d [तु] वणिज्या [स्यान्]
 7 मूल्यं वसो [ऽप्य्] अवक्रयः ।
 8 नीवी^e परिपणं मूलधनं
 9 लाभो [ऽधिकं] फलं ॥ ८० ॥
 10 परिदानं^f परीवर्तो^g नैमेय-निमयाव्^h [अपि] ।
 11 [पुमान्] उपनिधिर् न्यासः
 12 प्रतिदानंⁱ [तद्वर्षणं] ॥ ८१ ॥
 13 [क्रये प्रसारितं] क्रय्यं
 14 क्रयं क्रेतव्य-[-मात्रके] ।
 15 विक्रेयं पणितव्यं [च] पण्यं [क्रय्याद्यस् त्रिषु]^j ॥ ८२ ॥

de moutons et de chèvres [respectivement].— (1) Anes.— (2, 3) Marchand.
 — (4) Vendeur. — (5) Acheteur. — (6) Commerce. — (7) Prix. — (8) Ca-
 pital, principal. — (9) Gain, profit. — (10) Échange. — (11) Dépôt.—
 (12) Remise d'un dépôt. — (13) Mis en vente, *adj.* — (14) Achetable. —
 (15) Qui est à vendre.

आजक. — ^a Aussi राशमः. — ^b Ou वैदेहः. — ^c Et वणिजः ou वाणिजिकः; aussi
 बाणिजः. — ^d Ou वणिज्यं. — ^e Et नीविः. — ^f Quelques-uns lisent प्रतिदानं.
 — ^g Et परिवर्तः. — ^h Également वैमेयः, विमयः et विनिमयः. — ⁱ Quelques-uns
 lisent परिदानं. — ^j Les mots précédents, à compter de क्रय्य, prennent les trois genres.

- 1 [क्लीवे] सत्यापनं^a सत्यङ्कारः सत्याकृतिः [स्त्रियां] ।
 2 विपणो विक्रयः
 3 [संख्याः संख्येये ष्वाद्दश^b त्रिषु ॥ ८३ ॥
 4 विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः ।
 5 संख्यार्थे द्विवक्तृत्वे स्तः तासु चानवतेः स्त्रियः ॥ ८४ ॥
 6 पंक्तेः शतसहस्रादि क्रमाद् दशगुणोत्तरं] ।
 7 यौतवं^c द्रुवयं पाय्यम् [इति] माना-[-र्थकं त्रयं] ॥ ८५ ॥
 8 [मानं] तुलाङ्गुलि^d-प्रस्थैर्
 9 [गुञ्जाः पञ्चा-]-द्यमाषकः^e ।
 10 [ते षोडशा-]-क्षः^f कर्षो [स्त्री]
 11 पलं [कर्षचतुष्टयं] ॥ ८६ ॥
 12 सुवर्ण-विस्तौ [हेम्नोऽक्षे]
 13 कुरुविस्तस् [तु तस्यले] ।
 14 तुला [स्त्रियां पलशतं]

(1) Ratification d'un marché. — (2) Contrat de vente. — (3) [Les noms de nombre de 1 à 18 s'accordent en genre avec le sujet nombré]. — (4, 5) [Les autres, (19) 20 etc., sont du singulier, mais peuvent être du duel ou du pluriel s'ils sont employés d'une manière distributive, comme, par exemple, *vins'atí* 20. Les noms de nombre de 20 à 90 sont invariablement féminins.] — (6) [La numération procède dans une proportion décuple.] — (7) Mesure; — (8) — de trois sortes [de poids, de longueur et de capacité]. — (9) *Mácha* égal à 5 *rettis* ou semences de l'*abrus precatorius*. — (10) *Karcha*, 16 *máchas*. — (11) *Pala*, 4 *karchas*. — (12) *Karcha* d'or. — (13) *Pala* d'or. — (14) *Toulá*, 100 *palas*.

^a Aussi fém. सत्यापना. — ^b षष्टादश (MS. *dév.*) — ^c Ou यौतवं. — ^d तुला-अङ्गुलि.
 — ^e त्रायमाषक, aussi माषः ou मासः. — ^f अक्षः.

- 1 भारः^a [स्याद् विंशतिस्तुलाः] ॥ ८७ ॥
 2 आचितं [दशभारः स्युः]
 3 [शाकटो भार] आचितः ।
 4 कार्षापणः^b कार्षिकः [स्यात्]
 5 [कार्षिके ताम्रिके] पणः ॥ ८८ ॥
 6 [अस्त्रियाम्] आढक^c-द्रोणौ खारि^d वाहो निकुञ्चकः ।
 7 कुडवः^e प्रस्य [इत्याद्याः परिमाणार्थकाः पृथक्] ॥ ८९ ॥
 8 पादस् [तुरीयो भागः स्याद्]
 9 अंश^f-भागौ [तु] वण्टकः ।
 10 द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थम् ऋक्थं धनं वसु ॥ ९० ॥
 11 हिरण्यं द्रविणं युम्नम् अर्थ-रै-विभवा [अपि] ।
 12 [स्यात्] कोशश्^g [च] हिरण्यं [च हेमरूप्ये कृताकृते] ॥ ९१ ॥

(1) *Bhâra*, 20 *touls*. — (2) *Atchita*, 10 *bhâras*. — (3) Charge d'une voiture. — (4) *Kârcha* d'argent [le même que le *pourâna*, équivalant à 16 *panas* de cauris]. — (5) *Pana* de cuivre [valant 80 *cauris*]. — (6, 7) * Diverses mesures de capacité énumérées l'une après l'autre, savoir : le *nikountchaka*, qui est le quart du *koud'ava* ; le *koud'ava*, qui contient environ 12 doubles poignées ; le *prastha*, qui se compose de 4 *koud'avas* ; l'*âdh'aka*, de 4 *prasthas* ; le *dron'a*, de 4 *âdh'akas* ; la *khârî*, de 16 *dron'as*, et qui répond à 3 boisseaux anglais ; le *vâha*, qui se compose de 10 *koumbhas*, le *koumbha* répondant à 20 *dron'as*. — (8) Quart. — (9) Part, portion. — (10, 11) Substance, chose ou richesse. — (12) Or, etc., travaillé ou non travaillé [quelques-uns séparent les termes, et expliquent ainsi : *kôcha*, or travaillé ; *hiranya*, argent non travaillé].

^a Ou भरः. — ^b Quelques-uns ajoutent कार्षापणाकः. — ^c Aussi आढकी et आढकिका fém. — ^d Également खारिः et masc. खारः. — ^e Et कुडवः ou कुटवः. — ^f Ou अंसः. — ^g Et कोषः ou कोषं.

- 1 [ताभ्यां यद् अन्यत् तत्] कुष्य^a
 2 ह्य्यं [तद् द्वयम् आहतं] ।
 3 गारुत्मतं मरुक्तम् अश्मगर्भं हरिन्मणिः ॥ ८२ ॥
 4 शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागो
 5 [ऽथ] मौक्तिकं ।
 6 मुक्ता
 7 [-थ] विटुमः [पुंसि] प्रवालं [पुंनपुंसकं] ॥ ८३ ॥
 8 रत्नं मणिर^b [द्वयोर् अश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च] ।
 9 स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेम हाटकं ॥ ८४ ॥
 10 तपनीयं शातकुम्भं^c गाङ्गेयं भर्म^d कर्बुरं^e ।
 11 चामीकारं जातरूपं महारजत-काञ्चने ॥ ८५ ॥
 12 रुक्मं^f कार्तस्वरं जाम्बूनदम् अष्टापदो [ऽस्त्रियां] ।
 13 [अलङ्कारसुवर्णं यत्] शृङ्गीकनकम्^g [इत्यदः] ॥ ८६ ॥
 14 दुर्वर्णं रजतं ह्य्यं खर्बुरं^h श्रेतम् [इत्यपि] ।
 15 रीतिःⁱ [स्त्रियाम्] आरकूटो^j [न स्त्रियां]
 16 [अथ] ताम्रकं ॥ ८७ ॥

(1) Métaux de bas aloi. — (2) Or et argent en lingots. — (3) Émeraude. — (4) Rubis. — (5, 6) Perle. — (7) Corail. — (8) Pierre précieuse. — (9-12) Or. — (13) Or pour ornements. — (14) Argent. — (15) Airain. — (16, et pag. 225, lig. 1.) Cuivre.

^a Ou अकुष्यं. — ^b Aussi मणो fem. — ^c Ou प्रातकौम्भं. — ^d Aussi भर्म. — ^e Et कर्बुरं; également कर्बुरं. — ^f Ou रुक्मं. — ^g Quelques-uns divisent les termes शृङ्गी [ou शृङ्गिः; aussi शृङ्गि neut.] et कनकं. — ^h Ou खर्बुरं. — ⁱ Aussi रीति, et रेत्यं n. — ^j Également आरः.

- 1 शुल्बं^a श्लेच्छमुखं द्रष्ट^b-वरिष्ठोदुम्बराणि^c [च]
 2 लोहो^d [स्त्री] शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायसी^e ॥ ८८ ॥
 3 अश्मसारो
 4 [सथ] मण्डूरं सिंहानम्^f [अपि तन्मले] ।
 5 [सर्वं स्यात् तैजसं] लौहं^g
 6 [विकारस् त्व् अयसः] कुशी ॥ ८९ ॥
 7 क्षारः काचो
 8 [सथ] चपलो रसः सूतश् [च] पारदे^h ।
 9 गवलं [माहिषं शृङ्गम्]
 10 अभ्रकं गिरिजामलेⁱ ॥ १०० ॥
 11 स्रोतोञ्जनं [तु] सौवीरं कापोताञ्जन^j-यामुने ।
 12 तुल्याञ्जनं^k शिल्पिग्रीवं वितुन्नक-मयूरके ॥ १०१ ॥
 13 कर्परी^l दार्विका [द्वाथोद्भवं] तुल्यं
 14 रसाञ्जनं ।

(2, 3) Fer. — (4) Rouille du fer. — (5) Substance métallique quelconque. — (6) Fer travaillé, fer en barre. — (7) Verre. — (8) Vif-argent. — (9) Corne d'un buffle. — (10) Talc. — (11) Antimoine. — (12) Vitriol bleu. — (13) Collyre [extrait de l'*amomum xanthorrhizon*, Roxb.]. — (14, et pag. 226, lig. 1). — Autre espèce [quelques-uns réunissent cet article au précédent, en séparant *karpari* des synonymes; cela s'accorde avec les livres de médecine].

* Ou शुल्बं. — ^b Et द्विष्टं. — ^c वरिष्ठ-उदुम्बर [et उदुम्बरं ou औदुम्बरं]. — ^d Et लौहं ou लोहः. — ^e कालायस- [aussi कृष्णायसं] अयस् [aussi आयसं]. — ^f Et शिंघापां ou सिंहापां et सिंघापां. — ^g Et लोहं. — ^h Aussi पारतः ou पारः. — ⁱ गिरिज-अमल. — ^j Et कपोताञ्जनं. — ^k Aussi तुल्यं. — ^l Quelques grammairiens placent ce mot

- 1 रसगर्भ ताक्ष्यशैलं
 2 गन्धाश्मनि [तु] गन्धकः^a ॥ १०२ ॥
 3 सौगन्धिकश्^b [च]
 4 चक्षुष्या-कुलाल्यौ [तु] कुलत्थिका^c ।
 5 रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पौष्पकं^d कुसुमाञ्जनं^e ॥ १०३ ॥
 6 पिञ्जरं पीतकं तालम् आलं^f [च] हरितालके ।
 7 गैयम् अर्थ्यं गिरिजम् अश्मजं [च] शिलाजतु ॥ १०४ ॥
 8 वोल-गन्धरस^g-प्राण-पिण्ड-गोप^h-रसाःⁱ [समाः] ।
 9 ह्निण्डीरो^j ऽब्धिकफः^k फेनः
 10 सिन्दूरं नागसम्भवं ॥ १०५ ॥
 11 नाग-सीसक-योगेष्ट-वप्राणि^l
 12 त्रपु पिच्रटं ।
 13 रङ्ग-वङ्गे [ऽप्य]

(2, 5) Soufre. — (4) Pierre bleue employée comme collyre [quelques-uns font ces trois mots synonymes des suivants]. — (5) Chaux d'airain. — (6) Orpiment jaune. — (7) Crayon rouge [suivant une autre explication : bitume]. — (8) Myrrhe. — (9) Arête de la sèche. — (10) Minium ou vermillon. — (11) Plomb. — (12, 13) Étain [quelques-uns réunissent les deux premiers termes aux précédents comme synonymes de plomb].

parmi les synonymes de *vitriol bleu*. Les auteurs médicaux écrivent खर्परी ou खर्परं, et en font une espèce distincte de *collyre*. — ^a Et गन्धिकः. — ^b Ou सुगन्धिकः. — ^c Et कुलत्थ्या; également कुलं. — ^d Et पुष्पकं. — ^e Aussi पुष्पाञ्जनं. — ^f Ou अलं; aussi नालं. — ^g Ou रसगन्धः. — ^h Et गोसः; aussi पिण्डगोसः. — ⁱ Ou प्राणः; aussi गोसप्राणः. — ^j Et दिण्डीरो; ou पिण्डीरो; aussi ह्निण्डीरो. — ^k Ou समुद्रफेनः. — ^l Sing. वपं; quelques-uns lisent वर्धं; aussi त्रपं.

- 1 [अथ] पिचुस् तूलो ^a
- 2 [ऽथ] कमलोत्तरं ॥ १०६ ॥
- 3 [स्यात्] कुसुम्भं वङ्गिशिखं महारजनम् [इत्यपि] ।
- 4 भेषकम्बल ऊर्णायुः
- 5 शशोर्णं शशलोमनि ^b ॥ १०७ ॥
- 6 मधु क्षौद्रं माक्षिका-[-दि]
- 7 मधूच्छिष्टं [तु] सिक्थकं ।
- 8 मनःशिला ^c मनोगुप्ता मनोद्धा ^d नागजिह्विका ॥ १०८ ॥
- 9 नैपाली कुनटी ^e गोला ^f
- 10 यवक्षारो यवाग्रजः ।
- 11 पाक्यो
- 12 [ऽथ] सर्जिकाक्षारः ^g कापोतः सुखवर्चकः ॥ १०९ ॥
- 13 सौवर्चलं [स्याद्] रुचकं ^h
- 14 त्वक्क्षीरा वंशरोचना ⁱ ।

(1) Coton. — (2, 5) Faux safran, carthame. — (4) Couverture de laine. — (5) Poil du lapin et du lièvre. — (6) Miel. — (7) Cire. — (8, 9) Arsenic rouge. — (10, 11) Nitre, salpêtre. — (12, 13) Natron, alcali. — (14) Manne de bambous.

^a Et पिचुलः; aussi पिचुतूलः ou तूलपिचुः. — ^b शशलोमन्. — ^c Également मनःसिला; aussi masc. मनःशिलः. — ^d Et मनोज्ञा. — ^e Quelques-uns lisent कुलटी ou कनटी. — ^f Quelques-uns font de ce dernier mot le nom d'une espèce différente, et considèrent les deux mots suivants comme l'explication. — ^g Ou सृजिकाक्षारः; aussi सर्जिका et क्षारः. — ^h Quelques-uns séparent ces deux termes et en font les noms du borax. — ⁱ Ou वंशलोचना.

- 1 शिग्रुजं श्वेतमरिचं
- 2 मोरटं [मूलम् रेखवं] ॥ ११० ॥
- 3 ग्रन्थिकं पिप्पलीमूलं चटिकाशिर^a [इत्यपि] ।
- 4 गोलोमी भूतकेशो [ना]
- 5 पत्राङ्गं रक्तचन्दनं ॥ १११ ॥
- 6 त्रिकटु ल्यूषणं^b व्योषं
- 7 त्रिफला^c [तु] फलत्रिकं ॥ ११२ ॥

CHAPITRE X.

QUATRIÈME CLASSE, CLASSES MÊLÉES, ARTISANS, JONGLEURS, MUSI-
CIENS, CHASSEURS, CHIENS, CHASSE, VOLS, INSTRUMENTS, ARTS,
LIQUEURS SPIRITUEUSES, JEU.

- 8 शूद्राश् [चा-]-वर्वर्णाश्^d [च] वृषलाश् [च] जवन्यजाः ।
- 9 [आचण्डालात् तु] सङ्कीर्णा [अम्बष्ठकरणादयः] ॥ १ ॥
- 10 [शूद्राविशोस् तु] करणो

(1) Graine de *morunga hyperanthera* ou *guilandina morunga*. — (2) Racine de la canne à sucre. — (3) Racine du poivre long. — (4) Racine du glayeul doux. — (5) Bois rouge [*sandal rouge ou sappan rouge, *Wils. Dict.*]. — (6) Trois épices [le poivre noir, le gingembre sec et le poivre long]. — (7) Les trois myrobolans. — (8) *S'ôdras*, hommes de la quatrième classe. — (9) Hommes d'origine mêlée [nés du mariage des autres classes entre elles]. — (10) *Karan'a* ou scribe [homme né d'une *s'ôdrâ* et d'un *vais'ya*].

^a Et चटिकाशिरस् ou masc. चटिकाशिरः. Aussi चटका et शिरः. — ^b Ou ल्यूषणं. —
^c Et त्रिफली ou तृफला. — ^d अवरवर्ण.

- 1 ऽम्बष्ठो [विश्याद्विजन्मनोः] ।
 2 [शूद्राक्षत्रिययोर्] उग्रो
 3 मागधः [क्षत्रियाविशोः] ॥ २ ॥
 4 माहिष्यो [ऽर्याक्षत्रिययोः] ।
 5 क्षत्ता^a [-र्याशूद्रयोः सुतः] ।
 6 [ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्] सूतः
 7 [तस्यां] वैदेहको [विशः] ॥ ३ ॥
 8 रथकारस् [तु माहिष्यात्] करण्यां यस्य सम्भवः] ।
 9 [स्यात्] चाण्डालस्^b [तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः] ॥ ४ ॥
 10 कारुः^c शिल्पी
 11 [संहृतैस् तैर् द्वयोः] श्रेणिः^d [सजातिभिः] ।
 12 कुलकः^e [स्यात्] कुलश्रेष्ठी^f
 13 मालाकारस् [तु] मालिकः ॥ ५ ॥

(1) *Ambachth'a* ou médecin [homme né d'une femme de la troisième classe et d'un brâhmane]. — (2) *Ougra* [né d'une *s'ôûdra* et d'un *kchâtriya* ou guerrier]. — (3) *Mâgadha* ou barde [né d'une *kchâtriyâ* et d'un homme de la classe commerciale]. — (4) *Mâhichya* [né d'une femme de la troisième classe et d'un *kchâtriya*]. — (5) *Kchattri* [issu d'une *vais'yâ* et d'un *s'ôûdra*]. — (6) *Soûta* ou conducteur de char [né d'une *brâhmanî* et d'un *kchâtriya*]. — (7) *Vaidehaka* ou marchand [né d'une *brâhmanî* et d'un homme de la troisième classe]. — (8) *Rathakâra* ou charron [issu d'un *mâhichya* et d'une *kârantî*]. — (9) *Tchândâla* [issu d'une *brâhmanî* et d'un homme de la quatrième classe]. — (10) Artisan. — (11) Compagnie d'artisans. — (12) Homme de haute naissance. — (13) Fleuriste.

^a क्षत्ता. — ^b Aussi चाण्डालः. — ^c Également fém. कारुः. — ^d Aussi fém. श्रेणी. —

^e Ou कुलिकः. — ^f Également कुलः et श्रेष्ठी.

- 1 कुम्भकारः कुलालः [स्यात्]
 2 पलगण्डस् [तु] लेपकः ।
 3 तन्त्रवायः^a कुपिन्दः^b [स्यात्]
 4 तुन्नवायस् [तु] सौचिकः ॥ ६ ॥
 5 रङ्गाजीवश् चित्रकारः
 6 शस्त्रमार्जो ऽसिधावकः ।
 7 पादुकृच्^c चर्मकारः^d [स्यात्]
 8 व्योकारो लोहकारकः ॥ ७ ॥
 9 नाडीन्धमः^e स्वर्णकारः कलाद्यो^f ह्वम्कारके ।
 10 [स्यात्] शाङ्खिकः काम्बविकः
 11 शौल्विकस्^g ताम्रकुट्टकः ॥ ८ ॥
 12 तक्षा [तु] वर्द्धकिस् त्वष्टा रथकारश् [च] काष्ठतट् ।
 13 [ग्रामाधीनो] ग्रामतक्षः
 14 कौटतक्षो [ऽनधीनकः] ॥ ९ ॥
 15 क्षुरि-मुण्डि-द्विवाकीर्ति-नापितान्तावसायिनः^h ।

(1) Potier. — (2) Maçon ou plâtrier. — (3) Tisserand. — (4) Tailleur. — (5) Peintre. — (6) Armurier. — (7) Cordonnier. — (8) Forgeron [quelques-uns séparent les deux mots comme signifiant, l'un *fondeur*, l'autre *forgeron*]. — (9) Orfèvre. — (10) Ouvrier travaillant l'écaille. — (11) Ouvrier travaillant en cuivre. — (12) Charpentier; — (13) — qui travaille pour un village; — (14) — indépendant. — (15) Barbier.

^a Et तन्त्रवायः; ou तन्द्रवायः; aussi तन्त्रवापः. — ^b Ou कुपिन्दः. — ^c Ou पादुकृत्. — ^d Aussi चर्मार्ः. — ^e नाडीन्धमः (Éd. Sér. — Éd. Calc.) नाडिन्धमः (Wils. Dict. — MSS.) — ^f Ou कपाटः. — ^g Et शौल्विकः. — ^h नापित-ग्रन्तावसायिन्.

1 निर्णेजकः [स्याद्] रजकः

2 शौण्डिको मण्डहारकः ॥ १० ॥

3 जाबालः [स्याद्] अजाजीवो

4 देवाजीवी ^a [तु] देवलः ।

5 [स्यान्] माया शाम्बरी ^b

6 मायाकास् ^c [तु] प्रातिहारिकः ^d ॥ ११ ॥

7 शैलालिनस् [तु] शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः ^e ।

8 भरता ^f [इत्यपि] नटाश्

9 चारणास् [तु] कुशीलवाः ॥ १२ ॥

10 मार्दङ्गिका भौरजिकाः

11 पाणिवादास् [तु] पाणिधाः ।

12 वेणुध्माः [स्यूर] वैणविका

13 वीणावादास् [तु] वैणिकाः ॥ १३ ॥

14 जीवान्तकः ^g शाकुनिको

15 [द्वौ] वागुरिक-जालिकौ ।

(1) Blanchisseur. — (2) Distillateur. — (3) Chevrier. — (4) Prêtre d'une idole. — (5) Jongleur femelle. — (6) Jongleur. — (7, 8) Danseurs et sauteurs. — (9) Danseurs et mimes. — (10) Joueurs de tambour. — (11) Hommes qui frappent avec leurs mains seulement. — (12) Joueurs de flûte. — (13) Joueurs de luth. — (14) Oiseleur. — (15) Chasseur se servant de filets.

^a Ou देवाजीवः. — ^b Et साम्बरी ou शांबरी etc. — ^c Et मायाविन् [-वी] ou मायिन्. — ^d Et प्रतिहारः, प्रातिहारः ou प्रातिहारकः. — ^e Sing. शैलाली et कृशाश्वी. — ^f Ou भारतः. — ^g Ou जीवन्तिकः.

- 1 वैतंसिकः कौटिकश् [च] मांसिकश् [च समं त्रयं] ॥ १४ ॥
 2 भृतको भृतिभुक् कर्मकरो वैतनिको [ऽपि सः] ।
 3 वार्तावहो वैवधिको ^a
 4 भारवाहस् [तु] भारिकः ^b ॥ १५ ॥
 5 विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश् [च] पृथग्जनः ।
 6 निहीनोऽपसदो^c जाल्मः क्षुल्लकश् ^d [चे-]तरश् ^e [च सः] ॥ १६ ॥
 7 भृत्ये दासेर-दासेय-दास^f-गोप्यक^g-चेटकाः ^h ।
 8 नियोज्य-किङ्कर-प्रैष्यⁱ-भुजिष्य-परिचार्काः ॥ १७ ॥
 9 पराचित-परिस्कन्द^j-परजात^k-परैधिताः ॥ १८ ॥
 10 मन्दस् [तु] तुन्दपरिमृज^l आलस्यः शीतको ऽलसो ऽनुक्तः ।
 11 दक्षे [तु] चतुर-पेशल^m-पटवः ⁿ सूत्यान उक्तश् [च] ॥ १९ ॥
 12 चण्डाल-प्लव-मातङ्ग-द्विवाकीर्ति-जनङ्गमाः ^o ।

(1) Vendeur de viande [qui vend la viande des animaux ou des oiseaux]. — (2) Mercenaire, esclave ou ouvrier. — (3) Marchand épicier, chandelier. — (4) Porteur. — (5, 6) Homme vil [exerçant une profession dégradante]. — (7, 8) Domestique ou esclave. — (9) Homme nourri par un étranger [quelques-uns comprennent les mots de cette ligne parmi les synonymes d'esclave]. — (10) Homme paresseux. — (11) Homme adroit. — (12, et pag. 253, lig. 1.) *Tchandāla*.

^a Et विवन्धिकः. — ^b Également भारिन्. — ^c Ou अपसदः. — ^d Également क्षुल्लकः. — ^e इतरः. — ^f Ou दासः. — ^g Et गोप्यः. — ^h Ou चेटः; également चेटः et चेटकाः. — ⁱ Aussi प्रैषः ou प्रेष्यः. — ^j Également परिष्कन्दः, परिष्कन्नः, परिस्कन्नः, पारस्कन्दः. — ^k Et परजितः. — ^l Aussi तुन्दपरिमार्जः. — ^m * J'ai suivi le ms. bengali; l'édition de Sérampour, par la suppression de la particule तु, offre une faute contre la quantité de ce vers, qui appartient au mètre *āryā*; l'édition de Calcutta donne une leçon incorrecte. — ⁿ Et पेशलः ou पेषलः. — ^o Sing. पटुः. — ^o Aussi जनङ्गमाः.

- 1 निषाद^a-श्वपचाव्^b अन्तेवासि-चाण्डाल-पुङ्गसाः^c ॥ २० ॥
 2 [भेदाः किरातश्वरपुलिन्दा] श्लेच्छ-[-जातयः] ।
 3 व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुर लुब्धको [ऽपि सः] ॥ २१ ॥
 4 कौलेयकः सारमेयः कुङ्करो^d मृगदंशकः ।
 5 शुनको^e भषकः श्वा^f [स्याद्]
 6 अलर्कस्^g [तु स योगितः] ॥ २२ ॥
 7 [श्वा] विश्वकद्रु [मृगयाकुशलः]
 8 सरमा शुनी ।
 9 विद्चरः शूकरो ग्राम्यो^h
 10 वर्करस् [तरुणः पशुः] ॥ २३ ॥
 11 आच्छोदनंⁱ मृगव्यं [स्याद्] आवेटो मृगया [स्त्रियां] ।
 12 [दक्षिणारु लुब्धयोगाद्] दक्षिणेर्मा [कुरङ्गकः] ॥ २४ ॥
 13 चौरैकागारिक-^j स्तेन^k-दस्यु-तस्कर-मोषकाः ।

(2) *Metchhas* ou barbares [de diverses tribus, montagnards, sauvages, etc., comme le *kirāta*, vivant dans les forêts et armé d'un arc; le *s'avara* ou *patras'avara*, portant des plumes (une queue de paon, etc.); le *poulinḍa* ou *poumlinḍa*, ne parlant pas de langage intelligible].—(3) Chasseur, ou tueur de bêtes fauves.—(4, 5) Chien;—(6) — enragé;—(7) — dressé pour la chasse.—(8) Chienne.—(9) Chien de village.—(10) Jeune animal quelconque, ou agneau en particulier.—(11) Chasse.—(12) Bête fauve blessée dans le côté droit.—(13, et p. 234, ligne 1.) Brigand ou

^a Et निषादः. — ^b Sing. श्वपचः; également श्वपक्. — ^c Aussi पुङ्गसाः, पुङ्गसः. —

^d Et कुङ्करोः. — ^e Ou शुनः et शुनिः. — ^f Aussi श्वानः. — ^g Également अलकः. —

^h Quelques-uns font le premier terme explicatif; d'autres, le second. —

ⁱ आच्छोदनं (Éd. Calc. — MSS. — *Wils. Dict.*) आच्छोदनं (Édit. Sér.). — ^j चौर-

एकागारिक. — ^k Ou स्तेनः; aussi स्तेन्यः.

- 1 प्रतिरोधि^a-परास्कन्धि-पाटच्चर^b-मलिमुचाः ॥ २५ ॥
 2 चौरिका^c ° सैन्य-चौर्ये [च] स्तेयं
 3 लोम्रं^d [तु तद्धनं] ।
 4 वीतंसस्^e [तूपकरणं^f वन्धने मृगपक्षिणां] ॥ २६ ॥
 5 उन्माथः कूटयन्त्रं [स्याद्]
 6 वागुरा मृगबन्धिनी ।
 7 शुल्वं^g वराटकः^h [स्त्री तु] रज्जुस् [त्रिषु] वटी गुणःⁱ ॥ २७ ॥
 8 उद्घाटनं घटीयन्त्रं [सलिलोद्घाहनं प्रहेः] ।
 9 [पुंसि] वेमा^j वायदण्डः^k
 10 सूत्राणि^l [नरि] तन्तवः^m ॥ २८ ॥
 11 वाणिर्ⁿ व्यूतिः^o [स्त्रियौ तुल्ये]
 12 पुस्तं [लेप्यादिकर्मणि] ।

voleur. — (2) Vol, Brigandage. — (3) Butin. — (4) Filets, chaîne ou cage [instrument quelconque pour attacher ou retenir des oiseaux ou des bêtes]. — (5) Piège ou trappe [selon quelques-uns, l'article précédent est synonyme de celui-ci.] — (6) Rets pour prendre les bêtes fauves. — (7) Corde ou ficelle. — (8) Corde et seau d'un puits [corde et jarre pour tirer l'eau d'un puits, ou toute machine pour élever l'eau]. — (9) Métier de tisserand. — (10) Fils. — (11) Tissue. — (12) Action d'enduire [ou de peindre des images, etc.].

^a Et प्रतिरोधकः. — ^b Également पटच्चरः. — ^c Aussi चौरिका. — ^d Et लोम्रं ou लोतं. — ^e Aussi वितंसः. — ^f उपकरणां. — ^g Et शुल्वं ou शुल्कं; aussi शुल्कः; et fém. शुल्का ou शुल्की; également सुष्मं suivant une autre leçon. — ^h Ou वराटः; mais quelques-uns lisent वटाकरः. — ⁱ Également वटीगुणः. — ^j Également वेमः. — ^k Ou वायदण्डः. — ^l Sing. सूत्रं. — ^m Sing. तन्तुः; aussi सूत्रतन्तुः. — ⁿ Et वेपिः. — ^o Ou व्युतिः.

- 1 पाञ्चालिका^a पुत्रिका [स्याद् वस्त्रदन्तादिभिः कृता] ॥ २८ ॥
 2 पिटकः पेटकः पेटा^b मञ्जूषा^c
 3 [-थ] विहङ्गिका^d ।
 4 भास्यष्टिस्
 5 [तदालम्बि] शिक्थं^e काचो
 6 [ऽथ] पाटुका ॥ ३० ॥
 7 पादूर उपानत् [स्त्री]
 8 [सैवा-]-नुपदीना^f [पदायता] ।
 9 नद्दी बद्धी^g वरत्रा [स्याद्]
 10 [अश्वादेस् ताडनी] कशा^h ॥ ३१ ॥
 11 चाण्डालिकाⁱ [तु] कण्डोलवीणा^j चण्डालवल्ग्वी ।
 12 नाराची [स्याद्] एषणिका
 13 शाणस् [तु] निकषः कषः^k ॥ ३२ ॥
 14 ब्रश्चनः पत्रपरशुर

(1) Poupée ou marionnette [ou figure formée d'étoffe ou d'ivoire, etc.].
 — (2) Panier [les deux derniers de ces quatre termes sont séparés par quelques-uns, comme signifiant un grand panier]. — (3, 4) Perche pour porter des fardeaux. — (5) Corde de cette perche. — (6, 7) Soulier. — (8) Botte. — (9) Courroie. (10) Fouet. — (11) Luth vulgaire. — (12) Balance ou trébuchet d'un orfèvre. — (13) Pierre de touche. — (14) Ciseau de fer [ou bien petite scie].

^a Et पञ्चालिका. — ^b Et पेटा ou पीडा. — ^c Quelques-uns ajoutent मञ्जूषा à tort.
 — ^d Ou विहङ्गमा. — ^e Également शिक्. — ^f अनुपदीना. — ^g Et बद्धी ou बद्धी.
 — ^h Aussi कषा ou कसा. — ⁱ Et चाण्डालिका. — ^j Également कटोलवीणा. —
^k Quelques-uns lisent श्रानः, निकसः et कसः.

- 1 इषिका ^a तूलिका ^b [समे] ।
 2 तैजसावर्तनी मूषा ^c
 3 भस्त्रा चर्मप्रसेविका ^d ॥ ३३ ॥
 4 आस्फोटनी ^e वेधनिका
 5 कृपाणी कर्तरी [समे] ।
 6 वृक्षादनो वृक्षभेदी
 7 टङ्कः ^f पाषाणदारणः ॥ ३४ ॥
 8 क्रकचो ^g [स्त्री] करपत्रं
 9 [स्याद्] आरा चर्मप्रभेदिका ।
 10 मूर्मो ^h स्यूणा लोहप्रतिमा
 11 शिल्प्यं [कर्म कलादिकं] ॥ ३५ ॥
 12 प्रतिमानं प्रतिविम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया ।
 13 प्रतिकृतिर् अर्चा [पुंसि] प्रतिनिधिर्

(1) Pinceau ou brosse [selon quelques-uns, c'est un bâton fibreux; selon d'autres, un moule pour les lingots, ou bien ce qu'on jette dans un creuset pour essayer si un métal est fondu]. — (2) Creuset. — (3) Soufflet. — (4) Perçoir, foret ou tarière. — (5) Ciseaux ou forces [aussi une dague]. — (6) Ciseau d'un charpentier. — (7) Hachette [également : ciseau d'un tailleur de pierre]. — (8) Scie. — (9) Tranchet d'un cordonnier. — (10) Image de fer [telle est l'explication de la plupart des commentaires; selon un d'eux, il s'agit d'une enclume]. — (11) Art. — (12, 13) Image, statue ou peinture.

^a Aussi इषीका et इषीका ou इषिका. — ^b Également तुलिः, तुली. — ^c Aussi मुषा et मूषो ou मूषिका. — ^d Ou चर्मप्रसेवकः. — ^e Et लास्फोटनी. — ^f Ou तङ्कः. — ^g Et क्रकचः. — ^h Ou मूर्मिः; aussi स्युर्मो ou स्युर्मिः; et ग्रूर्मो, ग्रूर्मिः ou ग्रूर्मः.

- 1 उपमोपमानं^a [स्यात्] ॥ ३६ ॥
- 2 [वाच्यलिङ्गाः] समस् तुल्यः सट्टः सट्टशः सट्टक् ।
- 3 साधारणः समानश् [च]
- 4 [स्युर् उत्तरपदे त्वमी^b] ॥ ३७ ॥
- 5 निभ-सङ्काश-नीकाश^c-प्रतीकाशोपमा^d-[-द्यः^e] ।
- 6 कर्मण्या [तु] विधा-भृत्या-भृतयो^f भर्म वेतनं ॥ ३८ ॥
- 7 भरण्यं^g भरणं मूल्यं निर्वेशः पण [इत्यपि] ।
- 8 सुरा हलिप्रिया हाला पस्त्रिद्व वरुणात्मजा ॥ ३९ ॥
- 9 गन्धोत्तमा-प्रसन्नेरा^h-कादम्बर्यःⁱ पस्त्रिता ।
- 10 मद्रिा कश्य-मये [चाप्य]
- 11 अरवदंशस् [तु] भक्षणं ॥ ४० ॥
- 12 शुण्डापानं मद्रस्थानं
- 13 मधुवारा मधुक्रमाः ।
- 14 मध्वासवो माधवको^j मधु माध्वीकम्^k [अद्वयोः] ॥ ४१ ॥

(1) Ressemblance [quelques-uns réunissent cet article au précédent]. — (2, 3) Semblable, pareil. — (5) Semblable (en composition). — (6, 7) Gages, salaire. — (8, 9, 10) Liqueur spiritueuse. — (11) Action de manger ce qui excite la soif. — (12) Taverne. — (13) Ivrognerie. — (14) Esprit distillé des fleurs de l'arbre appelé *bassia latifolia* [quelques-uns

^a उपमा, उपमानं. — ^b Les mots suivants ne sont employés qu'en composition, ex. : पितृनिभः « comme son père. » — ^c Aussi निकासः. — ^d प्रतीकाश- [et प्रतिकाशः, प्रतिकाशः ou प्रतीकाशः] - उपम. — ^e Outre d'autres mots également employés en composition dans cette acception, comme भूतः, द्वयः, कल्पः. — ^f Sing. भृतिः. — ^g Aussi fém. भरण्या. — ^h प्रसन्ना-इरा; aussi प्रसन्नेरा. — ⁱ Sing. कादम्बरी. — ^j Et माध्वकं ou माद्वकं. — ^k Aussi मधुमाध्वीकं.

- 1 मैथ्यम् आसवः शोधुर
 2 मेढको जगलः [समौ] ।
 3 सन्धानं [स्याद्] अभिषवः
 4 किण्वं [पुंसि तु] नम्रूः^a ॥ ४२ ॥
 5 कारोत्तरः^b सुरामण्ड
 6 आपानं पानगोष्ठिका ।
 7 चषको [स्त्री] पानपात्रं सरको [स्य्] अनुतर्षणं^c ॥ ४३ ॥
 8 धूर्तो ऽक्षदेवी कितवो ऽक्षधूर्तो यूतकृत् [समाः] ।
 9 [स्युर] लग्नकाः प्रतिभुवः^d
 10 सभिका यूतकारकाः ॥ ४४ ॥
 11 यूतो [स्त्रियाम्] अक्षवती कैतवं पण [इत्यपि] ।
 12 पणो [ऽक्षेषु] गल्हो
 13 ऽक्षास् [तु] देवनाः पाशकाश् [च ते] ॥ ४५ ॥

divisent les synonymes, donnant aux deux derniers termes la signification de *vin extrait du raisin*. — (1) Rhum [les trois termes désignent trois espèces différentes: la première, distillée des fleurs du *lythrum fruticosum* avec du sucre etc.; la seconde, du jus brut de la canne à sucre; la troisième, de la mélasse; quelques-uns réunissent le dernier terme à l'article suivant]. — (2) Liqueur vineuse à distiller. — (3) Distillation. — (4) Ferment, drogue employée pour favoriser la fermentation. — (5) Levure, écume. — (6) Endroit où l'on se réunit pour boire. — (7) Vase à boire [quelques-uns séparent les deux derniers termes de la ligne, et les interprètent par *distribution de liqueur*]. — (8) Joueur. — (9) Cautions, répondants. — (10) Maîtres de maisons de jeu. — (11, 12) Jeu. — (13) Dés.

^a Aussi नम्रू neut. — ^b Et कारोत्तमः. — ^c Aussi अनुतर्षः. — ^d Sing. प्रतिभूः.

1 परिणायस्^a [तु शारीणां समन्ताव्रयने]

2 [ऽस्त्रियौ] ।

3 अष्टापदं शारिफलं

4 प्राणियूतं समाह्वयः ॥ ४६ ॥

[उक्ता भूरिप्रयोगत्वाद् एकस्मिन् ये ऽत्र यौगिकाः ।

ताद्वर्त्याद् अन्यतो वृत्ताव् ऊच्या लिङ्गान्तरेऽपि ते] ॥ ४७ ॥

(1) Action de faire mouvoir une pièce, au jeu. — (3) Tapis ou table d'échiquier. — (4) Combat de coqs, etc.

^a Aussi परोपायः.

LIVRE III.

CHAPITRE PREMIER.

ÉPITHÈTES DES PERSONNES.

विशेष्यनिष्ठैः सङ्गीर्णैर् नानार्थैर् अव्ययैर् अपि ।

लिङ्गादिसंग्रहैर् वर्गाः सामान्ये वर्गसंग्रयाः ॥ १ ॥

स्त्रीद्वाराद्यैर् यद् विशेष्यं यादृशैः प्रस्तुतं पदैः ।

गुणद्रव्यक्रियाशब्दास् तथा स्युस् तस्य भेदकाः ॥ २ ॥

1 सुकृती पुण्यवान् धन्यो

2 महच्छस् [तु] महाशयः ।

3 हृदयालुः सुहृदयो ^a

4 महोत्साहो महोद्यमः ॥ ३ ॥

5 प्रवीणे निपुणाभिन्न ^b-विज्ञ-निज्ञात-शिक्षिताः ।

6 वैज्ञानिकः ^c कृतमुखः कृती कुशल ^d [इत्यपि] ॥ ४ ॥

7 पूज्यः प्रतीक्ष्यः

8 सांशयिकः संशयापन्नमानसः ।

(1) Heureux, fortuné. — (2) Magnanime. — (3) Doué d'un bon cœur. — (4) Persévérant, diligent. — (5, 6) Habile, expérimenté. — (7) Véné-
rable. — (8) Douteux [incertain, à mettre en question; selon quelques-

^a Ou सहृदयः; aussi हृदयो, हृदयिकः, हृदयवान्.— ^b निपुण-अभिन्न.— ^c Ou विज्ञानिकः.
— ^d Également कुशलः.

- 1 दक्षिणीयो दक्षिणार्हस् [तत्र] दक्षिण्य^a [इत्यपि] ॥ ५ ॥
 2 [स्युर] वदान्य^b -स्थूललक्ष्य^c -दानशौण्डा वरुप्रदे ।
 3 जैवातृकः [स्याद्] आयुष्मान्
 4 अन्तर्वाणिसु [तु] शास्त्रवित् ॥ ६ ॥
 5 परीक्षकः कारणिको
 6 वरदस् [तु] समर्द्धकः ।
 7 हर्षमाणो विकुर्वाणः प्रमना^d हृष्टमानसः ॥ ७ ॥
 8 दुर्मना विमना अन्तर्भनाः [स्याद्]
 9 उत्क उन्मनाः ।
 10 दक्षिणे सरलोदारै^e
 11 सुकलो [दातृभोक्तारि] ॥ ८ ॥
 12 [तत्यरे] प्रसितासक्ताव्^f
 13 इष्टार्थोद्युक्त^g उत्सुकः ।

uns, cela signifie irrésolu, peu affermi dans son opinion]. — (1) Méritant des honoraires ou une récompense. — (2) Libéral, généreux. — (3) Destiné à une longue vie. — (4) Versé dans les sciences sacrées. — (5) Qui observe avec finesse. — (6) Exauçant une prière [comme une divinité cédant à la prière de celui qui adresse un vœu.] — (7) Joyeux, content. — (8) Triste, chagrin. — (9) Qui regrette. — (10) Sincère, candide. — (11) Libéral, soit à donner, soit à dépenser. — (12) Assidu, appliqué. — (13) Empressé [qui tend avec ardeur vers un but désiré].

^a Et दक्षिण्यः. — ^b Ou वदान्यः. — ^c Et स्थूललक्ष्यः. — ^d Aussi प्रमणाः. — ^e सरल-उदार. — ^f प्रसित-आसक्त; quelques-uns réunissent les deux termes suivants à cet article comme synonymes, d'autres, d'après une leçon différente, ajoutent आविष्टः à cet article. — ^g Selon une autre leçon, उद्युक्तः.

- 1 प्रतीते प्रथित-ख्यात-वित्त-विज्ञात-विश्रुताः ॥ ८ ॥
 2 [गुणैः प्रतीते तु] कृतलक्षणाहृतलक्षणी^a ।
 3 इभ्य आढ्यो धनी
 4 स्वामी [त्] ईश्वरः पतिरु ईशिता ॥ १० ॥
 5 अधिभूरु नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः ।
 6 अधिकर्द्धिः समृद्धः [स्यात्]
 7 कुटुम्बव्यापृतस् [तु यः] ॥ ११ ॥
 8 [स्याद्] अभ्यागारिकस् [तस्मिन्] उपाधिर्^b [हि पुमान् अयं] ।
 9 [वराङ्गूपोपेतो यः] सिंहसंहननो [हि सः] ॥ १२ ॥
 10 निर्वीर्यः^c [कार्यकर्ता यः सम्पन्नः सत्वसम्पदा] ।
 11 अवाचि^d मूको
 12 [स्य] मनोजवः^e [स] पितृसन्निभः ॥ १३ ॥
 13 [सत्कृत्यालंकृतां कन्यां यो ददाति स] कूकुदः^f ।
 14 लक्ष्मीवान् लक्षणः श्रीलः^g श्रीमान्
 15 स्निग्धस् [तु] वत्सलः ॥ १४ ॥
 16 [स्याद्] दयालुः कारुणिकः कृपालुः सूरतः^h [समाः] ।

(1) Connu, célèbre, fameux. — (2) Noté pour ses bonnes qualités. — (3) Opulent, riche. — (4, 5) Maître. — (6) Heureux en tout point. — (7, 8) Ayant soin de sa famille. — (9) Beau, bien fait. — (10) Agissant avec courage. — (11) Muet. — (12) Paternel. (13) Donnant une fille en mariage [dans la forme prescrite, en l'ornant de parures]. — (14) Heureux, prospère. — (15) Affectionné. — (16) Qui a compassion.

^a कृतलक्षणा-आहतलक्षणा; quelques-uns lisent आहितलक्षणाः. — ^b Invariablement masculin. — ^c Quelques-uns lisent निर्वीर्यः. — ^d अवाक्. — ^e Quelques-uns lisent à tort मनोजवसः. — ^f Ou कुकुदः. — ^g Et प्रलीलः. — ^h Aussi सुरतः.

- 1 स्वतन्त्रो ऽपावृतः स्वैरि^a स्वच्छन्दो निरवग्रहः^b ॥ १५ ॥
 2 परतन्त्रः पराधीनः परवान् नाथवान् [अपि] ।
 3 अधीनो निघ्न आयत्तो ऽस्वच्छन्दो गृह्यको [ऽप्यसौ] ॥ १६ ॥
 4 खलपूः [स्याद्] वरुकारो
 5 दीर्घसूत्रश् चिरक्रियः ।
 6 जालमोऽसमीक्ष्यकारी [स्यात्]
 7 कुण्ठो [मन्दः क्रियासु यः] ॥ १७ ॥
 8 कर्मक्षमो ऽलङ्कर्मिणः
 9 क्रियावान् कर्मसूद्यतः ।
 10 [स] कार्मः कर्मशीलो [यः]
 11 कर्मशूरस् [तु] कर्मठः ॥ १८ ॥
 12 भरण्यभुक्^c कर्मकारः
 13 कर्मकारस् [तु] तन्नियः ।
 14 अपस्नातो मृतस्नात
 15 आमिषाशी [तु] शौष्कलः^d ॥ १९ ॥

(1) Libre, qui jouit de l'exercice de sa volonté. — (2) Dépendant. — (3) Docile [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (4) Balayeur. — (5) Lent, qui tarde. — (6) Qui agit inconsidérément. — (7) Indolent. — (8) Capable d'un acte. — (9) Engagé dans une besogne. — (10) Laborieux. — (11) Qui finit avec soin. — (12) Qui travaille pour un salaire. — (13) Qui travaille sans gages. — (14) Qui se baigne après le deuil [selon quelques-uns, ces mots signifient : qui meurt après les ablutions, avant que la cérémonie soit complète]. — (15) Qui mange du poisson et de la chair.

^a Et स्वैरिः. — ^b Aussi निर्यन्त्रपाः et निरंकुशः. — ^c Ou कर्मण्यभुक्. — ^d Et शौष्कलः
 ou शुष्कलः.

- 1 बुभुक्षितः [स्यात्] क्षुधितो जिघत्सुर् अशनायितः ।
- 2 परान्नः परपिण्डादो
- 3 भक्षको घस्मरो ऽध्वरः ॥ २० ॥
- 4 आयूनः [स्याद्] औदरिको [विजिगीषाविवर्जिते] ।
- 5 [उभाक्] आत्मम्भरिः कुक्षिम्भरिः [स्वोदरपूरके] ॥ २१ ॥
- 6 सर्वात्रीनस् [तु] सर्वान्नभोजी
- 7 गृधुस् [तु] गर्दनः ।
- 8 लुब्धोऽभिलाषुकस् तृप्तक्^a
- 9 [समौ] लोलुप-लोलुभौ ॥ २२ ॥
- 10 उन्मदस्^b [तू-]-न्मदित्तुः^c [स्याद्]
- 11 अविनीतः समुद्धतः ।
- 12 मत्ते शौण्डोत्कट^d-क्षीवाः
- 13 कामुके कमितानुकः^e ॥ २३ ॥
- 14 कग्रः कामयिताभीकः^f कमनः कामनो ऽभिकः ।
- 15 विधेयो विनयग्राही^g वचनेस्थित आश्रवः ॥ २४ ॥

(1) Affamé. — (2) Qui se nourrit aux dépens d'un autre. — (3) Glouton. — (4) Impudemment vorace. — (5) Égoïste et vorace [sans égard pour ceux qu'il est tenu de nourrir]. — (6) Qui mange de tout [qui mange toute espèce de nourriture, ou la nourriture particulière à diverses classes]. — (7, 8) Avide, intéressé. — (9) Très-avide [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (10) Fou, insensé. — (11) Qui se comporte mal. — (12) Ivre. — (13, 14) Lascif. — (15) Complaisant.

^a Aussi तृष्णाकः et तृषितः ou तर्षितः. — ^b Ou उन्मादः; quelques-uns lisent सोन्मादः ou सून्मादः et सून्मदः. — ^c उन्मदिष्णुः. — ^d शौण्ड-उत्कट. — ^e कमिता[-तृ] अनुकः. — ^f कामयिता[-तृ] अभिकः. — ^g Ou वचनग्राही.

- 1 वश्यः प्रणयो
 2 निभृत-विनीत-प्रञ्चिताः^a [समाः] ।
 3 धृष्टे धृत्तग्^b वियातश् [च]
 4 प्रगल्भः प्रतिभान्वितः ॥ २५ ॥
 5 [स्याद्] अधृष्टे [तु] शालीनो
 6 विलक्षो विस्मयान्विते ।
 7 अधीरे कातरस्
 8 त्रस्यौ भीरु^c-भीरुक-भीलुकाः ॥ २६ ॥
 9 आशंसुर आशंसितरि^d
 10 गृह्यालुर गृहीतरि^e ।
 11 अद्मालुः [अद्मया युक्ते]
 12 पतयालुस् [तु] पातुके ॥ २७ ॥
 13 [लज्जाशीले]ऽपत्रपित्तुर
 14 वन्दारु अभिवाद्यके ।
 15 शरारु घातुको हिस्रः
 16 [स्याद्] वर्द्धित्तुस् [तु] वर्द्धनः ॥ २८ ॥

(1) Docile [quelques-uns font cet article synonyme du précédent]. —
 (2) Modeste [ayant réprimé ses passions; ou bien : humble, dépourvu d'arrogance]. — (3) Impudent, éhonté. — (4) Hardi, qui a de l'assurance. —
 (5) Honteux. — (6) Étonné. — (7) Interdit, confus. — (8) Timide, craintif. — (9) Qui désire des bénédictions. — (10) Disposé à prendre. —
 (11) Fidèle, qui a foi, croyant. — (12) Sujet à tomber. — (13) Pudique. —
 (14) Civil, poli. — (15) Méchant. — (16) Qui augmente, qui croît.

^a Ou प्रसृतः. — ^b Aussi धृष्णः. — ^c Aussi त्रस्तः, भीतः etc. — ^d आशंसितु. —
^e गृहीतु ou ग्रहीतु.

- 1 उत्पत्तिस्तु [तू-]-त्पतिता-^a
 2 -लङ्करिस्तु^b [तु] मण्डनः ।
 3 भूस्तु भविस्तु भविता
 4 वर्तिस्तु वर्तनः [समौ] ॥ २८ ॥
 5 निराकरिस्तुः क्षिप्रुः^c [स्यात्]
 6 सान्द्रस्निग्धस् [तु] मेदुरः ।
 7 ज्ञाता [तु] विदुरो विन्दुर
 8 विकासी^d [तु] विकस्वरः ॥ ३० ॥
 9 विसृत्वो विसृमरः प्रसारी [च] विसारिणि^e ।
 10 सहिस्तुः सहनः क्षन्ता तितिस्तुः क्षमिता क्षमी ॥ ३१ ॥
 11 क्रोधनो ऽमर्षणः कोपी^f
 12 चण्डस् [त्व] अत्यन्तकोपनः ।
 13 जागरूको जागरिता
 14 घूर्णितः प्रचलायितः ॥ ३२ ॥
 15 स्वप्नक् शयालुर् निद्रालुर्
 16 निद्राण^g-शयितौ [समौ] ।

(1) Qui saute. — (2) Enclin à la parure. — (3) Qui se porte bien. — (4) Stationnaire. — (5) Obstructif. — (6) Très-doux, onctueux. — (7) Savant, intelligent. — (8) Qui étend. — (9) Coulant ou rampant. — (10) Patient, content [selon quelques-uns, les trois premiers termes signifient *patient*, et les trois derniers, *content*]. — (11) Colère, furieux. — (12) Très-colère. — (13) Qui veille. — (14) Roulant, s'agitant comme dans le sommeil. — (15) Endormi, qui aime à dormir. — (16) Endormi, qui dort.

^a उत्पत्तिः. — ^b अलङ्करिष्णुः. — ^c Ou क्षिप्रुः. — ^d Aussi विकाशी et विकस्वरः; ou विकापी et विकस्वरः. — ^e विसारिन्. — ^f Aussi कोपनः. — ^g Également निद्रितः.

1 पराङ्मुखः पराचीनः

2 [स्याद्] अवाङ् [अप्य्] अधोमुखः ॥ ३३ ॥

3 [देवान् अञ्चति] देवद्वयङ्

4 विष्वद्वयङ्^a [विष्वग् अञ्चति] ।

5 [यः सहाञ्चति] सध्वयङ्^b [स]

6 [स] तिर्यङ् [यस् तिरोऽञ्चति] ॥ ३४ ॥

7 वदो वदावदो वक्ता

8 वागीशो वाक्पतिः [समौ] ।

9 वाचोयुक्तिपटुर्^c वाग्मी^d वावट्टकश् [च] वक्तरि^e ॥ ३५ ॥

10 [स्यात्] जल्पाकस् [तु] वाचालो^f वाचाटो वदुगर्हवाक् ।

11 दुर्मुखे मुखरावद्धमुखौ^g

12 शत्रुः^h प्रियंवदे ॥ ३६ ॥

15 लोहलः [स्याद्] अस्फुटवाक्

(1) Qui détourne le visage. — (2) Qui a les regards baissés [ou qui a la tête en bas]. — (3) Qui adore les divinités [ou qui s'approche des idoles]. — (4) Qui va partout. — (5) Qui accompagne. — (6) Qui va de travers. — (7) Qui parle sensément [ou qui sait bien parler; selon quelques-uns, cela signifie simplement *parlant* ou *parleur*]. — (8) Éloquent. — (9) Qui parle beaucoup [quelques-uns séparent les deux premiers termes comme signifiant *qui parle à propos*, et les deux autres, comme signifiant *bavard*]. — (10) Qui parle mal à propos [ou simplement *bavard*, ou bien, disant beaucoup de choses blâmables]. — (11) Qui a une méchante langue, injurieux. — (12) Qui parle poliment. — (13) Qui grasseye.

^a Aussi विप्रवह्यङ्. — ^b Aussi सम्यङ्. — ^c Ou वाचोयुक्तिः et पटुः. — ^d Ou वाग्मी. — ^e वक्त्रः; — अतिवक्त्र (Édit. Calc.) — ^f Ce mot se prend aussi en bonne part. —

^g मुखर्-अबद्धमुख. — ^h Aussi शत्रुः, शत्रुः, et शत्रुः.

- 1 गर्हवादी [तु] कद्वदः ।
 2 [समौ] कुवाद-कुचरौ
 3 [स्याद्] असौम्यस्वरो ऽस्वरः ॥ ३७ ॥
 4 खणः शब्दनो
 5 नान्दीवादी नान्दीकरः^a [समौ] ।
 6 जडोऽज्ञ
 7 एडमूकस्^b [तु वक्तुं श्रोतुम् अशिक्षिते] ॥ ३८ ॥
 8 तूष्णीशीलस् [तु] तूष्णीको^c
 9 नमो ऽवासा दिग्म्बरे ।
 10 निःकासितो^d ऽवकृष्टः [स्याद्]
 11 अपध्वस्तस् [तु] धिक्कृतः ॥ ३९ ॥
 12 आत्तगर्वो ऽभिभूतः^e [स्याद्]
 13 दापितः^f साधितः [समौ]
 14 प्रत्यादिष्टो निस्तः [स्यात्] प्रत्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥

(1) Qui parle mal. — (2) Critique, médisant. — (3) Qui a une vilaine voix. — (4) Sonore. — (5) Homme qui débite le prologue [selon quelques-uns, l'acteur de l'ouverture; le prologue d'un drame indien est une bénédiction avec des compliments pour l'auditoire]. — (6) Idiot, stupide. — (7) Sourd et muet. — (8) Silencieux. — (9) Nu. — (10) Chassé. — (11) Maudit. — (12) Humilié, soumis [selon quelques-uns, cet article est synonyme du précédent]. — (13) Condamné ou adjugé [applicable, soit à une personne en jugement, soit à une chose adjugée; selon quelques-uns, cela signifie *mis à l'amende*; selon d'autres, *la personne par laquelle ou à laquelle un paiement est fait*]. — (14, et p. 249, lig. 1.) Éloigné, mis de côté.

^a Ou नान्दीकरः. — ^b Aussi अनेडमुखः. — ^c तूष्णीशीलः, तूष्णीकः (Wils. Dict. — MSS.) — तुष्णीशीलः, तुष्णीकः (Éd. Sér. — Éd. Calc.) — ^d Un commentateur lit : निःक्रामितः. — ^e Aussi अभिहृतः. — ^f Également दापितः.

- 1 निकृतः [स्याद्] विप्रकृतो
 2 विप्रलब्धस् [तु] वञ्चितः ।
 3 मनोहृतः प्रतिहृतः प्रतिवदो हृतश् [च सः] ॥ ४१ ॥
 4 अधिक्षिप्रः प्रतिक्षिप्रो
 5 वद्वे कीलित-संयतौ ।
 6 आपन्न आपत्प्राप्तः [स्यात्]
 7 कान्दिशीको भयदुतः ॥ ४२ ॥
 8 आक्षारितः क्षारितो ऽभिशस्ते
 9 सङ्गसुको ऽस्थिरे ।
 10 व्यसनार्तोपरत्तौ ^a [द्वौ]
 11 विहस्त-व्याकुलौ [समौ] ॥ ४३ ॥
 12 विक्लवो विह्वलः
 13 [स्यात् तु] विवशो ऽरिष्टदुष्टधीः ।
 14 कश्यः कशार्हे
 15 सन्नद्धे [त्] आततायी बधोयते ^b ॥ ४४ ॥

(2) Trompé, dupé. — (3) Désappointé. — (4) Congédié [selon quelques-uns, envoyé, dépêché]. — (5) Détenu attaché [selon quelques-uns, mis aux fers, aux ceps; suivant d'autres, emprisonné]. — (6) Qui est dans la détresse [accablé par le malheur]. — (7) Mis en fuite. — (8) Calomnié [particulièrement par une fausse accusation d'adultère; selon quelques-uns, accusé d'adultère, suivant d'autres, coupable d'un crime]. — (9) Inconstant [selon d'autres, incertain]. — (10) Affligé [ayant du chagrin par une cause humaine ou divine]. — (11) Troublé, perplexe, embarrassé. — (12) Éperdu, saisi par la peur, etc. [incapable de se contenir]. — (13) Qui craint la mort. — (14) Qui mérite la fustigation. — (15) Meurtrier, félon [ce qui comprend les assassins, les incendiaires,

^a व्यसनार्त-उपरत्त. — ^b La plupart des commentateurs excluent le dernier;

- 1 द्वेष्ये [त्] अद्विगतो
 2 वध्यः शीर्षच्छेद्य [श्मौ समौ] ।
 3 विष्यो [विषेण यो बध्यो]
 4 मुसल्यो^a [मुसलेन यः] ॥ ४५ ॥
 5 शिष्यिद्वानो ऽकृतकर्म^b
 6 चपलश्च चिकुरः [समौ] ।
 7 दोषैकदृक् पुरोभागी
 8 निकृतस् [त्] अनृजुः शठः ॥ ४६ ॥
 9 कर्णेजपः सूचकः [स्यात्] पिशुनो^c
 10 दुर्जनः खलः ।
 11 नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो
 12 धूर्तस् [तु] वञ्चकः ॥ ४७ ॥
 13 अज्ञ-मूढ^d-यथाजात-मूर्ख-वैधेय-वालिशाः ।
 14 कदर्ये कृपण-द्गुद्र-किम्पचान-मितम्पचाः^e ॥ ४८ ॥

les brigands, etc.].—(1) Haïssable, détestable.—(2) Qui mérite d'être décapité.—(3) Qui mérite de mourir par le poison;—(4)—à coups de massue.—(5) Innocent.—(6) Coupable inconsidérément [qui commet un crime sans en considérer le tort].—(7) Malveillant, critique [qui ne remarque que les mauvaises qualités].—(8) Méchant, pervers.—(9) Délateur, rapporteur.—(10) Malicieux, méchant.—(11) Qui détruit, pernicieux.—(12) Trompeur, rusé.—(13) Idiot.—(14) Avare.

d'autres, le premier et le dernier de ces termes, des synonymes.—^a Ou मुणल्यः.—^b Plusieurs commentateurs lisent कृष्णकर्मा, et font signifier à ce terme et au précédent, *coupable, criminel*.—^c Quelques-uns joignent ce mot à l'article suivant; d'autres font les cinq mots synonymes.—^d Aussi मुग्धः.—^e Quelques-uns lisent किंपच et अनमितपच.

- 1 निःस्वस् [तु] दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गतो^a [ऽपि सः] ।
 2 वनीयको^b याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ^c ॥ ४६ ॥
 3 अहङ्कारवान्^d अहंयुः [स्यात्]
 4 शुभंयुस् [तु] शुभान्वितः^e ।
 5 दिव्योपपादुका [देवा]
 6 [नृगवाद्या] जरायुजाः ॥ ५० ॥
 7 स्वदृजाः [कृमिदंशाद्याः]
 8 [पक्षिसर्पादयो] ऽण्डजाः ॥ ५१ ॥

CHAPITRE II.

QUALITÉS DES CHOSES.

- 9 उद्भिद्स्^f [तरुगुल्माद्या]
 10 उद्भिद् उद्भिज्जम्^g उद्भिदं ।
 11 सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनं ॥ १ ॥

(1) Pauvre, indigent. — (2) Mendiant, gueux. — (3) Orgueilleux. — (4) Heureux. — (5) D'origine divine [êtres divins produits sans aucune cause apparente]. — (6) Vivipares [produits par un être vivipare, comme l'homme, le cheval, le taureau, etc.]. — (7) Êtres engendrés par l'humidité [comme les vers et les insectes]. — (8) Ovipares [qui naissent d'un œuf, comme les oiseaux, les serpents, etc.]. — (9) Végétaux [comme les arbres, les buissons, etc.]. — (10) Qui pousse, qui bourgeonne. — (11, et pag. 252, lig. 1.) Beau, agréable.

^a Aussi दुःस्थः. — ^b Ou वनीपकः. — ^c याचक-अर्थिन्. — ^d Selon quelques-uns ce mot est seulement l'explication du suivant. — ^e Ce mot est aussi considéré par quelques-uns comme explicatif. — ^f Sing. उद्भिद्. — ^g Ou bien उद्भिज्जं.

- 1 कान्तं मनोरमं^a रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलं^b ।
- 2 [तद्] असेचनकं^c [तृप्तेरू नास्त्यन्तो यस्य दर्शनात्] ॥ २ ॥
- 3 अभीष्टे ऽभीप्सितं दृश्यं दयितं वल्लभं प्रियं ।
- 4 निकृष्ट-प्रतिकृष्टार्थ^d-रेफ^e-याप्यावमाधमाः^f ॥ ३ ॥
- 5 कुपूय-कुत्सितावय^g-खेट-गर्ह्याणकाः^h [समाः] ।
- 6 मलीमसं [तु] मलिनंⁱ कच्चरं मलदृषितं ॥ ४ ॥
- 7 पूतं पवित्रं मेध्यं [च]
- 8 वीध्रं [तु] विमला-[-त्मकं] ।
- 9 निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं निःशोध्यम् अनवस्कारं ॥ ५ ॥
- 10 असारं फल्गु
- 11 शून्यं^j [तु] वशिकं तुच्छ-रिक्तके ।
- 12 [क्लीवे] प्रधानं^k प्रमुख-प्रवेकानुत्तमोत्तमाः^l ॥ ६ ॥
- 13 मुख्य^m-वर्य-वरेण्याश् [च] प्रवर्ही ऽनवार्थ-[-वत्] ।

(2) Charmant. — (3) Aimé, désiré. — (4, 5) Inférieur. — (6) Sale, fangeux [quelques-uns distinguent les deux premiers termes comme signifiant simplement *sale*, et les deux autres *souillé par de la fange*]. — (7) Purifié. — (8) Propre. — (9) Nettoyé. — (10) Qui n'a point de moelle. — (11) Vide. — (12, 13, et p. 253, lig. 1.) Chef principal [quelques-uns resreignent les synonymes à la première ligne, d'autres aux huit premiers termes; tandis que d'autres les étendent à trois lignes, et même à quatre].

^a Aussi मनोहरं et मनोहारि. — ^b Quelques-uns ajoutent सौम्यं, भद्रकं, रमणीयं, et रमणीयकं. — ^c Ou असेचनकं. — ^d प्रतिकृष्ट-अर्थ. — ^e Ou रेफः; aussi रेफस् et रेपस्. — ^f वाप्य-अवम-अधम. — ^g कुत्सित-अवय. — ^h गर्ह्य-अणक ou आणकः; aussi अणकः. — ⁱ Également म्लानं. — ^j Ou शून्यं. — ^k Invariablement neutre; des exemples de ce mot employé au masculin et au féminin sont des licences poétiques. — ^l प्रवेक-अनुत्तम-उत्तम. — ^m Aussi मुखः.

- 1 परार्द्धाय^a-प्राग्रह-प्राग्याग्याग्रीयम्^b अग्रियं ॥ ७ ॥
- 2 श्रेयान् श्रेष्ठः पुष्कलः [स्यात्] सत्तमश् [चा-]-तिशोभने^c ।
- 3 [स्युर् उत्तरपदे] व्याघ्र-पुङ्गवर्षभ^d-कुञ्जराः ॥ ८ ॥
- 4 सिंह-शार्ङ्गल-नागा-[-द्याः^e पुंसि श्रेष्ठार्थगोचराः] ।
- 5 अप्राग्यं [द्वयहीने द्वे] अप्रधानोपसर्तने^f ॥ ९ ॥
- 6 विशङ्कटं पृथु वृहद् विशालं पृथुलं महत् ।
- 7 वङ्गे^g विपुलं
- 8 पीन-पीवी [तु] स्थूल-पीवे ॥ १० ॥
- 9 स्तोकाल्प^h-क्षुब्धकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं द्रुमं कृशं तनु ।
- 10 [स्त्रियां] मात्रा त्रुटीⁱ [पुंसि] लव^j-लेश-कणाणवः^k ॥ ११ ॥
- 11 अत्यल्पेऽल्पिष्ठम् अल्पीयः कणीयो^lऽणीय [इत्यपि] ।

(2) Excellent [quelques-uns réunissent cet article au précédent; d'autres y comprennent les deux dernières lignes du même précédent article; d'autres, la dernière ligne et une demie: ce qui fait en tout quatorze mots]. — (3, 4) Prééminent [en composition, comme *pouroucha-vyāghra*, homme supérieur; *mouni-poungava*, sage éminent]. — (5) Secondaire, subordonné. — (6, 7) Grand. — (8) Épais, large. — (9, 10) Petit, mince [un auteur divise cet article en quatre, faisant signifier aux trois premiers termes *petit*, aux cinq suivants *menu*, aux deux suivants *très-menu*, et aux quatre derniers *atomistique*]. — (11) Très-petit [quelques-uns omettent

^a परार्द्ध-अग्र. — ^b प्राग्रह-अग्रय-अग्रीय [aussi अग्रणीः]. — ^c अतिशोभने. — ^d पुङ्गव-क्षुब्धभ. — ^e Outre d'autres termes comme मुखः, चन्द्रः, etc. — ^f अप्रधान-उपसर्तन. — ^g वङ्ग-[également वङ्ग]-उरु. — ^h स्तोक-अल्प. — ⁱ Ou त्रुटिः; ce mot et le précédent sont invariablement féminins. — ^j Ce mot et les trois suivants sont invariablement du masculin, mais quelques-uns les font changer de genre; d'autres restreignent les trois premiers mots au sens abstrait. — ^k कणा-[aussi कणी ou कणिका fém.] अणु. — ^l Aussi कनीयम्.

- 1 प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यम् अदभ्रं वल्लुं वल्लु ॥ १२ ॥
 2 पुरुहं^a पुरु भूयिष्ठं स्फिरं भूयश्^b [च] भूरि [च] ।
 3 परःशता^c -[-द्यास् ते येषां परा संख्या शतादिकात्] ॥ १३ ॥
 4 गणनीये [तु] गणयं
 5 संख्याते गणितम्
 6 [अथ] समं सर्वं ।
 7 विश्वम् अशेषं कृत्स्नं समस्त-निखिलाखिलानि^d निःशेषं ॥ १४ ॥
 8 समग्रं सकलं पूर्णम्^e अखण्डं [स्याद्] अनूनके^f ।
 9 घनं निरन्तरं सान्द्रं
 10 पेलवं विरलं तनु ॥ १५ ॥
 11 समीपे निकटासन^g-सन्निकृष्ट-सनीउ-[-वत्] ।
 12 सदेशाभ्यास^h -सविध-समर्याद-सवेशⁱ -[-वत्] ॥ १६ ॥
 13 उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा^j [अप्य्] अभितो [ऽव्ययं] ।
 14 संसक्ते [त्] अव्यवहितम् अपदान्तरम्^k [इत्यपि] ॥ १७ ॥

cette ligne]. — (1, 2) Beaucoup, nombreux. — (3) Qui excède cent. — (4) Qui se compte. — (5) Compté, énuméré. — (6-8) Tout, entier. — (9) Épais, gros [sans interstices]. — (10) Délicat, fin [avec interstices]. — (11-13) Près, prochain. — (14) Contigu, qui touche.

^a Également पुरुह. — ^b Aussi भूमन्. — ^c Dans ce mot composé, le premier est indéclinable, ce qui fait परःशतः, परःशता, परःशतं m. f. n., mais d'autres le font varier avec le genre; ex. neut. परं शतं plus de cent; de même : परः सहस्रः [परं सहस्रं] plus de mille, परोत्तमः plus de cent mille. — ^d निखिल-अखिल. — ^e Également पूर्ण. — ^f Aussi अनूनं. — ^g निकट-आसन. — ^h सदेश-अभ्यास [ou अभ्यासः]. — ⁱ Aussi सवेशः. — ^j उपकण्ठ-अन्तिक-अभ्यर्णा-अभ्यग्रा. — ^k Également अपदान्तरं.

- 1 नेदिष्ठम् अन्तिकतमं^a
 2 [स्याद्] दूरं विप्रकृष्टकं^b ।
 3 द्वीयश् [च] द्विष्ठं [च] सुदूरं
 4 दीर्घम् आयतं ॥ १८ ॥
 5 वर्तुलं निस्तलं वृत्तं
 6 बन्धुरं^c [तू-]न्नतानतं^d ।
 7 उच्च-प्रांशून्नतोदयोच्छ्रितास्^e तुङ्गे^f
 8 [ऽथ] वामने ॥ १९ ॥
 9 न्यङ्-नीच-खर्व^g-ऋस्वाः [स्यूर]
 10 अवाग्रेऽवनतानतं^h ।
 11 अरालं वृजिनं जिलम् ऊर्मिमत् कुञ्चितं नतं ॥ २० ॥
 12 आविद्धं कुटिलं भुगं वेल्लितं वक्रम् [इत्यपि] ।
 13 ऋजाव्ⁱ अजिल-प्रगुणौ
 14 व्यस्ते [त्व] अप्रगुणाकुलौ^j ॥ २१ ॥
 15 शाश्वतस् [तु] ध्रुवो नित्य-सदातन-सनातनाः ।

(1) Très-proche. — (2) Éloigné. — (3) Très-éloigné. — (4) Long. — (5) Rond [soit circulaire, soit globuleux]. — (6) Inégal, onduleux [selon quelques-uns, naturellement égal, mais déprimé dans quelques endroits artificiellement]. — (7) Haut; élevé [quelques-uns font l'article précédent synonyme de celui-ci]. — (8, 9) Court. — (10) Qui penche, qui se baisse. — (11, 12) Courbé [selon quelques-uns, l'article précédent est synonyme de celui-ci]. — (13) Droit. — (14) Confondu. — (15) Éternel.

^a Aussi अन्तिकं. — ^b Et विप्रकृष्टं. — ^c Et बन्धुरं. — ^d अन्नतानतं. — ^e प्रांशु-अन्नत-उदग्र-उच्छ्रित. — ^f Aussi उन्नतः. — ^g Ou खर्व. — ^h अवनत-अनतं; aussi नतं. — ⁱ ऋजुः.

^j अप्रगुणा-आकुल.

- 1 स्याद्भुः स्थिरतरः स्थियान्
 2 [एकहूपतया तु यः ॥ २२ ॥
 3 कालव्यापी स] कूटस्थः
 4 स्यावरो [जङ्गमेतरः] ।
 5 चरित्तुर जङ्गम-चरं त्रसम् इङ्गं चराचरं ॥ २३ ॥
 6 चलनं^a कम्पनं कम्पं चलं लोलं चलाचलं ।
 7 चञ्चलं तरलं [चैव] पारिप्लव-परिप्लवे ॥ २४ ॥
 8 अतिरिक्तः समधिको
 9 दृढसन्धिस् [तु] संहृतः ।
 10 कक्वाटं^b कठिनं क्वारं कठोरं^c निष्ठुरं दृढं ॥ २५ ॥
 11 जठरं^d
 12 मूर्तिमन् मूर्तं
 13 प्रवृद्धं प्रौढम् एधितं ॥ २६ ॥
 14 पुराणे प्रतनं प्रत्न-पुरातन-चिरन्तनाः ।

(1) Permanent, ferme [selon quelques-uns, cet article est synonyme du précédent]. — (2, 3) Uniforme, perpétuellement le même [comme l'âme, l'espace éthéré]. — (4) Immobile. — (5) Mobile, qui se meut. — (6, 7) Qui tremble, qui remue [selon quelques-uns, les trois premiers termes signifient *sujet à trembler*, et les sept derniers *tremblant*; selon d'autres, les trois premiers termes signifient *qui se meut*, et les sept derniers *qui branle*]. — (8) Qui excède. — (9) Fortement lié [quelques-uns appliquent ces termes à un homme dont les membres sont fortement attachés, d'autres, à une chose qui n'a pas d'interstices]. — (10, 11) Fort, solide. — (12) Matériel, corporel [quelques-uns réunissent cet article au précédent]. — (13) Qui a fait toute sa crue. — (14) Vieux, ancien.

^a Aussi चपलं et चटलं. — ^b Aussi लक्वटं. — ^c Ou कठोलं. — ^d Ou जठं.

- 1 प्रत्यग्रो ऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ।
 2 नूतन्श्च [च]
 3 सुकुमारं [तु] कोमलं मृदुलं मृदु ॥ २७ ॥
 4 अन्वग् अन्वक्षम् अनुगे ऽनुपठं [क्लीवम् अव्ययं] ।
 5 प्रत्यक्षं^a [स्याद्] ऐन्द्रियकं
 6 अप्रत्यक्षम्^b अतीन्द्रियं ॥ २८ ॥
 7 एकतानो ऽनन्यवृत्तिर् एकाग्रैकायनाव्^c [अपि] ।
 8 [अप्य्] एकसर्गं एकाग्र्यो [ऽप्य्] एकायनगतो [ऽपि च] ॥ २९ ॥
 9 [पुंस्य्] आदिः^d पूर्व-पौरस्त्य-प्रथमाद्या^e
 10 [अथास्त्रियां] ।
 11 अन्तो^f जघन्यं चरमम् अज्य-पाश्चात्य^g-पश्चिमाः^h ॥ ३० ॥
 12 मोघं निरर्थकं
 13 स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तम् उल्लेखं ।
 14 साधारणं [तु] सामान्यम्
 15 एकाकी [त्] एक एककः ॥ ३१ ॥

(1, 2) Nouveau. — (3) Doux. — (4) Suivant. — (5) Perceptible [ou perçu, présent]. — (6) Imperceptible [ou inaperçu, absent]. — (7, 8) Parfaitement attentif [ayant l'esprit fixé attentivement sur un seul objet]. — (9) Premier, initial. — (11) Dernier. — (12) Vain, inutile. — (13) Apparent, évident. — (14) Commun. — (15) Seul, solitaire.

^a Également समक्षं. — ^b Aussi अनध्यक्षं; également परोक्षं. — ^c एकाग्र - एकायन. — ^d Invariablement masculin. — ^e प्रथम-आद्य; aussi आदिमः et अग्रिमः. — ^f Même avec un nom féminin, ce mot reste masculin ou neutre. — ^g Quelques-uns écrivent पाश्चात्त्य. — ^h Aussi अन्तिमः.

- 1 भिन्ना-[-र्थका] अन्यतर^a एकस् त्वो^b अन्यतराव्^c [अपि] ।
 2 उच्चावचं नैकभेदं
 3 उच्चण्डम् अविलम्बितं^d ॥ ३२ ॥
 4 अरुन्तुदस् [तु] मर्मस्पृग्
 5 अवाधं [तु] निर्गलं ।
 6 प्रसव्यं प्रतिकूलं [स्याद्] अपसव्यम् अपष्टु [च] ॥ ३३ ॥
 7 वामं [शरीरं] सव्यं [स्याद्]
 8 अपसव्यं^e [तु] दक्षिणं ।
 9 सङ्कटं [ना तु] सम्बाधः^f
 10 — कलिलं गहनं [समे] ॥ ३४ ॥
 11 सङ्कीर्णं^g सङ्कुलाकीर्णं^h
 12 मुण्डितं परिवापितं ।
 13 ग्रन्थितंⁱ सन्धितं^j दृढ्यं
 14 विस्मृतं विस्तृतं ततं ॥ ३५ ॥
 15 अन्तर्गतं विस्मृतं [स्यात्]

(1) Autre, différent. — (2) Divers, varié. — (3) Vif, expéditif. — (4) Aigu, corrosif. — (5) Inobstrué. — (6) Contraire. — (7) Gauche. — (8) Droit. — (9) Étroit. — (10) Impraticable. — (11) Mêlé, confus [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (12) Rasé. — (13) Attaché, lié. — (14) Répandu, étendu. — (15) Oublié.

* * Quelques-uns lisent एकतरः. — ^b त्वः, résultant des deux pronoms radicaux त्व et त्वत् qui diffèrent dans l'accentuation. — ^c अन्य-तर. — ^d Ou अविलम्बनं. — ^e Ou अवसव्यं; selon quelques-uns, l'un des termes explique l'autre. — ^f Invariablement masculin. — ^g Aussi प्रङ्कीर्णं. — ^h संकुल-आकीर्णं. — ⁱ Ou ग्रथितं; aussi गुम्फितं et गुफितं. — ^j Ou मर्दितं, également मर्दितं.

- 1 प्राप्न-^a प्रणिहिते [समे] ।
 2 वेल्लितं प्रेक्षिताधूत^b -चलिताकम्पिता^c ध्रुते ॥ ३६ ॥
 3 नुत्त-नुन्नास्त^d निष्कृताविद्ध^e -क्षिप्रेरिताः^f [समाः] ।
 4 परिक्षिप्यं [तु] निवृतं
 5 मूषितं मुषिता-[-र्थकं] ॥ ३७ ॥
 6 प्रवृद्ध-प्रसृते
 7 न्यस्त-निसृष्टे
 8 गुणिताकृते^g ।
 9 निदिग्धोपचिते^h
 10 गूढ-गुप्ते
 11 गुण्डितⁱ -रूषिते ॥ ३८ ॥
 12 द्रुतावदीर्णे^j
 13 उद्गूर्णीयते^k
 14 काचित-शिव्यते ।
 15 घ्राण-घ्राते
 16 दिग्ध-लिप्ते

(1) Placé [aussi, obtenu]. — (2) Ébranlé. — (3) Jeté, lancé, envoyé. — (4) Retranché, entouré. — (5) Volé. — (6) Étendu, dispersé. — (7) Déposé. — (8) Multiplié. — (9) Enduit. — (10) Caché. — (11) Pilé, broyé. — (12) Fondu. — (13) Levé, élevé. — (14) Suspendu dans un filet. — (15) Senti, flairé. — (16) Barbouillé, oint.

^a Et व्याप्न. — ^b प्रेक्षित-आधूत. — ^c चलित-आकम्पित. — ^d नुत्त-आस्त. — ^e निष्कृत-आविद्ध. — ^f क्षिप्य-ईरित. — ^g गुणित-आकृत. — ^h निदिग्ध-उपचित. — ⁱ Ou गुण्डित. — ^j द्रुत-अवदीर्ण. — ^k उद्गूर्ण-उद्यत.

- 1 समुदक्तोद्धृते^a [समे] ॥ ३८ ॥
 2 वेष्टितं [स्याद्] बलयितं संवीतं रुद्धम् आवृतं ।
 3 ह्य-भुग्रे
 4 [सथ] निशित-क्षुत-शातानि^b तेजिते ॥ ४० ॥
 5 [स्याद्] विनाशोन्मुखं पक्वं
 6 क्रीण-क्रीतौ [तु] लञ्जिते ।
 7 वृते [तु] वृत्त-वावृत्तौ^c
 8 संयोजितः^d उपाहितः ॥ ४१ ॥
 9 प्राप्यं गम्यं समासाद्यं
 10 स्यन्नं रीणं सुतं सुतं ।
 11 संगूढः [स्यात्] सङ्कलितो
 12 स्वगीतः ल्यातगर्हणः ॥ ४२ ॥
 13 विविधः [स्याद्] बहुविधो नानानूपः पृथग्विधः ।
 14 अवरीणो धिक्कृतश् [चाप्]
 15 अवध्वस्तो^e स्वचूर्णितः ॥ ४३ ॥

(1) Tiré d'un endroit profond. — (2) Entouré [quelques-uns restreignent aux deux premiers termes la signification d'entouré, et aux trois autres celle de mis à l'abri des approches]. — (3) Penché, courbé. — (4) Aiguisé. — (5) Mûr. — (6) Honteux. — (7) Choisi, appointé. — (8) Joint, annexé. — (9) Qu'on peut atteindre. — (10) Qui coule, qui dégoutte. — (11) Arrangé, amassé [ou, suivant une autre interprétation, mis en contact]. — (12) Mal famé, qui a une mauvaise réputation. — (13) Varié, multiforme. — (14) Censuré, blâmé. — (15) Grossièrement broyé.

समुदक्त-उद्धृत. — ^b Aussi निप्रातं. — ^c Quelques-uns, désapprouvant la racine de ce mot, lisent व्यावृत्तः; aussi आवृत्तः. — ^d Ou संयोगितः. — ^e Aussi अपध्वस्तः.

1 अनायासकृतं फ्लाण्टं

2 स्वनितं ध्वनितं [समे] ।

3 बद्धे सन्धानितं मृतम्^a उद्धितं^b सन्धितं सितं ॥ ४४ ॥

4 निष्पञ्चे द्वाधितं

5 [पाके क्षीराज्यपयसां] शृतं ।

6 निर्वाणो [मुनिवह्नादौ]

7 निर्वातस् [तु गते ऽनिले] ॥ ४५ ॥

8 पक्वं परिणते

9 गूनं ह्मे

10 मीढं [तु] मूत्रिते ।

11 पुष्टे [तु] पुषितं

12 सोढे शान्तं

13 उद्धान्तम्^c उद्धते ॥ ४६ ॥

14 दान्तस् [तु] दमिते

15 शान्तः शमिते

(1) Décoction délayée [faite par une préparation simple et sur-le-champ]. — (2) Qui résonne, qui fait du bruit. — (3) Attaché, lié. — (4) Préparé en décoction. — (5) Bouilli [comme l'eau, le lait, ou le beurre liquide]. — (6) Parvenu au terme [comme : un saint parvenu à la béatitude, un feu qui s'est éteint, un animal qui est infirme, etc.]. — (7) Devenu calme [comme le vent qui cesse de souffler]. — (8) Mûr, qui est à sa maturité. — (9) Évacué [comme les excréments]. — (10) Évacué [comme l'urine]. — (11) Nourri. — (12) Porté [aussi, patient]. — (13) Vomi. — (14) Dompté, dressé, formé. — (15) Pacifié, apaisé.

^a Et मूर्णं. — ^b Et उद्धितं. — ^c Également उद्धानं et उद्धानं ou उद्धान्तं.

- 1 वरिवसिते वरिवस्थितम् उपासितं [चो-]-पचरितं^a [च] ॥ ५१ ॥
- 2 सन्तापित-सन्तप्तौ धूपित-धूपायितौ [च] दूनश् [च] ।
- 3 हृष्टे मत्तस् तृप्तः प्रहृष्टः प्रमुदितः प्रीतः ॥ ५२ ॥
- 4 क्लिप्तं द्यातं लूनं कृत्तं द्यातं दितं क्लितं वृक्कां ।
- 5 स्रस्तं ध्वस्तं भ्रष्टं स्कन्नं पन्नं च्युतं गलितं ॥ ५३ ॥
- 6 लब्धं प्राप्तं विन्नं भावितम् आसादितं [च] भूतं [च] ।
- 7 अन्वेषितं गवेषितम् अन्विष्टं मार्गितं मृगितं ॥ ५४ ॥
- 8 आर्द्रं सार्द्रं क्लिप्तं तिमितं स्तिमितं समुन्नम् उत्तं [च] ।
- 9 त्रातं त्राणं रक्षितम् अवितं गोपायितं गुप्तं ॥ ५५ ॥
- 10 अवगणितम् अवमतावज्ञाते^b ऽवमानितं [च] परीभूते^c ।
- 11 त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्झितं धूतम् उत्सृष्टं ॥ ५६ ॥
- 12 उक्तं भाषितम् उदितं जल्पितम् आख्यातम् अभिहितं लपितं ।
- 13 बुद्धं बुधितं मनितं विदितं प्रतिपन्नम् अवसितावगते^d ॥ ५७ ॥
- 14 ऊरीकृतम्^e उररीकृतम् अङ्गीकृतम् आश्रुतं प्रतिज्ञातं ।
- 15 संगीर्ण-विदित-संश्रुत^f -समाहितोपश्रुतोपगतं^g ॥ ५८ ॥

(1) Servi, adoré. — (2) Qui souffre de la peine. — (3) Satisfait, joyeux, content. — (4) Coupé. — (5) Tombé. — (6) Obtenu. — (7) Cherché. — (8) Humide, moite. — (9) Préservé, sauvé, gardé. — (10) Dédaigné, méprisé. — (11) Abandonné, laissé. — (12) Dit, énoncé. — (13) Connu, compris. — (14, 15) Promis.

giti. L'édition de Sérampour offre plusieurs vers incorrects que j'ai rectifiés avec le secours de l'édition de Calcutta ou des manuscrits.] — ^a उपचरितं. — ^b अवमत-अवज्ञात. — ^c Le mètre exige परीभूते, mais les éditions et les MSS. donnent परिभूते. — ^d अवसित-अवगत. — ^e Et उरीकृतं. — ^f Aussi प्रतिश्रुत. — ^g समाहित-उपश्रुत-उपगत; j'ai suivi pour ce vers le MS. bengali.

- 1 ईलित-शस्त-पणायित-पनायित-प्रणुत-पणित-पनितानि ।
 2 अपिगीर्ण^a-वर्णिताभिष्टुतेडितानि^b स्तुता-[-र्थानि] ॥ ५८ ॥
 5 भक्षित-चर्वित-लिप्र^c-प्रत्यवसित-गिलित^d-खादित-प्सातं ।
 4 अभ्यवहृतान^e-जग्ध^f-ग्रस्त-ग्लस्ताशितं^g भुक्तं ॥ ६० ॥
 5 क्षेपिष्ठ¹-क्षोद्विष्ठ²-प्रेष्ठ³-वरिष्ठ⁴-स्यविष्ठ⁵-वंद्विष्ठाः⁶ ।
 6 [क्षिप्र-क्षुद्राभीप्सित-पृथु-पीव-वहु^h-प्रकर्षार्थाः] ॥ ६१ ॥
 7 साधिष्ठ⁷-द्राविष्ठ⁸-स्फेष्ठ⁹-गरिष्ठ¹⁰-रुसिष्ठ¹¹-वृन्द्विष्ठाः¹² ।
 8 [वाढ-व्यायत-वहु-गुरु-वामन-वृन्द्वारकातिशये] ॥ ६२ ॥

CHAPITRE III.

MOTS DIVERS.

- 9 [प्रकृतिप्रत्ययाद्यर्थैःⁱ सङ्कीर्णं लिङ्गम् उन्नयेत्] ।
 10 कर्म^j क्रिया
 11 [तत्सातत्ये गम्ये स्युर] अपरस्परः^k ॥ १ ॥

(1, 2) Loué. — (3, 4) Mangé. — (5-9) Superlatifs irréguliers : ¹ très-vite; ² très-petit; ³ très-cher; ⁴ très-large; ⁵ très-corpulent; ⁶ très-nombreux; ⁷ très-solide; ⁸ très-long; ⁹ très-ferme; ¹⁰ très-lourd; ¹¹ très-court; ¹² très-abondant. — (10) Action. — (11) Continuél [sous le rapport de l'action].

^a Et गोर्णं. — ^b वर्णित-अभिष्टुत-ईडित. — ^c Également लीढं. — ^d Et गिरितं. — ^e अभ्यवहृत-अन्न. — ^f Aussi जग्ध. — ^g ग्लस्त-असित. — ^h बहु (MS. beng.), बहुल (Édit. Sér.). — ⁱ प्रकृतिप्रत्ययार्थाद्यैः (Édit. Calc. — MSS.) — ^j Une autorité fait ce mot masculin et neutre dans ses deux acceptions d'action et d'acte; d'autres ajoutent, dans les deux genres, कर्म: et कर्म. — ^k S'emploie adjectivement et adverbialement अपरस्परं.

- 1 [साकल्यासङ्गवचने] पारायण-^a
 2 -परायणे^b ।
 3 यदृच्छा स्वरिता^c
 4 [हेतुशून्या त्व् आस्था] विलक्षणं ॥ २ ॥
 5 शमथस् [तु] शमः शान्तिर्
 6 दान्तिस् [तु] दमथो दमः ।
 7 अवदानं^d [कर्मवृत्तं]
 8 काम्यदानं प्रवारणं^e ॥ ३ ॥
 9 वशक्रिया संवदनं^f
 10 मूलकर्म [तु] कार्माणं ।
 11 विधूननं विधुवनं^g
 12 तर्पणं प्रीणनावनं^h ॥ ४ ॥
 13 पर्याप्तिः [स्यात्] परित्राणं हस्तवारणम्ⁱ [इत्यपि] ।

(1) Totalité. — (2) Adh rence, attachement. — (3) Obstination, in-
 d pendance. — (4)  tat vain et inutile. — (5) Repos [absence de pas-
 sion]. — (6) Action de se ma triser [de supporter les aust rit s]. —
 (7) Occupation approuv e [selon quelques-uns, acte accompli]. —
 (8) Don d sirable. — (9) Action de soumettre par des charmes [de
 mettre quelqu'un en sa puissance par des drogues, charmes ou incanta-
 tions, ou drogues et charmes par le moyen desquels on effectue cela]. —
 (10) Magie. — (11) Tremblement. — (12) Satisfaction [action de plaire,
 ou  tat d'une personne satisfaite]. — (13) Action de parer un coup.

^a Invariablement neutre, m me avec des noms d'un autre genre. — ^b Quelques-
 uns lisent तुरायणं et त्वरायणं. — ^c Aussi स्वैरता et स्वैरिता (*Wils. Dict. — MSS.*).
 — ^d Aussi अवदानं. — ^e  galement प्रहारणं. — ^f Ou संवदना; aussi संवननं. — ^g Et
 विधुननं. — ^h प्रीणान-अवनं. — ⁱ Ou हस्तधारणं.

1 सेवनं सीवनं स्यूतिर्

2 विद्वः स्फुटनं^a भिदा ॥ ५ ॥

3 आक्रोशनम् अभीषङ्गः^b

4 संवेद्यो वेदना [न ना] ।

5 सम्मूर्च्छनम् अभिव्याप्तिर्

6 याञ्जा भिक्षार्थनार्दना^c ॥ ६ ॥

7 वर्द्धनं वेदने

8 [ऽथ द्वे] आनन्दन^d-सभाजने^e ।

9 आप्रच्छनम्

10 [अथा-]-घ्नयः^f सम्प्रदायः

11 क्षये क्षिया ॥ ७ ॥

12 ग्रहे ग्राहो

13 वशः कान्तो^g

14 रक्षणस्^h त्राणे

15 रणःⁱ त्राणे ।

(1) Action de coudre; — (2) — de déchirer, de rompre. — (3) Malédiction, imprécation. — (4) Sensation, perception. — (5) Action de s'étendre, de pénétrer; — (6) — de demander; — (7) — de couper. — (8, 9) Courtoisie, bienvenue ou adieu [civilité faite à un ami en le recevant ou en prenant congé de lui; action de l'embrasser, de s'enquérir de ses nouvelles, de lui dire adieu]. — (10) Doctrine reçue [traditionnelle et juste]. — (11) Perte. — (12) Action de prendre [soit par saisie, soit par acceptation]. — (13) Souhait, désir. — (14) Protection, défense. — (15) Bruit, vacarme.

^a Et स्फोटनं. — ^b Ou अभीषङ्गः. — ^c भिक्षा, अर्थना, अर्दना. — ^d Et ग्रामन्त्रपां. —

^e Aussi स्वभाजनं. — ^f आघ्नयः. — ^g कान्ति. — ^h Quelques-uns lisent रक्षा. — ⁱ Et वयाः.

- 1 व्यधो वेधे
 2 पचा पाके
 3 ह्वो व्रूतो
 4 वरो वृतो ॥ ८ ॥
 5 ओषः प्रोषे^a
 6 नयो नायै
 7 ज्यानिर् जीर्णै
 8 भ्रमो भ्रमो ।
 9 स्फातिर् वृद्धौ
 10 प्रथा ब्याती
 11 स्पृष्टिः पृत्तौ
 12 स्रवः स्रवे^b ॥ ९ ॥
 13 एधा^c समृद्धौ
 14 स्फुरणं^d स्फुरणे^e
 15 प्रमितौ प्रमा ।

(1) Action de perforer, de percer. — (2) Maturité. — (3) Appel, défi. — (4) Action d'engager, de prescrire [d'obtenir d'une personne d'entreprendre une affaire; les deux termes signifient aussi l'action de requérir et d'environner]. — (5) Combustion, brûlement. — (6) Action de guider, de diriger; — (7) — de s'user, de devenir vieux; — (8) — de tourner, d'aller autour. — (9) Accroissement, crue. — (10) Renommée, notoriété. — (11) Toucher, contact. — (12) Action de couler, de dégoutter; — (13) — de prospérer. — (14) Palpitation, battement de cœur. — (15) Connaissance véritable.

^a Aussi प्रोषः. — ^b Et स्रवः; aussi अत्रः. — ^c Quelques-uns lisent विधा. — ^d Et स्फुरणं ou स्फुरणं; aussi स्फुरः et स्फुरणा. — ^e Également स्फुरणं.

- 1 प्रसूतिः प्रसवे
 2 श्रुते^a प्राध्वारः
 3 क्लमथः क्लमे ॥ १० ॥
 4 उत्कर्षी ऽतिशये
 5 सन्धिः श्लेषे
 6 विषय आशये^b ।
 7 क्षिपायां क्षेपणं
 8 गीर्णिरू गिरौ^c
 9 गुरणाम्^d उद्यमे ॥ ११ ॥
 10 उन्नय उन्नये
 11 आयः अयणे
 12 जयने जयः^e ।
 13 निगादो निगदे
 14 मादो मद
 15 उद्वेग उद्वमे ॥ १२ ॥
 16 विमर्दनं परिमले

(1) Action de mettre bas, d'accoucher; — (2) — de verser, aspersion. — (3) Fatigue. — (4) Prééminence. — (5) Union, jonction. — (6) Refuge, asile. — (7) Action d'envoyer, de diriger [aussi, de passer le temps]; — (8) — d'avalier. — (9) Effort, opération. — (10) Action d'élever; — (11) — de chercher un refuge. — (12) Conquête, victoire. — (13) Discours, harangue. — (14) Orgueil [aussi, joie]. — (15) Regret. — (16) Trituration de parfums.

^a Et च्योतः. — ^b Ou आश्रयः. — ^c Aussi गिलिः et गिलनं. — ^d Également गूरणं et गोरणं. — ^e Selon une autre lecture, जयनं, जयः « répétition à voix basse. »

1 ऽभ्युपपत्तिर् अनुग्रहः ।

2 नियहस्^a [तद्विरुद्धः स्याद्]

3 अभियोगस् [त्] अभिग्रहः ॥ १३ ॥

4 मुष्टिबन्धस् [तु] संग्राहो

5 उन्म्वे उमर^b-विप्लवौ ।

6 बन्धनं प्रसितिश् चारः^c

7 स्पर्शः^d स्पष्टोपतप्ररि^e ॥ १४ ॥

8 निकारो विप्रकारः [स्याद्]

9 आकारस् [त्] इङ्ग इङ्गितः^f ।

10 परिणामो विकारो [द्वे समे] विकृति-विक्रिये ॥ १५ ॥

11 अपहारस् [त्] अपचयः

12 समाहारः समुच्चयः ।

(1) Action de procurer un avantage [en faisant le bien ou en empêchant le mal]. — (2) Défauteur. — (3) Attaque, charge [selon quelques-uns, défi, provocation]. — (4) Action de fermer le poing. — (5) Tuulte, assaut [combat sans armes; aussi, action d'effrayer l'ennemi par des clameurs et des gestes; également, dévastation et guerre irrégulière et de déprédation]. — (6) Lien, fers. — (7) Chaleur morbide [quelques-uns séparent le vers entier en trois articles au lieu de deux, savoir : lien, devoir d'un espion (*tchârah spas'ah*), chaleur morbide. — (8) Injustice, tort [aussi méchanceté]. — (9) Signe, marque [indication d'un sentiment]. — (10) Changement de forme [quelques-uns, distinguant les termes, font signifier aux deux premiers *changement total*, et aux deux autres, *altération partielle et temporaire*]. — (11) Perte. — (12) Assemblage [action d'as-

^a Ou विग्रहः; aussi, suivant une autre leçon, निरोधः et विरोधः avec la signification de *contrainte* ou *emprisonnement*. — ^b Et उमरः. — ^c Quelques-uns lisent स्वारः et réunissent ce mot à l'article suivant. — ^d Aussi स्पर्शः. — ^e स्पष्ट [ou स्पष्ट] उपतप्त.

— ^f Aussi neutre (*Wils. Dict. — MSS.*).

- 1 प्रत्याहार उपादानं
 2 विहारस् [तु] परिक्रमः ॥ १६ ॥
 3 अभिहारो^a ऽभिग्रहणं
 4 निर्हारो ऽभ्यवकर्षणं ।
 5 अनुहारो ऽनुकारः [स्यात्]
 6 [अर्थस्यापगमे] व्ययः ॥ १७ ॥
 7 प्रवाहस् [तु] प्रवृत्तिः [स्यात्]
 8 प्रवहो [गमनं वहिः] ।
 9 वियामो वियमो यामो यमः संयाम-संयमौ ॥ १८ ॥
 10 हिंसाकर्माभिचारः^b [स्यात्]
 11 जागर्या^c जागरा [द्वयोः] ।
 12 विघ्नो ऽन्तरायः प्रत्यूरुः
 13 [स्यात्] उपघ्नो ऽन्तिकाश्रये ॥ १९ ॥
 14 निर्वेश उपभोगः [स्यात्]

sembler en fait ou en pensée]. — (1) Abstraction [répression des organes des sens; aussi, abrégé]. — (2) Promenade par partie de plaisir. — (3) Brigandage [ou saisie d'une chose en présence du propriétaire]. — (4) Extraction, action d'extraire. — (5) Imitation. — (6) Dépense. — (7) Courant [ou flux continu; également, commencement d'action]. — (8) Action de sortir, d'aboutir. — (9) Patience [cette ligne est divisée par quelques-uns en trois articles; les deux premiers termes signifiant *détresse diverse*, les deux autres *décès*, et les deux derniers *patience*]. — (10) Charme magique pour détruire quelqu'un. — (11) Action de veiller, de s'éveiller. — (12) Obstacle, empêchement. — (13) Soutien contigu [comme un arbre pour une plante grimpante]. — (14) Jouissance.

^a Également अभ्याहारः. — ^b हिंसाकर्म, अभिचारः. — ^c Aussi जाग्रिया et जागर्तिः; également जागरणं.

परिसर्पः परिक्रिया ।

विधुरं [तु] प्रविश्लेषो

ऽभिप्रायश् छन्द^a आशयः ॥ २० ॥

संक्षेपणं समसनं

पर्यवस्था^b विरोधनं ।

परिसर्या^c परीसारः

[स्याद्] आस्या [त्] आसना स्थितिः ॥ २१ ॥

विस्तारो^d विग्रहो व्यासः

[स च शब्दस्य] विस्तरः ।

[स्यान्] मर्दनं संवाहन

विनाशः [स्याद्] अद्दर्शनं ॥ २२ ॥

संस्तवः [स्यात्] परिचयः

प्रसरस् [तु] विसर्पणं ।

नीवाकस् [तु] प्रयामः [स्यात्]

सन्निधिः^e सन्निकर्षणं ॥ २३ ॥

लवोऽभिलावो लवने

(1) Action d'environner, d'entourer. — (2) Séparation. — (3) Intention, projet. — (4) Abrégé. — (5) Contradiction. — (6) Perambulation [action de se mouvoir autour, sur le terrain; selon quelques-uns, action de s'approcher très-près]. — (7) Séjour, demeure. — (8) Diffusion. — (9) Prolixité. — (10) Action de frotter une personne. — (11) Disparition. — (12) Connaissance. — (13) Action d'étendre. — (14) Disette, rareté. — (15) Proximité. — (16) Action de moissonner.

^a Masc. aussi neutre छन्दस्. — ^b Et प्रत्यवस्था. — ^c Ou परीसर्या. — ^d Et विस्तरः.

— ^e Aussi सन्निधं.

- 1 निष्पावः पवने पवः ।
 2 प्रस्तावः [स्याद्] अवसरः
 3 त्रसरः ^a सूत्रवेष्टनं ॥ २४ ॥
 4 प्रजनः [स्याद्] उपसरः
 5 प्रअय ^b-प्रणयौ [समौ] ।
 6 धीशक्तिर् निष्क्रमो
 7 [ऽस्त्री तु] संक्रामो ^c दुर्गसञ्चरः ^d ॥ २५ ॥
 8 प्रत्युत्क्रमः ^e प्रयोगार्थः ^f
 9 प्रक्रमः [स्याद्] उपक्रमः ।
 10 [स्याद्] अभ्यादानम् उद्घात ^g आरम्भः
 11 सम्भ्रमस् त्वरा ^b ॥ २६ ॥

(1) Action de vanner, de nettoyer. — (2) Occasion, opportunité. — (3) Navette de tisserand [aussi, action de tisser]. — (4) Première grossesse d'une vache [selon quelques-uns, saison de l'imprégnation; selon d'autres, premier accouplement d'une vache et d'un taureau, ou première imprégnation, ou simplement imprégnation par le taureau, ou gestation d'une vache]. — (5) Sollicitation affectionnée. — (6) Faculté intellectuelle [pouvoir de l'entendement, comme l'attention, la compréhension, le raisonnement, etc.]. — (7) Passage difficile [par un endroit presque impraticable]. — (8) Acte tendant à un objet principal. — (9, 10) Commencement [quelques-uns divisent cet article, faisant signifier aux deux premiers termes *premier commencement*, et aux trois derniers *commencement en général*; selon d'autres, les deux premiers signifient *commencement*, et les trois derniers *chose commencée*]. — (11) Hâte, précipitation.

^a Ou तसरः. — ^b Aussi प्रसरः. — ^c Et संक्रमः. — ^d Également सञ्चारः. — ^e Ou प्रत्युत्क्रान्तिः. — ^f Quelques-uns lisent प्रयुद्धार्यः et font signifier à cet article *commencement d'une bataille*; d'autres, *guerre* ou *combat*. — ^g Également उपोद्घातः. — ^b Et त्वरिः.

- 1 प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भो^a
 2 स्वनायस्^b [तु] निपातनं^c ।
 3 उपलम्भस् [त्] अनुभवः
 4 समालम्भो विलेपनं ॥ २७ ॥
 5 विप्रलम्भो विप्रयोगो
 6 विलम्भस् [त्] अतिसर्जनं ।
 7 विभ्रावस् [तु] प्रविख्यातिरू^d
 8 अवेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥
 9 निपाठ-निपठौ पाठे
 10 तेम-स्तेमौ समुद्भवे ।
 11 आद्येनवास्रवौ^e क्लेशे
 12 मेलके सङ्ग-सङ्गमौ^f ॥ २९ ॥
 13 संवीक्षणं^g विचयनं मार्गणं मृगणा मृगः^h ।
 14 परिग्मःⁱ परिघङ्गः संश्लेष उपगूहनं ॥ ३० ॥

(1) Empêchement. — (2) Action de faire descendre. — (3) Imagination [acte de concevoir autrement que par la mémoire]. — (4) Action de frotter [avec du safran, du bois de sandal, etc.]. — (5) Séparation de deux amants [aussi, solitude et désunion]. — (6) Libéralité [selon quelques-uns, action d'appointer, d'engager]. — (7) Célébrité. — (8) Attention. — (9) Lecture, action de lire. — (10) Humidité [selon une explication, humide]. — (11) Détresse causée par la maladie, etc. — (12) Union, assemblée. — (13) Recherche. — (14) Embrassement.

^a Également विष्टम्भः. — ^b Et अवनयः. — ^c Ou नियातनं. — ^d Aussi प्रतिख्यातिः. — ^e आद्येनव-आस्रव [ou आश्रवः]. — ^f Masc. aussi सङ्गमं et साङ्गमः. — ^g Également संवीक्षणं et संश्लेषणं. — ^h Quelques-uns lisent मृगया. — ⁱ Ou परिग्मः.

- 1 निर्वर्णनं [तु] निध्यानं दर्शनालोकनेक्षणं^a ।
- 2 प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यादेशे निराकृतिः ॥ ३१ ॥
- 3 उपशायो विशायश् [च पर्यायशयनार्थकौ] ।
- 4 अर्तनं [च] ऋतीया^b [च] हृणीया^c [च] वृणा-[-र्थकि] ॥ ३२ ॥
- 5 [स्याद्] व्यत्यासो विपर्यासो व्यत्ययश् [च] विपर्यये^d ।
- 6 पर्ययो^e ऽतिक्रमस् [तस्मिन्] अतिपात उपात्ययः ॥ ३३ ॥
- 7 [प्रेषणं यत् समाह्वय तत्र स्यात्] प्रतिशासनं ।
- 8 [स] संस्तावः [ऋतुषु या स्तुतिभूमिर् द्विजन्मनां] ॥ ३४ ॥
- 9 [निधाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठं स] उद्वनः ।
- 10 स्तम्बघ्नस् [तु] स्तम्बघनः^f [स्तम्बो येन निह्न्यते] ॥ ३५ ॥
- 11 आविधो [विध्यते येन तत्र]

(1) Vue, regard, action de regarder. — (2) Action de rejeter, désapprobation. — (3) Action de veiller alternativement. — (4) Censure, reproche. — (5) Contrariété, opposition [selon un commentateur, malentendu]. — (6) Transgression [quelques-uns font ces quatre termes, et d'autres les deux premiers seulement, synonymes des précédents]. — (7) Mission après appel [action d'envoyer un serviteur accomplir un message après l'avoir appelé]. — (8) Place où les prêtres se tiennent à un acte solennel de religion, récitant des hymnes et des prières. — (9) Banc de travail d'un charpentier. — (10) Outil pour couper le blé et l'herbe [pour arracher des touffes de plantes graminées; quelques-uns disent, pour couper les tiges; selon d'autres, il s'agit d'un panier destiné à recevoir les épis de blé indien, etc.]. — (11) Tarière [que l'on fait tourner au moyen d'une corde].

^a दर्शन-आलोकन-ईक्षण [selon une autre leçon, आलोकः et लक्षणं]. — ^b Aussi रोड्या. Un commentateur remarque que les deux mots ऋतीया et हृणीया, qui, à proprement parler, signifient *honte*, sont insérés ici par erreur. — ^c Également हृणीया ou द्विणीया ou ऋणीया. — ^d Et विपर्यायः. — ^e Et पर्यायः. — ^f Aussi स्तम्बघ्न-ननं, -नी.

- 1 [विष्वक्समे] निघः ।
 2 उक्ताश् [च] निकाश् [च द्वौ धान्योत्क्षेपणार्थकौ] ॥ ३६ ॥
 3 निगारोद्गार^a-विद्धावोद्ग्राहस्^b [तु गर्णादिषु^c] ॥ ३७ ॥
 4 आरत्य्-अवर्ति-विस्तय^d उपरामे^e
 5 [वा स्त्रियां तु] निष्ठेवः^f ।
 6 निष्ठूतिर् निष्ठेवन-निष्ठीवनम् [इत्यभिन्नानि] ॥ ३८ ॥
 7 ज्वने जूतिः^g
 8 सातिस् [त्] अवसाने [स्याद्]
 9 [अथ] ज्वे जूतिः ।
 10 उद्वजस् [तु] पशुप्रेरणम्
 11 अकरणिरू [इत्याद्यः^h शापे] ॥ ३९ ॥
 12 [गोत्रान्तेभ्यस् तस्य वृन्दम् इत्य्] औपगवका-[दिकंⁱ] ।

(1) Rond, cercle. — (2) Vannage du blé [ou action de le mettre en tas]. — (3) Les quatre termes cités ont chacun une signification différente : *nigāra*, action d'avaloir; *oudgāra*, vomissement; *vikchāva*, toux, quelques-uns disent bruit; *oudgrāha*, action d'enlever, aussi de répliquer dans l'argumentation. — (4) Action de s'arrêter, de cesser; — (5, 6) — de cracher. — (7) Rapidité. — (8) Conclusion [fin d'une action]. — (9) Fièvre. — (10) Action de conduire des bestiaux. — (11) Malédiction. — (12) Nom

^a निगार-उद्गार. — ^b विद्धाव-उद्ग्राह. — ^c [*Ce vers, dont j'ai fait un *ardhas'loka*, est joint au suivant dans l'édition de Sérampour et dans celle de Calcutta, ce qui est une faute évidente, ce dernier vers appartenant au mètre *ārya*, et devant former avec le suivant la stance 38. La stance 39 appartient au même mètre]. —

^d आरति-विरति. — ^e Ou उपरामः. — ^f Masculin et féminin; aussi neutre selon quelques-uns. — ^g Également जूतिः; quelques-uns ajoutent उतिः et अवनं. — ^h Et autres termes semblables d'imprécation, comme अन्ननिः, अजीवनिः, अवग्रहः, निग्रहः, etc.; तस्याजीवनिरू एवास्तु «Puisse-t-il ne pas vivre!» — ⁱ De même मार्गकं, une multi-

- 1 आपूपिकं शाष्कुलिकम् [खमायम् अचेतसां] ॥ ४० ॥
 2 [माणवानां तु] माणव्यं^a
 3 [सहायानां] सहायता ।
 4 हल्या [हलानां]
 5 ब्राह्मण्य-वाउव्ये [तु द्विजन्मनां] ॥ ४१ ॥
 6 [द्वे पर्शुकानां पृष्ठानां] पार्श्वं पृष्ठम् [अनुक्रमात्] ।
 7 [खलानां] खलिनी खल्या-[-प्य]
 8 [अथ] मानुष्यकं [नृणां] ॥ ४२ ॥
 9 ग्रामता जनता धूम्या पाश्या गल्या [पृथक् पृथक्] ।
 10 [अपि] साहस्र-कारीष-चार्मणाथर्वणा^b-[-दिकं^c] ॥ ४३ ॥

patronymique d'agrégation donné pour exemple dans le texte : *Aupagava-ka*, multitude de descendants d'*Oupagou*. — (1) Multitude de pains et de pâtés [respectivement; donné pour exemple de noms de multitude de choses inanimées]. — (2) Multitude d'enfants. — (3) — d'associés; — (4) — de charrues; — (5) — de brâhmanes; — (6) — de côtes et d'épines dorsales [respectivement]; — (7) — d'aires; — (8) — d'hommes; — (9) — de villages; — d'individus; — accumulation de fumée; — grande quantité de fers; — de roseaux [ou de cordes et de gorges, car *gala* a tous ces sens]; dans l'ordre. — (10) Millier; — abondance de bouse de vache; — de peaux ou de boucliers; — collection de prières ou de charmes donnés par le sage Atharva.

tude de descendants de Garga, दाक्षकं, — de Dakcha. — ^a Quelques-uns lisent मानव्यं. — ^b चार्मणा-आथर्वणा. — ^c Outre d'autres termes semblables, comme वार्मणां, assemblage de cottes de mailles; वार्मिणां, multitude d'hommes en armure; चार्मिणां, — d'hommes portant des boucliers; आङ्गारं, — de charbons brûlants ou brûlés; क्षेत्रं, — de champs.

CHAPITRE IV.

SECTION PREMIÈRE.

HOMONYMES SE TERMINANT PAR LA LETTRE क.

[नानार्थाः के ऽपि कान्ताद्विर्गध्विवात्र कीर्तिताः ।

भूरिप्रयोगा ये येषु पर्यायेष्वपि तेषु ते] ॥ १ ॥

1 [आकाशे त्रिदिवे] नाको

2 लोकस् [तु भुवने जने] ।

3 [पथे यशसि च] श्लोकः

4 [शरे खड्गे च] सायकः^a ॥ २ ॥

5 जम्बुकौ [क्रोष्टुवरुणौ]

6 पृथुकौ [चिपिटार्भकौ] ।

7 आलोकौ [दर्शनाद्योतौ]

8 [भेरीपटहम्] आनकौ ॥ ३ ॥

9 [उत्सङ्गचिद्गयोर्] अङ्कः

(1) 1° Ciel, éther; 2° paradis. — (2) 1° Monde; 2° peuple. — (3) 1° Vers; 2° gloire. — (4) 1° Flèche; 2° épée. — (5) 1° Chacal; 2° dieu de l'eau. — (6) 1° Riz frit, aplati; 2° enfant. — (7) 1° Vue, regard; 2° lumière. — (8) 1° Double tambour; 2° large tambour [quelques-uns renversent les explications: l'un des instruments est un grand tambour qu'on peut battre des deux côtés, l'autre d'un seul côté]. — (9) 1° Marque; 2° flanc [partie au-dessus de la hanche où les femmes placent leurs enfants en les portant; 3° chiffre ou figure; 4° acte d'un drame; ** 5° moucheté ou mar-

^a Ou शायकः; quelques-uns lisent शारकः.

- 1 कलङ्को [ऽङ्गापवाद्योः] ।
 2 तक्षको [नागवर्द्धक्योर्]
 3 अर्कः [स्फटिकसूर्ययोः] ॥ ४ ॥
 4 [मास्ते वेधसि ब्रध्रे पुंसि] कः
 5 कं [शिरोऽम्बुनोः] ।
 6 [स्यात्] पुलाकस् [तुच्छधान्ये संक्षेपे भक्तसिक्थके] ॥ ५ ॥
 7 [उलूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च] पेचकः ।
 8 [कमण्डलौ च] करकः
 9 [सुगते च] विनायकः ॥ ६ ॥
 10 किष्कुर [हस्ते वितस्तौ च]
 11 [शूककीटे च] वृश्चिकः ।
 12 [प्रतिकूले] प्रतीकस् [त्रिष् एकदेशे च पुंस्य् अयं] ॥ ७ ॥

qué. *N. B.* Les explications précédées de deux astérisques ne se trouvent ni dans le dictionnaire de M. Wilson, ni dans celui de M. Haughton]. — (1) 1° Marque; 2° diffamation. — (2) 1° Chef des serpents ou demi-dieux sous forme de serpents habitant les régions infernales; 2° charpentier; [3° orateur du prologue d'un drame]. — (3) 1° Cristal; 2° soleil; [3° *asclepius gigantea*; 4° cuivre; 5° titre d'*Indra*]. — (4) 1° Vent; 2° *Brahmá*; 3° soleil; 4° âme. — (5) 1° Tête; 2° eau; [3° joie]. — (6) 1° Grain grésillé; 2° brièveté [d'autres disent célérité]; 3° bouchée de riz bouilli. — (7) 1° Chat-huant; 2° racine de la queue d'un éléphant. — (8) 1° m. Pot à l'eau [spécialement, noix de coco creuse, ou gourde; 2° m. f. grêle; 3° m. grenade; 4° oiseau (le courlieu); * 5° masc. neutre, boîte à renfermer le bétel]. — (9) 1° *Boúddha* ou saint; [2° titre de *Ganes'a*; ** 3° titre de *Yama*; 4° nom de l'aigle de *Vichn'ou*; 5° maître spirituel; 6° obstacle, difficulté]. — (10) 1° Coudée [soit la mesure, soit l'avant-bras]; 2° empan. — (11) [1° Scorpion, l'insecte aussi bien que le signe du zodiaque; 2° mois durant lequel le soleil est dans le scorpion; 3° crabe]; 4° chenille velue; [5° nom de l'arbre appelé *vangueria spinosa*]. — (12) 1° m. Partie intégrante; 2° m.

- 1 [स्याद्] भूतिकं [तु भूनिम्बे कत्तृणे भूस्तृणे ऽपि च] ।
 2 [ज्योत्स्निकायां च घोषे च] कोषातक्त्^a
 3 [ऽथ कट्फले ॥ ८ ॥
 4 सिते च खद्विरे] सोमवल्कः [स्याद्]
 5 [ऽथ सिह्लके ।
 6 तिलकल्के च] पिण्याको
 7 वाह्लीकं^b [रामटे ऽपि च] ॥ ९ ॥
 8 [महेन्द्रगुग्गुलूलूकव्यालग्राहिषु] कौशिकः^c ।
 9 [रुक्तापशङ्कास्त्र] आतङ्कः
 10 [स्वल्पे ऽपि] मुल्लकस्^c [त्रिषु] ॥ १० ॥

f. n. contraire, qui ne s'accorde pas; [3° inverse]. — (1) 1° Gentiane, *gentiana chirayta*, Roxb.; 2° herbe odorante *andropogon schœnanthus*, et une autre espèce [quelques-uns, par une autre interprétation, en font un nom du *kâyaphal*]. — (2) Espèces de plantes cucurbitacées, savoir : 1° *trichosanthes diceca*; 2° *luffa pentandra* et *luffa acutangula*, Roxb. également; 3° *achyranthes aspera*; [4° nuit]. — (3, 4) 1° Espèce blanche de mimosie; 2° *kâyaphal*. — (5, 6) 1° Encens; ** 2° farine de sésame; [3° marc de graines de sésame, après qu'on en a extrait l'huile; 4° *asa-fœtida*; 5° safran]. — (7) 1° n. *Asa-fœtida* [2° safran; 3° masc. nom d'une contrée, Balkh (*Wils.*); 4° cheval élevé dans cette contrée; ** 5° homme d'une basse classe]. (8) 1° *Indra*; 2° *bdellium*; 3° chat-huant; 4° homme qui prend des serpents; [5° ichneumon ou *viverra mungo*; 6° titre de *Vis'wamitra*; 7° versé dans la connaissance des dictionnaires; 8° fém. (*Kaus'iki*); nom de *Gauri*; 9° nom d'une rivière dans le Bengale]. — (9) 1° Maladie; 2° peine; 3° crainte; [4° bruit du tambour]. — (10) 1° Petit; [2° rude; 3° bas, vil; 4° pauvre, indigent; 5° le plus jeune].

^a Et कोषातको. — ^b Et वाह्लिकं, वाहिकं ou वह्लीकं. — ^c Ou कौषिकः. — ^d Ou

- 1 जैवातृकः [शशाङ्कः ऽपि]
 2 [खुरे ऽप्य् अश्वस्य] वर्तकः ।
 3 [व्याघ्रे ऽपि] पुण्डरीको [ना]
 4 [यवान्याम् अपि] दीपकः^a ॥ ११ ॥
 5 शालावृकाः [कपिक्रोष्टुश्चानः]
 6 [स्वर्णे ऽपि] गैरिकं ।
 7 [पीडार्थे ऽपि] व्यलीकं [स्याद्]
 8 अलीकं [त् अग्रिये ऽनृते] ॥ १२ ॥
 9 [शीलान्वयाव्] अनूके [द्वे]
 10 शल्के [शकलवल्कले] ।
 11 [साष्टे शते सुवर्णानां हेमन्य् उरोभूषणे पले ॥ १३ ॥
 12 द्वीनारे ऽपि च] निष्को [ऽस्त्री]

(1) 1° m. Lune; [2° m. f. n. qui vit longtemps; 3° maigre, mince]. — (2) 1° m. Sabot d'un cheval; [2° m. f. caille]. — (3) 1° masc. Léopard; [2° l'éléphant placé au sud-est pour soutenir le monde; ** 3° nom de l'auteur d'un dictionnaire; 4° variété de canne à sucre; 5° n. lotus blanc; 6° ombrelle blanche; 7° drogue médicinale]. — (4) 1° m. Semence aromatique, *ligusticum ajowan*, Roxb. [ou bien *apium involucratum*, Roxb.; 2° cumin (*cuminum cyminum*); 3° *celosia cristata*; 4° lampe; 5° en rhétorique, certaine élégance de construction : — *dipyaka*, m. n. 1° *ligusticum ajowan*, R., 2° *apium involucratum*, 3° *celosia cristata*]. — (5) 1° Singe; 2° chacal; 3° chien. — (6) 1° Or; [2° orpiment rouge; 3° crayon rouge]. — (7) 1° neut. Peine; [2° toute chose déplaisante; 3° qui n'est pas à faire; 4° étrange; 5° opposé, contraire; 6° m. adonné à un crime contre nature]. (8) 1° Toute chose déplaisante; 2° mensonge; [3° front]. — (9) 1° n. Disposition; 2° race, famille; [3° m. état précédent d'existence]. — (10) 1° Partie; [2° écaille d'un poisson]; 3° écorce. — (11, 12) 1° Poids de 108 *souvar-*

^a Ou दीपकः.

- 1 कल्को [ऽस्त्री समलैनसोः ।
 2 दम्भे ऽप्य्]
 3 [अथ] पिनाको [ऽस्त्री शूलशङ्करधवनोः] ॥ १४ ॥
 4 धेनुका [तु करेणां च]
 5 [मेघजाले च] कालिका ।
 6 कारिका [यातनावृत्त्योः]
 7 कर्णिका [कर्णभूषणे ॥ १५ ॥
 8 कारिहस्ताङ्गुली पद्मबीजकोश्यां]
 9 [त्रिषूत्रे^a] ।
 10 वृन्दारकौ [हृदिमुख्याव्]

nas; 2° or; 3° ornement porté sur la poitrine; 4° poids de 4 *souvarnas*; 5° poids de 2 *karchas*.—(1, 2) 1° m. Ordure, excrément; 2° faute; 3° fraude; [4° boue; 5° sédiment; 6° poudre fine; 7° myrobolan belleric; 8° m. f. n. coupable, méchant].—(3) 1° arc de *S'iva*; 2° trident [de *S'iva*; selon quelques-uns : trident quelconque; 3° pluie de poussière].—(4) 1° f. Éléphant femelle; [2° vache laitière, spécialement celle qui a récemment vêlé; ** 3° dague, poignard; 4° masculin, nom d'un démon tué par *Krichn'a*; ** 5° neutre, troupeau de vaches; 6° geste d'une femme].—(5) 1° Temps couvert; multitude ou succession de nuages; [2° nuage sombre annonçant de la pluie; 3° brouillard; 4° noirceur; 5° noir; 6° la déesse *Gauri*; 7° nom d'une déesse terrible; 8° corneille femelle; ** 9° scorpion noir; 10° nard-épi; 11° sorte d'herbe potagère; 12° branche de la plante du concombre; 13° ligne de poil qui remonte jusqu'au nombril; 14° prix d'une marchandise à crédit; 15° intérêt fixé par mois; 16° liqueur spiritueuse; 17° tache ou défaut dans l'or, etc.].—(6) 1° Agonie; 2° vers explicatif [ou selon une autre lecture : 3° intérêt à un taux stipulé; 4° action en général; 5° art ou profession; 6° danseuse de corde ou sauteuse].—(7, 8) 1° Boucle d'oreille; 2° bout de la trompe d'un éléphant; 3° doigt du milieu; 4° péricarpe d'un lotus.—(10) 1° m. f. n. Beau;

^a Les mots suivants prennent les trois genres.

- 1 एके [मुख्यान्यकेवलाः] ॥ १६ ॥
 2 [स्याद् दाम्भिकः] कौटुटिको [यश् चाट्टोस्तिक्षणः] ।
 3 लालाटिकः [प्रभोर् भालदर्शी कार्याक्षमश् च यः] ॥ १७ ॥
 4 [भूमृन्नितम्बवलयचक्रेषु] कटको [ऽस्त्रियां] ।
 5 [सूच्ये द्युशत्रौ च लोमहर्षे च] कण्टकः ॥ १८ ॥

SECTION II.

HOMONYMES TERMINÉS EN ख.

- 6 मयूखस् [त्विट्करज्वालास्व]
 7 [अलिवाणौ] शिलीमुखौ ।
 8 शस्त्रो [निधौ ललाटास्त्रि कम्बौ न स्त्री-]
 9 [-न्द्रिये ऽपि] खं ॥ १९ ॥
 10 [घृणिज्वाले अपि] शिखे

2° chef principal; [3° m. un dieu; 4° général ou commandant d'une armée]. — (1) 1° Chef; 2° autre; 3° seul; 4° un. — (2) 1° Hypocrite; 2° homme qui ne regarde jamais loin devant lui, mais qui marche avec précaution, dans la crainte d'écraser des insectes. — (3) 1° m. f. Attentif, qui observe les regards de son maître; 2° indolent, insouciant ou incapable de tout travail; [3° m. manière d'embrasser]. — (4) 1° Flanc d'une montagne; 2° bracelet; 3° cercle; [4° anneau mis à la dent d'un éléphant; 5° armée; 6° métropole; 7° sel marin]. — (5) 1° Épine ou pointe d'une aiguille; 2° chétif ennemi; 3° cheveux hérissés, [4° arête de poisson; 5° action de trouver une faute. — Cette ligne et la précédente sont omises par la plupart des commentaires]. — (6) 1° Éclat; 2° rayon de lumière; 3° flamme; [4° beauté]. — (7) 1° Abeille; 2° flèche. — (8) 1° Pierre précieuse aurifère; 2° m. n. os du front; 3° coquille, conque; [4° en arithmétique, cent billions]. — (9) 1° Organe de sens; [2° espace vide; 3° chiffre; 4° paradis; 5° ciel; 6° bonheur, félicité]. — (10) 1° Rayon de lumière;

SECTION III.

HOMONYMES TERMINÉS EN ग.

- 1 [शैलवृक्षौ] नगाव् अगौ ।
 2 आशुगौ [वायुविशिखौ]
 3 [शार्कविहगाः] खगाः ॥ २० ॥
 4 पतङ्गौ [पक्षिसूर्यौ च] .
 5 पूगः [क्रमुकवृन्दयोः] ।
 6 [पशवो ऽपि] मृगा
 7 वेगः [प्रवाहजवयोरू अपि] ॥ २१ ॥
 8 परागः [कौसुमे रेणौ स्नानीयादौ रजस्य अपि] ।
 9 [गजे ऽपि] नाग-मातङ्गाव्
 10 अपाङ्गस् [तिलके ऽपि च] ॥ २२ ॥

2° flamme; [3° branche; 4° branche radicale; 5° crête d'un paon; 6° boucle de cheveux sur la tête; 7° chef, principal]. — (1) 1° Montagne; 2° arbre; [3° serpent; 4° soleil]. — (2) 1° m. Vent; 2° flèche; [3° m. f. n. vite, qui se meut avec rapidité]. — (3) 1° flèche; 2° soleil; 3° oiseau; [4° planète; 5° sauterelle; 6° dieu, divinité; 7° air, vent]. — (4) 1° Oiseau; 2° soleil; [3° sauterelle; 4° bois du Brésil]. — (5) 1° *Areca* [masc. le palmier, *areca faufel*; n. sa noix]; 2° multitude. — (6) 1° Bestiaux; [2° bête fauve; 3° éléphant ayant des marques blanches sur le front; 4° constellation, la tête d'Orion; 5° recherche]. — (7) 1° Courant; 2° rapidité; [3° passage rapide, comme de la pensée ou du vent; 4° besoin naturel]. — (8) 1° Pollen des fleurs; 2° poussière; 3° poudre odorante; [4° éclipse; 5° corail]. — (9) 1° Éléphant; [2° *nāga*, serpent, le *coluber nāga* et une espèce de demi-dieu ayant la forme d'un serpent; 3° personne cruelle; 4° nom d'une contrée; 5° (en composition) prééminent; 6° *mesua ferrea*; 7° *rottleria tinctoria*, R., 8° *cyperus pertenuis*, R.; — 2° *mātanga*, race de montagnards; 3° figuier sacré, *ficus religiosa*]. — (10) 1° Petit cercle sur le

- 1 सर्गः [स्वभावनिर्मादनिश्चयाध्यायसृष्टिषु] ।
 2 योगः [सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु] ॥ २३ ॥
 3 भोगः [सुखे स्व्यादिभृताव् अहेश् च फणक्वाययोः] ।
 4 [चातके हरिणे पुंसि] सारङ्गः^a [श्वले त्रिषु] ॥ २४ ॥
 5 [कपो च] प्लवगः
 6 [शापे त्व्] अभिषङ्गः [पराभवे] ।
 7 [यानायङ्गे] युगः [पुंसि]
 8 युगं [युग्मे कृतादिषु] ॥ २५ ॥
 9 [स्वर्गेषुपशुवाग्वद्दिनेत्रघृणिभूजले] ।
 10 लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि] गौर^b
 11 लिङ्गं [चिद्गणेशोः] ॥ २६ ॥

front; [2° coin de l'œil; 3° individu boiteux ou mutilé].—(1) 1° Nature; 2° abandon; 3° certitude; 4° chapitre ou section; 5° création; [6° persévérance].—(2) 1° Armure; 2° moyen; 3° méditation; 4° union; 5° jonction; [6° action de se tenir dans une posture déterminée; 7° conjoncture heureuse; 8° en astrologie, moyen de déterminer la longitude de la lune].—(3) 1° jouissance; 2° salaire; 3° tête étendue d'un serpent; 4° corps d'un serpent; [5° action de manger; 6° nourriture, éducation].—(4) 1° m. Espèce d'oiseau, * *cuculus melanoleucus*; 2° bête fauve; 3° m. f. n. bigarré; [4° m. éléphant; ** 5° abeille; 6° paon].—(5) 1° Singe; [2° grenouille; 3° espèce d'oiseau, le plongeur; 4° l'aurore, le conducteur du char du soleil].—(6) 1° malédiction, imprécation; 2° défaite; [3° serment; 4° accusation sans fondement; 5° embrassement].—(7, 8) 1° Joug; 2° paire; 3° âge, *Krita*, *Trétâ*, *Dwâpara* et *Kali*; [4° mesure de quatre coudées].—(9, 10) 1° Paradis; 2° flèche; 3° taureau; 4° langage; 5° tonnerre; 6° région ou quartier; 7° œil; 8° rayon de lumière; 9° terre; 10° eau; [11° soleil].—(11) 1° Marque; 2° membre viril; [3° signe ou

^a Ou सारङ्गः. — ^b Masculin dans quelques sens, et féminin, et même neutre dans d'autres.

- 1 शृङ्गं [प्राधान्यसावोश् च]
 2 वराङ्गं [मूर्द्धगुह्ययोः] ।
 3 भगं [श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु] ॥ २७ ॥

SECTION IV.

HOMONYMES TERMINÉS EN घ.

- 4 परिघः [परिघाते ऽस्त्रे ऽप्य्]
 5 ओघो [वृन्दे ऽम्भसां रये] ।
 6 [मूल्ये पूजाविधाव्] अर्घो^a
 7 [ऽंहोदुःखव्यसनेषु] अघं ॥ २८ ॥
 8 [त्रिषु श्चे ऽपि] लघुः

SECTION V.

HOMONYMES TERMINÉS EN च.

- 9 काचाः [शिव्यमृद्भट्टरुजः] ।

indice; 4° symbole de *S'iva*. — (1) 1° n. Supériorité; 2° sommet d'une montagne; [3° logis; 4° féminin. espèce de poisson, *silurus pungentissimus*; 5° plante vénéneuse]. — (2) 1° Tête; 2° parties naturelles de la femme. — (3) 1° n. Prospérité; [2° beauté]; 3° amour, désir; [4° parties naturelles de la femme]; 5° excellence (vertu, savoir, etc.); 6° force, vigueur; 7° soin; 8° gloire, renommée; 9° m. n. un des douze soleils; [10° la lune]. — (4) 1° Destruction; 2° massue de fer; 3° massue garnie de fer; [4° en astrologie, un des *Yogas*]. — (5) 1° Multitude; 2° courant d'eau; [** 3° succession]. — (6) 1° Prix; 2° mode d'adoration [ou de témoigner du respect]. — (7) 1° Faute; 2° peine; 3° passion. — (8) 1° m. f. n. agréable; [2° petit; 3° léger; 4° n. vite]. — (9) 1° Courroie ou corde adaptée à chaque

^a अर्घो (MSS.) — अघो: (Éd. Sér.).

- 1 [विपर्यासे विस्तरे च] प्रपञ्चः
 2 [पावके] शुचिः ॥ २८ ॥
 3 [मास्य् अमात्ये चात्युपधे पुंसि मेध्ये सिते त्रिषु] ।
 4 [अभिघ्नङ्गे स्पृहायां च गभस्तौ च] रुचिः [स्त्रियां] ॥ ३० ॥

SECTION VI^a.

HOMONYMES TERMINÉS EN खे.

- 5 [प्रसन्ने भल्लुके ऽप्य्] अच्छो
 6 गुच्छः [स्तवकहारयोः] ।
 7 [परिधानाञ्चले] कच्छो [जलप्रान्ते त्रिलिङ्गकः] ॥ ३१ ॥

SECTION VII.

HOMONYMES TERMINÉS EN जे.

- 8 [केकिताक्ष्याव्] अहिभुजौ

extrémité d'une perche pour suspendre un fardeau; 2° verre, cristal; 3° maladie de l'œil. — (1) 1° Contraire, opposé; 2° profusion; [3° erreur ou illusion; 4° prolixité; 5° abondance; 6° tromperie]. — (2, 3) 1° m. Feu; 2° mois, celui d'*áchádh'a* ou de *djyechth'a*; 3° ministre éprouvé; [4° la saison chaude; 5° sentiment de l'amour]; 6° m. f. n. pur; 7° blanc. — (4) 1° Passion; 2° désir; 3° rayon de lumière; [4° attention soutenue, application; 5° splendeur; 6° beauté]. — (5) 1° Clair; 2° ours; [3° cristal]. — (6) 1° Grappe de fleurs; 2° sorte de collier; [3° motte de gazon; 4° multitude, amas]. — (7) 1° m. Ourlet ou bord d'un vêtement; 2° m. f. n. (quelques-uns disent m.), banc, ou rivage; [3° m. espèce d'arbre, *hibiscus populneoïdes*]. — (8) 1° Paon; 2° oiseau de *Vichn'ou*.

^a La stance qui compose cette section est omise par la plupart des commentateurs.

- 1 [दन्तविप्राण्डजा] द्विजाः ।
 2 अजा [विष्णुहरच्छागा]
 3 [गोष्ठाध्वनिवह्ना] ब्रजाः ॥ ३२ ॥
 4 धर्मराजौ [जिनयमौ]
 5 कुञ्जो [दन्ते ऽपि न स्त्रियां] ।
 6 बलजे [क्षेत्रपूर्वारे]
 7 बलजा [वल्गुदर्शना] ॥ ३३ ॥
 8 [समे क्ष्मांशे रणे ऽप्य्] आजिः
 9 प्रजा [स्यात् सन्ततौ जने] ।
 10 अञ्जौ [शङ्खशशाङ्गौ च]
 11 [स्वके नित्ये] निजं [त्रिषु] ॥ ३४ ॥

SECTION VIII.

HOMONYMES TERMINÉS EN ङ.

- 12 [पुंस्य् आत्मनि प्रवीणे च] क्षेत्रज्ञो [वाच्यलिङ्गकः] ।
 13 संज्ञा [स्याच् चेतना नाम हस्ताद्यैश् चार्थसूचना] ॥ ३५ ॥

(1) 1° Dent; 2° homme régénéré des trois premières classes; 3° animal ovipare, oiseau, etc. — (2) 1° *Vichn'ou*; 2° *S'iva*; 3° bouc; [4° *Brahmá*; 5° *Káma*; 6° mouton; 7° nom d'un fils de *Raghou*]. — (3) 1° Étable à vaches; 2° chemin; 3° multitude. — (4) 1° Saint déifié; 2° *Yama*; [3° titre de *Youdhichth'ira*]. — (5) 1° Dent d'éléphant; [2° berceau, cabinet de verdure]. — (6) 1° Champ; 2° porte d'une ville; [3° guerre]. — (7) Femme jolie. — (8) 1° Terrain uni; 2° guerre. — (9) 1° Progéniture; 2° peuple. — (10) 1° m. Conque; 2° lune; [3° *Dhanwantari*; 4° arbre, *eugenia acutangula*, *barringtonia acutangula*, Wils.; 5° n. lotus]. — (11) 1° propre, particulier; 2° éternel. — (12) 1° m. Ame; 2° m. f. n. habile. — (13) 1° Pensée;

1 दोषज्ञौ [वैद्यविद्वांसौ]

2 शो [विद्वान् सोमज्ञो ऽपि च] ।

SECTION IX.

HOMONYMES TERMINÉS EN ट.

3 [काक्केभगण्डौ] कटौ

4 [गजगण्डकटी] कटौ^a ॥ ३६ ॥5 शिपिविष्टस्^b [तु खलतौ दुश्चर्मणि महेश्वरे] ।6 [द्वशिल्पिन्यपि] त्वष्टा^c

7 द्विष्टं [द्वैवे ऽपि न द्वयोः] ॥ ३७ ॥

8 [रसे] कटुः

9 कटू [अकार्ये त्रिषु मत्सरीक्षणयोः] ।

10 रिष्टं [क्षेमाशुभाभावेष्ट]

2° nom; 3° avis, signe; [4° nom de l'épouse du soleil]. — (1) 1° Médecin; 2° homme sensé. — (2) 1° Homme sensé; 2° *Boudha*, premier prince de la race lunaire. — (3) 1° Corneille; 2° joue d'un éléphant; [3° personne parlant d'une manière peu sensée; 4° homme qui exerce une profession blâmable]. — (4) 1° m. Joue d'un éléphant; 2° sa hanche; [3° natte; 4° corps mort; 5° f. *kat'ti*, poivre long]. — (5) 1° Chauve; 2° né sans prépuce; [3° lépreux]; 4° *S'iva*; [5° *Krichn'a*]. — (6) 1° *Vis'wakarma*, artiste divin; [2° charpentier; 3° dans la mythologie, un des douze soleils]. — (7) 1° n. Destinée; [2° m. temps]. — (8) m. Qualité de ce qui est piquant. — (9) 1° n. Acte impropre; 2° m. f. n. envieux; 3° piquant, âpre; [4° déplaisant; 5° f. moutarde; 6° plante médicinale, vulg. *katoukt'i*]. — (10) 1° Bonheur, prospérité; 2° mauvaise fortune; 3° bonne fortune;

^a Nom. कटः; quelques-uns, par une légère variation dans la lecture et l'interprétation, adoptent कटिः pour les deux acceptions, ou bien कटिः et कटः. — ^b Et शिपिविष्टः ou शिपिविष्टः. — ^c Ou तष्ट [—ट्ट].

- 1 अरिष्टे [तु शुभाशुभे] ॥ ३८ ॥
 2 [भायानिश्चलयन्त्रेषु कैतवानृतराशिषु ।
 3 अयोधने शैलशृङ्गे शीरोङ्गे] कूटम् [अस्त्रियां] ॥ ३९ ॥
 4 [सूक्ष्मैलायां] त्रुटिः [स्त्री स्यात् काले ऽल्पे संशये ऽपि सा] ।
 5 [अत्युत्कर्षाश्रयः] कोट्यो^a
 6 [मूले लग्नक्वचे] जटा ॥ ४० ॥
 7 व्युष्टिः [फले समृद्धौ च]
 8 दृष्टिर् [ज्ञाने ऽक्षिण दर्शने] ।
 9 इष्टिर् [यागेच्छयोः]
 10 सृष्टिर्^b [निश्चिते वदुले त्रिषु] ॥ ४१ ॥
 11 कष्टे [तु वृच्छगहने]
 12 [दक्षामन्दागदेषु तु] ।
 13 पटुर् [द्वौ वाच्यलिङ्गौ च]

[4° destruction; 5° faute].—(1) 1° n. Bonheur; 2° adversité; [3° signe de mort; 4° liqueur spiritueuse; 5° m. ail; 6° *melia azadiracta*; 7° corneille]. — (2, 3) 1° Illusion; 2° substance uniforme élémentaire; 3° trappe pour les bêtes fauves; 4° fraude; 5° mensonge; 6° amas, assemblage; 7° marteau; 8° sommet d'une montagne; 9° soc d'une charrue; 10° corps d'une charrue; [11° jarre; 12° nom d'une plante]. — (4) 1° Petit cardamome; 2° instant; 3° atome; 4° doute. — (5) 1° Extrémité d'un arc; 2° excellence; 3° tranchant d'une arme; [ou 4° coin, angle; 5° en numération, dix millions]. — (6) 1° Racine; 2° cheveux mêlés, comme les portent les ascétiques; [3° nard-épi]. — (7) 1° Conséquence; 2° opulence; [3° éloge]. — (8) 1° Savoir; 2° œil; 3° vue. — (9) 1° Sacrifice; 2° désir; [3° vers mémoratif]. — (10) 1° fém. Certain, objet de la certitude; 2° m. f. n. beaucoup; [3° fém. création, 4° m. f. n. créé, fabriqué]. — (11) 1° Pénible; 2° difficile, qu'on ne peut pas atteindre aisément. — (12, 13) 1° Habile;

^a Sing. कोटिः. — ^b Ou सृष्टिः.

SECTION X.

HOMONYMES TERMINÉS EN ठ.

- 1 नीलकण्ठः [शिवे ऽपि च] ॥ ४२ ॥
 2 [पुंसि] कोष्ठो [अन्तर्जठरं कुसूलो ऽन्तर्गृहं तथा] ।
 3 निष्ठा [निष्पत्तिनाशान्ताः]
 4 काष्ठो^a-[त्कर्षे स्थितौ दिशि] ॥ ४३ ॥
 5 [त्रिषु] ज्येष्ठो [ऽतिशस्ते ऽपि]
 6 कनिष्ठो [ऽतियुवाल्पयोः] ।

SECTION XI.

HOMONYMES TERMINÉS EN उ.

- 7 दण्डो [ऽस्त्री लगुडे ऽपि स्याद्]

2° diligent; 3° fort, bien constitué; [4° farouche; 5° cruel; 6° m. plante, *trichosanthes dioica*; 7° n. sel].— (1) 1° *S'iva*; [2° paon; 3° geai bleu, *coracias indica*, etc.; 4° gallinule]. — (2) 1° m. Estomac; 2° grenier; 3° appartement; [4° masc. f. n. propre, particulier]. — (3) 1° Confirmation; 2° disparition; 3° destruction; [4° action de s'arrêter; 5° pratique constante]. — (4) 1° f. Excellence; 2° limite; 3° région ou quartier; [4° mesure de temps, dix-huit clins d'œil; 5° place; 6° plante, *amomum xanthorrhizon*, * *curcuma zanthorhiza*, R. W.; 7° n. bois]. — (5) 1° m. f. n. Prééminent; [2° le plus âgé; 3° très-vieux; 4° m. mois de *jyechth'a*; 5° f. constellation ainsi nommée]. — (6) 1° Très-jeune; 2° petit; [3° le plus jeune; 4° f. le petit doigt]. — (7) 1° Bâton; [2° mesure de quatre coudées; 3° batte à beurre; 4° mesure de temps, vingt-quatre minutes; 5° punition; 6° *Yama*, le juge de l'autre monde; 7° compagnon du soleil; 8° colonne de troupes;

^a काष्ठा उत्कर्षे.

- 1 गुडो [गोलेक्षुपाकयोः] ॥ ४४ ॥
 2 [सर्पमांसात्पशू] व्याडौ
 3 [गोभूवाचस् त्व] इडा इलाः^a ।
 4 क्ष्वेडा [वंशशलाकापि]
 5 नाडी [काले ऽपि षट्क्षणे] ॥ ४५ ॥
 6 काण्डो [ऽस्त्री दण्डवाणार्वावर्गावसस्वारिषु] ।
 7 [स्याद्] भाण्डम् [अश्वाभरणे ऽमत्रे मूलवणिग्धने] ॥ ४६ ॥

SECTION XII.

HOMONYMES TERMINÉS EN ढ.

- 8 [भृशप्रतिसयोर] वाढं^b
 9 प्रगाढं [भृशकृच्छ्रयोः] ।
 10 [शक्तस्थूलौ त्रिषु] दृढौ
 11 व्यूढौ [विन्यस्तसंहृतौ] ॥ ४७ ॥

9° tige ou tronc].—(1) 1° Globe ou balle; 2° sucre brut; [3° f. *euphorbia tirucalli*, etc.].—(2) 1° Serpent; 2° bête carnivore, comme le tigre, etc. [3° méchant homme].—(3) 1° Vache; 2° la terre; 3° parole; [4° *Ilā*, épouse de *Boudha*, fille d'*Ikchvākhou*].—(4) 1° f. Baguette de bambou; [2° cri de guerre; 3° n. venin].—(5) 1° Heure indienne de vingt-quatre minutes; [2° tuyau ou tube; 3° veine ou artère; 4° intestins; 5° plaie fistuleuse; 6° tige creuse d'un lotus, etc.].—(6) 1° Tige; 2° flèche; 3° méchant, vil [ou 4° cheval]; 5° chapitre [ou 6° multitude]; 7° opportunité; 8° eau; [9° buisson ou arbrisseau; 10° branche d'un arbre].—(7) 1° Harnais d'un cheval [selon quelques-uns, la selle]; 2° vase; 3° fonds ou capital; [4° ornement].—(8) 1° Beaucoup; 2° promesse.—(9) 1° Beaucoup; 2° difficile [ou 3° peine; 4° ferme].—(10) 1° Capable; 2° gros; [3° fort; 4° ferme; 5° confirmé; 6° beaucoup].—(11) 1° Arrangé; 2° com-

^a Le mot s'écrit des deux manières. — ^b Ce mot est neutre; quelques-uns le font indéclinable.

SECTION XIII.

HOMONYMES TERMINÉS EN ण.

- 1 ध्रूणो [ऽर्भके स्त्रैणगर्भे]
- 2 वाणो [वलिमुते शरे] ।
- 3 कणो [ऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे]
- 4 [संघाते प्रमथे] गणः ॥ ४८ ॥
- 5 पणो [द्यूतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये धने ऽपि च] ।
- 6 [मौर्व्यां द्रव्याञ्जिते सत्वशुक्लसन्ध्यादिके] गुणः ॥ ४९ ॥
- 7 [निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः] क्षणः ।
- 8 वर्णो [द्विजादौ शुक्लादौ स्तुतौ]
- 9 वर्णं [तु वाक्षरे] ॥ ५० ॥
- 10 अरुणो [भास्करे ऽपि स्याद् वर्णभेदे ऽपि च त्रिषु] ।

pact; [3° large]. — (1) 1° Enfant; 2° fœtus humain. — (2) 1° m. *Vâna*, fils de *Bali*; 2° flèche; [3° son, bruit; 4° masc. fém. plante, barlerie bleue; **5° gages d'un tisserand]. — (3) 1° m. Parcelle; 2° grain de blé; [3° étincelle ou facette d'une pierre précieuse; 4° f. poivre long; 5° cumin, *cuminum cyminum*]. — (4) 1° Multitude; 2° serviteurs de *S'iva*. — (5) 1° Enjeu, 2° gages; 3° prix; 4° richesse; [5° denrée, marchandise; 6° affaire; 7° poids de deux *tolas*; 8° en compte, vingt *gandas* de cauris]. — (6) * 1° Corde d'arc; 2° attribut, qualité; 3° propriété de l'âme; 4° propriété du corps; 5° moyen de défense; [6° corde; 7° cuisinier]. — (7) 1° État de celui qui est sans emploi; 2° minute de temps, sixième partie d'une *ghâtî*, d'autres disent, douzième partie d'un *mouhouërta*; 3° moment; 4° fête; [**5° danse et musique]. — (8, 9) 1° m. Classe, tribu; 2° couleur; 3° louange; [4° narration]; 5° m. n. lettre de l'alphabet. — (10) 1° m. Le soleil; 2° m. f. n. rouge obscur; [3° m. conducteur du char du soleil; 4° l'aurore; 5° f. garance].

- 1 स्याणुः [शर्वे ऽप्य्].
 2 [अथ] द्रोणः [काके ऽपि च]
 3 [स्वे] रणः ॥ ५१ ॥
 4 ग्रामणीर् [नापिते पुंसि श्रेष्ठे ग्रामाधिपे त्रिषु] ।
 5 ऊर्णा^a [मेषाद्विलोमि स्याद् आवर्ते चान्तराभ्रुवौ] ॥ ५२ ॥
 6 हरिणी [स्यान् मृगी हेमप्रतिमा हृति च या] ।
 7 [त्रिषु पाण्डौ च] हरिणः
 8 स्थूणा [स्तम्भे ऽपि वेश्मनः] ॥ ५३ ॥
 9 तृत्ते [स्पृहापिपासे द्वे]
 10 [जुगुप्साकरुणे] घृणे ।
 11 [वणिकूपथे ऽपि] विपणिः
 12 [सुरा प्रत्यक् च] वारुणी ॥ ५४ ॥
 13 करेणुर्^b [श्म्यां स्त्री नेभे]

(1) 1° m. *S'iva*; [2° m. n. têtard ou tronc d'un arbre ébranché; 3° lance; 4° nid de fourmis blanches]. — (2) 1° Corbeau; [2° mesure de capacité; 3° nom du précepteur militaire des *Pândavas*]. — (3) 1° m. Son, bruit; [2° m. n. guerre, bataille. Cette stance est omise par la plupart des commentateurs.] — (4) 1° m. Barbier; 2° m. f. n. excellent; 3° chef d'un village. — (5) 1° Laine, feutre, etc.; 2° cercle de poils entre les deux sourcils, qui est considéré comme un signe de grandeur. — (6) 1° Daine; 2° image ou statue d'or; 3° vert; [4° espèce de vers ou mètre; 5° sorte de femme]. — (7) 1° m. f. n. Blanc jaunâtre; [2° m. bête fauve]. — (8) 1° Poteau d'une maison; [2° statue de fer]. — (9) 1° Désir; 2° soif. — (10) 1° Blâme; 2° pitié. — (11) 1° Place de marché; [2° boutique ou échoppe. Voyez liv. II, chap. 11, sl. 2; 3° marchandise à vendre]. — (12) 1° Liqueur spiritueuse; 2° ouest. — (13) 1° f. Éléphant femelle; 2° m. éléphant mâle.

^a Ou उर्णा. — ^b Ou करेणु.

- 1 द्रविणं [तु बलं धनं] ।
 2 शरणं [गृहसंरक्षितोः]
 3 श्रीपर्णं [कमले ऽपि च] ॥ ५५ ॥
 4 [विषाभिमरालेहेषु] तीक्ष्णं [क्लीवे खरे त्रिषु] ।
 5 प्रमाणं [हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु] ॥ ५६ ॥
 6 करणं [साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपि] ।
 7 [प्राण्युत्पादे] संसरणम् [असम्बाधचमूगतौ ॥ ५७ ॥
 8 घण्टापथे]
 9 [ऽथ वान्तान्नि] समुद्धरणम्^a [उन्नये] ।
 10 [अतस् त्रिषु]^b
 11 विषाणं [स्यात् पशुशृङ्गेभदन्तयोः] ॥ ५८ ॥
 12 प्रवणः [क्रमनिम्नोर्व्यां प्रद्वे ना तु चतुष्पथे] ।

(1) 1° Force; 2° richesse; [3° or]. — (2) 1° Maison; 2° conservateur; [3° préservation; 4° action de tuer]. — (3) 1° Lotus, *nelumbium speciosum*; [2° *premna spinosa* et *premna longifolia*]. — (4) 1° n. Poison; 2° guerre, [ou 3° mort]; 4° fer; [5° arme; 6° substance métallique; 7° hâte; 8° sel marin]; 9° m. f. n. aigu; [10° prompt, vif; 11° m. nitre]. — (5) 1° Preuve; 2° limite; 3° ordonnance sacrée; 4° quantité; 5° autorité. — (6) 1° n. Instrument; 2° champ; 3° corps; 4° organe des sens; [5° cause; 6° masc. tribu née du mélange de la troisième classe et de la quatrième]. — (7, 8) 1° Naissance; 2° marche de troupes qui ne rencontre pas de résistance; [ou 3° commencement de guerre]; 4° grande route; [5° endroit de repos]. — (9) 1° Nourriture vomie; 2° action de lever, de tirer, comme de l'eau d'un puits; [3° — de déraciner un arbre]. — (11) 1° Corne; 2° dent d'éléphant. — (12) 1° m. f. n. Pente, penchant; 2° humble; 3° m. place où quatre routes se rencontrent; [4° m. f. n. généreux; 5° principal].

^a Et उद्धरणं. — ^b Les suivants prennent les trois genres.

1 सङ्कीर्णा [निचिताशुद्धाव्]

2 ईरिणं^० [शून्यम् ऊषरं] ॥ ५८ ॥

SECTION XIV.

HOMONYMES TERMINÉS EN त.

3 [द्वेवसूर्यो] विवस्वन्तौ

4 सस्वन्तौ [नद्वार्णवी] ।

5 [पक्षिताक्षर्यो] गरुत्मन्तौ

6 शकुन्तौ [भासपक्षिणौ] ॥ ६० ॥

7 [अग्न्युत्पातौ] धूमकेतू

8 जीमूतौ [मेघपर्वतौ] ।

9 हस्तौ [तु पाणिनक्षत्रे]

10 मरुतौ^३ [पवनामरौ] ॥ ६१ ॥

11 यन्ता [हस्तिपके सूते]

(1) 1° Mélangé; 2° impur; [ou 3° mêlé; 4° qui est d'une classe mêlée ou impure]. — (2) 1° Désert; 2° sol salin et stérile. — (3) 1° Dieu; 2° le soleil. — (4) 1° m. Rivière; 2° la mer; [3° m. f. n. plein de jus; 4° fém. déesse du langage; 5° rivière]. — (5) 1° Oiseau; 2° oiseau de Vichnou. — (6) 1° Vautour indien; 2° oiseau; [3° insecte]. — (7) 1° Feu; 2° comète; [3° étoile qui file]. — (8) 1° Nuage; 2° montagne; [3° la plante appelée *déotar*]. — (9) 1° Main; 2° treizième astérisme lunaire; [3° trompe d'un éléphant; 4° coudée; 5° (en composition avec *kés'a*) multitude, prééminence]. — (10) 1° m. Vent, 2° divinité d'un ordre particulier; 3° n. *medicago esculenta*. — (11) 1° Conducteur d'un éléphant; 2° charretier; cocher; [3° m. f. n.

^३ ईरिणं (Éd. Calcut. — Wils. Dict. — MSS.) — ईरणं (Édit. Sér.) — Aussi ईरणं.

— ^b मरुत् ou मरुतः.

- 1 दृष्टान्तात् [उभे शास्त्रनिदर्शने] ।
 2 क्षत्ता [स्यात् सार्थौ द्वाःस्ये क्षत्रियायां च शूद्रजे] ॥ ६५ ॥
 3 वृत्तान्तः [स्यात् प्रकरणे प्रकारे कात्स्न्यवार्तयोः] ।
 4 आनर्तः [समरे नृत्यस्थाननीवृद्धिशेषयोः] ॥ ६६ ॥
 5 कृतान्तो [यमसिद्धान्तैर्वाकुशलकर्मसु] ।
 6 [श्लेष्मादि रसरक्तादि महाभूतानि तद्गुणाः ॥ ६७ ॥
 7 इन्द्रियाण्य् अश्मविकृतिः शब्दयोनिश् च] धातवः^a ।
 8 [कक्षान्तरे ऽपि] श्रुद्धान्तो [नृपस्यासर्वगोचरे] ॥ ६८ ॥
 9 [कासूसामर्थ्ययोः] शक्तिर्^b
 10 मूर्तिः [काठिन्यकाययोः] ।

savant; [2° évident; 3° assuré, certifié]. — (1) 1° Science; 2° exemple; [3° mort, trépas]. — (2) 1° Cocher; 2° portier; 3° homme d'une classe mêlée, produite par le mariage d'un *Soûdra* et d'une femme *Kchâtriya*; [4° homme d'une autre classe, provenant du mélange de la quatrième et de la troisième; 5° fils d'une femme esclave]. — (3) 1° Topique; 2° mode; 3° totalité; 4° rumeur, histoire. — (4) 1° Guerre; 2° scène ou théâtre; 3° nom d'une contrée sur la côte nord-ouest de l'Inde; [4° habitant de cette contrée]. — (5) 1° *Yama*; 2° conclusion juste, doctrine démontrée; 3° destinée; 4° acte coupable. — (6, 7) 1° Principes du corps: la pituite ou humeur lymphatique, le vent et la bile; 2° parties constitutives, comme le sang, la chair et la moelle, etc.; 3° éléments primitifs: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther; 4° leurs qualités: l'odeur, le goût, la couleur, le toucher et le son; 5° les organes des sens: le nez, la langue, l'œil, la peau et l'oreille; 6° fossile; 7° métal; 8° racine des mots, radical du verbe. — (8) 1° Sérail, palais privé du roi ou de ses femmes; [2° femme ou concubine du roi]. — (9) 1° Lance de fer; 2° pouvoir; [3° énergie d'une divinité, comme *Gaurî* de *S'iva*]. — (10) 1° Matière; 2° corps ou forme définie.

^a Sing. धातुः. — ^b Ou शक्तो.

- 1 [विस्तारवल्ब्योर्] व्रततिर्^a
 2 वसती [रात्रिवेश्मनोः] ॥ ६६ ॥
 3 [क्षयार्चयोर्] अपचितिः
 4 सातिर्^b [द्वनावसानयोः] ।
 5 अर्तिः^c [पीडाधनुष्कोट्योर्]
 6 जातिः [सामान्यजन्मनोः] ॥ ७० ॥
 7 [प्रचारस्यन्दयो] रीतिर्
 8 ईतिर् [उम्बप्रवासयोः] ।
 9 [उद्ये ऽधिगमे] प्राप्तिः
 10 त्रेता [त्वं अग्नित्रये युगे] ॥ ७१ ॥
 11 [वीणाभेदे ऽपि] महती
 12 भूतिर् [भस्मनि सम्पदि] ।
 13 [नदीनगर्योर् नागानां] भोगवत्य्

(1) 1° Expansion; 2° plante rampante. — (2) 1° Nuit; 2° maison; [3° séjour, demeure]. — (3) 1° Perte; 2° adoration; [3° dépense; 4° exclusion]. — (4) 1° Don; 2° destruction. — (5) 1° Peine; 2° extrémité d'un arc. — (6) 1° Espèce ou sorte; 2° naissance; [3° sorte de mètre poétique; 4° jasmin; 5° muscade; 6° lignage]. — (7) 1° Usage; 2° action de couler; [3° cuivre; 4° scories de métaux]. — (8) 1° Calamité, désastre; 2° voyage hors du pays. — (9) 1° Gain; 2° action d'obtenir; [3° élévation; 4° perfectionnement, succès]. — (10) 1° Les trois feux du sacrifice; 2° second âge du monde. — (10) 1° Harpe, luth de *Nārada*, à cent, d'autres disent sept cordes; [2° *solanum melongena*]. — (11) 1° Cendre; 2° succès; [3° pouvoir surhumain, comme de se rendre invisible, etc.; 4° production]. — (12) 1° Rivière des serpents; 2° ville des serpents, toutes deux situées dans les régions infernales; [3° m. (*Bogavân*) serpent].

^a Ou व्रततिः. — ^b Quelques-uns ajoutent सतिः et सन्तिः. — ^c Ou अर्त्तिः.

- 1 [अथ सङ्गे ॥ ७२ ॥
 2 सङ्गे सभायां] समितिः
 3 [क्षयवासाव् अपि] क्षिती ।
 4 [खेरू अर्चिष् च शस्त्रं च वह्निज्वाला च] हेतयः^a ॥ ७३ ॥
 5 जगती [जगति हृद्योविशेषे ऽपि क्षिताव् अपि] ।
 6 पंक्तिष् [हृद्यो ऽपि दशमं]
 7 [स्यात् प्रभावे ऽपि चा-]यतिः^b ॥ ७४ ॥
 8 पत्तिर् [गतौ च]
 9 [मूले तु] पक्षतिः [पक्षभेदयोः] ।
 10 प्रहतिर् [योनिलिङ्गे च]
 11 [कैशिक्यायाष्^c च] वृत्तयः^d ॥ ७५ ॥
 12 सिकताः^e [स्यूरु वालुकापि]
 13 [वेदे श्रवसि च] श्रुतिः ।

(1, 2) 1° Combat; 2° compagnie; 3° assemblée. — (3) 1° Déclin, perte; 2° séjour; [3° la terre; 4° période de destruction générale]. — (4) 1° Rayon du soleil; 2° arme; 3° flamme. — (5) 1° Monde; 2° sorte de mètre poétique; 3° la terre. — (6) 1° Mètre ou vers; 2° dix; [3° rang]. — (7) 1° Majesté ou dignité; [2° largeur; 3° temps futur; 4° contrainte de l'esprit]. — (8) 1° f. Action de se mouvoir; [2° peloton; 3° m. fantassin]. — (9) 1° Base d'une aile; 2° premier jour d'un mois lunaire. — (10) 1° Origine; 2° sexe; [3° parties naturelles de la femme; 4° disposition naturelle; 5° nature matérielle; 6° matière primitive (*original matter*); 7° racine d'un mot]. — (11) 1° Style de composition; [2° métier, profession, 3° exposition ou glose]. — (12) 1° Sable; [2° terrain sablonneux; 3° concrétions pierreuses]. — (13) 1° Sainte Écriture; 2° oreille; [3° action d'écouter;

^a हेतिः. — ^b आयतिः. — ^c कैशिकी (MSS. — *Wils. Dict*) कौशिकी (*Édit. Sér. — Ed. Calc.*). — ^d Sing. वृत्तिः — ^e F. pl. Quelques-uns admettent le singulier.

- 1 वनिता [जनितात्यर्थानुसगायां च योषिति] ॥ ७६ ॥
 2 गुप्तिः [क्षितिव्युदासे ऽपि]
 3 धृतिर् [धारणधैर्ययोः] ।
 4 वृहती [क्षुद्रवार्ताकी हृद्योभेदे महत्यपि] ॥ ७७ ॥
 5 वासिता ^a [स्त्रीकरिण्योश् च]
 6 वार्ता [वृत्तौ जनश्रुतौ] ।
 7 वार्त [फलगुन्य् अरोगे च त्रिष्]
 8 [अप्सु च] वृतामृते ^b ॥ ७८ ॥
 9 कलधीतं [त्रूप्यहेमोर्]
 10 निमित्तं [हितुलक्ष्मणोः] ।
 11 श्रुतं [शास्त्रावधृतयोर्]
 12 [युगपर्याप्तयोः] कृतं ॥ ७९ ॥

4° nouvelle, bruit; 5° quart de ton musical]. — (1) 1° f. Femme aimée; [2° femme en général; 3° m. f. n. sollicité, demandé]. — (2) 1° Caverne [ou 2° trou dans la terre; 3° égoût; 4° prison; 5° action de celer, de cacher]. — (3) 1° f. Action de soutenir; 2° fermeté; [3° satisfaction; 4° un des *Yogas* astrologiques; 5° m. cérémonie religieuse]. — (4) 1° Herbe aux œufs, *solanum melongena*; 2° mètre, vers; 3° grand luth; [4° manteau]. — (5) 1° f. Femme; 2° éléphant femelle; [3° n. cri des oiseaux; 4° m. f. n. parfumé]. — (6) 1° Moyen d'existence; 2° bruit qui court [ou 3° profession; 4° nouvelle]. — (7) 1° n. Paille; 2° santé; 3° m. f. n. bien portant. — (8) 1° Eau; [2° beurre liquide; 3° *amrita*, nectar; 4° restes d'un sacrifice; 5° aumône non sollicitée; 6° béatitude, exemption de transmigration]. — (9) 1° Argent; 2° or. — (10) 1° Cause; 2° marque. — (11) 1° n. Science; 2° masc. f. n. entendu [ou 3° compris]. — (12) 1° n. Age d'or; 2° assez; [3° m. f. n. fait; 4° endommagé].

^a Ou वाणिता. — ^b वृत-अमृत.

- 1 अत्याहृतं [महाभीतिः कर्म जीवानपेक्षि च] ।
 2 [युक्ते क्षमादाव् ऋते] भूतं [प्राण्यतीते समे त्रिषु] ॥ ८० ॥
 3 वृत्तं [पथे चरित्रे त्रिषु अतीते दृढनिस्तले] ।
 4 महद् [राज्यं चा-]
 5 -वगीतं^a [जन्ये स्याद् गहृते त्रिषु] ॥ ८१ ॥
 6 श्रेतं [हृष्ये ऽपि]
 7 रजतं [हारे हृष्ये सिते त्रिषु] ।
 8 [त्रिष्वितो^b]
 9 जगद् [इङ्गे ऽपि]
 10 रक्तं [नील्यादिरागि च] ॥ ८२ ॥
 11 अवदातः [सिते पीते श्रुद्धे]
 12 [वद्भार्जुनौ] सितौ ।
 13 [युक्ते ऽतिसंस्कृते मर्षिण्य्] अभिनीतो

(1) 1° Grande crainte; 2° acte de vaillance.—(2) 1° n. Élément; 2° être vivant; 3° m. f. n. juste; 4° vrai; 5° passé; 6° (en composition) semblable; [7° qui a été; 8° m. n. démon; 9° m. classe de demi-dieux].—(3) 1° n. Vers; 2° conduite; 3° m. f. n. passé; 4° ferme; 5° rond; [6° étudié; 7° couvert; 8° n. profession].—(4) 1° n. royaume; 2° m. principe intellectuel; 3° m. f. n. grand; 4° f. harpe ou grand luth].—(5) 1° n. Calomnie; 2° m. f. n. blâmé, censuré; [3° méchant].—(6) 1° n. argent; [2° masc. f. n. blanc; 3° m. nom d'une île; 4° — d'une montagne; 5° f. cauri, petite coquille].—(7) 1° Collier; 2° argent [ou suivant une autre leçon; 3° or, mahāradjatam]; 4° m. f. n. blanc.—(8) 1° m. f. n. Mobile, locomotif; [2° n. le monde; 3° m. air].—(9) 1° Teint; [2° rouge; 3° passionné; 4° n. sang; 5° cuivre; 6° safran].—(10) 1° Blanc; 2° jaune; 3° propre, net.—(11) 1° m. f. n. Lié; 2° blanc; [3° détruit; 4° f. sucre terré].—(12) 1° Propre,

^a अवगीतं. — ^b Les mots suivants prennent les trois genres.

- 1 [स्य] संस्कृतं ॥ ८३ ॥
- 2 [कृत्रिमे लक्षणोपेते ऽप्य्]
- 3 अनन्तो [ऽनवधाव् अपि] ।
- 4 [ख्याते दृष्टे] प्रतीतो
- 5 ऽभिजातस् [तु कुलजे बुधे] ॥ ८४ ॥
- 6 विविक्तौ [पूतविजनौ]
- 7 मूर्च्छितौ [मूढसोच्छ्रयौ] ।
- 8 [द्वौ चाम्लपरुषौ] श्रुक्तौ
- 9 शिती^a [धवलमेचको] ॥ ८५ ॥
- 10 [सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्ते ऽभ्यर्हिते च] सन् ।
- 11 पुरस्कृतः [पूजिते ऽरात्यभियुक्ते ऽग्रतः कृते] ॥ ८६ ॥
- 12 निवाताव् [आश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्] ।

convenable; 2° excellent [ou 3° très-orné]; 4° patient [ou 5° impatient]. — (1, 2) 1° m. f. n. Travaillé, fini; 2° orné; [3° excellent; 4° préparé; 5° n. langage grammaticalement correct]. — (3) 1° m. f. n. Infini, sans fin; [2° m. *Vichnou*; 3° le roi des serpents, *Sécha*; 4° f. la terre; 5° la déesse *Pârvatî*; 6° herbe, *agrostis linearis*; 7° myrobolan; 8° n. ciel ou atmosphère]. — (4) 1° Fameux; 2° joyeux; [3° connu; 4° respectueux]. — (5) 1° noble; 2° instruit; [3° propre, convenable]. — (6) 1° Pur; 2° désert ou solitaire; [3° distingué, séparé]. — (7) 1° Fou; 2° haut, élevé; [3° insensible]. — (8) 1° aigre, vinaigre; 2° rude. — (9) 1° Blanc; 2° noir. — (10) 1° m. f. n. Vrai; 2° juste; 3° étant, existant; 4° excellent; 5° respecté, vénérable; [6° f. épouse fidèle; 7° la déesse *Pârvatî*]. — (11) 1° Révéré; 2° accablé par des ennemis, ou faisant face à l'ennemi et s'efforçant d'en triompher; 3° placé devant. — (12) 1° Sûr (comme un asyle); 2° calme, à l'abri du vent; 3° sauf (comme une forte armure).

^a श्रितिः; aussi सितिः.

- 1 [जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युर्] उच्छ्रिता
 2 उल्लितास् [त् अमो ॥ ८७ ॥
 3 वृद्धिमत्प्रोद्यतोत्पन्ना]
 4 आदृतौ [सादरार्चितौ] ।

SECTION XV.

HOMONYMES TERMINÉS EN थ.

- 5 अर्थो [ऽभिधेयैरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु] ॥ ८८ ॥
 6 [निपानागमयोस्] तीर्थम् [ऋषिजुष्टजले गुरौ] ।
 7 समर्थस् [त्रिषु शक्तिष्ठे सम्बद्धार्थे हिते ऽपि च] ॥ ८९ ॥
 8 दशमीस्थौ [क्षीणरागवृद्धौ]
 9 वीथी [पदव्यपि] ।
 10 [आस्थानीयन्नयोर्] आस्था
 11 प्रस्थो [ऽस्त्री सानुमानयोः] ॥ ९० ॥

(1) 1° Produit; 2° élevé; 3° devenu large. — (2, 3) 1° Accru; 2° essayant, s'efforçant; 3° né ou produit. — (4) 1° Respectueux; 2° respecté. — (5) 1° Sens, signification; 2° richesse; 3° chose; 4° dessein; 5° prohibition; [6° objet; 7° cause; 8° requête]. — (6) 1° Pièce d'eau; 2° science sacrée; 3° saint lieu visité par les pèlerins, spécialement eau sacrée; 4° guide spirituel; [5° sacrifice]. — (7) 1° Puissant; 2° lié pour le sens; 3° bienveillant. — (8) 1° Impotent; 2° très-âgé. — (9) 1° Chemin; [2° ligne; 3° terrasse sur le devant d'une maison; 4° boutique; 5° espèce de drame]. — (10) 1° Assemblée; 2° soin; [3° considération, attention; 4° état]. — (11) 1° Plateau d'une montagne; 2° mesure de quantité.

SECTION XVI.

HOMONYMES TERMINÉS EN ढ.

- 1 [अभिप्रायवशौ] क्ण्दाव्^a
 2 अद्भौ^b [जीभूतवत्सरौ] ।
 3 अपवादौ^c [तु निन्दाज्ञे]
 4 द्यादादौ [सुतबान्धवौ] ॥ ८१ ॥
 5 पादा [स्म्यञ्चितूर्याशाश्]
 6 [चन्द्रान्यर्कास्] तमोनुद्ः^d ।
 7 निर्वाद्यो [जनवाद्ये ऽपि]
 8 शाद्यो [जम्बालशष्ययोः] ॥ ८२ ॥
 9 [आरावे रुदिते त्रातर्य्] आक्रन्दो [दारुणे रणे] ।
 10 [स्यात्] प्रसाद्यो [ऽनुतोधे ऽपि]
 11 सूद्ः [स्याद् व्यञ्जने ऽपि च] ॥ ८३ ॥

(1) 1° Intention, opinion; 2° sujétion. — (2) 1° Nuage; 2° année. — (3) 1° Diffamation; 2° commandement. — (4) 1° Fils; 2° parent. — (5) 1° Rayon de lumière; 2° pied; 3° quatrième partie; [4° racine; 5° mesure d'un vers ou vers d'une stance]. — (6) 1° Lune; 2° feu; 3° le soleil. — (7) 1° Mauvais rapport; [2° mépris; 3° controverse décidée; 4° absence de contestation]. — (8) 1° Fange; 2° herbe nouvelle. — (9) 1° Cri, exclamation dans la peine, ou simplement cri; 2° lamentation avec ou sans bruit; 3° défenseur en général; [4° partisan d'un ennemi qui attaque les derrières de l'armée]; 5° guerre terrible. — (10) 1° Faveur; [2° éclat; 3° propreté]. — (11) 1° Sauce ou condiment; [2° pois fendu; 3° cuisinier.

^a क्ण्द. — ^b Quelques-uns écrivent अद्भ dans les deux acceptions, d'autres dans la dernière. — ^c Ou अववादः. — ^d Sing. तमोनुद्.

- 1 [गोष्ठाध्यक्षे ऽपि] गोविन्दो
 2 [हर्षे ऽप्य्] आमोद-[-वन्] मदः ।
 3 [प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे] ककुदो^a [ऽस्त्रियां] ॥ ८४ ॥
 4 [स्त्री] संविद्^b [ज्ञानसम्भाषाक्रियाकाराजिनामसु] ।
 5 [धर्मे ह्यस्य्] उपनिषत्
 6 [स्याद् ऋतौ वत्सरे] शरत् ॥ ८५ ॥
 7 पदं [व्यवसितित्राणस्थानलक्ष्णांश्विस्तुषु] ।
 8 गोष्पदं [सेविते माने]
 9 [प्रतिष्ठाकृत्यम्] आस्पदं ॥ ८६ ॥
 10 [त्रिष्व् इष्टमधुरौ] स्वाद्
 11 मृद् [चातीक्ष्णकोमलौ] ।
 12 [मूढाल्पापटुनिर्भाग्या] मन्दाः [स्युर्]

(1) 1° Vacher; [2° *Krichna*]. — (2) 1° Joie; [2° *âmoda*, parfum, odeur agréable; — 2° *mada*, enthousiasme, transport; 3° liqueur enivrante; 4° folie; 5° orgueil; 6° humeur qui découle des tempes d'un éléphant en rut]. — (3) 1° Chef; 2° insignes de la royauté; 3° dos d'un taureau; [4° sommet d'une montagne]. — (4) 1° Savoir, science; 2° cri, comme dans une bataille; 3° convention, contrat; 4° guerre, combat; 5° nom. — (5) 1° Mérite religieux et moral; ** 2° secret; [3° portion théologique de l'Écriture Sainte; 4° principe]. — (6) 1° Saison étouffante; 2° année. — (7) 1° Industrie, travail; 2° défense; 3° place; 4° marque; 5° signe; 6° pied [ou 7° traces, vestiges]; 8° chose; [9° mot; 10° son]. — (8) 1° Lieu fréquenté par des vaches; 2° mesure égale à la trace du pied d'une vache. — (9) 1° Dignité; 2° affaire; [3° place]. — (10) 1° Désiré; 2° doux. — (11) 1° Émoussé; 2° doux; [3° gentil]. — (12) 1° m. f. n. Fou, stupide; 2° petit; 3° lent; 4° malheureux; [5° bas (ton); 6° m. la planète de Saturne].

^a M. n., ou f. ककुत्. — ^b संविद्.

- 1 [द्वौ तु] शारदौ ॥ ८७ ॥
 2 [प्रत्यग्राप्रतिभौ]
 3 [विद्वत्सुप्रगल्भौ] विशारदौ ।

SECTION XVII.

HOMONYMES TERMINÉS EN ध.

- 4 [व्यामो वटश् च] न्यग्रोधाव्
 5 उत्सेधः [काय उन्नतिः] ॥ ८८ ॥
 6 [पर्याह्राश् च मार्गश् च] विवधौ वीवधौ [च तो] ।
 7 परिधिर् [यज्ञियतरोः शाखायाम् उपसूर्यके] ॥ ८९ ॥
 8 [बन्धकं व्यसनं चेतःपीडाधिष्ठानम्] आधयः^a ।
 9 [स्युः समर्थननीवाकनियमाश् च] समाधयः^b ॥ १०० ॥
 10 [दोषोत्पादे] ऽनुबन्धः [स्यात् प्रकृत्यादिविनश्ये] ।
 11 मुल्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवर्तने ॥ १०१ ॥

(1, 2) 1° m. f. n. Nouveau; 2° modeste, défiant; [3° produit dans la saison brûlante; 4° m. année; 5° f. titre de *Dourgá*]. — (3) 1° Instruit; 2° confiant. — (4) 1° Brasse, mesurée par les deux bras étendus; 2° figuier indien. — (5) 1° Corps; 2° hauteur. — (6) 1° Perche pour les fardeaux; 2° grand chemin; [ou 3° action de mettre en tas du blé, etc.; 4° charge, fardeau. Le mot cité s'orthographie des deux manières]. — (7) 1° Branche d'arbre enfoncée en terre, à un sacrifice, pour attacher la victime; 2° image du soleil. — (8) 1° Gage; 2° calamité; 3° agonie mentale; 4° site ou place; [5° attente]. — (9) 1° Action de rétablir l'accord; 2° silence; 3° promesse ou vœu; [4° action de ramasser du grain dans une famine; 5° méditation profonde; 6° action de persévérer dans une entreprise difficile]. — (10, 11) 1° Faute ou crime; 2° élément du langage, racine, affixe, augment

^a Sing. आधिः. — ^b Sing. समाधिः.

- 1 विधुर् [वित्तौ चन्द्रमसि]
 2 [परिच्छेदे विले] ऽवधिः ।
 3 विधिर् [विधाने द्वे च]
 4 प्रणिधिः [प्रार्थने चरे] ॥ १०२ ॥
 5 बुध^a-वृद्धौ [पण्डिते ऽपि]
 6 स्कन्धः [समुद्रये ऽपि च] ।
 7 [दशे नद्विशेषे ऽथौ] सिन्धुर् [ना सरिति स्त्रियां] ॥ १०३ ॥
 8 विधा [विधौ^b प्रकारे च]
 9 साधू [स्ये ऽपि च त्रिषु] ।
 10 बधूर् [जाया भ्रुषा स्त्री च]
 11 सुधा [लेपो ऽमृतं सुह्री] ॥ १०४ ॥

ou permutation; 3° en grammaire, lettre indicative qu'on ne prononce pas; 4° personne qui suit un exemple; 5° enfant; [on 6° enfant qui suit un exemple]; 7° continuation. — (1) 1° *Vichn'ou*; 2° la lune; [3° camphre]. — (2) 1° Limite; 2° trou; [3° période; ** 4° situation, place]. — (3) 1° Règle, forme; 2° destinée; [3° *Bráhma* ou la Providence; 4° commandement, injonction]. — (4) 1° Requête; 2° espion [** 3° situation, place]. — (5) 1° Savant; [2° *Boudha*, régent de la planète de Mercure, — 2° *Bouddha*, saint déifié; 3° connu, compris, — 2° *Vriddha*, vieux, 3° augmenté, accru]. — (6) 1° Multitude; [2° épaule; 3° bifurcation d'un arbre ou de sa principale branche; 4° partie d'une armée]. — (7) 1° m. Nom d'une contrée; 2° — d'une rivière; 3° la mer; [4° humeur qui exsude des tempes d'un éléphant en rut]; 5° fémin. rivière. — (8) 1° Formule ou règle; 2° manière, sorte; [3° fourrage; 4° prospérité, action de s'enrichir; 5° action de percer]. — (9) 1° m. f. n. Joli, agréable; [2° juste, convenable; 3° bon, vertueux; 4° m. usurier]. — (10) 1° Épouse; 2° belle-fille; 3° femme quelconque; [4° belle-sœur; 5° épousée]. — (11) 1° Enduit; 2° nectar; 3° espèce d'eu-

^a Ou बुद्धः. — ^b Quelques-uns lisent विधाविधौ, et font de विधः un terme séparé avec les mêmes acceptions.

- 1 सन्धा [प्रतिज्ञा मर्यादा]
 2 अद्वा [संप्रत्ययः स्पृहा] ।
 3 मधु [मये पुष्परसे क्षौट्रे चा-]
 4 -न्धं^a [तमस्यपि] ॥ १०५ ॥
 5 [अतस् त्रिषु^b]
 6 समुन्नद्धौ [पण्डितम्मन्यगर्वितौ] ।
 7 ब्रह्मबन्धुर् [अधिक्षेपे निर्दिशे]
 8 [ऽथावलम्बितः ॥ १०६ ॥
 9 अविट्टो ऽप्य्] अवृष्ट्यः
 10 प्रसिद्धौ [ख्यातभूषितौ] ।

SECTION XVIII.

HOMONYMES TERMINÉS EN न.

- 11 [सूर्यवद्धी] चित्रभानू

phorbe, *euphorbia tirucalli*, etc. — (1) 1° Promesse ; 2° stabilité, constance. — (2) 1° Croyance, confiance ; 2° désir. — (3) 1° n. Liqueur spiritueuse ; 2° nectar des fleurs ; 3° miel [ou 4° eau ; 5° lait ; 6° m. arbre, *bassia latifolia* ; 7° saison du printemps ; 8° mois de *Tchaitra* ; 9° nom d'un démon tué par *Vichn'ou* ; 10° f. réglisse]. — (4) 1° n. Obscurité ; [2° m. f. n. aveugle]. — (6) 1° Qui se croit savant ; 2° orgueilleux ; [3° élevé]. — (7) 1° Appellatif injurieux indiquant qu'un homme néglige son devoir et n'est brâhmane que de nom. On dit de même *hchatrabandhouh* en parlant d'un *kchatriya* ; 2° dénomination vague pour éviter l'usage du nom. — (8, 9) 1° Qui se repose sur ; 2° voisin ; [3° enveloppé ; 4° attaché ; 5° entouré, assailli de tous côtés]. — (10) 1° Notoire ; 2° orné. — (11) 1° Le soleil ; 2° le feu.

^a न्धं. — ^b Les mots suivants prennent les trois genres.

- 1 भानू [रश्मिद्विवाक्तरौ] ॥ १०७ ॥
 2 भूतात्मानौ [धातृदेहौ]
 3 [मूर्खनीचौ] पृथग्जनौ ।
 4 ग्रावाणौ ^a [शैलपाषाणौ]
 5 पत्रिणौ ^b [शरपक्षिणौ] ॥ १०८ ॥
 6 [तरुशैलौ] शिखरिणौ ^c
 7 शिखिनौ ^d [वह्निवर्हिणौ] ।
 8 प्रतियत्नात् [उभौ लिप्सोपग्रहात्]
 9 [अथ] सादिनौ ^e ॥ १०९ ॥
 10 [द्वौ सारथिह्यारोहौ]
 11 वाजिनो ^f [ऽश्वेषुपक्षिणः] ।
 12 [कुले ऽप्य्] अभिजनो [जन्मभूम्याम् अप्य्]
 13 [अथ] ह्ययनाः ॥ ११० ॥
 14 [वर्षार्चिर्वीहिभेदाः स्युष्]

(1) 1° Rayon de lumière; 2° le soleil. — (2) 1° *Brahmā*; 2° corps [ou suivant une autre leçon, 3° partie constitutive d'un corps animé, comme le sang, la chair, etc.]. — (3) 1° Homme ignorant; 2° homme d'une classe basse. — (4) 1° Montagne; 2° rocher ou pierre. — (5) 1° Flèche; 2° oiseau; [3° faucon; 4° voiture]. — (6) 1° m. Arbre; 2° montagne; [3° *clitoria ternata*; 4° f. Sorte de mètre poétique]. — (7) 1° m. Feu; 2° paon; [3° oiseau gallinacé; 4° arbre; 5° flèche; 6° m. f. n. qui a une crête, un cimier]. — (8) 1° Désir; 2° action de faire prisonnier; [3° compréhension]. — (9, 10) 1° Cocher; 2° cavalier; [ou 3° personne montée sur un éléphant]. — (11) 1° Cheval; 2° flèche; 3° oiseau. — (12) 1° Famille; 2° lieu natal [ou 3° chef d'une famille; ** 4° place où la famille se trouve]. — (13, 14) 1° année;

^a ग्रावन्. — ^b पत्रिन्. — ^c शिखरिन्. — ^d शिखिन्. — ^e सादिन्. — ^f वाजिन्.

- 1 [चन्द्रान्यका] विरोचनाः ।
 2 [केशे ऽपि] वृजिनो
 3 विश्वकर्मा-[-र्कसुशिल्पिनोः] ॥ १११ ॥
 4 आत्मा [यत्नो धृतिर् बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च] ।
 5 [शक्रघातुकमत्तेभवर्षुकाब्दा] घनाघनाः ॥ ११२ ॥
 6 अभिमानो [ऽर्थाद्विद्वर्षे ज्ञाने प्रणयद्विसयोः] ।
 7 घनो [मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निरन्तरे] ॥ ११३ ॥
 8 इनः [सूर्ये प्रभौ]
 9 राजा [मृगाङ्गे क्षत्रिये नृपे] ।
 10 बाणिन्यौ ^a [नर्तकीमत्ते]
 11 [स्रवन्त्याम् अपि] वाह्निनी ॥ ११४ ॥

2° rayon de lumière; 3° riz rouge; 4° riz sauvage. — (1) 1° La lune; 2° le feu; 3° le soleil; [4° nom du fils de *Prahlâda* et du père de *Bali*]. — (2) 1° m. Chevelure; [2° n. faute; 3° m. f. n. courbé, penché]. — (3) 1° Le soleil; 2° *Viswakarma*, l'artiste des dieux; [3° nom d'un sage]. — (4) 1° Soins, effort; 2° fermeté; 3° intellect; 4° disposition naturelle; 5° le suprême *Brahme*; 6° corps; [7° âme vivifiante; 8° âme sensible; 9° esprit, *mind*]. — (5) 1° *Indra*; 2° éléphant vicieux; [ou 3° malfaisant]; 4° éléphant en rut; 5° nuage pluvieux; [6° collision]. — (6) 1° Orgueil de la richesse, etc.; 2° connaissance; 3° affection; [ou 4° requête]; 5° action de tuer. — (7) 1° m. Nuage; 2° solidité; 3° m. f. n. solide, matériel; 4° uniformément étendu; [5° poli, uni; 6° m. extension; 7° assemblage; ** 8° enclume; 9° espèce de souchet, *cyperus rotundus*; 10° n. cymbale, cloche, etc.; 11° manière de danser]. — (8) 1° Le soleil; 2° maître; [3° roi; 4° mari]. — (9) 1° La lune; 2° homme de la tribu militaire; 3° roi; [4° maître; 5° *Indra*; 6° *Yakcha*, ou serviteur de *Kouvéra*]. — (10) 1° Danseuse; 2° femme enivrée; [3° femme avide de présents]. — (11) 1° Rivière; [2° armée].

^a बाणिनी ou वाणिनी.

- 1 झ्रद्विन्यौ [वज्रतडितौ]
 2 [वन्दायाम् अपि] कामिनी ।
 3 [त्वग्देह्योर् अपि] तनुः
 4 सूना-[-धोजिह्विकापि च] ॥ ११५ ।
 5 [क्रतुविस्तारयोर् अस्त्री] वितानं [त्रिषु तुच्छके ।
 6 मन्दे]
 7 [ऽथ] केतनं [ज्ञत्ये केताव् उपनिमन्त्रणे] ॥ ११६ ॥
 8 [वेद्यस् तत्वं तपो] ब्रह्म
 9 ब्रह्मा [विप्रः प्रजापतिः] ।
 10 [उत्साहने च हिसायां सूचने चापि] गन्धनं ॥ ११७ ॥
 11 आतञ्चनं [प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकं] ।

(1) 1° Tonnerre; 2° éclair. — (2) 1° fém. Plante grimpante; [2° femme amoureuse; 3° m. homme amoureux; 4° pigeon; 5° oie rouge, *anas carca*]. — (3) 1° f. Peau; 2° corps; [3° m. f. n. mince; 4° petit; 5° séparé]. — (4) 1° Luette; [2° place d'exécution; 3° place de meurtre, comme l'âtre de la cuisine, etc., d'un maître de maison (*Manou*, III, 68); 4° fille; 5° n. action d'accoucher; 6° fleur; 7° m. f. n. qui est en fleurs]. — (5, 6) 1° m. n. Sacrifice; 2° expansion; 3° m. f. n. vide, vacant; [ou 4° méchant]; 5° sot, stupide; [6° n. sorte de mètre poétique; 7° m. n. tendelet]. — (7) 1° Acte indispensable; [ou 2° affaire]; 3° étendard ou symbole; 4° invitation; [5° séjour]. — (8) 1° Sainte Écriture; 2° vrai savoir; [ou 3° l'Être suprême]; 4° dévotion. — (9) 1° Brâhmane; 2° le Créateur; [3° prêtre surintendant aux rites religieux; 4° un des *yogas* astrologiques]. — (10) 1° Persévérance; 2° destruction; 3° information; [ou 4° signe; 5° manifestation]. — (11) 1° Calcination, action de jeter une poudre dans un métal en fusion; [ou 2° poudre employée à cet usage; 3° action de jeter quelque chose, comme par exemple du lait de beurre dans du lait frais pour le faire tourner; 4° danger, calamité, comme une peste, une épidémie]; 5° vitesse; 6° action de gratifier.

- 1 व्यञ्जनं [लाञ्छनं श्मश्रुनिष्ठानावयवेषु अपि] ॥ ११८ ॥
 2 [स्यात्] कौलीनं [लोकवादे युद्धे पञ्चरूपक्षिणां] ।
 5 [स्याद्] उद्यानं [निःसरणे वनभेदे प्रयोजने] ॥ ११९ ॥
 4 [अवकाशे स्थितौ] स्थानं
 5 [क्रीडादाव् अपि] देवनं ।
 6 उद्यानं [पौरुषे तन्त्रे सन्निविष्टोद्गमे ऽपि च] ॥ १२० ॥
 7 व्युत्थानं [प्रतिरोधे च विरोधाचरणे ऽपि च] ।
 8 [मारणे मृतसंस्कारे गतौ द्रव्ये ऽर्थदापने ॥ १२१ ॥
 9 निवर्तनोपकरणानुब्रज्यासु च] साधनं ।
 10 निर्यातनं [वैश्रुद्धौ दाने न्यासार्पणे ऽपि च] ॥ १२२ ॥
 11 व्यसनं [विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे] ।

(1) 1° Marque ou signe; 2° barbe; 3° sauce ou condiment; 4° parties secrètes du mâle et de la femelle; [5° consonne; ** 6° jour]. — (2) 1° Détraction; [ou 2° bruit, rapport]; 3° combat d'animaux, quadrupèdes, oiseaux, serpents, etc.; [4° combat de coqs ou toute autre lutte d'animaux pour un pari; 5° haute naissance]. — (3) 1° Sortie; 2° jardin; 3° intention, motif. — (4) 1° Loisir; 2° place; [ou 3° état stationnaire, continuation sans accroissement ni diminution]. — (5) 1° n. Divertissement, jeu; [2° émulation, désir de surpasser; 3° splendeur; 4° louange; 5° mouvement; 6° affaire, besoin; 7° chagrin, peine; 8° m. dé à jouer]. — (6) 1° Acte viril; 2° armée; 3° affaire d'une famille ou d'un royaume, comme le soin des dépendants ou des sujets. — (7) [** 1° Action de congédier]; 2° opposition; 3° indépendance, * action de faire ce qui est défendu. — (8, 9) 1° Meurtre; 2° obsèques; 3° mouvement; 4° substance; 5° action de contraindre à livrer une chose; 6° accomplissement; 7° matériaux ou instruments; 8° action de suivre; [9° armée; 10° moyens; 11° cause; 12° organe générateur du mâle]. — (10) 1° Vengeance; 2° don; 3° action de remettre un dépôt; [4° payement d'une dette]. — (11) 1° Calamité; 2° chute; 3° faute née du désir, comme la chasse, le jeu, la boisson, la débauche, ou

- 1 पक्ष्मा-[-क्षिलोमि किंजल्के तंत्वायंशे ऽप्य् अणीयसि] ॥ १२३ ॥
 2 [तिथिभेदे क्षणे] पर्व
 3 वर्त्म [नेत्रच्छेदे ऽध्वनि] ।
 4 [अकार्यगुह्ये] कौपीने
 5 मैथुनं [सङ्गतौ स्ते] ॥ १२४ ॥
 6 प्रधानं [परमात्मा धीः]
 7 प्रज्ञानं [बुद्धिचिह्नयोः] ।
 8 प्रसूनं [पष्पफलयोर्]
 9 निधनं [कुलनाशयोः] ॥ १२५ ॥
 10 क्रन्दने [रोदनाह्वाने]
 11 वर्ष्म [देहप्रमाणयोः] ।
 12 [गृह्हेहृत्विट्प्रभावा] धामान्^a

de l'aversion, comme la calomnie, la violence, le dommage pécuniaire; [4° péché; 5° mauvaise destinée; 6° conséquence prédestinée; 7° effort vain]. — (1) 1° Cil; 2° filament d'une fleur; 3° fil court; 4° chose petite quelconque; [5° aile]. — (2) 1° Certains jours du mois lunaire (savoir, la pleine lune et la nouvelle lune, et les sixième, huitième et dixième jours de chaque quinzaine); 2° fête; [3° jour de l'équinoxe, solstice, etc.; 4° livre ou chapitre; 5° nœud ou joint]. — (3) 1° Paupière; 2° chemin. — (4) 1° Acte injuste ou inconvenant; 2° parties naturelles; [3° vêtement qui sert à les couvrir]. — (5) 1° Union; 2° copulation; [3° mariage]. — (6) 1° n. L'âme suprême; 2° intellect; [3° nature; 4° conducteur d'éléphant; 5° invariablement sing. : chef]. — (7) 1° Connaissance; 2° marque, signe. — (8) 1° Fleur; 2° fruit. — (9) 1° Famille; 2° disparition; [3° chef d'une famille; 4° mort]. — (10) 1° Action de pleurer, de se lamenter; 2° — de crier, d'appeler. — (11) 1° Corps; 2° mesure; [3° belle forme; 4° hauteur, élévation]. — (12) 1° Maison; 2° corps; 3° lumière; 4° dignité ou majesté.

^a धामन्.

- 1 [अथ चतुष्पथे ॥ १२६ ॥
 2 सन्निवेशे च] संस्थानं
 3 लक्ष्म [चिह्नप्रधानयोः] ।
 4 आच्छादने [सम्पिधानम् अपवारणम् इत्युभे] ॥ १२७ ॥
 5 आराधनं [साधने स्याद् अवाप्तौ तोषणे ऽपि च] ।
 6 अधिष्ठानं [चक्रपुरप्रभावाध्यासनेषु अपि] ॥ १२८ ॥
 7 रत्नं [स्वजातिश्रेष्ठे ऽपि]
 8 वने [सलिलकानने] ।
 9 तलिनं [विगले स्तोके]
 10 [वाच्यलिङ्गास् तथोत्तरे^a] ॥ १२९ ॥
 11 समानाः [सत्समैके स्युः]
 12 पिशुनौ [खलसूचकौ] ।
 13 हीन-न्यूनाव् [ऊनगर्ह्यौ]

(1, 2) 1° Endroit où quatre chemins se rencontrent; 2° fabrication ou construction; [3° forme; 4° mort]. — (3) 1° Marque, signe; 2° chef — (4) 1° Couverture, habillement; 2° action de celer; [3° tromperie]. — (5) 1° Accomplissement; 2° action d'obtenir, acquisition; 3° action de gratifier. — (6) 1° Roue; 2° ville; 3° dignité, majesté; 4° action de demeurer, de se fixer; [** 5° approche; ** 6° accommodement]. — (7) 1° Chose excellente dans son genre; [2° perle]. — (8) 1° Eau; 2° forêt; [3° séjour; 4° maison ou demeure]. — (9) 1° Séparé, ayant des interstices; 2° petit; [3° clair, transparent; 4° inférieur, situé en dessous]. — (11) 1° m. f. n. Vertueux; 2° semblable; 3° même; [4° m. un des cinq airs vitaux]. — (12) 1° Méchant; 2° espion, dénonciateur; [3° corneille]. — (13) 1° Défectueux; 2° blâmable.

^a Les mots suivants, jusqu'à la fin de la section XVIII, sont des adjectifs s'accordant en genre avec le sujet.

1 [वेगिश्रूरी] तरस्विनौ ॥ १३० ॥

2 अभिपन्नो [ऽपराद्धो ऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि] ।

SECTION XIX.

HOMONYMES TERMINÉS EN प.

3 कलापो [भूषणे वर्हे तूर्णरि संहते ऽपि च] ॥ १३१ ॥

4 [परिच्छेदे] परीवापः [पर्युप्तौ सलिलस्थितौ] ।

5 [गोधुग्गोष्ठपती] गोपौ

6 [हरविह्व] वृषाकपी ॥ १३२ ॥

7 वाष्पाव् [ऊष्माश्रु]

8 कशिपू [त् अन्नम् आखादनं द्वयं] ।

9 तल्पं [शय्याद्दारेषु]

10 [स्तम्बे ऽपि] विटपो [ऽस्त्रियां] ॥ १३३ ॥

11 प्राप्तरूप-स्वरूपाभिरूपा^a [बुधमनोज्ञयोः] ।

(1) 1° Rapide; 2° vaillant. — (2) 1° Coupable; 2° soumis; 3° accablé par le malheur; [4° fugitif; 5° cherchant refuge]. — (3) 1° Ornement; [2° cordon de grelots porté par les femmes autour de leur ceinture]; 3° œil de la queue d'un paon; 4° carquois; 5° multitude, assemblage. — (4) 1° Équipage; 2° action de semer autour; 3° — d'arrêter l'eau; [4° pièce d'eau]. — (5) 1° Pâtre; 2° maître d'une étable; [3° surintendant d'un district; 4° roi]. — (6) 1° *S'iva*; 2° *Vichn'ou*; [3° *Agni*]. — (7) 1° Vapeur; 2° larme. — (8) 1° Nourriture; 2° habillement; [3° au duel : nourriture et habillement]. — (9) 1° Lit; 2° étage supérieur; 3° épouse. — (10) 1° Amas, groupe; [2° branche au-dessus de la principale; 3° expansion]. — (11, et pag. 316, lig. 1.) 1° Instruit; 2° qui plaît.

^a स्वरूप-अभिरूप.

- 1 भेद्यलिङ्गा अमी]
 2 [कूर्मो वीणाभेदश्च] कच्छपी ॥ १३४ ॥

SECTION XX.

HOMONYMES TERMINÉS EN फ.

- 3 [स्वर्णे पुंसि] रेफः [स्यात् कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः] ।

SECTION XXI.

HOMONYMES TERMINÉS EN व.

- 4 [अन्तराभवसत्वे ऽश्चे] गन्धर्वी [दिव्यगायने] ॥ १३५ ॥
 5 कम्बूर् [ना वलये शंखे]
 6 द्विजिह्वौ [सर्पसूचकौ] ।
 7 पूर्वी^a [ऽन्यलिङ्गः प्राग् आह पुम्बलुत्वे ऽपि पूर्वज्ञान्] ॥ १३६ ॥

SECTION XXII.

HOMONYMES TERMINÉS EN भ.

- 8 कुम्भौ [घटेभमूर्दांशौ]

(2) 1° Tortue femelle; 2° espèce de luth, celui de *Saraswati*; [3° maladie de la rate; — maladie de la peau, *Wils.*]. — (3) 1° La lettre R; 2° m. f. n. vil, méchant. — (4) 1° L'esprit après la mort, avant qu'il renaisse de nouveau; 2° cheval; 3° musicien céleste; [4° esprits fréquentant le ciel; 5° coucou noir; 6° sorte de bête fauve]. — (5) 1° Bague; 2° conqure ou coquille. — (6) 1° Serpent; 2° homme qui parle tout bas, dénoncia-
 teur. — (7) 1° Oriental; [2° premier]; 3° m. pl. aïeux. — (8) 1° m. Jarre,

^a Ou पूर्वः.

- 1 डिम्भौ [तु शिशुवालिशौ] ।
 2 स्तम्भौ [स्थूणाज्जडीभावौ]
 3 शम्भू [ब्रह्मत्रिलोचना] ॥ १३७ ॥
 4 [कुक्षिभ्रूणार्भका] गर्भाः
 5 विस्रम्भः [प्रणये ऽपि च] ।
 6 [स्याद् भेर्यां] दुन्दुभिः [पुंसि स्याद् अत्ने] दुन्दुभिः [स्त्रियां] ॥ १३८ ॥
 7 [स्यान् महारजने क्लीवं] कुसुम्भं [करके पुमान्] ।
 8 [क्षत्रिये ऽपि च] नाभिर् [ना]
 9 सुरभिर् [गवि च स्त्रियां] ॥ १३९ ॥
 10 सभा [संसदि सम्ये च]
 11 [त्रिष् अथ्यत्ते ऽपि] वल्लभः

2° globe frontal de la tête d'un éléphant; [aussi 3° le signe du verseau; 4° nom du neveu de *Râvana*; 5° amant d'une prostituée; 6° n. *bdellium*; 7° f. *bignonia chelonoides*, B. *suaveolens*, Wils.].—(1) 1° Enfant; 2° homme ignorant.—(2) 1° Poteau ou pilier; 2° insensibilité.—(3) 1° *Brahmâ*; 2° *Siva*; [3° saint déifié ou *djina*; **4° *Vichn'ou*].—(4) 1° Ventre; 2° fœtus; 3° enfant.—(5) 1° Connaissance; [2° sollicitation amoureuse; 3° foi, confiance; **4° dispute pour rire].—(6) 1° m. Grand tambour; [2° *Varoun'a*; 3° nom d'un *daitya* ou démon]; 4° f. dé à jouer; [5° enjeu].—(7) 1° n. espèce de carthame, *carthamus tinctorius*, Wils.; 2° or; 3° m. pot à l'eau; [**4° grenade].—(8) 1° m. *Kchatriya*; [2° empereur; 3° moyeu d'une roue; 4° m. f. nombril; 5° f. musc].—(9) 1° fém. Vache; [2° vache merveilleuse qui donne tout ce qu'on désire lorsqu'on la traite; 3° m. printemps; 4° muscade; 5° *melichia champac*; 6° m. f. n. odorant; 7° plaisant, agréable].—(10) 1° Assemblée, **2° personne de la compagnie; [3° maison; **4° jeu].—(11) 1° Surintendant; [2° pâtre en chef; 3° bien-aimé; 4° cheval ayant de bons signes].

SECTION XXIII.

HOMONYMES TERMINÉS EN म्.

- 1 [किरणप्रग्रहौ] रश्मी
 2 [कपिभेकौ] प्लवङ्गमौ ॥ १४० ॥
 3 [इच्छामनोभवौ] कामौ
 4 [शक्त्युयोगौ] पराक्रमौ ।
 5 धर्माः [पुण्ययमन्यायस्वभावाचासोमपाः] ॥ १४१ ॥
 6 [उपायपूर्व आरम्भ उपधा चाप्य्] उपक्रमः ।
 7 [वणिकूपयः पुरं वेद्ये] निगमो
 8 [नागरो वणिक्] ॥ १४२ ॥
 9 नैगमौ [द्वौ]
 10 [बले] रामो [नीलचारुसिते त्रिषु] ।

(1) 1° Rayon de lumière; 2° rène. — (2) 1° Singe; 2° grenouille. — (3) 1° m. Désir; 2° l'Amour, Cupidon; [3° n. liqueur séminale; 4° désirable; 5° (en composition) indépendant]. — (4) 1° Pouvoir; 2° effort pour vaincre un ennemi; [3° valeur]. — (5) 1° Mérite religieux et moral; 2° Yama; 3° justesse, propriété; 4° nature, caractère; 5° usage, pratique; 6° homme qui boit le jus de l'asclépiade acide à un sacrifice; [7° sacrifice quelconque; 8° ressemblance; 9° innocence; 10° arc; 11° *oupanichad* ou traité théologique tiré du *Véda*; 12° la vertu personnifiée; 13° le père de *Youdhichth'ira*. — Dans quelques-unes de ses acceptions, le mot prend le genre neutre.] — (6) 1° Entreprise prudente avec connaissance des moyens; 2° stratagème; [3° valeur]. — (7) 1° Place de marché; 2° ville; 3° la Sainte Écriture; [4° commerce]. — (8, 9) 1° Citoyen, homme de la ville; 2° commerçant; [3° portion théologique du *Véda*]. — (10) 1° masc. *Balarâma*; [2° *Paras'ourâma*; 3° *Râmatchandra*; 4° espèce de bête fauve]; 5° m. f. n. noir; 6° agréable; 7° blanc.

- 1 [शब्दाद्विपूर्वो वृन्दे ऽपि] ग्रामः
 2 [क्रान्तौ च] विक्रमः ॥ १४३ ॥
 3 गुल्मा [रुक्स्तम्बसेनाश् च]
 4 जामिः^a [स्वसृकुलस्त्रियोः] ।
 5 [क्षितिक्षान्त्योः] क्षमा [युक्ते] क्षमं [शक्ते हिते त्रिषु] ॥ १४४ ॥
 6 [त्रिषु] श्यामौ [हृत्कृत्तौ] श्यामा [स्यात् शारिवा निशा] ।
 7 ललामं^a [पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु] ॥ १४५ ॥
 8 सूक्ष्मम् [अध्यात्मम् अय्य]
 9 [आदौ प्रधाने] प्रथमस् [त्रिषु] ।
 10 वामौ [वल्गुप्रतीपौ द्वाव्]

(1) 1° (En composition) multitude; [2° village ou juridiction d'une ville; 3° octave en musique]. — (2) 1° Marche; [2° pouvoir; 3° valeur]. — (3) 1° Maladie de la rate; 2° touffe d'herbe, etc.; 3° corps de troupes consistant en neuf pelotons. — (4) 1° Sœur; 2° femme chaste. — (5) 1° f. terre; 2° patience; 3° n. justesse, propriété; 4° m. f. n. capable; 5° bienveillant; [6° patient]. — (6) 1° m. f. n. Vert; 2° noir; [3° m. coucou noir; 4° nuage; 5° figuier sacré à *Prayāga*; 6° espèce d'herbe potagère, *convolvulus argenteus*; 7° n. poivre noir]; 8° f. plante appelée vulgairement *syāmlatā*; 9° nuit; [10° indigo; 11° femme ayant des qualités particulières]. — (7) 1° Queue; 2° marque sur le front d'un cheval, d'un taureau, etc. 3° cheval; 4° ornement; [ou 5° ornement d'un cheval]; 6° chef; 7° bannière ou symbole; [8° corne; 9° crinière]. — (8) 1° n. l'âme suprême; [2° m. atôme; 3° m. f. n. petit]. — (9) 1° Premier; 2° chef. — (10) 1° m. f. n. Plaisant, agréable; 2° contraire, opposé; [3° gauche, contraire de droit; 4° m. tétine; 5° Cupidon; 6° *S'iva*; 7° n. richesse; 8° fém. (*vāma*), femme; 9° (*vāmi*), jument; 10° ânesse; 11° chakal femelle; 12° jeune éléphant femelle].

^a Ou यामिः. — ^b Ou ललाम.

- 1 अथमौ [न्यूनकुत्सितौ] ॥ १४६ ॥
 2 [जीर्णं च परिभुक्तं च] यातयामम् [इदं द्वयम्] ।

SECTION XXIV.

HOMONYMES TERMINÉS EN य.

- 3 [तुरङ्गरुडौ] ताक्ष्यौ
 4 [निलयापचयौ] क्षयौ ॥ १४७ ॥
 5 अशुर्यौ [देवश्यालौ]
 6 भ्रातृव्यौ [भ्रातृजद्विषौ] ।
 7 पर्जन्यौ [सदब्देन्द्रौ]
 8 [स्याद्] अर्यः [स्वामिवैश्ययोः] ॥ १४८ ॥
 9 तिष्यः [पुष्ये कलियुगे]
 10 पर्यायो [ऽवसरे क्रमे] ।
 11 प्रत्ययो [ऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु ॥ १४९ ॥
 12 रन्ध्रे शब्दे]

(1) 1° Bas; 2° vil.—(2) 1° Vieux; 2° usé.—(3) 1° m. Cheval; 2° l'oiseau *Vichn'ou*; [3° *Aroun'a* ou l'aurore; 4° n. collyre].—(4) 1° Maison; 2° diminution; [3° phthisie ou consommation; 4° destruction générale].—(5) 1° Frère d'un mari; 2° frère d'une épouse.—(6) 1° Fils d'un frère; 2° ennemi.—(7) 1° Nuage tonnant; 2° *Indra*; [3° nuage quelconque; 4° tonnerre].—(8) 1° Maître; 2° homme de la troisième classe; [3° m. f. n. excellent].—(9) 1° m. Huitième astérisme; 2° quatrième âge du monde; [3° f. myrobolan emblic].—(10) 1° Opportunité; 2° succession; [3° mode, manière, forme].—(11, 12) 1° Sujet, dépendant; 2° serment, épreuve judiciaire, ordalie; 3° connaissance, conception; 4° confiance, assurance; 5° cause; 6° trou; 7° affixe; [8° célébrité; 9° pratique, usage].

- 1 [ऽथा-]-नुशयो^a [दीर्घद्वेषानुतापयोः] ।
 2 स्थूलोच्चयस् [त् असाकल्ये गजानां मध्यमे गते] ॥ १५० ॥
 3 समयाः [शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः] ।
 4 [व्यसनान्य् अशुभं द्वैवं विपद् इत्य्] अनयास् [त्रयः] ॥ १५१ ॥
 5 अत्ययो [ऽतिक्रमे कृच्छ्रे द्वेषे दण्डे ऽप्य्]
 6 [अथापदि ।
 7 युद्धायत्योः] सम्परायः
 8 पूज्यस् [तु अशुरे ऽपि च] ॥ १५२ ॥
 9 [पश्चादवस्थायि बलं समवायश् च] सन्नयौ ।
 10 [संघाते सन्निवेशे च] संस्त्यायः
 11 प्रणयास् [त्वमी ॥ १५३ ॥
 12 विस्रम्भयाञ्जाप्रेमाणो]
 13 [विरोधे ऽपि] समुच्छ्रयः ।
 14 विषयो [यस्य यो ज्ञातस् तत्र शब्दादिकेषु अपि] ॥ १५४ ॥

(1) 1° Vieille inimitié; 2° repentir. — (2) 1° État de ce qui est incomplet; 2° pas moyen d'un éléphant, ni rapide ni lent; [3° éminence au pied d'une montagne]. — (3) 1° Serment; 2° usage; 3° temps; 4° conclusion démontrée; 5° convention, marché; [6° avis, signe; 7° loisir]. — (4) 1° Vice; 2° mauvaise fortune; 3° calamité. — (5) 1° Transgression; 2° détresse; 3° faute, crime; 4° punition par l'amende, etc. — (6, 7) 1° Calamité; 2° guerre; 3° temps futur, avenir. — (8) 1° m. Beau-père; [2° précepteur; 3° m. f. n. digne de respect]. — (9) 1° Arrière-garde; 2° multitude. — (10) 1° Assemblage; 2° voisinage; [3° maison]. — (11, 12) 1° Connaissance; 2° sollicitation; 3° affection. — (13) 1° Inimitié; [2° élévation, hauteur]. — (14) 1° Fréquenté et connu; 2° objet des sens, comme

^a अनुशयः.

- 1 [निर्यासे ऽपि] कषायो [ऽस्त्री]
 2 [सभायां च] प्रतिश्रयः ।
 3 प्रायो [भून्व् अन्तगमने]
 4 मन्युर [दैन्ये क्रतौ क्रुधि] ॥ १५५ ॥
 5 [रहस्योपस्ययोर्] गुह्यं
 6 सत्यं [शपथतथ्ययोः] ।
 7 वीर्य^a [बले प्रभावे च]
 8 द्रव्यं [भव्ये गुणाश्रये] ॥ १५६ ॥
 9 धिष्यं^b [स्थाने गृहे भे ऽग्नौ]
 10 भाग्यं [कर्म शुभाशुभं] ।
 11 [कशेरुह्योर्] गाङ्गयं
 12 विशल्या [दन्तिकापि च] ॥ १५७ ॥

le son, etc.; [3° contrée, province]. — (1) 1° Infusion, extrait; [ou 2° exsudation d'un arbre; 3° goût astringent; 4° parfum frotté sur le corps]. — (2) 1° Assemblée; [2° refuge; 3° maison]. — (3) 1° Abondance, multitude; 2° action de s'affamer jusqu'à la mort; [3° en composition, de même, semblable]. — (4) 1° Détresse; 2° sacrifice; 3° colère; [4° peine, chagrin]. — (5) 1° n. Secret; 2° parties secrètes; [3° masc. tortue; 4° orgueil, — hypocrisie; *Wils. Dict.*]. — (6) 1° n. Serment; 2° vérité; [3° le premier âge du monde; 4° m. f. n. vrai]. — (7) 1° Force; 2° dignité; [3° liqueur séminale; 4° splendeur; 5° valeur]. — (8) 1° m. f. n. Convenable, juste; 2° n. substance, réceptacle des qualités; [3° richesse; 4° drogue; 5° airain]. — (9) 1° n. Place; 2° maison; 3° astérisme; [4° vigueur]; 5° m. n. feu. — (10) 1° Destinée; 2° bonheur; 3° malheur. — (11) 1° n. Truffe, **scirpus kyssoor*, *Wils. Dict.*; 2° or; [3° masc. *Bhichma*, fils de *Gangá*]. — (12) Plante nommée *dantí*; aussi d'autres plantes, comme le *menispermum*.

^a Ou वीर्य. — ^b Ou धिष्यं et धिष्यं.

- 1 वृषाकपायी [श्रीगौर्यैर्] ।
 2 अभिष्या [नामशोभयोः] ।
 3 [आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं सम्प्रधारणं ॥ १५८ ॥
 4 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नव] क्रियाः ।
 5 छाया [सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बम् अनातपः] ॥ १५९ ॥
 6 कक्ष्या [प्रकोष्ठे हृष्यदिः कांच्यां मध्येभवन्धने] ।
 7 कृत्या [क्रियोद्वतयोस् त्रिषु भेद्ये धनादिभिः] ॥ १६० ॥
 8 जन्यः [स्याज् जनवाद् सपि]
 9 जघन्यो [ऽन्ये ऽधमे ऽपि च] ।
 10 [गर्ह्याधीनौ च] वक्तव्यौ
 11 कल्यौ [सज्जनिरामयौ] ॥ १६१ ॥

glabrum, etc. — (1) 1° La déesse *Lakshmî*; 2° *Gaurî*; [3° *Swâhâ*, épouse du régent du feu; 4° *Sâtchî*, épouse d'*Indra*]. — (2) 1° Nom; 2° beauté; [3° gloire]. — (3, 4) 1° Commencement, entreprise; 2° expiation; 3° étude; 4° adoration; 5° recherche exacte, enquête; 6° moyen, expédient; 7° acte; 8° action corporelle; 9° remède; [10° instrument; 11° cérémonie initiatrice religieuse; 12° obsèques]. — (5) 1° L'épouse du soleil; 2° beauté; 3° image réfléchie; 4° ombre. — (6) 1° f. Enceinte d'un édifice; [2° porte de cette enceinte]; 3° cordon de grelots ou sonnettes porté par les femmes autour du corps; 4° corde autour du corps d'un éléphant; [5° effort; ** 6° m. aisselle]. — (7) 1° f. Acte; 2° divinité particulière [à laquelle on offre des sacrifices magiques dans un but de destruction; ou 3° peste]; 4° m. f. n. retiré par séduction d'une alliance; [5° chose à faire]. — (8) 1° n. Bruit, nouvelle; [2° m. f. n. qui est à produire; 3° parent d'une mariée; 4° personne qui l'accompagne; 5° compagnon d'un marié; 6° n. foire, marché; 7° guerre; 8° météore; 9° masc. père; 10° f. mère; 11° compagne d'une mère]. — (9) 1° Dernier; 2° bas, vil. — (10) 1° Répréhensible; 2° sujet, dépendant; [3° propre à être dit]. — (11) 1° Prêt, préparé; 2° sain, qui se porte bien; [3° habile; 4° m. f. sourd et muet; 5° n. matin; 6° f. discours

- 1 [आत्मवान् अनपेतो ऽर्थाद्] अर्थ्यः
 2 पुण्यं [तु चार्त् अपि] ।
 3 ह्यं [प्रशस्तरूपे ऽपि]
 4 वदान्यो [वल्लुवाग् अपि] ॥ १६२ ॥
 5 [न्याये ऽपि] मध्यं
 6 सौम्यं [तु सुन्दरे सोमैवते] ।

SECTION XXV.

HOMONYMES TERMINÉS EN र्.

- 7 [निवहावसरौ] वारौ^a
 8 संस्तरौ [प्रस्तराध्वरौ] ॥ १६३ ॥
 9 गुरू [गीष्पतिपित्राद्यौ]
 10 द्वापरौ [युगसंशयौ] ।
 11 प्रकारौ [भेदसादृश्याव्]

favorable].—(1) 1° m. f. n. Intelligent; 2° riche; [ou 3° juste, raisonnable; 4° n. crayon rouge].—(2) 1° Agréable, qui plaît; [2° n. bonne action; 3° vertu, mérite religieux et moral].—(3) 1° Beau; [2° n. argent; 3° or ou argent travaillé].—(4) 1° Éloquent; [2° généreux, magnifique].—(5) 1° m. f. n. Juste, raisonnable; [2° moyen; 3° bas, vil; 4° n. milieu].—(6) 1° Beau; 2° consacré à la lune; [3° doux; 4° masc. patronymique de *Boudha* ou *Mercure*].—(7) 1° masc. Multitude; 2° occasion; [3° jour de la semaine; 4° n. vase pour les liqueurs spiritueuses].—(8) 1° Lit d'herbe ou d'écorce; 2° sacrifice.—(9) 1° masc. *Vrihaspati*; 2° parent ou autre allié digne du respect; [3° maître spirituel; 4° m. f. n. pesant; 5° grand].—(10) 1° Troisième âge du monde; 2° doute.—(11) 1° Différence; 2° similitude.

^a वारः ou वारः.

- 1 आकाराव् [इङ्गिताहती] ॥ १६४ ॥
 2 किंशारू [धान्यशूकेषू]
 3 मरू [धन्वधराधरौ] ।
 4 अद्रयो^a [द्रुमशैलाकाः]
 5 [स्त्रीस्तनाब्दौ] पयोधरौ ॥ १६५ ॥
 6 [ध्वान्तरिदानवा] वृत्रा
 7 [बलिहस्तांशवः] कराः ।
 8 प्रदरा [भङ्गनारीरुग्वाणा]
 9 अस्त्राः^b [कचा अपि] ॥ १६६ ॥
 10 [अजातशत्रुणे गौः काले ऽप्य् अश्मश्रुर् ना च] तूरः ।
 11 [स्वर्णे ऽपि] राः
 12 परिकरः [पर्यङ्कपरिवारयोः] ॥ १६७ ॥
 13 [मुक्ताशुद्धौ च] तारः [स्यात्]

(1) 1° Signe; 2° forme. — (2) 1° Barbe de blé; 2° flèche. — (3) 1° Contrée privée d'eau; 2° montagne. — (4) 1° Arbre; 2° montagne; 3° soleil. — (5) 1° Poitrine d'une femme; 2° nuage; [3° noix de coco]. — (6) 1° Obscurité; 2° ennemi; 3° démon qui fut tué par *Indra*. — (7) 1° Taxe; 2° main; 3° rayon de lumière; [4° trompe d'un éléphant; * 5° grêle]. — (8) 1° Action de fendre; [ou 2° fracture]; 3° maladie féminine, excès de menstruation; 4° flèche. — (9) 1° m. Chevelure; [2° coin, angle; 3° n. larme; 4° sang]. — (10) 1° Taureau sans cornes, bien qu'en âge d'en être pourvu; 2° homme sans barbe, quoiqu'en âge d'en avoir; [3° goût astringent]. — (11) 1° Or; [2° richesse; 3° nuage]. — (12). 1° Lit; 2° qui dépend de quelqu'un, ou fait partie de sa maison; [3° commencement; 4° multitude; 5° ceinturon]. — (13) 1° m. Éléance d'une perle; [ou 2° belle perle; 3° pu-

^a Sing. अद्रिः. — ^b अस्त्राः (Édit. Calcut. — *Wils. Dict.*); अस्त्राः (*Ms. Beng.*); अस्त्राः (Édit. Séramp.).

- 1 शारो [वायौ स तु त्रिषु ।
 2 क्वरु]]
 3 [ऽथ प्रतिज्ञाजिसंविद्यापत्सु] सङ्गरः ॥ १६६ ॥
 4 [वेदभेदे गुप्तिवादे] मन्त्रो
 5 मित्रो [स्वाव् अपि] ।
 6 [मत्त्रेषुयूपखण्डे ऽपि] स्वरु^a
 7 [गुह्ये ऽप्य्] अवस्करः ॥ १६६ ॥
 8 आउम्बरस् [तूर्यस्वे गजेन्द्राणां च गजित्ति] ।
 9 अभिहारो [ऽभियोगे च चौर्ये सन्नहने ऽपि च] ॥ १७० ॥
 10 [स्याज् जङ्गमे] परीवारः^b [खड्गकोशे परिच्छेदे] ।
 11 विष्टरो [विटपी दर्भमुष्टिः पीठायम् आसनं] ॥ १७१ ॥
 12 [द्वारि द्वाःस्ये] प्रतीहारः

pille de l'œil; 4° note haute; 5° m. f. n. haut (comme une note en musique); 6° n. argent; 7° f. n. étoile; 8° f. l'épouse de *Vrihaspati*; 9° celle de *Sougrîva*; 10° déesse des *Bauddhas*. — (1, 2) 1° m. Air, vent; 2° m. f. n. bigarré; [3° masc. pièce du jeu d'échecs]. — (3) 1° Promesse; 2° guerre; 3° marché, convention; 4° calamité, détresse. — (4) 1° Prières des *Védas*; 2° consultation secrète, avis particulier; [3° incantation ou charme]. — (5) 1° m. Soleil; [2° n. ami]. — (6) 1° Sacrifice; 2° flèche; 3° copeaux du bois dont on a fait un poteau de sacrifice. — (7) 1° Parties naturelles; [2° ordure, excrément; 3° balayures]. — (8) 1° Charge sonnée par des trompettes; 2° rugissement de grands éléphants; [3° commencement; 4° préparatifs pompeux]. — (9) 1° Assaut vigoureux; 2° brigandage; 3° action de s'armer, de prendre les armes. — (10) 1° Serviteur; 2° fourreau d'épée; 3° train, équipage, insignes d'une dignité. — (11) 1° Arbre; 2° poignée d'herbe sacrée; 3° chaise ou coussin. — (12) 1° Porte; 2° portier.

^a स्वरु ou स्वरुस्. — ^b Ou परिवारः.

- 1 प्रतिहार्य [अण्य् अनन्तरे] ।
- 2 [विपुले नकुले विल्लौ] वधुः [स्यात् पिङ्गले त्रिषु] ॥ १९२ ॥
- 3 सारो [बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीवं वरे त्रिषु] ।
- 4 दुरोदरो [द्यूतकारे पणे द्यूते] दुरोदरं^a ॥ १९३ ॥
- 5 [महारण्ये दुर्गपथे] कान्तारः [पुन्नपुंसकं] ।
- 6 मत्सरो [ऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस् त्रिषु] ॥ १९४ ॥
- 7 [देवाद्वृते] वरः^b [अष्टे त्रिषु क्लीवे मनाक्प्रिये] ।
- 8 [वंशाङ्ग्रे] करीरो [ऽस्त्री तरुभेदे घटे च ना] ॥ १९५ ॥
- 9 [ना चमूजघने हस्तसूत्रे] प्रतिसरो [ऽस्त्रियां] ।
- 10 [यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कवित्तुसिंहांशुवाजिषु] ॥ १९६ ॥
- 11 शुकाहिकपिभेकेषु] हरिर [ना कपिले त्रिषु] ।

(1) Portier femelle.—(2) 1° m. Grand ichneumon; 2° *Vichn'ou*; [3° *S'iva*; 4° *Agni*; 5° nom d'un sage]; 6° m. f. n. brun, basané; [7° large].—(3) 1° m. Force; 2° essence; 3° moelle; 4° n. propriété; [5° eau; 6° richesse]; 7° m. f. n. excellent.—(4) 1° m. Joueur; 2° enjeu; 3° n. jeu, action de jouer.—(5) 1° m. n. Forêt; 2° chemin difficile; [3° m. sorte de canne à sucre].—(6) 1° m. Envie; 2° m. f. n. envieux; 3° avare, vilain; [4° f. moucheron].—(7) 1° m. Faveur, grâce; 2° m. f. n. excellent; 3° n. (indéclinable, selon quelques-uns) mieux, préférable; [4° m. beau-fils; 5° action de choisir, de désigner; 6° n. safran; 7° f. (*Vará*) les trois myrobolans; 8° (*Varí*) *asparagus racemosus*].—(8) 1° m. n. scion de bambou; 2° m. sorte de plante commune dans les déserts secs; 3° jarre.—(9) 1° m. Arrière-garde; 2° m. n. cordon porté sur le poignet aux nocés, etc. [3° m. conseil; 4° bracelet; 5° couronne ou guirlande; ** 6° m. n. territoire; 7° m. f. n. propre à être employé, * servile, dépendant].—(10, 11) 1° m. *Yama*; 2° le vent; 3° *Indra*; 4° la lune; 5° le soleil; 6° *Vichn'ou*; 7° lion; 8° rayon de lumière; 9° cheval; 10° perroquet; 11° serpent; 12°

^a Ou दुरोदरः, -रं. — ^b Ou वरः.

- 1 शर्करा [कर्परांशोऽपि]
 2 यात्रा [स्याद् यापने गतौ] ॥ १७७ ॥
 3 श्रा [भूवाक्सुराप्सु स्यात्]
 4 तन्त्री^a [निद्राप्रमीलयोः] ।
 5 धात्री [स्याद् उपमातापि क्षितिर् अय्य् आमलक्य् अपि] ॥ १७८ ॥
 6 क्षुद्रा [व्यङ्ग नटी वेश्या सर्वा कण्टकारिका ।
 7 त्रिषु क्रूरे ऽधमे ऽल्पे ऽपि] क्षुद्रो
 8 मात्रा [परिच्छेदे ॥ १७९ ॥
 9 अल्पे च परिमाणे सा] मात्रं [कास्त्र्ये ऽवधारणे] ।
 10 [अलेख्याश्चर्ययोश्] चित्रं
 11 कलत्रं [ओणिभार्ययोः] ॥ १८० ॥

singe; 13° grenouille; 14° m. f. n. brun, basané; [15° vert; ou 16° jaune].
 (1) 1° Tesson; [2° concrétion pierreuse, gravier; 3° contrée abondante en telles substances; 4° maladie (la gravelle); 5° sucre terré * ou candi]. —
 (2) 1° Action de passer le temps; [2° profession]; 3° voyage; [4° fête, procession]. — (3) 1° Terre; 2° langage; 3° liqueur spiritueuse; 4° eau.
 (4) 1° Somnolence; 2° lassitude. — (5) 1° Nourrice; 2° la terre; [3° mère]; 4° myrobolan emblic. — (6, 7) 1° f. Femme à qui il manque un membre; 2° danseuse; 3° courtisane, fille publique; 4° abeille; 5° plante aux œufs; 6° m. f. n. cruel; 7° bas; 8° petit; [9° avare; 10° pauvre; 11° fém. mouche]. — (8, 9) 1° f. Choses requises ou nécessaires, matériaux; 2° un peu; 3° quantité; 4° n. totalité; 5° seulement (impliquant exclusion et identité); [6° f. boucle d'oreille; 7° instant; 8° syllabe brève]. — (10) 1° n. Peinture, dessin; 2° étonnement; [3° petit cercle ou marque sur le front; 4° couleur bigarrée; 5° m. f. n. bigarré; 6° étonnant, surprenant; 7° fém. *Tchitrá*, étoile dans l'épi de la Vierge; 8° titre de *Soubhadrá*]. —
 (11) 1° Hanches et reins; 2° épouse; [3° forteresse, citadelle].

^a Ou तन्त्रा et तन्त्रिः.

- 1 [योग्यभाजनयोः] पात्रं
 2 पत्रं [वाहनपक्षयोः] ।
 3 [निदेशग्रन्थयोः] शास्त्रं
 4 शस्त्रम् [आयुधलोहयोः] ॥ १८१ ॥
 5 [स्याञ्जटांशुकयोर्] नेत्रं
 6 क्षेत्रं [पत्नीशरीरयोः] ।
 7 [मुखाग्रे क्रोडहृलयोः] पोत्रं
 8 गोत्रं [तु नाम्नि च] ॥ १८२ ॥
 9 सत्रम् [आच्छादने यज्ञे सदादाने वने ऽपि च] ।
 10 अजिरं [विषये काये ऽप्य्]
 11 अम्बरं [व्योम्नि वाससि] ॥ १८३ ॥
 12 चक्रं [राष्ट्रे ऽप्य्]

(1) 1° Propre, capable; 2° vase; [3° ministre d'un roi; 4° canal d'une rivière ou espace entre les deux rives; 5° vase employé dans un sacrifice, comme une cuiller, etc.; 6° feuille; 7° personnage ou rôle d'un drame]. — (2) 1° Voiture; 2° aile; [3° feuille; 4° plume d'une flèche]. — (3) 1° Commandement; 2° écriture, science, préceptes. — (4) 1° n. Arme; 2° fer; [3° f. *sastrí*, couteau]. — (5) 1° n. Racine d'un arbre; 2° soie tissée ou blanchie; [3° œil; 4° corde d'une baratte; 5° char; 6° m. f. n. guide]. — (6) 1° Épouse; 2° corps; [3° champ; 4° lieu sacré; 5° figure géométrique]. — (7) 1° Groin d'un porc; 2° partie antérieure d'une charrue; [2° 3° espèce d'étoffe]. — (8) 1° n. Nom; [2° famille, race, lignée; 3° richesse; 4° m. montagne; 5° f. la terre; 6° troupeau de vaches]. — (9) 1° Vêtement; 2° sacrifice; 3° aumônes constantes; 4° forêt; [5° richesse]. — (10) 1° Objet des sens; 2° corps; [3° cour ou basse-cour; 4° vent]. — (11) 1° Éther, ciel; 2° habillement; [3° ambre gris]. — (12) 1° n. Royaume; [2° roue; 3° arme de jet circulaire, disque aiguisé; 4° roue d'un potier; 5° moulin; 6° multitude; 7° armée; 8° gouffre, tournant d'eau; ** 9° orgueil; 10° m. oie rouge, *anas casarca*].

- 1 अक्षरं [तु मोक्षे ऽपि]
 2 क्षीरम् [अप्सु च] ।
 3 [स्वर्णे ऽपि] भूरि-चन्द्रौ [द्वौ]
 4 [द्वारमात्रे ऽपि] गोपुरं ॥ १८४ ॥
 5 [गुहादम्भौ] गह्वरे [द्वे]
 6 [रहो ऽन्तिकम्] उपह्वरे ।
 7 [पुरो ऽधिकम् उपर्य्] अग्राण्य्^a
 8 [आगारे नगरे] पुरं ॥ १८५ ॥
 9 मन्दिरं [चा-]
 10 [-थ] राष्ट्रौ [ऽस्त्री विषये स्याद् उपद्रवे] ।
 11 द्यौ [ऽस्त्रियां भये श्वभ्रे]
 12 वज्रो [ऽस्त्री हीरके पत्नौ] ॥ १८६ ॥

(1) 1° n. Exemption de transmigration; [2° lettre ou caractère écrit; 3° *Brahme*; 4° m. *S'iva*; 5° m. f. n. inaltérable]. — (2) 1° Eau; [2° lait]. — (3) 1° m. Or; [2° m. f. n. (*bhūri*), fréquent, nombreux; 3° m. *Brahmā*; 4° *Vichn'ou*; 5° *S'iva*; — 2° masc. (*tchandra*), la lune; 3° camphre; 4° eau; ** 5° m. f. n. qui plaît]. — (4) 1° Porte; [2° porte de ville; 3° espèce de souchet, * *cyperus rotundus*, *Wils. Dict.*]. — (5) 1° n. Caverne; 2° orgueil, * hypocrisie, *Wils. Dict.*; [3° forêt; 4° m. berceau de jardin]. — (6) 1° Solitude; 2° voisinage, proximité. — (7) 1° n. Front, partie antérieure; 2° m. f. n. plus, beaucoup; 3° n. haut, sommet; [4° pointe, extrémité; 5° assemblage, multitude; 6° place de repos, fin d'un voyage; 7° quantité d'un *pala*; 8° aumônes limitées, quatre bouchées; 9° m. f. n. chef principal; 10° premier]. — (8, 9) 1° n. Maison; 2° ville; [3° (*poura*), corps; 4° *Pâtali-poutra* ou *Patna*; 5° m. *bdellium*; — 3° m. (*mandira*), mer]. — (10) 1° Contrée ou royaume; 2° calamité. — (11) 1° m. Crainte, terreur; 2° trou dans la terre; [3° (indécl.) un peu; 4° f. (*dari*), caverne]. — (12) 1° m. n.

- 1 तन्त्रं [प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवापे परिच्छेदे] ।
- 2 औशीष् [चामरे दण्डे ऽप्य्] औशीरं [शयनासने] ॥ १८७ ॥
- 3 पुष्करं [कहिस्तात्रे वाद्यभाण्डमुखे जले] ।
- 4 व्योम्नि खड्गफले पद्मे तीर्थीषधिविशेषयोः] ॥ १८८ ॥
- 5 अन्तरम् [अवकाशावधिपरिधानान्तर्दिभेदादर्थ्ये] ।
- 6 छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्ये ऽन्तरात्मनि च] ॥ १८९ ॥
- 7 [मुक्ते ऽपि] पिठरं
- 8 [राजकशेरुण्य् अपि] नागरं ।
- 9 शार्वरं [त्व् अन्धतमसे घातुके भेद्यलिङ्गकः] ॥ १९० ॥
- 10 गौरो [ऽरुणे सिते पीते]

Diamant; 2° tonnerre; [3° m. un des vingt-huit *yogas* astrologiques]. — (1) 1° Chef; 2° conclusion démontrée; 3° métier d'un tisserand; 4° vêtement; [5° action de veiller au salut d'un royaume; 6° dépendance; 7° livre sacré; 8° médicament excellent]. — (2) 1° m. Poignée d'un émouchoir fait avec la queue d'une vache; 2° n. lit; 3° chaise ou siège; [4° racine odorante de l'herbe appelée *andropogon muricatum*]. — (3, 4) 1° n. Bout de la trompe d'un éléphant; 2° haut d'un tambour, ou partie sur laquelle on frappe un instrument de musique; 3° eau; 4° ciel; 5° lame d'un cimeterre; [ou 6° foureau]; 7° lotus; 8° nom d'un lieu sacré; 9° drogue, *costus arabicus*; [10° un des *dwīpas* ou continents; 11° m. cigogne indienne]. — (5, 6) 1° Intervalle; 2° période; 3° action d'habiller; 4° — de couvrir; 5° différence; 6° égard, considération; 7° trou ou fente; 8° propre, particulier; 9° sans, excepté; 10° dehors; 11° temps opportun; 12° milieu; 13° âme suprême; [14° semblable; 15° autre. Ce mot est aussi un pronom dans la troisième acception et dans la dixième]. — (7) 1° Racine odoriférante du *cyperus rotundus*; [2° batte à beurre; 3° marmite ou bouilloire]. — (8) 1° n. Autre espèce de racine, celle du *cyperus pertenuis*; [2° gingembre; 3° m. f. n. d'une cité ou appartenant à une cité; 4° adroit, fin]. — (9) 1° m. f. n. Très-obscur; 2° malin, malfaisant, destructeur; [suivant une autre leçon: 3° m. éléphant vicieux]. — (10) 1° m. f. n. Rouge

- 1 [ब्रणकार्ये ऽप्य्] अरुष्करः ।
 2 जठरः [कठिने ऽपि स्याद्]
 3 [अधस्ताद् अपि चा-]-धरः^a ॥ १८१ ॥
 4 [अनाकुले ऽपि चै-]-काग्रो^b
 5 व्यग्रो [व्यासक्त आकुले] ।
 6 [उपर्युदीच्यश्रेष्ठेषु अप्य्] उत्तरः [स्याद्]
 7 अनुत्तरः ॥ १८२ ॥
 8 [रषां विपर्यये श्रेष्ठे]
 9 [दूरानामोत्तमाः] पराः ।
 10 [स्वादुप्रियो तु] मधुरौ
 11 क्लरौ [कठिननिर्द्वयौ] ॥ १८३ ॥
 12 उदारो [दातृमहत्तोर्]

pâle; 2° blanc; 3° jaune; [4° propre; 5° masc. moutarde blanche; 6° la lune; 7° n. filament de lotus; 8° f. déesse épouse de *S'iva*; 9° — de *Varoun'a*; 10° la terre; 11° nom d'une rivière; 12° jeune fille; 13° curcuma].
 (1) 1° Aigu, corrosif; [2° m. *semecarpus anacardium*]. — (2) 1° Dur; [2° vieux; 3° m. n. ventre]. — (3) 1° Inférieur, bas; [2° moindre, pire; 3° lèvre; 4° lèvre inférieure]. — (4) 1° Qui n'est pas perplexe; [2° fixe, attentif]. — (5) 1° Distract; 2° inquiet, perplexe; [ou 3° effrayé]. — (6) 1° m. f. n. Supérieur, haut; 2° septentrional; 3° excellent; [4° n. réponse; 5° m. nom du fils de *Virata*; 6° f. femme d'*Abhimanyou*; 7° nord]. — (7, 8) 1° Inférieur, 2° méridional; 3° moindre; 4° excellent; [5° silencieux, incapable de répondre]. — (9) 1° Distant, éloigné; 2° autre; 3° prééminent; [ou 4° subséquent; 5° ennemi; 6° n. (ou ind. selon quelques-uns) seulement]. — (10) 1° m. f. n. Doux; 2° agréable, qui plaît; [3° m. saveur douce; 4° n. poison; 5° f. espèce de fenouil]. — (11) 1° Dur; 2° sans pitié, cruel; [3° terrible; 4° destructeur]. — (12) 1° Généreux;

^a अधरः. — ^b एकाग्रः.

- 1 इतरस् [त् अन्यनीचयोः] ।
 2 [मन्दस्वच्छन्दयोः] स्वैरः
 3 शुभ्रम् [उद्दीप्तशुक्लयोः] ॥ १८४ ॥

SECTION XXVI.

HOMONYMES TERMINÉS EN ल.

- 4 [चूडाकिरीटं केशाश् च संयता] मौलयस्^a [त्रयः] ।
 5 [द्रुमप्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि] पीलवः^b ॥ १८५ ॥
 6 [कृतान्तानेहसोः] कालश्
 7 [चतुर्थे ऽपि युगे] कलिः ।
 8 [स्यात् कुरङ्गे ऽपि] कमलः
 9 [प्रावारे ऽपि च] कम्बलः ॥ १८६ ॥
 10 [करोपहायोः पुंसि] बलिः^c [प्राण्यङ्गजे स्त्रियां] ।

२° grand; [३° gentil; ४° qui n'est pas perplexe].— (1) १° Autre; २° bas, vil.
 — (2) १° Indolent; २° indépendant, qui n'est point contrôlé. — (3) १° m. f.
 n. Splendide; २° blanc; [३° n. talc].— (4) १° m. f. Boucle de cheveux sur
 la couronne de la tête; २° diadème; ३° cheveux attachés sur la tête; [४°
 tête; ५° m. *jonesia asoca*; ६° terre].— (5) १° L'arbre *pilou*; २° éléphant;
 ३° flèche; ४° fleur; [ou ५° fleur du *saccharum sara*; ६° atome].— (6) १° m.
Yama; २° temps mesuré; [३° mort; ४° temps infini; ५° couleur noire;
 ६° f. (*kālā*), garance; ७° indigo; ८° (*kālī*), la déesse *Gaurī*; ९° une des *Mā-*
tris; १०° nuages amoncelés].— (7) १° Quatrième âge; [२° querelle, dis-
 pute; ३° guerre, bataille; ४° myrobolan belleric; ५° fleur non épanouie].
 — (8) १° m. Bête fauve; [२° n. lotus; ३° eau; ४° cuivre; ५° f. la déesse
Lakshmi; ६° femme excellente].— (9) १° m. Couverture de lit; [२° fanon;
 ३° chef fabuleux des serpents; ४° n. eau].— (10) १° m. Taxe, revenu; २°

^a Sing. मौलिः. — ^b Sing. पीलुः. — ^c Masc. aussi fém. बलिः, ou बलिः, ou बली.

- 1 [स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु] बलं [ना काकसीरिणोः] ॥ १८७ ॥
 2 वातूलः^b [पुंसि वात्यायाम् अपि वातासहे त्रिषु] ।
 3 [भेद्यलिङ्गः शठे] व्यालः [पुंसि श्चापदसर्पयोः] ॥ १८८ ॥
 4 मलो [ऽस्त्री पापविट्किट्टान्य्]
 5 [अस्त्री] शूलं [रुगायुधं] ।
 6 [शङ्काव् अपि द्वयोः] कीलः
 7 पालिर् [अश्रद्धुपंक्तिषु] ॥ १८९ ॥
 8 कला [शिल्पे कालभेदे ऽप्य्]
 9 आली^b [सख्यावली अपि] ।

oblation; [3° nom d'un géant; 4° manche d'un émouchoir]; 5° fém. ride; [6° faite d'un toit]. — (1) 1° n. Carrure, grosseur; 2° vigueur; 3° armée, forces; 4° m. corneille; 5° nom de *Bala-râma*; [6° nom d'un démon tué par *Indra*; 7° m. f. n. fort; 8° f. *sida cordifolia*, etc.]. — (2) 1° Tourbillon de vent; 2° goutteux, incommodé d'un rhume; [3° fou]. — (3) 1° m. f. n. Méchant; 2° m. bête de proie, tigre, etc.; 3° serpent; [4° éléphant vicieux; 5° roi]. — (4) 1° m. n. Péché; 2° saleté; 3° excréation, comme la sueur, le mucus du nez, la cire des oreilles, etc.; 4° lie; [5° rouille; 6° m. f. n. Avare, vilain]. — (5) 1° Colique; 2° arme, trident ou pique; [3° f. courtisane]. — (6) 1° Lance; [2° aiguille d'un cadran; 3° pieu; 4° poteau; 5° flamme; 6° coude; 7° coup sur la poitrine; 8° coup de coude; 9° f. coup]. — (7) 1° Coin, angle; 2° creux au-dessus de la hanche; [ou 3° côté tranchant; 4° marque]; 5° rang ou cordon; [** 6° ligne tracée avec du sandal, etc., sur l'oreille; 7° contiguité, * borne, limite, *Wils. Dict.*; ** 8° pension faite à un serviteur; 9° femme masculine, ayant de la barbe; 10° poignée; 11° louange]. — (8) 1° Art mécanique; 2° mesure du temps; [3° doigt de la lune; 4° intérêt d'un capital; 5° partie; ** 6° collection]. — (9) 1° f. Compagnon; 2° rangée; [3° pont, * levée de terre, chaussée, *Wils. Dict.*; 4° m. f. n. intelligent, sage, * pur, honnête, *Wils. Dict.*]. —

^a Ou वातूलः. — ^b आलिः ou आली.

- 1 [अध्यम्बुविहृतौ] वेला^a [कालमर्यादयोर् अपि] ॥ २०० ॥
 2 बडुलाः^b [कृत्तिकागावो] बडुलो [ऽग्निः शितौ त्रिषु] ।
 3 लीला [विलासक्रिययोर्]
 4 उपला [शर्करापि च] ॥ २०१ ॥
 5 [शोणिते ऽम्भसि] कीलालं
 6 मूलम् [आद्ये शिफाभयोः] ।
 7 जालं [समूह आनायो गवाक्षक्षास्काव् अपि] ॥ २०२ ॥
 8 शीलं [स्वभावे सदृत्ते]
 9 [सस्ये हेतुज्ञते] फलं ।
 10 [हृदिर्नेत्ररुजोः क्लीवं समूहे] पटलं [न ना] ॥ २०३ ॥
 11 [अधः स्वरूपयोर् अस्त्री] तलं
 12 [स्याच् चामिषे] पलं ।

(1) 1° Marée; 2° temps; 3° limite; [4° bord de la mer; 5° mort prompte et soudaine]. — (2) 1° f. plur. Les pléiades; 2° f. vache; 3° m. feu; 4° m. f. n. noir; [5° cardamome; 6° m. quinzaine obscure de la lune; 7° n. ciel]. — (3) 1° Délassement, plaisir; 2° geste. — (4) 1° f. Gravier, concrétion pierreuse; [2° sucre manufacturé; 3° m. pierre; 4° pierre précieuse]. — (5) 1° Sang; 2° eau. — (6) 1° n. Origine; [ou 2° principal, capital]; 3° racine; 4° m. n. astérisme, la queue du scorpion. — (7) 1° n. Multitude; 2° filet; 3° fenêtre, treillis; 4° fleur non ouverte; [5° magie, illusion; 6° orgueil; 7° f.—2° (*djált*), *trichosanthes dioica*]. — (8) 1° Disposition; 2° bonne conduite. — (9) 1° Fruit; 2° résultat; [3° tranchant d'une arme, * lame d'un couteau ou d'une épée, *Wils. Dict.*; 4° noix muscade; 5° perle; 6° profit; 7° bouclier]. — (10) 1° n. toit; 2° taie sur l'œil; 3° f. n. multitude; [4° n. suite, cortège]. — (11) 1° n. Fond; 2° caractère essentiel; [3° f. n. garde pour le bras d'un archer; 4° m. empan; 5° paume de la main avec les doigts étendus]. — (12) 1° Viande; [2° mesure de quatre *karchas*].

^a Ou वेला. — ^b Ou बडुलाः.

- 1 [अ्रीर्वानले ऽपि] पातालं
 2 चेलं [वस्त्रे ऽधमे त्रिषु] ॥ २०४ ॥
 3 कुकूलं [शङ्कुभिः कीर्णं श्वभ्रे ना तु तुषानले] ।
 4 [निर्णीते] केवलम् [इति त्रिलिङ्गं त्व् एककृत्स्नयोः] ॥ २०५ ॥
 5 [पर्याप्तिक्षेमपुण्येषु] कुशलं [शिक्षिते त्रिषु] ।
 6 प्रवालम् [अङ्कुरे ऽप्यस्त्री]
 7 [त्रिषु] स्थूलं [जडे ऽपि च] ॥ २०६ ॥
 8 करालो [दन्तुरे तुङ्गे]
 9 [चारौ दक्षे च] पेशलः^a ।
 10 [मूर्खे ऽभक्ते ऽपि] बालः [स्यात्]
 11 लोलश्च [चलसतृप्तयोः] ॥ २०७ ॥

(1) 1° Feu sous-marin ; [2° régions infernales ; 3° trou]. — (2) 1° n. Habillement, vêtement ; 2° m. f. n. inférieur, bas en situation. — (3) 1° Creux rempli de pieux ; 2° m. conflagration de balles de blé. — (4) 1° n. Absolument, certainement ; 2° m. f. n. seul, solitaire ; 3° entier, tout. — (5) 1° n. Proportion, conformité ; 2° sûreté, salut ; 3° vertu ; 4° m. f. n. habile, expert. — (6) 1° Pousse, bourgeon ; [ou 2° nouvelle feuille ; 3° corail ; 4° manche d'un luth]. — (7) 1° Stupide ; [2° gros, épais]. — (8) 1° Ayant des dents saillantes ; 2° haut ; [3° terrible]. — (9) 1° Beau ; 2° expert ; [3° doux]. — (10) 1° m. f. n. Ignorant ; 2° jeune, enfant ; [3° m. chevelure ; 4° queue d'un cheval ; 5° — d'un éléphant ; 6° m. n. *andropogon schœnanthus*]. — (11) 1° m. f. n. Tremblant ; 2° altéré, qui a soif ; [3° f. langue ; 4° la déesse *Lakchmī*].

^a Ou पेशलः.

SECTION XXVII.

HOMONYMES TERMINÉS EN व.

- 1 द्व-द्वौ [वनारण्यवद्भौ]
- 2 [जन्मद्वौ] भवौ ।
- 3 [मन्त्री सहायः] सचिवौ
- 4 [पतिशाखिनरा] धवाः ॥ २०८ ॥
- 5 अवयः^a [शैलमेषाका]
- 6 [आज्ञाद्वानाध्वरा] द्वाः ।
- 7 भावः [सत्वस्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु] ॥ २०९ ॥
- 8 [स्याद् उत्पादे फले पुष्पे] प्रसवो [गर्भमोचने] ।
- 9 [अविश्वासे ऽपद्भवे ऽपि निवृत्ताव् अपि] निद्ववः ॥ २१० ॥
- 10 [उत्सेकामर्षयोर् इच्छाप्रसवे मह्] उत्सवः ।
- 11 अनुभावः [प्रभावे स्यात् सतां च मतिनिश्चये] ॥ २११ ॥

(1) 1° Forêt; 2° feu dans une forêt; [3° feu en général].—(2) 1° Naissance; 2° *S'iva*; [3° existence; 4° acquisition; 5° le monde; 6° sûreté, bien-être].—(3) 1° Conseiller; 2° compagnon.—(4) 1° Mari; 2° *lythrum fruticosum*, * *grislea tomentosa*, *Wils. Dict.*; 3° homme; [4° trompeur].—(5) 1° Montagne; 2° mouton; 3° soleil; [4° chèvre à châte].—(6) 1° Commandement; 2° appel; 3° sacrifice.—(7) 1° Être vivant; [ou 2° existence, état]; 3° nature, disposition; 4° pensée, intention; 5° geste, mouvement; 6° âme; 7° naissance; [8° chose; 9° vénérable; 10° (dans le langage dramatique) savant; 11° état, condition].—(8) 1° Production; 2° fruit; 3° fleur; 4° action d'accoucher, de mettre bas; [5° progéniture].—(9) 1° Défiance; 2° déni, refus; 3° action de celer.—(10) 1° Élévation; 2° impatience; 3° formation d'un souhait; 4° fête, jubilé.—(11) 1° Dignité, au-

^a Sing. अविः.

- 1 [स्यात् जन्महेतुः] प्रभवः [स्थानं चाद्योपलब्धये] ।
 2 [शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे] पारशवः [पुमान्] ॥ २१२ ॥
 3 ध्रुवो [भभेदे क्लीवं तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु] ।
 4 स्वो [ज्ञाताव् आत्मनि] स्वं [त्रिषु आत्मीये] स्वो [ऽस्त्रियां धने] । २१३ ।
 5 [स्त्रीकटीवस्त्रबन्धे ऽपि] नीवी^a [परिषणे ऽपि च] ।
 6 शिवा [गौरीफेरवयोरू]
 7 द्वन्द्वं [कलह्युग्मयोः] ॥ २१४ ॥
 8 [द्रव्यासुव्यवसायेषु] सत्वम्^b [अस्त्री तु जन्तुषु] ।
 9 क्लीवं^c [नपुंसके षण्ठे वाच्यलिङ्गम् अतिक्रमे] ॥ २१५ ॥

torité; 2° opinion arrêtée; [ou 3° certitude; 4° indication, signe].—(1) 1° Cause générative; [2° origine; 3° source]; 4° endroit où une chose est aperçue pour la première fois; [5° vigueur].—(2) 1° Fils d'un brâhmane par une *S'oudrâ*; 2° hache d'armes; [3° fils né dans l'adultère].—(3) 1° m. Étoile polaire; 2° n. certitude; 3° m. f. n. perpétuel, constant; [4° m. pieu; 5° axe ou pôle; 6° *S'iva*; 7° f. refrain d'une chanson; 8° cuiller ou spatule; 9° n. raisonnement; 10° m. f. n. immobile, fixe].—(4) 1° m. Parent; 2° âme; 3° (pronom) m. f. n. propre, particulier; 4° m. n. richesse.—(5) 1° Habillement porté par les femmes autour de la taille; 2° capital mercantile; [3° enjeu].—(6) 1° f. *Gaurî*; 2° chacal; [3° m. *Mahâdêva*; 4° un des *Yogas* astrologiques; 5° les *Vêdas*; 6° n. plaisir, aise; 7° qualité de ce qui est propice, bien-être; 8° eau; 9° f. myrobolan jaune].—(7) 1° Dispute, querelle; 2° paire; [3° union des sexes].—(8) 1° n. Substance; 2° respiration; 3° vigueur; 4° m. n. animal; [5° n. qualité; 6° nature; 7° force; 8° démon; 9° existence; 10° essence; 11° action de commander à soi-même].—(9) 1° n. Genre neutre; 2° eunuque; 3° m. f. n. faible; [4° paresseux].

^a Ou नीविः. — ^b Ou सत्त्वं. — ^c Ou क्लीबं.

SECTION XXVIII.

HOMONYMES TERMINÉS EN श.

- 1 [द्वौ] विशौ^a [वैश्यमनुजौ]
 2 [द्वौ चराभिमरौ] स्पशौ ।
 3 [द्वौ] राशी [पुञ्जमेषाद्यौ]
 4 [द्वौ] वंशौ [कुलमस्करौ] ॥ २१६ ॥
 5 [रहःप्रकाशौ] वीकाशौ^b
 6 निर्विशो [भृतिभोगयोः] ।
 7 [कृतान्ते पुंसि] कीनाशः [द्युत्कर्षकयोस् त्रिषु] ॥ २१७ ॥
 8 [पदे लक्ष्ये निमित्ते] ऽपदेशः
 9 [स्यात्] कुशम् [अप्सु च] ।
 10 दशा-[-वस्थानेकविधाप्य]
 11 आशा [तृत्तापि चायता] ॥ २१८ ॥

(1) 1° m. Homme de la classe commerçante; 2° homme en général; [3° f. entrée]. — (2) 1° Espion; 2° guerre; [3° lutte avec un animal dangereux dans l'espoir d'une récompense]. — (3) 1° Amas; 2° signe du zodiaque. — (4) 1° Famille, race; 2° bambou; [3° épine du dos; 4° multitude]. — (5) 1° Solitude; 2° exposition, explication. — (6) 1° Gages, salaire; 2° jouissance; [ou 3° nourriture]. — (7) 1° m. *Yama*; 2° m. f. n. petit; [ou 3° avare]; 4° cultivateur; [5° tueur de bestiaux; 6° m. singe]. — (8) 1° Place, lieu; 2° but; 3° cause. — (9) 1° n. Eau; [2° masc. nom d'un fils de *Râma*; 3° plante du sacrifice (*poa cynosuroides*); 4° un des *dwîpas* ou continents; 5° joug; 6° f. (*kous'î*), soc d'une charrue]. — (10) 1° Age, comme la jeunesse, etc.; [2° mèche d'une lampe; 3° (invariablement plur.) bord d'un manteau, d'un vêtement]. — (11) 1° Espoir, désir;

^a Sing. विट्. — ^b Ou विक्राशः.

- 1 वशा [स्त्री करिणी च स्याद्]
 2 दृग् [ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु] ।
 3 [स्यात्] कर्कशः [साहसिकः कठोरामसृणाव् अपि] ॥ २१८ ॥
 4 प्रकाशो [ऽतिप्रसिद्धे ऽपि]
 5 [शिशाव् अस्त्रे च] वालिशः ।

SECTION XXIX.

HOMONYMES TERMINÉS EN ष.

- 6 [सुखमस्याव्] अनिमिषौ
 7 पुरुषाव् [आत्ममानवौ] ॥ २२० ॥
 8 [काकमस्यात्कगौ] ध्वांक्षौ
 9 कक्षौ [तु तृणवीरुधौ] ।
 10 अभीषुः^a [प्रग्रहे रश्मौ]
 11 प्रैषः [प्रेषणमर्धने] ॥ २२१ ॥

2° largeur; [3° région, quartier]. — (1) 1° fém. Femme; 2° éléphant femelle; [3° vache stérile; 4° fille; 5° n. sujétion; 6° désir, vœu; 7° m. f. n. sujet, dépendant]. — (2) 1° f. Connaissance; 2° m. f. n. qui voit ou qui connaît; [3° f. vue; 4° œil]. — (3) 1° Violent; 2° dur; 3° intangible; [4° âpre; 5° cruel; 6° impitoyable; 7° avare]. — (4) 1° m. f. n. Notoire; [2° lumière; 3° exposition, explication; 4° gros rire]. — (5) 1° Jeune; 2° ignorant. — (6) 1° Dieu; 2° poisson. — (7) 1° Ame; 2° homme. — (8) 1° Corneille; 2° oiseau vivant de poisson; [3° mendiant]. — (9) 1° m. Herbe, gazon; 2° plante grimpante; [3° aisselle; 4° forêt d'arbres morts; 5° mur; 6° côté; 7° m. f. n. bout d'un vêtement fixé dans la ceinture; 8° f. cordon passé autour du cou d'un éléphant; 9° objection dans l'argumentation; 10° émulation]. — (10) 1° Bride ou rêne; 2° rayon de lumière. — (11) 1°

^a Ou अभीषुः.

- 1 पक्षः [सहाये ऽप्य्]
 2 उत्तीषः [शिरोवेष्टकिरीटयोः] ।
 3 [शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे सुकृते वृषभे] वृषः ॥ २२२ ॥
 4 कोषो ^a [ऽस्त्री कुङ्मले खड्गपिधाने ऽर्धौघदिव्ययोः] ।
 5 [यूते ऽक्षे सारिफलके ऽप्य्] आकर्षो
 6 [ऽथा-]-क्षम् ^b [ऽन्द्रिये] ॥ २२३ ॥
 7 [ना यूताङ्गे कर्षे चक्रे व्यवहारे कलिद्रुमे] ।
 8 कर्षूरु [वार्ता करीषाग्निः] कर्षूः [कुल्याभिधायिनी] ॥ २२४ ॥
 9 [पुंभावे तत्क्रियायां च] पौरुषं

Dépêche, mission; 2° peine, souffrance; [3° fatigue]. — (1) 1° Partisan; [2° côté; 3° alternative; 4° moitié d'un mois lunaire; 5° armée, forces; 6° amis; 7° aile; 8° thèse, doctrine à soutenir; 9° contradiction; 10° sujet d'une induction; 11° (en composition avec *kés'a*) grande quantité]. — (2) 1° Turban; 2° diadème. — (3) 1° Impudique, lascif; 2° rat; 3° (en composition) chef, prééminent; 4° la vertu personnifiée sous la forme d'un taureau; 5° taureau; [6° signe du zodiaque, le taureau; 7° nom propre, titre de *Karn'a*; 8° f. (*vrichá*), plante, *dolichos* ou *carpopogon pruriens*; 9° (*vrichá*), coussin employé par les ascétiques]. — (4) 1° Bouton, bourgeon; 2° gaine, fourreau; 3° trésor; 4° serment ou épreuve judiciaire; [5° vase employé dans les sacrifices; 6° cocon de ver à soie; 7° prunelle de l'œil; 8° testicule; 9° dictionnaire]. — (5) 1° Jeu avec des dés; 2° dés; 3° table ou échiquier pour jouer; [4° organe des sens; 5° attraction; 6° action de tendre un arc]. — (6, 7) 1° n. Organe des sens; 2° m. dé à jouer; 3° mesure (un *karcha* ou seize *máchas*); 4° roue; 5° procès; 6° myrobolan belleric; [7° bois d'un char; 8° affaire, transaction; 9° nom d'un fils de *Rávana*; 10° n. espèce de sel]. — (8) 1° m. Agriculture; 2° feu avec de la bouse de vache; 3° f. rivière; [ou 4° canal]. — (9) 1° n. Virilité; 2° acte viril; [3° liqueur séminale; 4° m. f. n. mesuré par la stature humaine ou par la hauteur à laquelle un homme parvient].

^a Ou कोषः. — ^b अक्षं.

- 1 विषम् [अप्सु च] ।
 2 [उपदाने^a ऽप्य्] आमिषं [स्याद्]
 3 [अपराधे ऽपि] किल्विषं ॥ २२५ ॥
 4 [स्याद् वृष्टौ लोकधात्वंशे वत्सरे] वर्षम् [अस्त्रियां] ।
 5 प्रेक्षा [नृत्येक्षणं प्रज्ञा]
 6 भिक्षा [सेवार्थना भृतिः] ॥ २२६ ॥
 7 त्विट् [शोभापि]
 8 [त्रिषु परे^b]
 9 न्यक्षं [कातन्व्यनिवृत्तयोः] ।
 10 [प्रत्यक्षे ऽधिकृते] ऽध्यक्षो
 11 रुक्षस् [त् अत्रेण्य् अचिक्रणे] ॥ २२७ ॥

SECTION XXX.

HOMONYMES TERMINÉS EN स.

- 2 [रविश्चेतच्छद्यौ] हंसौ

(1) 1° n. Eau; [2° poison; 3° f. (*vichā*), plante, espèce de *betula*? — (2) 1° Don, présent; [2° viande; 3° aliment]. — (3) 1° Offense; [2° maladie]. — (4) 1° m. n. Pluie; 2° contrée; 3° année; [4° nuage; 5° f. plur. saison pluvieuse]. — (5) 1° Danse; 2° vue; [ou 3° vue d'un spectacle de danse]; 4° intellect. — (6) 1° Action de servir; 2° mendicité; 3° salaire, gages; [4° aumônes]. — (7) 1° Splendeur; [ou 2° rayon de lumière]. — (8) 1° Entier; 2° inférieur. — (9) 1° Perceptible; 2° surintendant. — (10) 1° Peu obligeant; 2° rude. — (11) 1° Soleil; 2° oie ou cygne; [3° *Vichn'ou*; 4° *Brahme*, l'Être suprême; ** 5° âme; 6° respiration; 7° espèce de vie ascétique; 8° prince exempt de cupidité; 9° qui n'est pas envieux; 10° roi;

^a Ou उपदाने (Éd. Calc. — MSS.). — ^b Les suivants prennent les trois genres.

- 1 [सूर्यवद्ग्री] विभावसू ।
 2 वत्सौ [तर्णकवर्षौ द्वौ]
 3 [सारङ्गाश्च] द्विवौकसः^a ॥ २२८ ॥
 4 [शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे] स्तः ।
 5 [पुंस्य्] उत्तंसावतंसौ^b [द्वौ कर्णपूरे ऽपि शेखरे] ॥ २२९ ॥
 6 [द्वेभेदे ऽनले रश्मौ] वसू [स्त्रे धने] वसु ।
 7 [विल्लौ च] वेधाः
 8 [स्त्री त्व्] आशीर् [ह्निताशंसाह्निदंष्ट्रयोः] ॥ २३० ॥
 9 लालसे [प्रार्थनौत्सुक्ये]
 10 ह्निता [चौर्यादि कर्म च] ।
 11 प्रसूर् [अश्वापि]
 12 [भूयावौ] रोदस्यौ रोदसी^c [च ते] ॥ २३१ ॥

11° cheval sacrifié par *Youdhichth'ira*. — (1) 1° Soleil; 2° feu. — (2) 1° m. Veau; 2° année; [3° nom amical donné à un fils ou à un petit-fils; 4° n. poitrine. — (3) 1° Oiseau, * *cuculus melanoleucus*, *Wils. Dict.*; [2° Dieu; 3° abeille; 4° antilope]. — (4) 1° m. Goût ou sentiment dans les drames, l'amoureux, l'héroïque, le tendre, etc.; 2° poison; [ou 3° eau]; 4° liqueur séminale; [ou 5° vif-argent]; 6° qualité du goût, saveur, comme doux, aigre, etc.; 7° zèle, ardeur, passion; 8° jus, liquide; [9° fluides du corps; 10° myrrhe; 11° f. langue; 12° la terre]. — (5) 1° Boucle d'oreilles; 2° crête. — (6) 1° m. Classe de divinités; 2° feu; 3° rayon de lumière; [ou 4° rêne ou licou]; 5° n. pierre précieuse; 6° richesse; [7° or; 8° m. lien d'un joug; 9° plante, *vakapouchpa*. — (7) 1° *Vichn'ou*; [2° *Brahmá*; 3° intelligent, sage]. — (8) 1° Bénédiction; 2° dent d'un serpent. — (9) 1° Requête; 2° désir ardent. — (10) 1° Tort, dommage, comme le brigandage, etc.; [2° meurtre]. — (11) 1° Jument; [2° mère]. — (12) 1° Terre et ciel; [2° terre; 3° ciel, collectivement au duel, séparément au singulier].

^a द्विवौकाः ou दिवोकाः. — ^b उत्तंस-अवतंस ou वतंसः. — ^c Sing. रोदसी et रोदः.

- 1 [ज्वालाभासोर् न पुंस्य्] अर्चिर्
 2 ज्योतिर् [भयोतटृष्टिषु] ।
 3 [पापापराधयोर्] आगः
 4 [खगवाल्यादिनोर्] वयः ॥ २३२ ॥
 5 [तेजःपुरीषयोर्] वर्चो
 6 महस्^a [तूत्सवतेजसोः] ।
 7 रजो^b [गुणे स्त्रीपुष्पे च]
 8 [रक्षौ ध्वान्ते गुणे] तमः ॥ २३३ ॥
 9 रुद्दः [पथे ऽभिलाषे च]
 10 तपः [कच्छ्रादिकर्म च] ।
 11 सहो^c [बलं] सहा [मार्गे]
 12 नमः [खं आवणे] नभाः ॥ २३४ ॥

(1) 1° Flamme; 2° lumière. — (2) 1° n. Étoile; 2° lumière; 3° pupille de l'œil; [4° m. le soleil; 5° *Agni*]. — (3) 1° Faute; 2° offense. — (4) 1° Oiseau; 2° âge; 3° jeunesse. — (5) 1° Splendeur; 2° ordure; [3° couleur, * forme, figure, *Wils. Dict.*]. — (6) 1° Fête; 2° lumière. — (7) 1° Qualité de passion; 2° mois d'une femme; [3° poussière; 4° pollen des fleurs, poussière fécondante]. — (8) 1° Nœud ascendant de la lune; 2° obscurité; 3° troisième qualité, suivant le système *sāṅkhya*, obscurité ou illusion, opposée à la vérité et à la passion; [4° chagrin]. — (9) 1° Mètre poétique; 2° désir (aussi dans cette acception, *tchandam*); [3° *Vēda*; 4° conduite non contrôlée]. — (10) 1° n. Austérité, pénitence; [2° vertu, mérite moral; 3° un des mondes supérieurs; 4° m. (*tapās*), mois de *māgha*; 5° saison froide]. — (11) 1° n. Force; 2° m. mois d'*agrahāyan'a*; [3° hiver; 4° n. lumineux]. — (12) 1° n. Ciel; 2° masc. mois de *śrāvan'a*; [3° pluie; 4° nuage].

^a Neut. ou masc. मह [-हः]. — ^b Neut. ou masc. रजः. — ^c सहस् ou सहं; n. e masc. सहाः ou सहः.

1 ओक्कः^a [सव्नाश्रयश् चो-]-काः^b

2 पयः [क्षीरं] पयो [ऽम्बु च]

3 ओजो^c [दीप्तौ बले]

4 स्रोत^d [इन्द्रिये निम्नगाय्ते] ॥ २३५ ॥

5 तेजः [प्रभावे दीप्तौ च बले शुक्ले ऽप्य्]

6 [अतस् त्रिषु^e] ।

7 विद्वान् [विद्वंश्च]

8 बीभत्सो [हिंस्रो ऽप्य्]

9 [अतिशये त्व अमी] ॥ २३६ ॥

10 [वृद्धप्रशस्ययोर्] ज्यायान्

11 कनीयाँस् [तु युवाल्पयोः] ।

12 वरीयाँस् [तूरुवरयोः^f]

13 साधीयान् [साधुवाढयोः] ॥ २३७ ॥

SECTION XXXI.

HOMONYMES TERMINÉS EN ह्.

14 [दले ऽपि] वर्ह

(1) 1° n. Maison; 2° m. asile. — (2) 1° Lait; 2° eau. — (3) 1° Splendeur; 2° force. — (4) 1° Organe des sens; 2° courant d'une rivière. — (5) 1° Dignité; 2° splendeur; 3° force; 4° liqueur séminale. — (7) 1° Intelligent; [2° instruit; 3° ayant une véritable connaissance de l'âme]. — (8) 1° Méchant, cruel; [2° envieux; ** 3° m. *Arjouna*]. — (10) 1° Très-vieux; 2° très-bon. — (11) 1° Très-jeune; 2° très-petit. — (12) 1° Très-grand; 2° très-excellent. — (13) 1° Très-juste; 2° très-ferme. — (14) 1° Feuille; [2° train;

^a ओक्कस् ou ओक्के. — ^b ओक्काः. — ^c Ou ओजो. — ^d Ou स्रोतं. — ^e Les suivants prennent les trois genres. — ^f ऊ-वर.

- 1 [निर्वन्धोपरगाकादयो] ग्रहाः ।
 2 [द्वार्य् आपीडे द्वाथसे] निर्यूहो [नागदन्तके] ॥ २३८ ॥
 3 [तुलामूत्रे ऽश्वादिशमौ] प्रग्रहः प्रग्रहो [ऽपि च] ।
 4 [पत्नीपरिजनादानमूलशापाः] परिग्रहः ॥ २३९ ॥
 5 [द्वोष् अर्पि] गृहाः
 6 [ओण्याम् अर्प्य्] आरोहो [वस्त्रियाः] ।
 7 व्यूहो [वृन्दे ऽप्य्]
 8 अर्हो [वृत्रे ऽप्य्]
 9 [अग्नीन्द्रकास्] तमोपहाः ॥ २४० ॥
 10 [परिच्छेदे नृपार्हे ऽर्थे] परिवर्हो
 11 [ऽव्ययाः परे^a] ॥ २४१ ॥

cortége; 3° queue d'un paon].—(1) 1° Action de prendre; 2° éclipse; 3° planète; [4° nœud de la lune; 5° effort dans la bataille; 6° classe de lutins].—(2) 1° Porte; 2° chapelet; 3° suc extrait; 4° pièce de bois en saillie hors d'un mur; [5° bois placé dans un mur pour que les pigeons y puissent bâtir leurs nids].—(3) 1° Corde qui suspend une balance; 2° rêne ou licou pour les chevaux, etc.; [3° prisonnier; 4° contrainte; 5° bras; 6° rayon de lumière].—(4) 1° Épouse; 2° famille, dépendant; 3° acceptation; 4° origine, [ou 5° racine]; 6° serment; [7° querelle; 8° le soleil, près du nœud de la lune].—(5) 1° Épouse (masc. pl. invariablement); 2° maison (aussi sing. neutre).—(6) 1° Milieu du corps d'une femme; [2° ascension, comme celle d'une plante grimpante; 3° homme qui monte un éléphant ou un cheval; 4° longueur; 5° hauteur].—(7) 1° Multitude; [2° ordre de troupes; 3° fabrication; 4° raisonnement].—(8) 1° Démon nommé *Vritra*; [2° serpent].—(9) 1° Feu; 2° lune; 3° soleil; [4° saint déifié ou prophète].—(10) 1° Suite, cortége; 2° insignes de la royauté; [3° chose].

^a Les mots suivants sont indéclinables.

SECTION XXXII.

HOMONYMES INDÉCLINABLES.

- 1 आङ्^a [ईषदर्थे ऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे] ।
 2 आ^b [प्रगृह्यः स्मृतौ वाक्ये ऽप्य्]
 3 आस् [तु स्यात् कोपपीडयोः] ॥ १ ॥
 4 [पापकुत्सेषदर्थे] कु
 5 धिङ्^c [निर्भर्त्सननिन्दयोः] ।
 6 चा^d [-न्वाचये समाहारेतेतरसमुच्चये] ॥ २ ॥
 7 स्वस्त्^e [आशीः क्षेमपुण्याद्यौ]
 8 [प्रकर्षे लङ्घने ऽप्य्] अति ।
 9 स्वित् [प्रश्ने च वितर्के च]

(1) 1° Un peu; 2° jusqu'à, renfermant la limite; ou 3° sans borne ni limite; 4° préposition jointe aux verbes et altérant leur sens, ou leur donnant de l'intensité. — (2) 1° Oh! (de ressouvenir); 2° mais, indiquant un changement; [3° et, collectif]. — (3) 1° Ah! (avec colère); 2° hélas! (avec chagrin). — (4) 1° Coupable; 2° mauvais; 3° peu. — (5) 1° Fi! (avec menace); 2° fi! (en signe de reproche). — (6) 1° De plus; 2° et; 3° mutuellement; 4° aussi. [Dans la première acception, la particule lie un objet secondaire avec un objet principal; dans la seconde, elle joint deux objets égaux; dans la troisième, elle indique réciprocité; dans la quatrième elle unit différents actes avec le même sujet. Elle a d'autres acceptions, comme : 5° mais (indiquant une proposition opposée); 6° mais (en excuse); 7° incontinent; 8° explétive.] — (7) 1° Bien (bénédition); 2° sauf; 3° juste; [4° propice]. — (8) 1° Très; 2° surpassant. — (9) 1° Quoi? (interrogatif); 2° marque de doute.

^a आ, car la consonne finale est supprimée. — ^b Inaltérable dans son orthographe, même devant des voyelles. — ^c धिक्. — ^d च. — ^e स्वस्ति.

- 1 तु [स्याद् भेदे ऽवधारणे] ॥ ३ ॥
 2 सकृत् [सहैकवारं स्याद्]
 3 आराद् [दूरसमीपयोः] ।
 4 [प्रतीच्यां चरमे] पश्चाद्
 5 उता ^a[-ष्य् अर्थविकल्पयोः] ॥ ४
 6 [पुनः सदार्थयोः] शश्वत् ^b
 7 साक्षात् [प्रत्यक्षतुल्ययोः] ।
 8 [खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे] वत ॥ ५ ॥
 9 हन्त [हर्षे ऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः] ।
 10 प्रति [प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः] ॥ ६ ॥
 11 इति [हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिषु] ।

(1) 1° Mais (indiquant une différence); 2° certainement; [3° et; 4° de nouveau; 5° explétif]. — (2) 1° Ensemble; 2° une fois; [3° toujours]. — (3) 1° Loin; 2° proche. — (4) 1° A l'ouest; 2° derrière. — (5) 1° Aussi; 2° quoi? (interrogatif); 3° quoi? (avec doute); [4° ou, soit; 5° explétif]. — (6) 1° De nouveau, souvent; 2° toujours; [3° ensemble; 4° perpétuellement]. — (7) 1° Devant, en présence; 2° comme, de même. — (8) 1° Ah! expression de chagrin; 2° — de compassion; 3° — de joie; 4° — de surprise, ho! pour appeler. — (9) 1° Exclamation de joie; 2° — de pitié; 3° eh! début de phrase; 4° hélas! [5° certainement, en vérité; 6° don, présent, ex. : *hantakāra*, généreux]. — (10) 1° Au lieu de; 2° chacun, respectivement; 3° vers, du côté de; [4° pour; 5° qui appartient à, qui fait partie de; 6° en échange; 7° un peu]. — (11) 1° C'est pourquoi; 2° ainsi, indiquant une sorte ou une série; 3° de même, bien connu comme tel; 4° *et cætera*; 5° ainsi, exactement tel; 6° indiquant que le son précédent est désigné; 7° indiquant le sens proposé; 8° comme cela, de cette opinion; 9° fin, marquant le terme; 10° ainsi, de cette forme.

^a उत ou उत्. — ^b Ou सश्वत्.

- 1 [प्राच्यां] पुरस्तात्^a [प्रथमे पुरार्थे ऽग्रत इत्यपि] ॥ ७ ॥
 2 यावत् तावच् [च साकल्ये ऽवधौ माने ऽवधारणे] ।
 3 [मङ्गलानन्तराम्भप्रश्नकात्स्न्येषु] अथो अथ ॥ ८ ॥
 4 वृथा [निरर्थकाविध्योर्]
 5 नाना-[-नेकोभयार्थयोः] ।
 6 नु [पृच्छायां विकल्पे च]
 7 [पश्चात्सादृश्योर्] अनु ॥ ९ ॥
 8 [प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे] ननु ।
 9 [गर्हीसमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्व्] अपि ॥ १० ॥
 10 [उपमायां विकल्पे] वा^b

(1) 1° A l'est; 2° premier; 3° auparavant; 4° en avant. — (2) 1° Autant que (la totalité); 2° jusqu'à; 3° aussi nombreux que; 4° autant qu'il y a; 5° autant (affirmatif). — (3) 1° Particule favorable; 2° après; 3° maintenant (partic. initiale); 4° quoi? (interrogatif); 5° tout (en résumé); [6° maintenant (partic. exposante); 7° partic. impérative; 8° et]. — (4) 1° En vain; 2° à tort. — (5) 1° Beaucoup; 2° tous deux; [3° sans, excepté]. — (6) 1° Quoi? (interrogatif); 2° ou, soit; 3° indication de doute. — (7) 1° Après; 2° comme; [3° le long de; 4° sous, au-dessous de; 5° avec; 6° près; 7° vers; 8° en considération de; 9° signe de portion; 10° l'un après l'autre, respectivement]. — (8) 1° Particule interrogative; 2° certainement; 3° signe d'assentiment; 4° expression de consolation et d'amitié; 5° particule vocative; [6° partic. vocative conciliatoire; 7° particule initiale; 8° — de reproche; 9° — de réponse]. — (9) 1° Partic. de réprimande; 2° — interrogative; 3° — qui marque une enquête empressée; 4° — le doute ou le soupçon; 6° — la possibilité et la vraisemblance; [7° — la poursuite ou la recherche; 8° partic. corroborative d'une affirmation; 9° même; 10° quoique]. — (10) 1° Comme, semblable; 2° ou, soit; [3° et; 4° explétif; 5° seulement, non autre; 6° indication de doute et d'examen].

^a Ou पुरम्. — ^b Plus proprement वा.

- 1 सामि [त् अर्द्धे जुगुप्सने] ।
 2 अमा [सह समीपे च]
 5 कं [वारिणि च मूर्द्धि च] ॥ ११ ॥
 4 [इवेत्यमर्थयोर्] एवं
 5 नूनं [तर्के ऽर्थनिश्चये] ।
 6 [तूत्तीमर्थे सुखे] जोषं
 7 किं [पृच्छायां जुगुप्सने] ॥ १२ ॥
 8 नाम [प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने] ।
 9 अलं [भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकं] ॥ १३ ॥
 10 द्वं [वितर्के परिप्रश्ने]
 11 समया-[-न्तिकमध्ययोः] ।
 12 पुनर् [अप्रथमे भेदे]

(1) 1° A moitié; 2° d'une manière blâmable. — (2) 1° Avec, ensemble; 2° près. — (3) 1° Eau; 2° tête; [** 3° mauvais, méchant; 4° aise, plaisir; 5° explétif]. — (4) 1° Comme, de même; 2° ainsi; [3° expression de consentement; 4° certainement; 5° marque de commandement]. — (5) 1° Peut-être; 2° certainement; [3° indication de ressouvenir; 4° explétif]. — (6) 1° Silencieusement; 2° à l'aise. — (7) 1° Quoi? (interrogatif); 2° part. de dédain; [3° indication de doute ou de réflexion; ** 4° — de prohibition]. — (8) 1° Évidemment; 2° peut-être; 3° partic. indiquant le ressouvenir; 4° — la colère; 5° — le consentement malgré soi; 6° — le reproche; [7° — la prétention; 8° — la surprise]. — (9) 1° Ornement; 2° assez; 3° capable; 4° expression de défense; 5° — qui marque l'inutilité. — (10) 1° Part. impliquant le doute et la réflexion; 2° — interrogative; [3° — d'assentiment: oui; 4° — indiquant la peur; 5° — la colère; 6° — l'aversion et le dégoût; 7° — le reproche]. — (11) 1° Près; 2° dans, au milieu. — (12) 1° De nouveau; 2° mais, au contraire; [3° partic. indiquant un changement de sujet].

1 निरू [निश्चयनिषेधयोः] ॥ १४ ॥

2 [स्यात् प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके] पुरा ।

3 ऊर्ध्व^a ऊरी^b [चो-]-री^c [च विस्तारे ऽङ्गीकृती त्रयं] ॥ १५ ॥

4 [स्वर्गे परे च लोके] स्वरू

5 [वार्तासम्भाव्ययोः] किल ।

6 [निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये] खलु ॥ १६ ॥

7 [समीपोभयतः शीघ्रसाकल्याभिमुखे] ऽभितः ।

8 [नामप्राकाश्ययोः] प्रादुर्

9 मिथो [ऽन्यो ऽन्यं रूढस्यपि] ॥ १७ ॥

10 तिरो [ऽन्तर्द्धा तिर्यगर्थे]

11 हा [विषादशुगर्तिषु] ।

12 अह्हे^d [-त्य् अद्भुते खेदे]

13 हि [हेताव् अवधारणे] ॥ १८ ॥

(1) 1° Certainement; 2° négation. — (2) 1° Ancienne histoire; 2° vieux; 3° passé; ou 4° autrefois, jadis; 5° près; 6° futur; 7° avenir prochain. — (3) Partic. exprimant 1° la dilatation; 2° le consentement. — (4) 1° Ciel, paradis; 2° l'autre monde; [3° le ciel ou l'atmosphère]. — (5) 1° Nouvelles (ainsi rapportées); 2° probablement; [3° expression conciliatoire; 4° en vérité; ** 5° indication fautive de déplaisir]. — (6) 1° Partic. de prohibition; 2° — explétive; 3° — indiquant enquête; 4° expression conciliatoire; 5° en vérité, certainement. — (7) 1° Près; 2° des deux côtés; 3° promptement; 4° entièrement; 5° au devant. — (8) 1° Nom; 2° apparence. — (9) 1° Mutuellement; 2° en particulier. — (10) 1° Action de celer, de cacher; 2° de travers; 3° partic. de mépris. — (11) 1° Hélas! expression de fatigue; 2° — de chagrin; 3° — de douleur. — (12) 1° Indication d'étonnement; 2° — de peine ou de fatigue. — (13) 1° A cause de, pour; 2° en vérité; [3° partic. inter-

^a ऊर्ध्वी. — ^b Ou उरी; aussi ऊर्णी. — ^c उरी. — ^d अहह ou अहहा.

CHAPITRE V.

SYNONYMES INDÉCLINABLES.

- 1 चिराय चिरात्राय चिरस्या^a-[-द्याश् चिरार्थकाः] ।
 2 मुहुः पुनःपुनः शश्वद् अभीक्षणम्^b असकृत् [समाः] ॥ १ ॥
 3 साग् झटित्य^c अञ्जसाङ्गाय^d द्राङ् मञ्चु^e सपदि [द्रुते] ।
 4 बलवत् सुष्ठु किमुत् स्^f अत्यतीव^g [च निर्भरे] ॥ २ ॥
 5 पृथग् विनान्तरेणर्ते^h हिरुङ् नाना [च वर्जने] ।
 6 यत् तद् यतस् ततो [हेताव्]
 7 [असाकल्ये तु] चिच्ⁱ चन^j ॥ ३ ॥
 8 कदाचिज् जातु
 9 सार्द्धं [तु] साकं^k सत्रा समं सह^l ।
 10 [आनुकूल्यार्थकं] प्राध्वं

rogative; 4° part. explétive; 5° — indiquant une différence]. — (1) Long-temps. — (2) A plusieurs reprises, fréquemment. — (3) Aussitôt, à l'instant. — (4) Beaucoup, très. — (5) Sans, excepté. — (6) A cause, en conséquence; corrélatifs *yat yatah, yéna*, à cause; *tat, tatah, tēna*, en conséquence. — (7) Quelque. — (8) Quelquefois. — (9) Ensemble, avec. — (10) Conformité.

^a चिरस्य; aussi चिरं, चिरेण, चिरात्, चिरे. — ^b Ce mot est aussi déclinable. — ^c कटिति. — ^d अञ्जसा, अङ्गाय. — ^e Un commentateur ajoute, mais à tort, संचु. — ^f सु. — ^g अति, अतीव. — ^h विना, अन्तरेण [aussi अन्तरा] ऋते. — ⁱ चित्. — ^j En composition avec le pronom किम् et ses dérivatifs; exemple : किंचित्, quelque chose; कश्चन, quelqu'un. — ^k Un commentateur ajoute शाकं à tort. — ^l Aussi सनुस् [-नूः].

- 1 [व्यर्थके तु] वृथा मुधा^a ॥ ४ ॥
 2 आहो^b उताहो किमुत [विकल्पे] किं किमूत^c च ।
 3 तु हि च स्म ह वै [पाठपूरणे]
 4 [पूजने] स्व^d अति ॥ ५ ॥
 5 दिवा-[-ङ्गीत्य्]
 6 [अथ] दोषा [च] नक्तं [च] रजनाव् इति ।
 7 [तिर्यगर्थे] साचि^e तिरो [ऽप्य्]
 8 [अथ सम्बोधनार्थकाः] ॥ ६ ॥
 9 [स्युः] प्याट् पाड् अङ्ग ह्यै हे भोः
 10 समया निकषा हिरूक् ।
 11 [अतर्किते तु] सहसा
 12 [स्यात्] पुरः पुरतो ऽग्रतः ॥ ७ ॥
 13 स्वाहा^f [देवहविदाने] औषड् वौषड् वषट् स्वधा ।
 14 किञ्चिद् इषन् मनाग् [अल्पे]

(1) En vain. — (2) Soit, ou (impliquant délibération). — (3) Particules explétives. — (4) — de louanges et de respect. — (5) De jour. — (6) De nuit. — (7) Courbé, penché, de travers. — (8, 9) Particules vocatives. — (10) 1° Près; 2° au milieu. [Les termes sont synonymes dans les deux acceptions.] — (11) Inconsidérément, soudainement. — (12) Devant, en avant. — (13) Oblations aux dieux et aux mânes. [Les termes sont employés comme invocations avec les offrandes susdites. Le premier terme s'emploie pour les dieux, les autres pour les mânes; exemples : *Indrāya swāhā*, oblation à Indra; *pitribhyah swadhā*, oblation aux mânes.] — (14) Un

^a Quelques-uns lisent मूषा. — ^b Ou अहो; aussi आहोस्वित् et उताहोस्वित्. — ^c किमु, उत. — ^d सु. — ^e Ce mot est aussi déclinable et fém. — ^f Dans une autre acception, ce terme est aussi déclinable et fém. Voyez liv. II, chap. VII, sl. 21.

- 1 प्रेत्यामुत्र^a [भवान्तरे] ॥ ८ ॥
 2 वद्^b वा यथा तथैवैवं^c [साम्ये]
 3 ऽहो ही [च विस्मये] ।
 4 [मौने तु] तूष्णीं तूष्णीकां
 5 सद्यस् सपदि [तत्क्षणे] ॥ ९ ॥
 6 द्विष्ट्वा शम् उपजोषं^d [चेत् अानन्दे]
 7 [ऽथा-]-न्तरे^e ऽन्तरा ।
 8 अन्तरेण [च मध्ये स्युः]
 9 प्रसह्य [तु ह्यर्थकं] ॥ १० ॥
 10 [युक्ते द्वे] साम्प्रतं स्याने
 11 ऽभीक्ष्णं शश्वद् [अनारते] ।
 12 [अभावे]. नह्य^f अ नो^g ना^h [-पि]
 13 मास्म मालंⁱ [च वारणे] ॥ ११ ॥
 14 [पक्षान्तरे] चेद् यदि [च]
 15 [तत्वे त्] अद्वाञ्जसा^j [द्वयं] ।
 16 [प्राक्काश्ये] प्राटुर् अविः [स्याद्]

peu. — (1) Dans l'autre vie. — (2) Comme, de même. — (3) Ah! (expression de surprise). — (4) Silencieusement. — (5) A l'instant. — (6) Indication de joie. — (7, 8) Entre, au milieu. — (9) Forcément, violemment. — (10) A propos, d'une manière convenable. — (11) Perpétuellement, continuellement. — (12) Non. — (13) Particules négatives et prohibitives. — (14) Si, part. dubitative. — (15) Vraiment. — (16) Appa-

^a प्रेत्य, अमुत्र. — ^b वत्; un commentateur lit व. — ^c तथा, इव, एव; aussi एव.
 — ^d Aussi समुपजोषं; quelques-uns lisent उपजोषं. — ^e अन्तरे. — ^f नहि. — ^g Ou अनो; aussi अन. — ^h न ou ना. — ⁱ मा, मालं. — ^j अद्वा, अद्वाञ्जसा.

- 1 ओम्^a एवं परमं [मते] ॥ १२ ॥
 2 समन्तत्स [तु] परितः सर्वतो विघ्नं^b [इत्यपि] ।
 3 [अकामानुमतौ] कामं
 4 [असूयोपगमे] ऽस्तु [च] ॥ १३ ॥
 5 ननु^c [च स्याद् विरोधोक्तौ]
 6 कच्चित् [कामप्रवेदने] ।
 7 निःषमं दुःषमं [गर्ह्ये]
 8 यथास्वं [तु] यथायथं ॥ १४ ॥
 9 मृषा मिथ्या [च वितथे]
 10 यथार्थं [तु] यथातथं^d ।
 11 [स्युर्] एवं तु पुनर् वै वे^e [-त्यवधारणवाचकाः] ॥ १५ ॥
 12 प्राग् [अतीतार्थकं]
 13 नूनम् अवश्यं [निश्चये द्वयं] ।

rent. — (1) Oui. — (2) De tous côtés, tout autour. — (3) Volontiers [ce qui implique un éloignement en premier lieu, et en dernier le consentement. Aussi, suivant une autre leçon, 2° consentement volontaire, et (synonyme de l'article suivant) 3° action de consentir avec répugnance]. — (4) Qu'il soit ainsi (ce qui implique regret dans l'aveu ou l'acquiescement). — (5) Partic. indiquant contradiction. — (6) — précédant une question amicale [impliquant le désir que la chose demandée puisse être ainsi]. — (7) Improprement, non à propos. — (8) Comme il appartient à. — (9) Faussement. — (10) Proprement, convenablement. — (11) Assurément. — (12) Avant, auparavant. — (13) Certainement, nécessairement.

* Ou ओम्. — ^b Aussi विघ्नतः, समन्तात्, etc. — ^c Ou ननु. — ^d यथातथं (Éd. Calc. — MS. Beng. — Wils. Dict.); यथायथं (Édit. Séramp.). — ^e वा, ou suivant une autre leçon, एवं et च.

- 1 संवत् [वर्षे]
 2 [ऽवरे त्व्] अर्वाग्
 3 आम् एवं
 4 स्वयम् [आत्मना] ॥ १६ ॥
 5 [अल्पे] नीचैः
 6 [महत्त्वं] उच्चैः
 7 प्रायो [भूम्य्]
 8 [अद्भुते] शनैः ।
 9 सना^a [नित्ये]
 10 वहिर् [वाह्ये]
 11 स्मा^b [-तीते]
 12 ऽस्तम् [अदृशने] ॥ १७ ॥
 13 अस्ति [सत्वे]
 14 [रुषोक्ताव्] ऊम्
 15 उं [प्रश्ने]
 16 [ऽनुनये त्व्] अयि ।

(1) Année. — (2) Premier, précédent. — (3) Part. indiquant consentement, promesse. — (4) Même, de soi-même. — (5) Petit, bas. — (6) Grand, haut, fort. — (7) Fréquemment, généralement. — (8) Lentement. — (9) Perpétuellement, toujours. — (10) Extérieur, dehors. — (11) Précédemment. [Cette particule, qui indique le passé, change le présent en prétérit.] — (12) Disparition. — (13) Présent, maintenant, étant. — (14) Interjection qui marque la colère. — (15) Particule interrogative. [Selon quelques-uns, indiquant aussi le chagrin.] — (16) Exclamation d'encoura-

^a Aussi सनात् et सनात्. — ^b स्म.

- 1 ङ्ङ^a [तर्के स्याद्]
- 2 उषा^b [रात्रे अवसाने]
- 3 नमो [नतो] ॥ १८ ॥
- 4 [पुनरर्थे] ऽङ्ङ
- 5 [निन्दायां] दुष्टु
- 6 सुष्टु [प्रशंसने] ।
- 7 सायं [साये]
- 8 प्रगे प्रातः [प्रभाते]
- 9 निकषा-[-न्तिके] ॥ १९ ॥
- 10 परुत् परार्य् रेषमो [ऽब्दे पूर्वे पूर्वतरे यति] ।
- 11 अद्या^c-[-त्राद्भ्य]
- 12 [अथ पूर्वे ऽङ्गीत्यादौ पूर्वोत्तरापरात् ॥ २० ॥
- 15 तथाधरान्यान्यतेस्तरात्] पूर्वय्युर्-[-आद्यः] ।
- 14 उभयय्युष् [चो-]-भयेयुः^d
- 15 [परे त्व् अङ्गि] परेयवि ॥ २१ ॥

gement. — (1) Particule qui indique la réflexion. — (2) Fin de la nuit, matin, lever du jour. — (3) Salut! salutation, révérence. — (4) De nouveau [indiquant toutefois une différence en mieux]. — (5) Mal. — (6) Bien. — (7) Soir, fin du jour. — (8) Matin. — (9) Près. — (10) Dernière année (*parout*), pénultième (*parāri*), année courante (*aichama*). — (11) Aujourd'hui. — (12, 13) *Poārvédyouh*, jour précédent, hier; *outtarédyouh*, jour subséquent, demain; *aparédyouh*, autre jour, jour d'après-demain; *adharédhyouh*, jour passé, jour d'avant-hier; *anyédyouh*, autre jour; *anyatarédyouh*, l'un de deux jours; *itarédyouh*, jour différent. — (14) Deux jours; le jour passé et le jour à venir. — (15) Jour prochain.

^a Aussi ङ्ङ; quelques-uns lisent नु. — ^b Et उषस्. — ^c अद्य. — ^d उभयेयुस्.

1 ह्यो [गते]

2 [ऽनागते ऽङ्गि] श्वः

3 परश्चस्^a [तत्परे ऽह्नि] ।

4 तदा तदानीं

युगपद् एकदा

6 सर्वदा सदा ॥ २२ ॥

7 एतर्हि सम्प्रतीदानीम्^b अधुना साम्प्रतं [तथा] ।

8 [दिग्देशकाले पूर्वादौ] प्रागुदक्प्रत्यग्-[-आद्यः^c] ॥ २३ ॥

(1) Hier. — (2) Demain. — (3) Jour d'après-demain. — (4) Alors, dans ce temps. — (5) A la fois, en même temps. — (6) Toujours, dans tous les temps. — (7) Maintenant, dans ce temps. — (8) *Prāk*, est, de l'est, ou dans l'est, ou contrée de l'est, ou temps précédent. *Oudak*, nord, du nord, subséquent. *Pratyak*, ouest, occidental ou subséquent.

^a Ou परःश्वः. — ^b सम्प्रति, इदानीं. — ^c Outre d'autres termes, comme अवाक्, sud, du sud, ou précédent; दक्षिणात्, -णात्, -णेन, au sud; उत्तरात्, -रतः, -रेषा, au nord; अधरात्, -रतः, -रेषा, -स्तात्, dessous; पुरस्तात्, devant; उपरि, उपरिष्ठात्, dessus; अधस्तात्, derrière.

CHAPITRE VI.

SECTION PREMIÈRE.

RÈGLES POUR LA DÉTERMINATION DU GENRE DES NOMS.
NOMS FÉMININS.

सलिङ्गशास्त्रैः सन्नाद्विकत्तद्धितसमासजैः ।

अनुक्तैः संग्रहो लिङ्गं संकीर्णवद् इहोन्नयेत् ॥ १ ॥

लिङ्गशेषविधिर् व्यापी विशेषैर् यद्यवाधितः ।

1 स्त्रियाम् ईदृद्विरामैक्वाच्

2 सयोनिप्राणिनाम च ॥ २ ॥

3 नाम विद्युन्निशावल्लीवीणादिभून्दीर्घ्यां ।

4 अदन्तैर् द्विगुर् एकार्थो न च पात्रयुगादिभिः ॥ ३ ॥

5 तल् वृन्दे येनिकत्प्रत्रा वैरमैथुनकादिवुन् ।

(1) Les mots suivants sont féminins, savoir : les monosyllabes en ई et en ऊ, [comme श्रीः prospérité; भ्रूः sourcil]; — (2) — les noms des êtres du sexe féminin [à l'exception de कलत्रं et de गृहं n. et de दाराः m. pl. signifiant une épouse]; — (3) — les mots signifiant éclair, nuit, plante grimpante, luth (quelques-uns lisent वापो langage), espace ou quartier, terre, rivière, modestie (quelques-uns lisent धो intellect); — (4) — un mot en म्र en composition avec un nom de nombre, pourvu que le sens soit singulier [ex. : त्रिलोकी la réunion des trois mondes]; à l'exception de quelques composés formés avec les mots पात्र, युग, etc. [ex. : चतुर्युगं le total des quatre âges]; — (5) — les noms terminés par l'affixe तल्, qui marque l'état, la multitude, ou est pléonastique [ex. : देवता divinité]; — par les affixes य, इनि, कट्यच् et त्र, signifiant multitude, [comme पाश्या assemblage de chaînes ou d'entraves, पद्मिनी étang abondant en lotus, रथकट्या multitude de voitures, गोत्रा troupeau de

1 स्त्रीभावादावनिक्तिण्वुल्णचक्वपोयुजिजझिशाः ॥ ४ ॥

2 उणादिषु निहूरीश्च

3 आबूडन्तं चरं स्थिरं ।

4 तत्क्रीडायां प्रहरणं चेन् मौष्टा पात्नवा ण द्विक् ॥ ५ ॥

5 घञोञः साक्रियास्यां चेद् दाण्डपाता हि फाल्गुनी ।

6 श्यैनम्पाता हि मृगया तैलम्पाता स्वधेति द्विक् ॥ ६ ॥

vaches];— वुन् (ou वु avec वुण् ou वुञ् qui peuvent tous être convertis en व्रक, et finalement en इका), signifiant inimitié, union nuptiale, etc. [ex. : काकोलूकिका inimitié des corneilles et des hibous];— (1) — les noms terminés par un des onze affixes énumérés, signifiant l'action d'être, etc.; savoir : अग्नि, qui est la marque d'une imprécation; क्तिन् [ति], pour le sens abstrait [ex. : स्मृतिः souvenir]; एवुन् (qui se convertit en इका), désignant une maladie ou impliquant le sens du verbe [comme ज्ञोविका moyen de vivre]; एवुच्, एणच् [आ, ई], impliquant réciprocité [comme व्याक्रोशी imprécation mutuelle]; क्यप् [या], déterminant le sens abstrait [comme ब्रह्महत्या sacrilège]; युच् [अना], avec le sens abstrait [comme मण्डना décoration]; इञ् [इ], indiquant question et réponse; अड् [आ], pour le sens abstrait, ex. : पचा cuisine; नि, avec la signification abstraite [ex. : ग्लानिः fatigue]; अ, aussi dans le sens abstrait [comme चिकीर्षा désir d'agir, — mais quelques-uns omettent cet affixe; d'autres l'interposent après क्यप्; d'autres transposent quelques-uns des derniers affixes]; प्र [आ], de même avec le sens abstrait [ex. : क्रिया action];— (2) — les mots finissant par certains affixes *oun'ádi*, savoir : नि [comme अ्रेणिः cordon ou rangée, — quelques-uns lisent अग्निः, comme अग्निः la terre]; उ, [comme चनूः armée]; ई, [comme लक्ष्मीः prospérité];— (3) — les mots terminés par un affixe dénotant le genre féminin : ओ, आप् ou ऊड्, [soit que le mot signifie une chose mobile ou immobile, soit qu'il varie de genre ou soit restreint au féminin];— (4) — les mots terminés en एण, indiquant un jeu dans lequel la chose est employée comme une arme; ex. : मौष्टा action de boxer, de se battre à coups de poing;— (5, 6) — ou en ज, suivant घञ् et indiquant que tel acte a lieu dans tel temps et dans telles circonstances; ex. : श्यैनम्पाता chasse, fauconnerie;

- 1 स्त्री स्यात् काचिन्मृणाल्यादिरु विवक्षापचये यद्दि ।
- 2 लङ्का^a शेफालिका^b टीका^c धातकी^d पञ्जिकाढकी^{e f} ॥ ७ ॥
- 3 सिध्का^a सारिका^b हिका^c प्राचिकोल्का^{d e} पिपीलिका^f ।
- 4 तिन्दुको^a कणिका^b भङ्गिः^c सुरङ्गा^d-सूचि^e-माढ्यः^f ॥ ८ ॥
- 5 पिच्छा^a-वितण्डा^b-काकिण्यश्^c चूर्णिः^d शानी^e टुणी^f दस्^g ।
- 6 सातिः^a कन्या^b [तथा-]-सन्दी^c नाभी^d राजसभा^e-[-पि च] ॥ ९ ॥
- 7 झल्लरी^a चर्चरी^b पारी^c होर^d लट्टा^e [च] सिध्मला^f ।

(1) — les diminutifs formés en donnant la terminaison féminine à un nom masculin, comme मृणाली *petite fibre du lis d'eau*; — (2) — et les mots particuliers énumérés, et signifiant : ^a la ville de Lanka; — ^b *nyctanthes arbor tristis*; — ^c commentaire, annotations; — ^d *grisca tomentosa*; — ^e पञ्जिका, 1° commentaire perpétuel; 2° livre de notes, journal; 3° calendrier, almanach; — ^f झाढकी *cytisus cajan*. — (3) ^a La plante ainsi nommée; — ^b espèce d'oiseau : *turdus salica*, Buch.; — ^c hoquet; — ^d प्राचिका, espèce d'oiseau, d'autres disent de moucheron; — ^e उल्का, tison; — ^f fourmi. — (4) ^a *Diospyros melanoxydon*, ^a *D. glutinosa*, Wils.; — ^b 1° atome; 2° étincelle; — ^c 1° fracture; 2° déception; 3° vague, flot; 4° ironie; — ^d trou fait en tournant dans la terre, mine; ouverture par la sape comme en font les gens qui forcent une maison; — ^e aiguille; — ^f माढिः, bourgeon des feuilles, jeunes feuilles non épanouies. — (5) ^a 1° Gomme du *bombax heptaphyllum*; 2° écume du riz bouilli, etc.; — ^b action de critiquer; — ^c काकिणी ou काकिनी, quart d'un *pana*, selon quelques-uns, d'un *mácha*; — ^d चूर्णिः ou चूर्णी, choix d'un argument sans réplique; — ^e 1° meule, pierre à broyer; 2° paravent fait avec la crotalaire joncée; — ^f centipède; — ^g tribu de barbares. — (6) ^a 1° Peine extrême; 2° destruction; — ^b étoffe grossière, haillons; — ^c आसन्दी, petit lit ou couchette, chaise, siège; — ^d नाभी ou नाभिः, nombril [il est aussi masculin]; — ^e cour d'un roi. — (7) ^a Cymbales; — ^b action de se réjouir, de célébrer par des chants, etc. [selon une autre leçon, कर्कटी *petite jarre*]; — ^c vase à boire, coupe, gobelet; [selon une autre leçon, वारी, 1° vase pour traire; 2° corde pour attacher un élé-

1 लाक्षा^a लिक्षा^b [च] गण्डूषा^c गृध्रसी^d चमसी^e मसी^f ॥ १० ॥

SECTION II.

NOMS MASCULINS.

2 पुंस्त्वे सभेदानुचराः सपर्यायाः सुरासुराः ।

3 स्वर्गयागाद्रिमेघाब्धिकालासिशरायः ॥ ११ ॥

4 कागण्डौष्ठदोर्दन्तकण्ठकेशनखस्तनाः ।

5 अङ्गलान्ताः

6 द्वेउभेदा

phant]; — ^a 1° lever d'un signe du zodiaque; 2° partie d'un signe, * heure; 3° signe du zodiaque; 4° astrologie; — ^o 1° nom d'une plante; 2° — d'un oiseau; 3° boucle de cheveux sur le front; 4° — sur le côté de la figure; — ^f 1° pustule de la peau; 2° espèce de lèpre. — (1) ^a Laque; — ^b lente, œuf de pou; — ^o gorgée d'eau pour se rincer la bouche; — ^d goutte ou rhumatisme à la jambe; — ^e 1° petite cuiller ou spatule; 2° lentilles réduites en farine; — ^f encre [aussi मसिः m.]. — (2, 4) Sont masculins les mots ci-après, savoir : ceux dont les significations sont les suivantes : — dieux de différents ordres, et leurs serviteurs (avec quelques exceptions); — démons, et leurs serviteurs (avec quelques exceptions). — Également (avec certaines exceptions) les mots signifiant : paradis, paradis particuliers; — sacrifices, espèces de sacrifices; — montagne, montagnes particulières; — nuage, espèces particulières de nuages; — mer, mers particulières; — arbre, espèces particulières d'arbres; — temps, mesures du temps; — épée, espèces d'épées; — flèches, sortes diverses de flèches; — ennemi, sortes d'ennemis; — revenu [ou taxe; rayon de lumière; main]; — joue; — lèvres; — bras; — dent [l'édition de Sérampour porte à tort दण्ड au lieu de दन्त dans le texte]; — gosier; — chevelure; — ongle; — sein [les exceptions sont énoncées en leur lieu]; — (5) — les mots terminés en अङ्ग ou अह [comme पूर्वाङ्गः matin, matinée; द्वयहः couple de jours]; — (6) — les noms de poisons [avec certaines exceptions];

- 1 रात्रान्ताः प्रागसंख्यकाः ॥ १२ ॥
 2 श्रीवेद्यायाश् च निर्यासा
 3 असन्नन्ता अवाधिताः
 4 कशेरुजतुवस्तूनि हित्वा तुरुविरामकाः ॥ १३ ॥
 5 कषणभमरोपान्ता यद्यदन्ता अमी अथ ।
 6 पथनयसटोपान्ता
 7 गोत्राख्याश्
 8 चरणाद्धयाः ॥ १४ ॥
 9 नाम्न्य् अकर्तारि भावे च वज्रज्वनङ्गघाद्युचः ।
 10 ल्युः कर्तरीमनिज्भावे को घोः किः प्रादितो ऽन्यतः । १५ ॥

(1) — les mots composés en रात्र [comme वर्षारत्रः nuit pluvieuse], excepté en composition avec un nom de nombre [ex. : पञ्चरात्रं cinq nuits]; — (2) — les noms des résines ou gommés, ou des autres exsudations des arbres, ou des autres extraits des végétaux [selon une autre leçon, श्रीपिष्टः]; — (3) — les mots en अस् et en अन् avec quelques exceptions [quelques-uns lisent à tort उस् et अस्]; — (4) — les noms terminés en तु ou ह, à l'exception de कशेरु, racine du *scirpus maximus* (masc. et neutre, d'autres disent fém.) जतु laque, वस्तु chose, tous deux neutres [outre d'autres exceptions]; — (5) — les noms en अ ayant pour pénultième क, ष, ण, भ, म, र्; — (6) — ou ष, थ, न, य, स, ट; [selon quelques-uns cela n'est pas limité à l'अ final, mais la meilleure opinion le restreint ainsi; même avec cette restriction, la règle admet de nombreuses exceptions]; — (7) — les noms de famille qui tirent leur dénomination d'un patriarche; — (8) — les noms des portions du *Véda*; — (9) — les noms démonstratifs terminés par les affixes घञ्, अच्, अप् (tous convertibles en अ), नञ् [न] ण, घ (tous deux convertibles en अ), et अयुच् [अयु] avec le sens abstrait, ou tout autre sens que celui d'agent, ou même avec ce sens si le nom n'est pas dénominatif; la règle admet des exceptions; — (10) — ceux qui sont terminés en ल्यु (convertible en अन्), avec la si-

- 1 द्वन्द्वे ऽश्ववउवाक् अश्ववउवा न समाहृते ।
- 2 कान्तः सूर्येन्दुपर्यायः पूर्वे ऽयः पूर्वको ऽपि च ॥ १६ ॥
- 3 वटकश्^a [चा]-नुवाकश्^b [च] रत्नकश्^c [च] कुटुङ्कः^d ।
- 4 पुस्तो^a न्युस्तः^b समुद्गश्^c [च] विट^d-पट्ट^e-धटाः^f खटः^g ॥ १७ ॥
- 5 कोट्टारश्च^a ब-हृद्वाश्^c [च] पिण्ड^d-गोण्ड^e-पिचिण्ड^f [-वत्] ।
- 6 गडुः^a करण्डो^b लगुडो^c वरण्डश्^d [च] किणो^e घुणः^f ॥ १८ ॥

gnification active; en इमनिच् [इमन्] avec le sens abstrait (d'autres disent aussi le passif); en क (convertible en अ), avec le sens abstrait; en कि [इ], mis comme affixe aux verbes appelés घृ (savoir दा, etc.), avec une préposition ou un nom préfixé; — (1) — le mot composé अश्ववउवा, du. अश्ववउवौ un cheval et une jument, pl. अश्ववउवाः chevaux et juments; mais on dit aussi अश्ववउवं haras de chevaux et de juments; — (2) — le mot कान्त, en composition avec les noms du soleil et de la lune, ou avec le mot अयस् [ex. : सूर्यकान्तः lentille de cristal]; — (3) — les mots ci-dessous énoncés : ^a pois ou fèves broyés et frits avec de l'huile ou du beurre; — ^b अनुवाकः hymne des *Védas*; — ^c 1° espèce de bête fauve; 2° paupière; — ^d (ou कुटुङ्कः) 1° berceau formé par des plantes grimpantes courant sur un arbre; 2° toit ou chaume; 3° maison ou hutte. — (4) ^a Partie emplumée d'une flèche; — ^b (ou न्युस्तः) action de répéter six fois le nom trilitéral de Dieu (*Aum*); 2° *Sāmaveda*; 3° agréable; — ^c boîte avec un couvercle; — ^d sodomite; — ^e 1° vêtement; 2° soie tissée; 3° patente royale; 4° pierre pour broyer avec une molette; — ^f balance; — ^g 1° gazon; 2° puits couvert. — (5) ^a कोट्टः forteresse (selon une autre explication : कोट्टारः 1° puits d'une ville; 2° escalier d'une citerne); — ^b अर्यट्टः machine pour tirer de l'eau (selon une autre interprétation : घट्टः quai, degrés, marches); — ^c marché; — ^d 1° bouffe de nourriture; 2° viande; 3° corps; 4° oblation de nourriture aux mânes des ancêtres; — ^e 1° tribu de montagnards; 2° personne ayant le nombril saillant [quelques-uns lisent मौडः, d'autres मोडः, et interprètent le mot par : *excroissance de chair sur le nombril*]; — ^f abdomen. — (6) ^a 1° Goître; 2° bosse sur le dos; — ^b 1° boîte avec un couvercle;

- 1 दृति^a-सीमन्त^b-हरितो^c रोमन्थोद्गीथ^d-बुद्बुदाः^f ।
 2 कासमर्दो^a ऽवुदः^b कुन्दः^c फेन^d-स्तूपौ^e [स-]-यूपको^f ॥ १८ ॥
 3 आतपः^a [द्वित्रिये] नाभिः^b कणप^c-क्षुर^d-केदराः^e ।
 4 पूर^a-क्षुरप्र^b-चुक्राश्^c [च] गोल^d-हिंगुलु^e-पुद्गलाः^f ॥ २० ॥
 5 वेताल^a-मल्ल^b-भल्लाश्^c [च] पुरोडाशो^d [ऽपि] पट्टिशः^e ।
 6 कुल्माषो^a रभसश्^b [चैव स-]-कटाहः^c पतद्ग्रहः^d ॥ २१ ॥

2° corbeille; — ° 1° bâton; 2° massue garnie de fer, ou qui est en fer; — ^d 1° multitude; 2° boutons sur la figure; 3° portique; — ° 1° verrue; 2° escarre; — ^f insecte qui mange le bois. — (1) ^a soufflet pour le feu; — ^b ajustement de la coiffure, action de séparer les cheveux de manière à laisser une raie sur le dessus de la tête; — ° हरित् couleur verte; — ^d रोमन्थ action de ruminer, de remâcher; — ° उद्गीथ 1° désignation du nom trilitéral de Dieu; — 2° portion du *Sāmaveda*; — ^f bulle d'eau. — (2) ^a (Ou काप्रमर्द) 1° *cassia esculenta*; 2° préparation acide de tamarin et de moutarde; — ^b 1° en numération, cent millions; 2° en médecine, enflure indolente [quelques-uns lisent अर्दनि: 1° feu; 2° maladie]; — ° 1° plante (*jasminum multiflorum*); 2° tour d'un tourneur; — ^d écume; — ° butte de terre; — ^f यूप: poteau du sacrifice auquel une victime est attachée [selon une autre leçon यूप: pain]. — (3) ^a Clarté du soleil; — ^b soldat ou homme de la classe militaire; — ° pique ou lance [suivant une autre leçon कुपाप: 1° corps mort; 2° puauteur; 3° lance, pique]; — ^d (Ou क्षुर:) 1° rasoir; 2° *barleria* (ou *ruellia longifolia*; — ° nom d'une plante. — (4) ^a vague, flot; — ^b (ou क्षुरप्र:) sorte de flèche; — ° 1° sauce acide; 2° oseille; — ^d 1° globe; 2° bâtard d'une veuve; — ° हिंगुलु: m. n. ou हिंगुल: m. vermillon; — ^f ou पुद्गल: 1° âme; 2° corps. — (5) ^a Corps mort occupé par un malin esprit; — ^b lutteur ou boxeur; — ° 1° Ours; 2° m. f. sorte de flèche; — ^d (ou पुरोडा:) 1° reste d'une oblation; 2° espèce d'oblation; — ° ou पट्टिश: hache d'armes. — (6) ^a (Ou कुल्मास:) mets composé de riz à moitié bouilli avec des pois, ou d'orge à moitié bouillie, etc.; — ^b 1° joie; 2° opération mentale; — ° 1° bouilloire peu profonde; 2° écaille d'une tortue; 3° jeune buffle; —

SECTION III.

NOMS NEUTRES.

- 1 द्विहीने ऽन्यच्च खारण्यपर्णश्चभ्रह्मिभोदकं ।
- 2 शीतोक्तमांसरुधिरमुखाक्षिद्रविणं बलं ॥ २२ ॥
- 3 फलहेमशुल्वलोहमुत्तुःखशुभाशुभं ।
- 4 जलपुष्पाणि लवणं व्यञ्जनान्य् अनुलेपनं ॥ २३ ॥
- 5 कोट्याः शतादिसंख्यान्या वा लक्षानियुतं च तत् ।
- 6 द्यच्चम् असिसुसन्नं
- 7 यदनान्तम् अकर्तरि ॥ २४ ॥
- 8 त्रान्तं सलोपधं शिष्टं

^a pot à cracher. — (1-5) Sont neutres les mots suivants, savoir : ceux qui signifient (avec diverses exceptions) : ciel, atmosphère, élément éthéré [ou organe des sens], — forêt, — feuille, — trou, — gelée, — eau, — froid, — chaleur, — viande, — sang, — face, — œil, — richesse, substance, — force, vigueur [ou forces, armée], — fruits de diverses sortes [ou suivant une autre leçon, हल चरु], — or, — cuivre, — fer [ou métal], — plaisir, — peine, — bonne fortune, — mauvaise fortune, — fleurs aquatiques, — sel de diverses sortes, — sauce ou condiment et diverses sortes de condiments, — parfums de diverses sortes, — noms de nombre depuis cent et au-dessus, excepté कोटि dix millions, qui est féminin, et लक्ष fém. et neut. et नियुत masc. et neut. signifiant tous deux cent mille; — (6) — les disyllabes en अस्, इस्, उस् ou अन्, [ex. : यज्ञस् gloire, हविस् oblation de beurre, वपुस् corps, नामन् nom]; — (7) — les noms en अन्, ayant tout autre sens que celui d'agent [ex. : गमनं action d'aller, mouvement]; — (8) — les noms en त्र, स et ल [ex. : मित्रं ami, वुसं paille, कुलं famille]; la règle est sujette à beaucoup d'exceptions [quelques-uns lisent न au lieu de ल, et interprètent la règle comme

- 1 रात्रं प्राक्संख्ययाञ्चितं
 2 पात्रायदन्तैर् एकार्थो द्विगुर लक्ष्यानुसारतः ॥ २५ ॥
 3 द्वन्द्वैकत्वाव्ययीभावौ
 4 पथः संख्याव्ययात्परः ।
 5 षष्ठ्याश् ह्याया वदूनां चेद् विच्छायं
 6 संहृती सभा ॥ २६ ॥
 7 शालार्थापि परा राजामुनष्यार्थाद्वराजकात् ।
 8 दासीसभं नृपसभं रक्षःसभमिमादिशः ॥ २७ ॥
 9 उपसोपक्रमान्तश् च तदादित्वप्रकाशने ।
 10 कोपसं कोपक्रमादि

restreinte aux noms en त्र avec स् ou न् préfixé, ex. : वस्त्रं vêtement, यन्त्रं machine]; — (1) — les noms en रात्र avec un nom de nombre [ex. : त्रिरात्रं la durée de trois nuits]; — (2) — les mots composés en अ formés de पात्र et de certains autres mots avec des noms de nombre, et signifiant une totalité [ex. : चतुर्युगं la période entière des quatre âges]; — (3) — les mots composés copulativement ou adverbialement [les premiers indiquant une totalité, ex. : शिरोग्रोवं la tête et le cou; les seconds joignant un nom à une particule, ex. : यथाशक्ति autant que possible]; — (4) — पथिन् avec un nom de nombre ou une particule [ex. : कापथं mauvaise route]; — (5) — ह्याया avec un mot au sixième cas, pourvu que ce mot soit au pluriel, ex. : विच्छायं ombre d'une troupe d'oiseaux; — (6-8) — सभा en composition avec un mot au sixième cas, pourvu qu'il soit employé dans le sens d'assemblée, ex. : दासीसभं multitude d'esclaves femelles, ou soit que le mot signifie assemblée ou maison, si le terme auquel il est joint signifie roi (à l'exception du mot राजा) ou démon, ou être semblable (ni homme ni dieu), exemples : नृपसभं palais d'un roi, रक्षःसभं multitude de démons; — (9-10) — de même उपसोपक्रम et उपक्रम en composition avec le sixième cas, pourvu que le sens soit commencement, ex. : कोपसं et कोपक्रमं création opérée par Brahmā;

- 1 कन्योशीनरनामसु ॥ २८ ॥
- 2 भावे नणकचिद्धो ऽन्ये समूहे भावकर्मणोः ।
- 3 अदन्तप्रत्ययाः
- 4 पुण्यसुदिनाभ्यां त्व् अहः परः ॥ २९ ॥
- 5 क्रियाव्ययानां भेदकान्त् एकात्वे ऽप्य्
- 6 उक्थ^a-तोटक^b ।
- 7 चोचं^a पिच्छं^b गृहस्थूणं^c तिरीटं^d मर्म^e-योजने^f ॥ ३० ॥
- 8 राजसूयं^a वाजपेयं^b गद्य^c-पद्ये^d [ज्ञतौ कवेः] ।
- 9 माणिक्य^a-भाष्य^b-सिन्दूर^c-चीर^d-चीवर^e-पञ्जरं^f ॥ ३१ ॥

(1) — कन्या, pourvu que le mot composé soit le nom d'une ville dans la province d'Ous'inara, autrement il est féminin [ex. : सौप्तिकन्यं et दाक्षिकन्या noms de villes, la première située dans l'Ous'inara, l'autre hors de cette province]; — (2, 3) — les mots ayant un sens abstrait, terminés par des affixes en ञ, formant des dérivatifs verbaux, à l'exception de न [नङ्] ण, क (aussi bien que घञ्), convertibles en ञ, et ceux qui sont distingués par un च् indicateur (comme अच्, etc.); de même les affixes en ञ avec le sens abstrait ou passif, ou celui de multitude, formant des dérivatifs des noms; — (4) — les noms en अह् avec पुण्य ou सुदिन [ex. : पुण्याहं jour de fête]; — (5) — les adverbes et épithètes des indéclinables; — (6) — les noms énoncés ci-après : ^a 1° portion du *Sāmaveda*, 2° vers monosyllabique; — ^b 1° nom d'un mètre poétique; 2° espèce de drame. — (7) ^a 1° Fruit à demi mangé; 2° fruit du palmier; 3° noix de coco [ou मोचं bananier; aussi selon une autre leçon, खेटं chasse, action de chasser]; — ^b queue d'un paon [selon quelques-uns, masc. fém. vers monosyllabique; aussi selon d'autres leçons, उक्तं, उक्थं et मुक्तं délivré]; — ^c pilier d'une maison; — ^d 1° turban; 2° diadème; — ^e jointure ou place de jonction des parties du corps; — ^f longue mesure, quatre *kros'as*. — (8) ^a Grand sacrifice par un empereur escorté de ses rois tributaires [ce mot est aussi masc.]; — ^b nom d'un sacrifice; — ^c prose; — ^d vers. — (9) ^a Pierre pré-

1 लोकायतं^a हरितालं^b विदलं^c स्याल^d-बालूकं^e ।

SECTION IV.

NOMS MASCULINS ET NEUTRES.

2 [पुन्रपुंसकयोः] शेषो^a ऽर्द्धच^b-पिण्याक^c-कण्टकाः^d ॥ ३२ ॥

3 मोदकस्^a तण्डकष्^b टङ्कश्^c शाटकः^d कर्वटो^e ऽर्बुदः^f ।

4 पातकोद्योग^{a b}-चक्र^c-तमालामलका^{d e} नडः^f ॥ ३३ ॥

cieuse; —^b 1° commentaire; 2° espèce de bâtiment; —^c minium; —^d 1° écorce; 2° lambeau, haillon; 3° habit d'un prêtre de la secte de *Bouddha*; —^e 1° vêtement d'un mendiant; 2° vêtement d'un prêtre de la secte de *Bouddha*; —^f ou पिञ्जरं 1° volière; 2° côtes du corps [aussi masc.]. — (1) ^a Système de philosophie athée enseigné par *Tchârvâka*; —^b orpiment jaune; —^c 1° corbeille faite avec des bambous fendus; 2° écorce de la grenade; 3° pois écosés; —^d chaudron; —^e 1° nom d'une contrée; 2° production de cette contrée [aussi बालूकं espèce de safran]. — (2) Les noms ci-après énumérés sont masculins et neutres : ^a quelques-uns renferment ce mot parmi les termes énumérés comme masculins et neutres dans le sens de *reste*; il est masculin comme nom de l'éternel serpent *Séchanâga*; —^b demi-vers des *Védas*; —^c marc d'huile; —^d 1° épine ou pointe; 2° faute ou défaut; 3° horripilation. — (3) ^a Espèce de confiture; —^b accomplissement [suivant une autre leçon, दण्डकः espèce de mètre poétique]; —^c hache, cognée, ciseau d'un tailleur de pierre [ou suivant une autre leçon, तङ्कः 1° chagrin à la séparation d'avec un objet aimé; 2° terreur]; —^d jupe; —^e capitale d'un district ou de deux ou quatre cents villages, non une cité ni un village, mais entre les deux; [quelques-uns écrivent खर्वटः, mais une autre leçon donne कर्वटः vêtement]; —^f 1° en numération, un million; 2° en médecine, ophthalmie. — (4) ^a पातक faute, crime; —^b उद्योग tentative, effort; —^c nom d'un livre sur la médecine ainsi nommé de son auteur [ou ब्रकः vêtement cousu]; —^d तमाल 1° nom d'un arbre; 2° écorce de bambou; —^e अमलक myrobolan emblic, ou अमालक place inhabitée sur le

- 1 कुष्ठ^a मुण्डं^b शीधु^c बुस्तं^d क्ष्वेडितं^e क्षेम^f-कुट्टिमं^g ।
- 2 सङ्गमं^a शतमानाम्^b शंवलान्वय^d -ताण्डवं^f ॥ ३४ ॥
- 3 कवियं^a कन्ध^b -कार्पासं^c पारावारं^d युगन्धरं^f ।
- 4 यूषं^a प्रग्रीव^b -पात्रीवे^c यूषं^d चमसं^e -चिक्कसौ^f ॥ ३५ ॥
- 5 अर्द्धर्चादौ घृतादीनां पुंस्त्वाद्यं वैदिकं ध्रुवं ।
- 6 तन्नोक्तम् इह लोके ऽपि तच्चेदस्त्यस्तु शेषवत् ॥ ३६ ॥

sommet d'une montagne; — ^f roseau creux. — (1) ^a 1° Lèpre; 2° *costus speciosus*; — ^b 1° tête; 2° m. f. n. rasé ou tondu; — ^c rhum; — ^d 1° godiveau; 2° aliment frit [quelques-uns lisent चुस्तं; aussi selon différentes leçons, पुस्तं enduit, तुस्तं poussière, प्रस्तं excellence]; — ^e cri de guerre; — ^f bien-être; — ^g 1° mine de pierres précieuses; 2° terrain uni et enduit; 3° demeure d'un pauvre homme, cabane. — (2) ^a Confluent de rivières, etc.; — ^b प्रातमान 1° *pala* d'argent; 2° *ādhi'aka*; — ^c अर्म maladie de l'œil; — ^d शंवल ou संवल fonds pour les dépenses d'un voyage; — ^e अन्वय, mot indéclinable; — ^f danse accompagnée de gestes violents. — (3) ^a Bride; — ^b racine bulbeuse ou tubéreuse [ou कर्म acte]; — ^c vêtement de coton [ou कर्पासं coton]; — ^d पार bord ou rivage opposé; — ^e अवार् bord ou rivage prochain [selon une autre leçon, वारं 1° multitude; 2° opportunité; 3° succession; 4° action d'aller en espion]; — ^f 1° joug; 2° nom d'une montagne. — (4) ^a Poteau auquel une victime est attachée à un sacrifice [ou पूय pus]; — ^b 1° fenêtre; 2° maison de plaisance; 3° sommet d'un arbre; — ^c [ou पात्रीवं], sorte de vase employé dans des cérémonies religieuses; — ^d [ou नूषं], soupe aux pois, eau du haricot bouilli (*phaseolus mungo*, etc.); — ^e cuiller ou vase pour boire l'extrait de l'*asclépiade acide*; — ^f farine d'orge. — (5-6) Certains autres termes, comme घृत, etc. qui sont masculins et neutres dans les *Védas*, sont exclusivement neutres dans le langage populaire. D'autres termes, usités dans les deux genres, peuvent être appris par la pratique.

SECTION V.

NOMS MASCULINS ET FÉMININS.

1 स्त्रीपुंसयोर् अपत्यान्ता

2 द्विचतुःषट्पदोऽर्गाः ।

3 ज्ञातिभेदाः

4 पुमाख्याश्च स्त्रीयोगैः सह

5 मल्लकः^a ॥ ३७ ॥6 मुनिर्^a वराटकः^b स्वातिर्^c वर्णको^d जाटलिर्^e मनुः^f ।7 मूषा^a सृपाटी^b कर्कन्धूर्^c यष्टिः^d शाटी^e कटी^f कुटिः^g ॥ ३८ ॥

(1) Sont masculins et féminins les mots suivants, savoir : les patronymiques ; — (2, 3) — les noms génériques des animaux, comme bipèdes, quadrupèdes, insectes, reptiles ; de même les poissons, etc. [cette règle est cependant sujette à des exceptions, exemples : मच्छिका mouche, शिवा chacal, लूता araignée, पिपोलिका fourmi, qui sont toujours féminins, quel que soit le sexe désigné] ; — (4) — les noms des mâles, et par association des femelles [ex. : गोपः nourrisseur de vaches, गोपी femme d'un nourrisseur de vaches] ; — (5) — les termes ci-après spécifiés : ^a vase contenant de l'huile, burette. — (6) ^a Dévot ou ascétique ; — ^b cauri ; — ^c étoile, l'arcture ; — ^d matière de teinture, comme l'indigo, l'orpiment, etc. [mais m. f. n. parfum, comme le bois de sandal] ; — ^e nom d'un arbre [quelques-uns lisent पाटलिः *bignonia chelonoides*] ; — ^f nom de Manou ou de sa femme. — (7) ^a Creuset ; — ^b m. सृपाटः mesure [aussi असृपाटः, -टी ruisseau de sang] ; — ^c jujube ; — ^d bâton ; — ^e juppe ; — ^f masc. कटिः, et fém. कटिः, कटी creux au-dessus du giron [ou masc. कटः, fém. कटी natte] ; — ^g hutte, maison.

SECTION VI.

NOMS FÉMININS ET NEUTRES.

- 1 स्त्रीनपुंसकयोर् भावक्रिययोः ष्यञ् द्वाचिच्च वुञ् ।
- 2 औचित्यम् औचिती मैत्री मैत्र्यं वुञ् प्राग् उदाहृतः ॥ ३८ ॥
- 3 षष्ठ्यन्तप्राक्पदाः सेनाह्याशालासुगनिशाः ।
- 4 स्याद्वा नृसेनं श्वनिशं गोशालम् इतरे च द्विक् ॥ ४० ॥
- 5 आवन्नन्तोत्तरपदो द्विगुश् चापुंसि नश्च लुप् ।
- 6 त्रिखट्वं च त्रिखट्ठी च त्रितक्षं च त्रितक्ष्य् अपि ॥ ४१ ॥

SECTION VII.

NOMS DES TROIS GENRES.

- 7 [त्रिषु] पात्री^a पुटी^b वाटी^c पेटी^d कुवल^e-दाडिमौ^f ।

(1, 2) Les noms en ष्यञ् [य] ou वुञ् [अक], avec le sens abstrait ou passif, sont communément féminins et neutres, mais quelquefois féminins seulement, et quelquefois neutres, ex. : औचित्यं, -ती propriété, मैत्र्यं, मैत्री amitié, वार्द्धकं, -का vieillesse. — (3, 4) De même les composés en सेना, etc., avec un mot au sixième cas, comme नृसेनं armée d'hommes, श्वनिशं nuit pendant laquelle les chiens aboyent et hurlent, गोशालं parc pour les vaches. — (5, 6) De même les mots composés finissant par des noms terminés en आप् (आ marque du féminin), ou par अन्, joints avec des noms de nombre, et désignant un seul tout, le न् final est supprimé dans ces composés; ex. : त्रिखट्वं ou -ट्ठी réunion de trois lits, त्रितक्षं ou -क्षी association de trois charpentiers. — (7) Les noms ici énumérés prennent les trois genres : ^a पात्रः, -त्री, -त्रं vase; — ^b 1° couvercle ou couverture; 2° plat de feuilles [ou पेटी couverture, vêtement]; — ^c 1° pièce de terrain entourée, cour;

SECTION VIII.

CHANGEMENT DE GENRE.

- 1 परं लिङ्गं स्वप्रधाने द्वन्द्वे तत्पुरुषे ऽपि तत् ॥ ४२ ॥
- 2 अर्थान्ताः प्राचलंप्राप्तापन्नपूर्वाः परोपगाः ।
- 3 तद्धितार्थो द्विगुः
- 4 संख्यासर्वनामतदन्तकाः ॥ ४३ ॥
- 5 वक्रुव्रीहिरु अदिङ्गाम् उन्नेया तदुदाहृतिः ।

2° verger ou place pour planter des arecas, etc.; 3° route; — ^d 1° multitude, assemblée; 2° corbeille; 3° cortège, suite; — ^e 1° jujube; 2° jujubier [quelques-uns distribuent ainsi les genres : m. f. l'arbre, n. le fruit]; — ^f grenade [ou bien : m. f. l'arbre, n. le fruit]. — (1) Le genre du mot final est conservé dans certains mots composés, savoir : les composés conjonctifs dans lesquels les divers termes sont principaux, et les composés formés d'un terme principal avec un autre qui en est la modification [ex. (fém.) : कुक्कुटमयूरी un coq domestique et la femelle d'un paon, (masc.) मयूरीकुक्कुटौ une paonne et un coq domestique, कुलविप्रः le prêtre d'une famille, (neut.) विप्रकुलं la famille d'un prêtre]. — (2-3) Le genre d'un autre mot est suivi dans certains composés, savoir : ceux qui sont terminés en अर्थ [comme ब्राह्मणार्थः, -र्था, -र्थ, destiné à un Brâhmane], et les mots composés commençant par प्र, et certains autres termes [ex. : अलञ्जीविकः, -का, -कं, qui suffit à l'existence], et les termes composés contenant un nom de nombre, et terminés par un affixe particulier aux dérivatifs des noms [ex. : पञ्चपालः, -ला, -लं, pourvu de cinq poteaux]; ils s'accordent en genre avec un autre mot; — (4) — dans les noms de nombre et les pronoms, et les mots terminés par un nom de nombre ou un pronom [cependant la plupart des noms de nombre peuvent être exceptés, et la règle n'est applicable qu'à ceux, de un jusqu'à quatre, qui s'accordent en genre avec le sujet]. — (5) De même pour les épithètes composées, comme वक्रुधनः, -ना, -नं, opulent, à l'exception des noms des régions de l'espace.

- 1 गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधयः परागमिनः ॥ ४४ ॥
- 2 कृतः कर्तर्यसंज्ञायां कृत्याः कर्तरि कर्मणि ।
- 5 अणायन्तास्तेनरक्तायर्थे नानार्थभेदकाः ॥ ४५ ॥
- 4 षट्संज्ञकास् त्रिषु समायुष्मदस्मत्तिडव्ययं ।
- 5 परं विरोधे शेषं तु ज्ञेयं शिष्टप्रयोगतः ॥ ४६ ॥

इत्यमरसिंहकृती नामलिङ्गानुशासने

सामान्यस्तृतीयः काण्डः

साङ्ग एव समर्थितः

(1) — les épithètes exprimant une qualité, une chose, une action, ex. m. f. n. : शुक्लः [पटः], शुक्ला, शुक्लं, vêtement blanc, etc. (mais शुक्लः couleur blanche, le blanc), दण्डो, दण्डिनो, दण्डिः, homme qui porte un bâton; याचकः, -का, -कं, mendiant; — (2) — les noms verbaux actifs terminés par les affixes nommés कृत्, et distinguant l'agent, mais ne formant pas des dénominatifs [ex. : कर्ता, -त्री, -र्तृ, agent; कुर्वन्, -तो, -त्, agissant], ou terminés par les affixes nommés कृत्य avec le sens actif ou passif [non le neutre ou l'abstrait, ex. : भव्यः [तरुः], -व्या, -व्यं, arbre qui doit croître; गन्तव्यः [ग्रामः], -व्या, -व्यं, village où l'on peut aller et voyager]; — (3) — les adjectifs dérivés des noms, c'est-à-dire suivant le sens littéral de la règle les dérivés des noms avec les terminaisons अण्, etc. (parmi les affixes nommés तद्धित), et qui sont des épithètes de divers objets, ou dont les sujets sont divers, [ex. : कौमुदः, -मो, -मं, teint avec le carthame; हैमः, -मो, -मं, fait en or; ऐन्द्रः, -न्त्री, -न्द्रं, consacré à Indra]. — (4, 5) Les noms de nombre nommés षट्, savoir de cinq à dix, ne changent pas de genre, non plus que les pronoms personnels, les verbes conjugués et les particules indéclinables. — Dans les exemples où quelques-unes des règles précédentes diffèrent entre elles, la dernière est une exception de la première; et ce qui a été laissé sans être dit peut être appris par l'étude des bons écrivains.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 9, ligne 7, au lieu de उच्चैः अवाः, lisez उच्चैः अवाः.

Page 24, ligne 10, au lieu de काष्ठाः, lisez काष्ठाः.

Page 27, ligne 11, au lieu de quatre cent trente-deux millions d'années des mortels, lisez dans la traduction : quatre billions trois cent vingt millions d'années des mortels; — le *youga* ou âge des dieux répond à quatre millions trois cent vingt mille années humaines. Voyez Manou, liv. I, sl. 69-74.

Page 48, note ^c, au lieu de इहा, lisez ईहा.

Page 55, supprimez sing. à la note ^d.

Page 60, ligne 4, M. de Schlegel, dans son mémoire sur le zodiaque (*Commentatio de zodiaci origine et antiquitate*, pag. 20), rapporte le *mahara* au poisson scie.

Page 61, note ^b, au lieu de जलैकाः, lisez जलोकाः.

Page 62, note ^d, au lieu de पष्करिणी, lisez पुष्करिणी.

Page 67, note ^e, au lieu de उर्वो, lisez उर्वो.

Page 77, note ^b, au lieu de ग्राव, lisez ग्रावन्, et note ^d, au lieu de ग्राव-उपाल, lisez ग्रावन्-उपाल.

Page 79, note ^e, au lieu de अङ्कुर, lisez अङ्कुर, et note ^b, au lieu de अभिनवोद्भिद्, lisez अभिनवोद्भिद्.

Page 82, ligne 11, lisez कलिका.

Page 87, ligne 10, lisez विक्रुतः.

Page 89, ligne 7, au mot मृदुत्वचौ, ajoutez en note मृदुत्वच et मृदुत्वच्.

Page 93, ligne 11, au lieu de appliqué, lisez dans la traduction, les mots sanskrits sont appliqués; et faites la même correction à la page 94, ligne 1.

Page 93, ligne 12, ajoutez en note au mot तापिच्छ, le mot तापिच्छ, que donnent l'édition de Calcutta et le dictionnaire de M. Wilson.

Page 97, note ^j, au lieu de मुर्वो (Éd. Sér.), lisez मूर्वो.

Page 98, note ^a, कटुमरा (Édit. Sér.). Le dictionnaire de M. Wilson ne donne

que कटम्भरा, qui est préférable. — Note ^d, शुक्रशिम्बो, शुक्रशिम्बा (Éd. Sér.), शूक-शिम्बो, शूकशिम्बा (Wils. Dict.).

Page 108, ligne 1, au lieu de वधूः, lisez वधूः, et supprimez la note ^a.

Page 111, note ^d, ajoutez aussi असनपर्णो. — Note ^h, au lieu de भृङ्गराजस्, lisez भृङ्गरजस्.

Page 112, ligne 9, au lieu de कष्माण्डकस्, lisez कुष्माण्डकस्.

Page 113, ligne 3, au lieu de उपोदिका [स्त्री तु], lisez उपोदिका-[-स्त्री तु].

Page 123, ligne 9, au mot नगौको, ajoutez en note नगौकस् ou नगौक. — Note ^k, supprimez masculin.

Page 124, note ^f, supprimez la femelle, ce qui doit être reporté à la note ^j de la page 123. — Note ^h, au lieu de अघ, lisez अघ.

Page 125, ligne 6, au lieu de मयूर lisez मायूर.

Page 127, note ^f, au lieu de तलनी, lisez तलुनी.

Page 130, note ^f, au lieu de अघोः, lisez अघो.

Page 140, ligne 1, lisez dans la traduction rhume au lieu de rhumatisme.

Page 142, note ^k, au lieu de तनु et तनुस्, lisez तनु f. aussi तनुस् n.

Page 144, ligne 7, au lieu de कुचौ, lisez कुचौ.

Page 146, ligne 9, lisez मुष्टिना.

Page 174, ligne 2, au lieu de परिपायोद्वाहोपयमाः, lisez परिपायोद्वाहोपयामाः, et dans la note ^b, lisez उपयाम au lieu de उपयम.

Page 189, ligne 2, au lieu de सव्येष्ट, lisez सव्येष्ट.

Page 199, renversez l'ordre de la note ^d et de la note ^e.

Page 204, ligne 3, au lieu de द्रौणिकाठकिका, lisez द्रौणिकाठकिका.

Page 220, note ^c, au lieu de कटर, lisez कुटर.

Page 224, note ^e, au lieu de प्राङ्गी, lisez पृङ्गी.

Page 225, note ^b, au lieu de द्विष्टं, lisez द्विष्टं.

Page 231, note ^e, au lieu de शैलाली, lisez शैलाली.

Page 236, ligne 9. — Ce páda a une syllabe de trop, mais les deux manuscrits le donnent ainsi; on pourrait supprimer स्याद्. L'édition de Calcutta supprime स्त्री du premier páda.

Page 240, lignes 7 et 8. Ce vers, que toutes les autorités donnent de la même manière, a une syllabe de trop.

Page 254, ligne 4. गणेशं; l'errata de l'édition de Sérampour substitue à ce mot गाणेशं, mais cette dernière leçon est fautive et pèche contre la mesure du vers.

Page 263, ligne 10. Dans l'édition de Sérampour et dans celle de Calcutta, il manque à ce vers une syllabe brève, et j'avais proposé de lire परिभूते; mais cette correction place un dactyle au sixième pied, ce qui est contre la règle: il faut lire avec les deux manuscrits : अत्रमानितं च परिभूते, leçon que j'avais négligée à tort.

Page 265, ligne 3. Le mot स्वरिता n'est pas adopté par M. Wilson dans son dictionnaire, et paraît une leçon incorrecte; cependant M. Haughton le donne, ce qui me l'a fait conserver.

Page 295, lignes 2 et 10, au lieu de ° et °, lisez ° et °.

Page 328, ligne 7. L'errata de l'édition de Sérampour substitue अघने à अघने; cette dernière leçon étant donnée par l'édition de Calcutta et le manuscrit bengali, j'ai cru pouvoir la conserver; la traduction de Colebrooke autorise l'une et l'autre.

Page 352, ligne 3. J'ai suivi pour le second pada de ce vers l'édition de Calcutta; l'édition de Sérampour et les deux manuscrits portent सपदि द्वाङ् मञ्जु [च हुते], ce qui donne un pied de trop. — Ligne 4. सुदु; l'errata de l'édition de Sérampour y substitue à tort सुदु.

Page 364, ligne 3. Colebrooke donne à रल्लक le sens de paupière; MM. Wilson et Haughton lui donnent le sens de cil. L'Amarakocha-Kaumoudi porte रल्लकः कम्बलभेदः मृगभेदः. (Voyez ci-dessus, page 154, ligne 3.)

Page 365, ligne 4. Le dictionnaire de M. Wilson ne donne à पूर que le sens de pièce d'eau; les gloses प्रवाहः et जलप्रवाहः autorisent ce sens et celui de slot adopté par Colebrooke.




TABLE.

LIVRE PREMIER.

		Pages.
CHAP. I ^{er} .	SECT. I ^{er} . Ciel, dieux, titans; leurs attributs.....	3
	SECT. II. Ciel, atmosphère, planètes, étoiles.....	14
	SECT. III. Divisions du temps, phases de la lune, éclipses..	22
	SECT. IV. Crime, vertu, bonheur, destinée, nature, intelligence, sens, saveurs, odeurs, couleurs.....	28
	SECT. V. Parole, langage, compositions.....	34
	SECT. VI. Son.....	40
	SECT. VII. Musique, danse, représentations dramatiques, acteurs, passions, fêtes.....	41
CHAP. II.	SECT. I ^{er} . Régions infernales, obscurité, serpents, poison....	51
	SECT. II. Enfer, âmes des trépassés, misère, peine.....	54
	SECT. III. Mers, eaux, îles, rivages, bateaux, poissons, pièces d'eau, plantes aquatiques.....	55

LIVRE II.

CHAP. I ^{er} .	Terre, sol, contrée, routes, mesures de distance.....	67
CHAP. II.	Villes, bâtiments, habitations.....	71
CHAP. III.	Montagnes, rochers, fontaines, cavernes, minéraux.....	77
CHAP. IV.	SECT. I ^{er} . Forêts, jardins, arbres, plantes, parties des plantes.	79
	SECT. II. Arbres de diverses espèces.....	84
	SECT. III. Plantes médicinales ou ayant des qualités particulières.....	97
	SECT. IV. Plantes utiles.....	103
	SECT. V. Drogues et herbes potagères, plantes herbacées, palmiers.....	108
CHAP. V.	Lions et autres quadrupèdes, insectes, oiseaux, troupes, amas.	116
CHAP. VI.	SECT. I ^{er} . Hommes, femmes, parents, états particuliers du corps.....	125
	SECT. II. Santé, médecine, maladies, parties du corps.....	137
	SECT. III. Habillements, parures, parfums, guirlandes.....	149

	Pages.
CHAP. VII. Races, classes, ordres, classe sacerdotale, sacrifice, aumônes, austérités, étude, hypocrisie, mariage, objet de la vie humaine	159
CHAP. VIII. SECT. I. Classe militaire, rois, ministres, ennemis, alliés, moyens de défense et de succès, revenus, insignes de la royauté.	174
SECT. II. Camp, armée, armes, guerre, carnage, funérailles, prison, vie.	182
CHAP. IX. Troisième classe, professions, laboureur, champ, grains, utensiles, nourriture, bestiaux, commerce, poids et mesures.	202
CHAP. X. Quatrième classe, classes mêlées, artisans, jongleurs, musiciens, chasse, chasseurs, chiens, vols, instruments, arts, liqueurs spiritueuses, jeu.	228

LIVRE III.

CHAP. I ^{er} . Épithètes des personnes.	240
CHAP. II. Qualités des choses.	251
CHAP. III. Mots divers.	264
CHAP. IV. SECT. I à XXXI. Mots homonymes déclinables.	277-345
SECT. XXXII. Homonymes indéclinables.	347
CHAP. V. Synonymes indéclinables.	352
CHAP. VI. SECT. I ^{re} . Détermination des genres; noms féminins.	359
SECT. II. Noms masculins.	362
SECT. III. Noms neutres.	366
SECT. IV. Noms masculins et neutres.	369
SECT. V. Noms masculins et féminins.	371
SECT. VI. Noms féminins et neutres.	372
SECT. VII. Noms des trois genres.	<i>ibid.</i>
SECT. VII. Changement de genre.	373



PK
925
A53
1839
ptie.1

Amarasimha
Amarakocha



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
